

अर्हम् ।

प्रातःस्मरणीय पंजाबकेसरी न्यायांभोनिधि

श्रीविजयानन्दसूरिवरविरचित

॥ नवतत्त्वसङ्ग्रह ॥

तथा

उपदेशवावनी

संपादक

प्रो० हीरालाल रसिकदास कापडिया, एम् ए.

प्रथम संस्करण

वि. सं. १९८८]

वीरसंवत् २४५८

[इ. सं. १९३१

सर्व हक स्वाधीन]

आत्मसंवत् ३६

[All rights reserved

मूल्य रु. ४.

प्रकाशक-हीरालाल रसिकदास कापडिया
भगतवाडी, भूलेश्वर,
मुंबई.



मुद्रक-रामचंद्र येसू शेडगे,
निर्णयसागर मुद्रणालय.
२६।२८, कोलभाट लेन, मुंबई.

न्यायाभोनिधि जैनाचार्य १००८ श्रीमद्विजयानंदसूरिपट्टधर श्रीमहावीर जैन विद्यालय
मुंबई, श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल पंजाब गुजरांवाला, श्री वरकाणा पार्श्वनाथ
जैन विद्यालय (मारवाड) इत्यादि अनेक संस्थाओंके उत्पादक.



आचार्य १०८ श्रीमद्विजयवल्लभसूरिजी महाराज.

जन्म बडौदा.
सं. १९२७ कार्तिक सुदि २.

दीक्षा राधनपूर.
सं. १९४३ वैशाख सुदि १३.

आचार्यपद लाहौर.
सं. १९८१ मार्गशीर्ष सुदि ५.

पालनपुरनिवासी पारी डाह्याभाई सूरजमल तरफथी तेमना वडील बंधु
स्व. झवेरी मणिलाल सूरजमलना स्मरणार्थे.

निवेदन.

संवेगी दीक्षा अंगीकार कर्यां पहलां परंतु हुंडक (स्थानकवासी) मतना परित्यागनी भावनाना उद्भव अने स्थिरीकरण बाद प्रथम कृति तरीके जेनी विश्वविख्यात पंजाबकेसरी न्यायाभोनिधि श्रीविजयवल्डसूरीश्वरना वरद हस्ते 'विनोली' गाममां वि. सं. १९२७ मां रचना अइ ते आ नवतत्त्वसंग्रहने प्रकाशित थयेलुं जोइ कोइ पण सहृदयने आनंद थाय ज. तेमां पण वळी मारा सद्गत पिताना सतीर्थ्य अने धर्मस्नेही तेमज मारा प्रत्ये पूर्ण वात्सल्यभाव राखनारा आचार्य श्रीविजयवल्डभस्वरिए 'मोहमयी' नगरीमां अग्र स्थान भोगवता श्रीगोडीजी महाराजना उपाश्रयमां आपेला सदुपदेशनुं आ मुख्य परिणाम छे^१ ए स्मरणमां आवतां मारा जेवाने अधिक आनंद थाय छे. अगाडथी ग्राहक तरीके नाम नोंधावी नकल दीठ चार रुपिया श्रीविजयदेवसूर संघ (पायधुनी, मुंबई)नी पेढीमां भरी जे ग्राहकवर्गे आ प्रकाशनमां जे आर्थिक प्रोत्साहन आप्युं छे तेदले अंझे आ प्रकाशनरूप पुण्यात्मक कार्यमां तेमनो हिस्सो छे, एम मारे कहेतुं ज जोइए. आ कार्यमां २५१ नकलो नोंधाववानी जे पहेल श्रीविजयदेवसूर संघनी पेढीना कार्यवाहकोए करी ते बदल तेमने धन्यवाद घटे छे. विशेषमां प्रकाशन माटे रकम एकठी करी आपवामां ए पेढीना ते वखते मेनेजिंग ट्रस्टी तरीके श्रीयुत मणीलाल मोतीलाल मूळजी तरफथी ए पेढी द्वारा जे अनुकूलता करी आपवामां आवी तेनी आभारपूर्वक नोंध लेवामां आवे छे. आ ग्रंथ धारेला समये बहार पडवाना कार्यमां केटलाक अनिवार्य प्रसंगोने लइने जे विलंब थयो ते बदल हुं दिखगीर छुं. आ ग्रंथ तैयार करवामां जे हस्तलिखित प्रति मने काम लागी छे ते झंडियाला गुरु (Jandiala Guru) ना भंडारनी ७४ पत्रनी छे तेमज ते कर्ताए स्वहस्ते लखेली जणाय छे. एमां पीळी हरताळनो केटलेक स्थळे उपयोग करायो छे अने कोइक स्थळे ग्रन्थकारे पोते ते सुधारेली जोबाय छे. आ प्रति मने मेळवी आपवानुं जे स्तुत्य कार्य श्रीविजयवल्डभस्वरिए कर्युं ते साहित्यप्रचार अंगेनी तेमनी सक्रिय सहानुभूतिना प्रतीकरूप छे एम कष्टा विना नहि चाले. आ प्रमाणे आ ग्रंथना प्रकाशनकार्यमां तेमनी तरफथी जे विविध प्रकारनो सहकार मळवो छे ते बदल हुं तेमनो अत्यंत ऋणी छुं. एना स्मरणलेश तरीके आ संस्करणमां तेमनी प्रतिकृतिने सानंद अग्र स्थान आपुं छुं. दक्षिणविहारी मुनिराज श्रीअमरविजयना विद्वान् शिष्य मुनि श्रीअमरविजये आ ग्रन्थना १३६ पृष्ठ सुधीनां द्वितीय वेळानां शोधनपत्रोनी तेमना उपर मोकलायेली एकेक नकल तपासी मोकली छे ते बदल तेमनो सानंद उपकार मानवामां आवे छे.

१ आ संबंधमां श्रीविजयवल्डभस्वरिए कथे छे के—“चौमासे बाद हुषिआरपुरसे विहार करके दिल्ली शहर तरफ गये, और संवत् १९२४ का चौमासा, दिल्लीसे विहार करके जमना नदीके पार “बिनौली” गाममे जा किया; जहां भी कितनेही लोकोंने सनातन जैनधर्मका भ्रंजान अंगीकार किया. इस चौमासेमें श्रीआत्मारामजीने “नवतत्त्व” ग्रंथ बनाना शुरू किया; संवत् १९२५ का चौमासा श्रीआत्मारामजीने “बडौत” गाममें किया; जहां “नवतत्त्व” ग्रंथ समाप्त किया; जिस ग्रंथको देखनेसेही ग्रंथकर्ताका बुद्धिवैभव मालूम होता है.”

आ टिप्पणमां ग्रन्थ 'बडौत'मां सं. १९२५ मां पूर्ण थयानो जे उल्लेख छे ते विसंवासी छे. आ संबंधमां श्रीविजयवल्डभस्वरिनुं सादर लक्ष्य खंचतां तेओ सूचवे छे के “मने जेतुं याद रहेल तेतुं लखयेल, कारणके आचार्यश्रीना सर्गवास पछी जीवनचरित्र लखवामां आवेल छे. एथी स्वखलना होवानो संभव छे. माटे ग्रंथकार पोताना हस्तलिखित पुस्तकमां ज पोते जे संवत् लखे छे ते ज खरो समजवो.”

२ जुओ “श्री आत्मानंद प्रकाश” (पु. २७, अं. २, पृ. ३९-३८). ३ एमनी शुभ नामावली अंतमां आपेली छे.

નવતત્ત્વસંગ્રહ એ નામ જ કહી આપે છે તેમ આ ગ્રંથમાં જીવાદિ નવ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ આલેખવામાં આવ્યું છે, પરંતુ વિશેષતા એ છે કે શ્રીભગવતીસૂત્ર પ્રમુખ વિવિધ આગમોના પાઠોની અત્ર સંકલના કરવામાં આવી છે. અનેક મુદ્દાની વસ્તુઓ યંત્રરૂપે કોષ્ટક દ્વારા રજુ કરાઈ છે જેથી આ ગ્રંથની મહત્તામાં અસાધારણ વૃદ્ધિ થઈ છે. આ ગ્રંથના કર્તાએ બાર વિવિધવર્ણી 'ચિત્રો વડે એને અલંકૃત કર્યો છે. આ ગ્રંથની મુખ્ય ભાષા હિંદી ગણાય જોકે કેટલીક વાર સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને ગુજરાતી પ્રયોગો એમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે; કોઈક વેળા તો પંજાબી શબ્દો પણ નજરે પડે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તેમજ અંતમાં અતિશીઘ્રતાએ આ ગ્રંથ મુદ્રિત કરાવવો પડ્યો તેથી મારે હાથે જો યથેષ્ટ સંશોધનાદિ દ્વારા આને પૂર્ણ ન્યાય ન અપાયો હોય તો સહૃદય સાક્ષરો ક્ષમા કરશે એટલી મારી તેમને વિનતિ છે. મૂળ કૃતિમાંના આંતરિક સ્વરૂપમાં ભાગ્યે જ સ્વરૂપ પરિવર્તન કરવું અને તે પણ સ્વાસ્થ્ય આવશ્યકતા હોય તો જ કરવું એવી શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિની સૂચના તરફ પણ તેમનું સવિનય ધ્યાન સેંચીશ. આ ગ્રંથમાં કયા કયા વિષયો આલેખાયા છે તેનું નિરીક્ષણ કરવા મારી પાઠકમહોદયને વિશિષ્ટ વિનતિ છે. મને પોતાને તો એમ સ્ફુરે છે કે આ ગ્રંથમાં અતિસૂક્ષ્મ વસ્તુઓની ભાષા દ્વારા પ્રથમ જ ગુંથળી થઈ છે એટલે જેમને આગમો જોવાજાણવાનો શુભ પ્રસંગ મળ્યો ન હોય તેમને આમાંથી ઘણું નવું જાણવાનું મળશે.

વિશેષમાં ઉપદેશવાવની પ્રસિદ્ધ કરવાનું વચન અપાયું હતું નહિ, છતાં શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિની સૂચનાને માન આપી તે સુરમ્ય તેમજ સુશ્લિષ્ટ પદ્યમય લઘુ ગ્રંથને પણ અત્ર સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

ગ્રંથપ્રણેતાની તેમજ તેમના પ્રથમ શિષ્યરત્ન સ્વ. મુનિવર્ય શ્રીલક્ષ્મીવિજયની પ્રતિકૃતિઓ શ્રીયુત લાલચંદ સુશાલચંદ (બાલાપુર) તરફથી, ગ્રંથકારના હસ્તાક્ષરની તેમજ પ્રવર્તક મુનિરાજ શ્રીકાંતિવિજયની શ્રીયુત દોસી કાલીદાસ સાંકલચંદ (પાલનપુર) તરફથી, શાંતમૂર્તિ મુનિરાજ શ્રીહંસવિજયની શ્રીયુત કાંતિલાલ મોહનલાલ (પાલનપુર) તરફથી, સ્વ. મુનિવર્ય શ્રીહર્ષવિજયની લાલા માનિકચંદ છોટાલાલ ડુમ્મડ (ગુજરાંવાલા) તરફથી અને શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિની શ્રીયુત ઢાલામાઈ ઘરજમલ તરફથી પૂરી પાડવામાં આવી છે તે બદલ તેમને તેમજ જેમણે એ કાર્ય માટે પોતાના બ્લોકોનો ઉપયોગ કરવા દીધો છે તેમને પણ હાર્દિક ધન્યવાદ ઘટે છે.^૩

અંતમાં આ નિવેદનને વધુ ન લંબાવતાં આ ગ્રંથના પ્રણેતાના જીવનની જે આછી રૂપરેખા હવે પછી આલેખવામાં આવે છે તેમાંથી ઉદ્ભવતા બોધદાયક પાઠો જીવનમાં ઉતારવાનું સામર્થ્ય પ્રકટે એટલી અભિલાષા પૂર્વક વિરમવામાં આવે છે.

ભગતવાલી, મૂલેશ્વર,
સુંબઈ.
વીરસંવત ૨૪૫૭
ભાદ્રપદ કૃષ્ણ પંચમી

ચારિત્ર્યાકાંક્ષી
હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા.

૧ જુઓ હસ્તલિખિત પ્રતિના સ્વાસ્થ્ય કરીને પત્રાંક-૧૬ બ, ૨૨ બ, ૨૩ બ, ૨૪ બ, ૨૭ અ, ૫૦ અ, ૫૦ બ, ૫૨ બ, ૫૩ અ, ૫૩ બ તથા ૫૪ અ. આ ચિત્રોનું મુદ્રણકાર્ય ચિત્રશાલા મુદ્રણાલય (પુના)માં થયું છે. વહી લિયો તરીકે એક ફોર્મ પણ ત્યાં જ તૈયાર કરાવાયો છે.

૨ મારા પિતા એમને પોતાના ગુરુદેવ તરીકે સન્માનતા હતા.

૩ સ્વ. શ્રીવિજયકમલસૂરિ તેમજ ઉપાધ્યાય શ્રીવીરવિજયની પણ પ્રતિકૃતિઓને અત્ર સાનંદ સ્થાન અપાત, કિન્તુ તેને લગતા બ્લોકો મેલવાવા પૂર્ણ પ્રયાસ કરવા છતાં તે ન મળવાથી એ ઇચ્છા સફળ થઈ શકી નથી.

श्रीयुत लालचंद खुशालचंद (बालापुर) तर्फसे गुरुभक्तिनिमित्ते



योगा भोगानुगामी द्विज भजन जनि शारदारक्ति रक्तो,
दिग्जेता जेतृजेतामतिनुतिगतिभिः पूजितो जिष्णुजिह्वैः ।
जीयाहायाद्यात्री खलबलदलनो लोललीलस्वलज्जः
केदारौदास्यदारी विमलमधुमदोहामधाम प्रमत्तः ॥

❧ ग्रन्थप्रणेतांनी जीवनरेखा ❧

आर्हत शासनना शृङ्गाररूप, अने अमूल्य ग्रन्थोना विधाता, जैनाचार्य न्यायाम्भोनिधि **विजयानन्द सूरेश्वर**नुं रोचक, सार्थक अने बोधदायक जीवनचरित्र अत्यार सुधीमां विविध स्थळेथी ननेक विबुधोने हाथे आलेखायेळुं होवा छतां आ स्वर्गस्थ महात्माना गुणानुवाद गाइ मारा जीवननी क्षणोने सफळ करुं एवी अभिलाषाथी तेमज आ ग्रंथनुं संपादनकार्य स्वीकारती वेळा ग्रन्थप्रणेतांनी जीवन-दिशा दर्शाववानी करेली प्रतिज्ञाना पालनार्थे हुं मारी मन्द मति अनुसार आ महामंगलकारी कार्यमां प्रवृत्त थाउं छुं. आ प्रसिद्ध जैन महर्षिणे जैन्म आजथी ९४ वर्ष उपर एटले वि. सं. १८२३ ना चैत्र मासना शुक्ल पक्षमां प्रतिपदा गुरुवारे, पंजाबना जिल्हा फिरोजपुरनी तहसील जीरामां आवेला 'लेहरा' गाममां थयो हतो. 'कपूर ब्रह्मक्षत्रिय' जातिना अने सामान्य स्थितिना गणेशचन्द्रनी धर्मपत्नी रूपादेवीने एमनी माता थवानो अद्वितीय प्रसंग प्राप्त थयो हतो. आ गुणज्ञ दंपतीए **आत्माराम** एतुं एमनुं शुभ नाम पाडी आनंद अनुभव्यो हतो. जन्मसमयथी ज एमनां सौन्दर्यने अलोकिकता वरेली हती. एमना वदन-कमलना दक्षिण भागमांनुं रक्तिमापूरित चिह्न सुवर्णभूमिकामां पद्मराग मणिना जेवुं कार्य करतुं हतुं. एमना पिताश्री विशिष्ट प्रकारनी विद्वत्ताथी विभूषित न हता तेमज एमना जन्मस्थळमां कोइ पाठशाळा पण न हती; तेथी बालक्रीडामां लगभग दश वर्ष एमने व्यतीत करवां पळ्यां. एवामां एक ग्रामीण पंडित पासे एमने हिंदी भाषानो अभ्यास करवानी तक मळी. परंतु शिक्षानी प्रारंभिक दशामां ज पिता परलोकवासी बन्या, जोके त्यार बाद एमना पिताना 'जीरा' निवासी अने 'ओसवाल' जातीय सन्मित्र जोधामल्लु एमने पोताना गाममां अभ्यासार्थे लइ गया. आ वखते एमनी उम्मर चौद वर्षनी हती. पिताना सदाना वियोगे एमना विचारोमां पुष्कळ परिवर्तन पेदा कर्तुं. पदार्थोनी यथार्थ स्थितिनुं एमने मान थावा लाग्युं. वैराग्यरंगथी एमनुं हृदयक्षेत्र रंगायुं अने एणे जीवनपलटानुं कार्य कर्तुं. 'जीरा'मां हुंदक पंथना साधुओनी साधेना विशेष परिचयथी एमणे १७ वर्षनी सुकुमार वये, ए फिरकाना श्रीयुत **जीवनराम** साधु पासे 'मालेरकोटला'मां हुंदक मतनी दीक्षा अंगीकार करी. भोगी मटी एओ योगी बन्या. आ प्रमाणे एमनी स्थितिमां—आत्मोज्जतिना क्षेत्रमां परिवर्तन थयुं, परंतु नाम तो तेनुं ते ज राखवामां आव्युं.

एमनी प्रतिभानो प्रभाव एटलो बधो हतो के तेओ रोज वसे त्रणसे श्लोको कंठस्थ करी शकता. आथी एमणे हुंदक समयमां 'हुंदक' मतने मान्य वत्रीसे सूत्रो कंठस्थ करी लीधां. वीस वर्षनी उम्मरमां तो 'हुंदक' मतनां रहस्यभूत तत्त्वोथी एओ पूर्ण परिचित बनी गया. थोडा वखत पछी 'रोपड़'निवासी पंडित श्रीसदानंद अने 'मालेरकोटला'ना वासी पंडित श्रीअनंतराम पासे एमणे व्याकरणनो अभ्यास कर्यो. त्यारबाद 'पट्टी'निवासी पंडित श्री**आत्माराम** पासे न्याय, सांख्य,

१ आ सर्वमां मुनिरज श्रीवल्लभविजय (अत्यारे श्रीविजयवल्लभसूरि तरीके ओळखाता)ने हाथे आलेखायेळुं अने तत्त्वनिर्णयप्रासादमां प्रसिद्ध थयेळुं जीवनचरित्र विशेषतः मननीय जणाय छे. २ एमनी जन्महुंदकी माटे जुओ तत्त्वनिर्णय० (पृ. ३५). ३ एना वंशवृक्ष माटे जुओ तत्त्वनिर्णय० (पृ. ८४).

वेदान्तादि दर्शनशास्त्रोनु अध्ययन करवानी एमने सोनेरी तक मळी. विविध दार्शनिक साहित्य तेमजं व्याकरणादिनो अभ्यास थतां यथार्थ सत्यनुं एमने दर्शन थयुं. आथी खोटी रीते मूर्तिपूजादिनो अपलाप करनारा हुंढक मतनो एमणे परित्याग कर्यो. केटलाक कदाग्रही स्थानकवासी साधुओए अने गृहस्थोए एमने हेरान करवामां कच्चास न राखी, परंतु ए वधां कष्टो तेओ समभावे निर्भयतापूर्वक सहन करी गया, केमके “सत्ये नास्ति मयं क्वचित्” ए वाक्य उपर एमने पूर्ण श्रद्धा हती. एमने एवो अटल विश्वास हतो के जो हुं साचे मार्गे चालुं छुं तो समग्र ब्रह्माण्डमां एवी कोइ शक्ति नथी के जे मने नाहक सतावी शके. स्थाने स्थाने जैन धर्मनो विजयडंको वगाडतां अने अनेक स्त्रीपुरुषोने सन्मार्गे दोरवतां एओ पंजावमांथी १५ साधुओ साथे नीकळया अने श्रीअर्बुदाचळ, श्रीसिद्धाचळ (पालीताणा) वगेरे तीर्थोनी यात्रा करी ‘अमदावाद’मां वि. सं. १९३२ मां पधार्यो. आ समये वेष तो हुंढक साधुनो हतो. केवळ मुखवस्त्रिका उतारी नांखवामां आवी हती. अहीं गणि श्रीमणिविजय महाराजश्रीना शिष्य मुनिरत्न गणि श्रीबुद्धिविजय (बुटेरायजी महाराजश्री) पासे एमणे तपागच्छनो वासक्षेप लीधो अने एमने गुरु तरीके स्वीकार्यो. आ समये एमनी उमर ३९ वर्षनी हती. दीक्षासमये आनन्दविजय एवुं एमनुं नाम राखवामां आव्युं, परंतु आत्मारामजी ए ज पूर्वनुं नाम विशेषतः प्रचलित रळुं. एमनी साथे आवेला १५ साधुओ एमना शिष्य अने प्रशिष्य बन्या. ‘अमदावाद’थी विहार करी विविध तीर्थस्थानोनी यात्रा करता, मतांतरीय विद्वानो साथे शास्त्रार्थ करी तेमने निरुत्तर करता, जैन शासननी विजयपताका देशे देशे फरकावता, अने स्याद्वादमार्गना यशःपुंजनो विस्तार करता तेओ वि. सं. १९४३मां ‘सिद्धाचळजी’ आवी पहांच्या. बहु जनोनी प्रार्थनाथी एमनुं चातुर्मास अहीं ज थयुं. एमनो सत्यपूर्ण अने सारगर्भित उपदेश, एमनुं निर्मळ अने निष्कलंक चारित्र, एमनी अद्भुत प्रतिभा, विश्वधर्म बनवानी योग्यतावाळा जैन धर्मना प्रचार माटेनी एमनी तालावेली इत्यादि एमना सद्गुणोथी आकर्षांइने एमना दर्शन-बन्दनार्थे तथा तीर्थयात्राना निमित्ते विविध देशोमांथी आवेला लगभग ३५००० सज्जनो समक्ष देवोने पण दुर्लभ अने अनुमोदनीय ‘आचार्य’ पदवी श्रीजैन संघे एमने उत्साह अने आनंदपूर्वक अर्पी अने एमनुं श्रीविजयानन्दसूरि एवुं नाम स्थाप्युं. वि. सं. १९४५ मां एमणे ‘महेसाणा’मां चातुर्मास कर्युं. आ समये संस्कृतज्ञ डॉ. ए. एफ. रुडॉल्फ हॉर्नल् नामना गौरांग महाशये एमने जैन धर्म संबंधी

१ एमनां नामो नीचे मुजब छे—

(१) विश्वचंद्र (लक्ष्मीविजय), (२) चंपालाल (कुमुदवि०), (३) हुकमचंद्र (रंगवि०), (४) सलामतराय (चारित्रवि०), (५) हाकमराय (रत्नवि०), (६) खूबचंद्र (संतोषवि०), (७) घनैयालाल (कुशलवि०), (८) तुलसीराम (प्रमोदवि०), (९) कल्याणचंद्र (कल्याणवि०), (१०) नीहालचंद्र (हर्षवि०), (११) निधानमल (हीरवि०), (१२) रामलाल (कमलवि०), (१३) धर्मचंद्र (अमृतवि०), (१४) प्रभुदयाल (चंद्रवि०) अने (१५) रामजीलाल (रामवि०).

अत्र कौंसमां सूचवेलीं नामो संवेगी वीक्षा लीधा बाद पाडवामां आव्यां हतां.

२ ज्यारे एओ उपदेश आपता ल्यारे कोइ प्रश्न करतो ते तेओ पूर्ण गंभीरताथी सांभळता अने तेनो शांत चित्ते संतोषकारक उत्तर आपता. प्रश्नकार खधर्मा होय के परधर्मा होय, जिज्ञासु होय के टिखली होय परंतु तेनुं दिल दुभाव्या विना तेओ तेने संतोष पमाळी निरुत्तर बनावता. आ संबंधमां जुओ सरस्वती मासिक (भा. १६, खण्ड १) वेमज एमांथी उद्धृत संक्षिप्तजीवन (पृ. ११-१५)

केटलाक प्रश्नो 'अमदावाद'निवासी श्रावक शाह मगनलाल दलपतराम द्वारा पूछ्या. एनो उत्तर मळतां ए महाशयने पूर्ण संतोषं थयो. त्यारबादना प्रश्नोत्तरोनुं सक्रिय परिणाम शुं आव्युं तेना जिज्ञासुने डॉ. हॉर्नलूने हाथे संपादन थयेला सटीक उपासकदशांगमां ए विद्वाने जे कृतज्ञताप्रदर्शक निम्नलिखित पद्यो आ सूरिवरने उद्देशीने रच्यां छे तेनुं मनन करवा हुं विनवुं छुं:—

“दुराग्रहध्वान्तविभेदभानो !, हितोपदेशामृतसिन्धुचित्त ! ।
सन्देहसन्दोहनिरासकारिन् !, जिनोक्तधर्मस्य धुरन्धरोऽसि ॥ १ ॥
अज्ञानतिमिरभास्कर—मज्ञाननिवृत्तये सहृदयानाम् ।
आर्हततत्त्वादर्श—ग्रन्थमपरमपि भवानकृत ॥ २ ॥
आनन्दविजय ! श्रीमन्नात्माराम ! महामुने ! ।
मदीयनिखिलप्रश्न—न्याख्यातः ! शास्त्रपारग ! ॥ ३ ॥
कृतज्ञताचिह्नमिदं, ग्रन्थसंस्करणं कृतम् ।
यत्नसम्पादितं तुभ्यं, श्रद्धयोत्सृज्यते मया ॥ ४ ॥”

वि. सं. १९४८मां आ डॉ. हॉर्नलू महोदय एमना दर्शनार्थे 'अमृतसर' आव्या. अहो तेमनी सुजनता ! वि. सं. १९४९मां 'चिकागो'मां भरवामां आवनार सर्वधर्मपरिषद्ने अलंकृत करवानुं एमने आमंत्रणपत्र मळ्युं; प्रतिकृति तेमज जीवनचरित्र माटे पण अभ्यर्थना करवामां आवी. परंतु नौकानो आश्रय लीधा विना 'अमेरिका' जवुं अशक्य होवार्थी, श्रीयुत वीरचंद राघवजी गांधी बार एंड लॉ ए महाशयने पोतानी प्रतिकृति, संक्षिप्त जीवनचरित्र अने जैन सिद्धान्त विषयक निबंध आपी पोताना प्रतिनिधि तरीके पसंद कर्या. थोडो वखत पासे राखी एमना सुवर्ण जेवा ज्ञानने श्रीविजयानन्दसूरिए सुगन्धनो योग अप्यो. 'मुंबई'ना जैन संघे श्रीयुत गांधीने अमेरिका मोकल्या. "The World's Parliament of Religions" नामना पुस्तकना २१ मा पृष्ठमां एमनी प्रतिकृति आपी निम्नलिखित उद्गारो मुद्रित कराया छे:—

“No man has so peculiarly identified himself with the interests of the Jain community as Muni Ātmārāmjī. He is one of the noble band sworn from the day of initiation to the end of life to work day and night for the high mission they have undertaken. He is the high priest of the Jain community and is recognised as the highest living authority on Jain religion and literature by oriental scholars”.

वि. सं. १९५३ ना जेठ मासनी सुद बीजे 'गुजरांवाला' गाममां एओ आव्या. आ समये त्यांना जैनोए एमनुं अपूर्व स्वागत कर्युं. ज्वराक्रान्त देह होवा छतां एमणे धर्मोपदेश आप्यो, परंतु आ एमनो अंतिम उपदेश हतो. हवे फरीथी 'भारत'वर्षना भाग्यमां आ महात्मानो ब्रह्मनाद श्रवण करवानो सुप्रसंग मळे तेम न हतुं. सप्तमीनी रात्रिए नित्यकर्म समाप्त करी सूरिवर्य निद्राधीन बन्या. एम करतां बार वाग्यानो समय थयो. आ वखते दशे दिशामां शांतता अने निश्चलतानुं साम्राज्य स्थापयेछुं हतुं. कायर मृत्युमां एवी ताकात न हती के आ महर्षिना अखंडित तेजनी ते सामे थइ शके.

१ जे समये महाराजश्रीनो स्वर्गवास थयो तेवारे अष्टमी थती हती; एथी एमनी निर्वाणतिथि अष्टमी गणाय छे.

आश्री ते धीरे धीरे गुप्त रूपे पोतानी कुटिल जाळ पाथरी रखो हतो. निर्भय सूरिवर तो क्यारना ए स्वस्थ बनी मृत्युनुं स्वागत करवानी तैयारी करी रखा हता. आवे वखते पण एमना शरीरनी शोभा चन्द्र-कान्तिने हास्यास्पद बनावी रही हती. एमना मुखमांथी 'अर्हन्' शब्दनो दिव्य ध्वनि नीकळी रखो हतो. सामे बेठेलो शिष्यपरिवार आ सर्वोत्तम नादनुं उत्सुक हृदये पान करी रखो हतो. एटलामां समय पुरो थयो. लो भाइ अब हम जाते हैं, अर्हन् एम कहेतां कहेतां ए सूरेश्वर खर्गे संचर्या. मनोहर रात्रि भयानक रूपे परिणमी. शांत रस करुणरूपे परिवर्तन पाभ्यो. बीजे दिवसे एमना देहनो अग्निस्फंकार करवामां आव्यो. आ प्रमाणे एमना स्थूल देहनो अस्त थयो, परंतु साधुताना साचा आदर्शनी ए ज देह द्वारा आचरी बतावेल ज्योति तो सदाने माटे उदयवंती बनी गइ.

आ प्रातःस्मरणीय सूरिवर्य विद्वानोना निःसीम प्रेमी हता. 'विद्याव्यासंगने लइने एमने हाथे बहु ग्रंथोनो उद्धार थयो छे. अनेक जनोने एमणे सन्मार्गी बनाव्या छे. तेमां खास करीने 'पंजाब' देश उपर एमनो पारावार उपकार छे. ए देशने उद्देशीने एमने जैन धर्मना जन्मदाता तरीके संबोधी शकाय. एमनी यशःपताकारूप त्यांना अनेक जैनमंदिरो आजे पण आ वातनी साक्षी पूरी रखा छे. 'सिद्धाचल'मां एमनी पाषाणमयी प्रतिमा स्थापवामां आवी छे ए एमना प्रत्येना सज्जनोना प्रेम जाहेर करे छे. अमदावाद, पाटण, वडोदरा, जयपुर, अंवाला, लुधियाना वगैरे स्थलो एमनी मूर्ति तेमज चरणपादुकाथी विभूषित बन्यां छे ए एमनी धर्मसेवानो प्रताप छे. 'गुजरांवाला' शहरमां एमनी स्मृतिरूपे भव्य समाधिमंदिर बनावायुं छे ए त्यांनी जनतानुं मन एमनी तरफ केटलुं आकर्षायेलुं हतुं ते सूचवे छे.

जैन साहित्यने समृद्ध बनाववा तेमणे केवो सतत प्रयास कर्यो छे ए तेमनी नीचे मुजब तत्त्व-निर्णयप्रासादगत जीवनचरित्रने आधारे रजु कराती विविध कृतिओ कही रही छे:—


(१) नवतत्त्वसंग्रह सं. १९२४-२५, (२) आत्मभावनी सं. १९२७, (३) चोवीसजिनस्तवन सं. १९३०, (४) जैनतत्त्वादर्श सं. १९३७-३८, (५) अज्ञानतिमिरभास्कर सं. १९३९-४१, (६) सत्तरभेदी पूजा सं. १९३९, (७) सम्यक्त्वश्र्लयोद्धार सं. १९३९-४१, (८) वीसस्थानक पूजा सं. १९४०, (९) जैनमतवृक्ष सं. १९४२, (१०) अष्टप्रकारी पूजा. सं. १९४३, (११) चतुर्थस्तुति-निर्णय (भा. १) सं. १९४४, (१२) श्रीजैनप्रश्नोत्तरावली सं. १९४५, (१३) चतुर्थस्तुतिनिर्णय (भा. २) सं. १९४८, (१४) नवपदपूजा सं. १९४८, (१५) स्नात्रपूजा सं. १९५० अने (१६) तत्त्वनिर्णयप्रासाद सं. १९५१.

अंतमां एटलुं ज निवेदन करीश के आत्मभावमां रमण करनार श्रीविजयानन्द सूरेश्वरनो जन्म सार्थक थयो छे. जेमने एमना दर्शननो लाभ मळयो छे तेमनी नेत्रप्राप्ति सफल थइ छे. जेमने एमनो सुधामय उपदेश सांभळवानी तक मळी छे तेमना कर्ण धन्यपात्र छे. जे माताए आ सूरिरत्नने जन्म आप्यो तेमने सहस्रशः धन्यवाद अने वन्दन घटे छे. जे जैन संघे एमनुं गौरव कर्नुं छे ते विचक्षण संघने मारा प्रणाम छे. जे 'भारत' भूमि आवा महात्माओनी जीवनभूमि बने छे ते बहुरत्ना वसुधरा सदा जयवंती बर्ती.


१ सन्मत्तितर्क जेवा प्रौढ ग्रन्थनुं एमने पठन कर्नुं हतुं एम मानवानां खास कारणो मळे छे.

२ २०००० लीपुरुषोने धर्ममार्गे चढाववा उपरांत एमणे केटलाए स्थानकवासी साधुओने पण जैन धर्मनी प्रशस्त नौकाना कर्णधार बनाव्या. ३ उपदेशाभावनी ते आ ज होय एम जणाय छे.


विषयानुक्रम



विषय	पृष्ठांक
निवेदन	३-४
ग्रन्थप्रणेतांनी जीवनरेखा	५-८
नवतत्त्वसंग्रह	१-२५०
१ जीव-तत्त्व	१-११७
२ अजीव-तत्त्व	११७-१३५
३ पुण्य-तत्त्व	१३६-१३९
४ पाप-तत्त्व	१३९
५ आस्रव-तत्त्व	१३९-१४०
६ संवर-तत्त्व	१४०-१७५
७ निर्जरा-तत्त्व	१७५-१९५
८ बन्ध-तत्त्व	१९५-२४१
९ मोक्ष-तत्त्व	२४१-२५०
उपदेशाबावणी	२५१-२५८
ग्राहकोनी शुभ नामावली	२५९-२६२



जेनाचार्य १००८ श्रीमद्विजयानन्दसूरि (श्रीआत्मारामजी) महाराजके मुख्य शिष्य
१०८ श्रीमान् श्रीलक्ष्मीविजयजी महाराज
मेडता (मारवाड) के वार्सिंदे पुष्करणा ब्राह्मण. स्वर्गवास १९४० पाली (मारवाड).



मुनिमहाराज श्रीहर्षविजयजी, आचार्यमहाराज श्रीविजयकमलसूरिजी, श्रीहंसविजयजी
महाराजजी के गुरुदेव; संघाडा के सर्व साधुओं के आद्य विद्यागुरु.

बालापुर जील्ला आकोला (वराड) निवासी शेठ लालचंद खुशालचंदकी तर्फसे गुरुभक्ति निमित्ते.



न्यायाम्भोनिधि-पञ्चनदोद्धारक-जैनाचार्य-१००८ श्रीमद्—

विजयानन्दसूरीश्वरविरचितः

॥ नवतत्त्वसङ्ग्रहः ॥

श्रीमत्सर्वज्ञाय नमः ।

शुद्धज्ञानप्रकाशाय, लोकालोकैकमानवे ।

नमः श्रीवर्धमानाय, वर्धमानजिनेशिने ॥ १ ॥

अथ नवतत्त्वसंग्रह 'लिख्यते. प्रथम 'जीव'तत्त्व लिख्यते—पञ्चवणा पद १.

(जीवभेद)

नरकनाम—रत्नप्रभा १ शकर(कंरा)प्रभा २ वालु(का)प्रभा ३ पंकप्रभा ४ धूम्रप्रभा ५ तमा ६ तमतमा ७.*

पृथ्वीभेद—कृष्ण मृत्तिका १ नीली मट्टी २ एवं पांच वर्णकी मट्टी ५ पांडु ६ पनग-धूल ७ कंकर ८ रेत ९ लवण १० रांग ११ लोह १२ तांवा १३ सीसा १४ रूपा १५ स्वर्ण १६ हीरा १७ हरिताल १८ सिंगरफ १९ मनसिल २० पारा २१ भूंगा २२ सोवीरांजन २३ भौडल २४ सर्व जातिके रत्न-पन्ना माणक आदि, सूर्यकांत आदि मणी इति.†

* “नेरइया सत्तविहा पन्नत्ता, तंजहा—र्यणप्पभापुढविनेरइया १ सक्करप्पभा० २ वालुय-प्पभा० ३ पंकप्पभा० ४ धूमप्पभा० ५ तमप्पभा० ६ तमतमप्पभा० ७” । (प्रज्ञा० सू० ३१)

† “सण्हवायरपुढविकाइया सत्तविहा पन्नत्ता, तंजहा—किण्हमत्तिया १ नीलमत्तिया २ लोहिय-मत्तिया ३ हालिहमत्तिया ४ सुक्किलमत्तिया ५ पांडुमत्तिया ६ पणगमत्तिय ७, सेत्तं सण्हवाद्दरपुढवि-काइया” । (सू० १४).....“खरवायरपुढविकाइया अणेगविहा पन्नत्ता, तंजहा—पुढवी १ य सक्करा २ वालुया ३ य उवले ४ सिला ५ य लोणूसे ६-७ । अय ८ तंव ९ तउ १० य सीसय ११ रुण १२ सुवन्ने १३ य वइरे १४ य ॥ १ ॥ हरियाले १५ हिंगुलण १६ मणोसिला १७ सासगंजणपवाले १८-२० । अब्भपडलब्भवालुय २१-२२ वायरकाण मणिविहाणा ॥ २ ॥ गोमेज्जण २३ य रुयण २४ अंके २५ फलिहे २६ य लोहियक्खे २७ य । मरगय २८ मसारगळे २९ भुयमोयग ३० इंदनीले ३१ य ॥ ३ ॥ चंदण ३२ गेरुय ३३ हंसगब्भ ३४ पुलण ३५ सोगंधिण ३६ य वोद्धवे । चंदप्पभ ३७ वेरुलिण ३८ जलकंते ३९ सूरकंते ४० य ॥ ४ ॥” (प्रज्ञा० सू० १५)

१ लखाय छे । २ भा प्रकारे । ३ कलाइ धातु । ४ हिंगज्जेक । ५ परवाला । ६ अबरख ।

अप्काय—ओस १ पांला २ धूंयर ३ गंडा ४ हँरतणु ५ वर्षानो ६ स्वभावे शीतल ७ स्वभावे उष्ण ८ खारा पाणी ९ खट्टो पाणी १० लवणवैत् खारा ११ वारुणसमुद्रोदग १२ खीरोदग १३ घृतोदग १४ इक्षुरसवत् १५ कूप आदि जलाश्रयना.*

तेजस्काय—अंगारा १ ज्वाला २ मुंमर ३ अर्ची ४ उँल्लुक ५ लोहपिंडमिश्रित ६ उल्कापातनी अग्नि ७ विजली ८ भुभर ९ निर्घात अग्नि १० अरण आदि काष्ठ घसने सँ उपनी ११ सूर्यकांत मणीसे उपनी अग्नि १२ इत्यादि जाननी.†

वायु(काय)—दशो दिशना वायु १० उत्कलिका ११ मंडलि वायु १२ गुंजा १३ झखड १४ झंझा १५ संवर्तक वायु १६ घनवात १७ तनुवात १८ शुद्ध वायु १९ इत्यादि ज्ञेयम्.‡

वनस्पति प्रत्येक—आम्र आदि वृक्ष १ वैगण आदि गुच्छा २ गुल्म—वनमल्लिका आदि ३ लता—चंपक आदि ४ वल्ली—कोहल आदि ५ पर्व—इक्षु आदि ६ तृण—दर्भ आदि ७ बलया—केतकी आदि ८ हरि(त)—तंदुली प्रभृति ९ ओषधि सर्व जातनां धान्य १० कमलादि ११ कुहण—भूमिस्फोट आदि १२.॥

अनंतकाय लिख्यते—हलदी १ आर्द्रक २ मूली ३ गाजर ४ आलू ५ पिंडालू ६ छेदे पछे (बाद) वधे ७ नवा अंकूरा ८ कृष्ण कंद ९ वज्र कंद १० सूरण कंद ११ खेल्डा १२ इत्यादि. पंनवणापदात् ज्ञेयं लक्षणम्.§

* “बादरआउकाइया अणेगविहा पन्नत्ता, तंजहा—उस्सा १ हिमण २ महिया ३ करण ४ हर-तणुण ५ सुद्धोदण ६ सीतोदण ७ उसिणोदण ८ खारोदण ९ खट्टोदण १० अंबिलोदण ११ लवणोदण १२ वारुणोदण १३ खीरोदण १४ घओदण १५ खोतोदण १६ रसोदण १७” । (प्रज्ञा० सू० १६)

† “बादरतेऊकाइया अणेगविहा पन्नत्ता, तंजहा—इंगाले १ जाला २ मुंमुरे ३ अर्ची ४ अलाए ५ सुद्धागणी ६ उक्का ७ विजू ८ असणी ९ गिणघाए १० संघरिससमुट्टिए ११ सूरकंतमणिणिसिए १२” । (प्रज्ञा० सू० १७)

‡ “बादरवाउकाइया अणेगविहा पन्नत्ता, तंजहा—पाइणवाए १ पडीणवाए २ दाहिणवाए ३ उदीणवाए ४ उद्धवाए ५ अहोवाए ६ तिरियवाए ७ विदितीवाए ८ वाउन्भामे ९ वाउकलिया १० वायमंडलिया ११ उकलियावाए १२ मंडलियावाए १३ गुंजावाए १४ झंझावाए १५ संवट्टवाए १६ घणवाए १७ तणुवाए १८ सुद्धवाए १९” । (प्रज्ञा० सू० १८)

॥ “पत्तेयसरीरबादरवणस्सइकाइया दुवालसविहा पन्नत्ता, तंजहा—

रुक्खा १ गुच्छा २ गुल्मा ३ लता ४ य वल्ली ५ य पव्वगा ६ चैव ।

तण-वलय-हरिय-ओसहि-जलरुह-कुहणा ७-१२ य बोद्धन्वा ॥ १ ॥” (प्रज्ञा० सू० २२)

§ “साहारणसरीरबादरवणस्सइकाइया अणेगविहा पन्नत्ता तंजहा—अवण १ पणण २ सेवाले ३ लोहिणी ४ मिहुत्थु ५ हुत्थिभागा ६ (य) । अस्सकन्नि ७ सीहकन्नी ८ सिउंढि ९ तत्तो मुसुंढी १० य ॥ १ ॥ रुह ११ कुंडरिया १२ जीरु १३ छीर १४ विराली १५ तहेव किट्टीया १६ । द्वाल्लिहा

१ हिम । २ धूमस । ३ करा । ४ पृथ्वीने मेदीने तृणना अग्र भाग उपर रहेनारू पाणी । ५ जेम । ६ तणखा । ७ उंबाळियुं । ८ जाणवुं । ९ आंबो । १० पन्नवणाना पदथी लक्षण जाणवुं ।

बेहंद्री—पूरा १ (पायु)कृम(मि) २ कुक्षिकृम ३ गंडोला ४ गोरोमा ५ निकुरिषा ६ मंगल ७ वंसीमुख ८ सूचिमुख ९ गोजलोक १० जो(जलो)क ११ संख १२ लघु संख १३ कौडी १४ घोषे १५ सीप १६ गजाइ १७ चंदणग १८ मातृवाहा १९ समुद्रलीख २० संबुक्क-संखविशेष २१ नंदियावर्त २२ इत्यादि जान लेना.*

तेहंद्री—उपविता १ रोहणी २ कुंधुया ३ कीडी ४ उहंस माकड ५ दंसक ६ उदेही ७ फलवेंटी ८ बीजवेंटी ९ जूका १० लीख ११ कानसिलाइ १२ कानखजूरा १३ 'पिसूं १३ इंद्रगोप १४ हस्तीसौडा १५ सुंरसली १६ तूरतुवक १७ चीचड.†

चतुरिंद्री—अंधक १ पोतिक कोच्छलीया २ माखी ३ डांस ४ उडणा(उडणोवाले) कीडा ५ पतंग ६ टंकुण ७ कुकुड ८ कुहण ९ नंदावर्त १० संगरडा ११ कृष्ण पांखना १२ एवं पांच वर्णनी पांखना १६ भमरा १७ भमरी १८ टीड १९ विछु २० जलविछु २१ गोवर माहिला कीडा २२ अश्विवेद आंख मे पडे २३ इत्यादि.‡

१७ सिंगबेरे १८ य आतूलुगा १९ भूलए २० इय ॥ २ ॥ कंबूर्य २१ कल्लुकड २२ सुमत्तओ २३ वलइ २४ तहेव महूसिंगी २५ । नीरुह २६ सप्पसुयंधा २७ छिन्नरुहा २८ चेव वीयरुहा २९ ॥ ३ ॥ पाढा ३० मियवालुकी ३१ महुररसा ३२ चेव रायवत्ती ३३ य । पउमा ३४ मादरि ३५ दंतीति ३६ चंडी ३७ किट्टी ३८ त्ति यावरा ३९ ॥ ४ ॥ मासपण्णी ४० मुग्गपण्णी ४१ जीवियरसहे ४२ य रेणुया ४३ चेव । काओली ४४ खीरकाओली ४५ तहा मंगी ४६ नही ४७ इय ॥ ५ ॥ किमिरासि ४८ भइ ४९ मुच्छा ५० पांगलई ५१ पेलुगा ५२ इय । किण्हे ५३ पउले ५४ य हडे ५५ हरतणुया ५६ चेव लोयाणी ५७ । कण्हे कंदे ५८ वज्जे ५९ सूरणकंदे ६० तहेव खलूरे ६१ । एए अणंतजीवा जे यावन्ने तहाविहा ॥ ६ ॥” (प्रज्ञा० सू० २४)

साधारणतुं लक्षण—

“चक्रागं भज्जमाणस्स, गंठी चुन्नघणो भवे । पुढविसरिसेण मेएण, अणंतजीवं वियाणाहि ॥ १ ॥

गूढसिरागं पत्तं सच्छीरं जं च होइ निच्छीरं । जं पि य पण्डुसंधिं अणंतजीवं वियाणाहि ॥२॥” (सू० २५)

* “बेहंदिया अणेगविहा पन्नत्ता, तंजहा—पुलाकिसिया १ कुच्छिकिसिया २ गंडूयलगा ३ गोलोमा ४ णेउरा ५ सोमंगलगा ६ वंसीमुहा ७ सूइमुहा ८ गोजलोया ९ जलोया १० जालाउया ११ संखा १२ संखणगा १३ घुल्ला १४ खुल्ला १५ गुलया १६ खंधा १७ वराडा १८ सोत्तिया १९ मुत्तिया २० कलुयावासा २१ एगओवत्ता २२ दुहओवत्ता २३ नंदियावत्ता २४ संबुक्का २५ माइवाहा २६ सिप्पिसुण्डा २७ चंदणा २८ समुइल्लिक्खा २९” । (प्रज्ञा० सू० २७)

† “तेहंदियसंसारसमावन्नजीवपन्नवणा अणेगविहा पन्नत्ता, तंजहा—ओवइया १ रोहिणिया २ कुंधु ३ पिपीलिया ४ उहंसगा ५ उदेहिया ६ उक्कलिया ७ उप्पाया ८ उप्पडा ९ तणहारा १० कट्टहारा ११ मालुया १२ पत्ताहारा १३ तणवेंटिया १४ पत्तवेंटिया १५ पुप्फवेंटिया १६ फल-वेंटिया १७ वीयवेंटिया १८ तेवुरणमिजिया १९ तओसिमिजिया २० कप्पासट्टिमिजिया २१ हिल्लिया २२ झिल्लिया २३ झिगिरा २४ किंगिरडा २५ बाहुया २६ लहुया २७ सुमगा २८ सोवत्थिया २९ सुयवेंटा ३० इंदकाइया ३१ इंदगोवया ३२ नुरुतुंबगा ३३ कुच्छलवाहगा ३४ जूया ३५ ह्यालाहला ३६ पिसुया ३७ सयवाइया ३८ गोम्ही ३९ हत्थिसौडा ४०” । (प्रज्ञा० सू० २८)

‡ “चउरिंदियसंसारसमापन्नजीवपन्नवणा अणेगविहा पन्नत्ता, तंजहा—अंधिय १ पत्तिय

१ चांचड । २ धान्यमां उत्पन्न यतां लाल रंगनां जीवडां ।

पंचेद्री तिर्यच—जलचर—मत्स्य आदि १ स्थलचर—गो आदि २ खेचर—हंस आदि ३ उरपर—सर्प आदि ४ भुजपर—गोह नकुल गिलेरी किरली आदि ५ इति अलम्.

मनुष्य—कर्मभूमिज १५ अकर्मभूमिज ३० अंतरद्वीपज ५६ (१०१) संमूर्च्छिम.*

भवनपति—असुरकुमार १ नागकुमार २ सुवर्णकुमार ३ विद्युत्कुमार ४ अग्नि-कुमार ५ द्वीपकुमार ६ उदधिकुमार ७ दिक्कुमार ८ वायुकुमार ९ स्तनितकुमार १०. पंदरे परमाधार्मिक असुरकुमारभेद.

व्यंतर—पिशाच १ भूत २ यक्ष ३ राक्षस ४ किन्नर ५ किंपुरुष ६ महोरग ७ गंधर्व ८.

जोतिषी—चंद्र, सूर्य, ग्रह ८८, नक्षत्र २८, तारे एवं पांच भेद जोतिषी.

२ मच्छिद्य ३ मसगा ४ कीडे ५ तद्वा पयंगे ६ य । ढंकुण ७ कुक्कड ८ कुक्कुह ९ नंदावत्ते १० य सिंगिरडे ११ ॥ १ ॥ किण्हपत्ता १२ नीलपत्ता १३ लोहियपत्ता १४ हालिहपत्ता १५ सुक्लिपत्ता १६ चित्तपक्खा १७ विचित्तपक्खा १८ ओहंजलिया १९ जलचारिया २० गंभीरा २१ णीणिया २२ तंतवा २३ अच्छिरोडा २४ अच्छिवेहा २५ सारंग २६ नेउरा २७ दोला २८ भमरा २९ भरिली ३० जरुला ३१ तोट्टा ३२ विंछुया ३३ पत्तविच्छुया ३४ छाणविच्छुया ३५ जलविच्छुया ३६ पियं-गाला ३७ कणगा ३८ गोमयकीडा ३९” । (प्रज्ञा० सू० २९)

* “मणुस्सा दुविहा प० तं०—संमुच्छिममणुस्सा य गभ्वकंतिमणुस्सा य ।... गभ्वकंति-मणुस्सा तिविहा प० तं०—कम्मभूमगा १ अकम्मभूमगा २ अन्तरदीवगा ३ ।... अन्तरदीवगा अट्टावीसविहा प० तं०—एगोरुया १ आहासिया २ वेसाणिया ३ णंगोला ४ हयकन्ना ५ गयकन्ना ६ गोकन्ना ७ सक्कुलिकन्ना ८ आयंसमुहा ९ मेंढमुहा १० अयोमुहा ११ गोमुहा १२ आसमुहा १३ हत्थिमुहा १४ सीहमुहा १५ वग्घमुहा १६ आसकन्ना १७ हरिकन्ना १८ अकन्ना १९ कण्णपाउरणा २० उक्कामुहा २१ मेहमुहा २२ विज्जुमुहा २३ विज्जुदंता २४ घणदंता २५ लट्ठदंता २६ गूढदंता २७ सुद्धदंता । सेत्तं अन्तरदीवगा । (यादृशा एव यावत्प्रमाणा यावदपान्तराला यन्नामानो हिमवत्पर्वत-पूर्वापरदिग्व्यवस्थिता अष्टाविंशतिविधा अन्तरद्वीपास्तादृशा एव तावत्प्रमाणा तावदपान्तरालास्त-न्नामान एव शिखरिपर्वतपूर्वापरदिग्व्यवस्थिता अपि, ततोऽत्यन्तसदृशतया व्यक्तिभेदमनपेक्ष्य अन्तरद्वीपा अष्टाविंशतिविधा एव विचक्षिताः)... अकम्मभूमिगा तीसविहा प० तं०—पंचहिं हेमवपहिं, पंचहिं हिरण्णवपहिं, पंचहिं हरिवासेहिं, पंचहिं रम्मगवासेहिं, पंचहिं देवकुहुहिं, पंचहिं उत्तरकुहुहिं ।... कम्मभूमगा पन्नरसविहा प० तं०—पंचहिं भरहेहिं, पंचहिं एरवपहिं, पंचहिं महाविदेहिं” । (प्रज्ञा० सू० ३७)

१ खिस्कोली । २ गिलोबी । ३ एटले पर्याप्त । ४ समवायांगना १५ मा स्थानकमां एनां नामो नीचे मुजब आपेलां छे:—

“अंबे १ अंबरिसी २ चैव, सामे ३ सबले ४ त्ति आवरे ।

रुहोवरुहकाले ५-७ अ, महाकाले ८ त्ति आवरे ॥ १ ॥

असिपत्ते ९ धणु १० कुंभे ११, बालुप १२ वेअरणीति १३ अ ।

खरस्सरे १४ महाघोसे १५, पत्ते पन्नरसाहिआ ॥ २ ॥”

वैमानिक—सुधर्म १ ईशान २ सनत्कुमार ३ महेन्द्र ४ ब्रह्म ५ लांतिक ६ महाशुक
७ सहस्रार ८ आनत ९ प्राणत १० आरण ११ अच्युत १२, नव ग्रैवेयक ९, पांच अनुत्तर—
विजय १ विजयंत २ जयंत ३ अपराजित ४ सर्वार्थसिद्ध ५ एवं सर्व २६.* इत्यादि जीवभेद
जान लेना.

(संख्याद्वार)

पूर्वोत्पन्नसंख्या—मनुष्य वर्जी २३ 'दंडकमे असंख्याते, वनस्पतिमे अनंते, मनुष्यमे
संख्याते वा असंख्याते इति संख्याद्वारम्.

* “देवा चउन्विहा पन्नत्ता, तंजहा—भवणवासी १ वाणमंतरा २ जोइसिया ३ वेमाणिया ४ ।...
भवणवासी दसविहा प० तं०—असुरकुमारा १ नाग० २ सुचन्न० ३ विज्जु० ४ अग्गि० ५ दीव० ६
उदहि० ७ दिसा० ८ वाउ० ९ थणिय० १० ।...वाणमंतरा अट्टविहा प० तं०—किन्नरा १ किंपुरिसा
२ महोरगा ३ गंधवा ४ जक्खा ५ रक्खसा ६ भूया ७ पिसाचा ८ ।...जोइसिया पंचविहा प० तं०—
चंदा १ सूरा २ गहा ३ नक्खत्ता ४ तारा ५ ।...वेमाणिया दुविहा प० तं०—कप्पोवगा १ य कप्पा-
ईया य ।...कप्पोवगा वारसविहा प० तं०—सोहम्मा १ ईसाणा २ सणकुमारा ३ माहिंदा ४ बंभ-
लोया ५ लंतया ६ महासुक्का ७ सहस्सारा ८ आणया ९ पाणया १० आरणा ११ अञ्जुया १२ ।...
कप्पाईया दुविहा प० तं०—गेविज्जगा य अणुत्तरोववाइया य ।...गेविज्जगा नवविहा प० तं०—
हिट्टिमहिट्टिमगेविज्जगा १ हिट्टिममज्झिम० २ हिट्टिमउवरिम० ३ मज्झिमहेट्टिम० ४ मज्झिममज्झिम०
५ मज्झिमउवरिम० ६ उवरिमहेट्टिम० ७ उवरिममज्झिम० ८ उवरिमउवरिम० ९ ।...अणुत्तरोववाइया
पंचविहा प० तं०—विजया १ वेजयंता २ जयंता ३ अपराजिता ४ सब्बट्टिसिद्धा ५” । (प्रज्ञा० सू० ३८)

१ ते ते जातिना समुदायुं ब्रह्मण करवा माटे (तज्जातीयसमूहप्रतिपादकत्वाथ) 'दंडक' शब्द योजायो छे. जेने
विषे जीव पोते करेलां कर्मो नो दंड पामे ते 'दंडक' कहेवाय छे. आ संबंधमा एवो पण खुलासो नजरे पडे छे के एकार्थक
सरखो पाठ जेमां आवतो होय ते 'दंडक' कहेवाय छे. जेमके उख, नख, णख, वख, मख वगैरे धातुओ गतिवाचक
होवाथी ते 'दंडक' धातुओ कहेवाय छे. कुले दंडको चोवीस छे. तेनां नामो माटे श्रीभगवतीसूत्र (सू० ८)नी व्याख्या
करतां श्रीअभयदेवसूरि नीचे मुजवनी गाथां टांचण करे छे:—

“नेरइया १ असुराई १० पुढवाई ५ बैदियादओ ३ चैव ।

पंचिदियतिरिय १ नरा १ वंतर १ जोइसिय १ वेमाणी १ ॥”

मोटे भागे 'नेरइया' शब्द द्वारा साते नरकने लगता सरखा पाठो—आलापको—सूचवाया छे, माटे ते एक दंडक
जाणवो. 'असुरकुमारा जाव थणियकुमारा' इत्यादि शब्दो वडे जुदा जुदा आलावाओ सूचवायेला होवाथी एना दश दंडको
गणाय छे. एवी रीते एकेन्द्रियना अधिकारमां प्रायः 'पुढविकाइया' इत्यादि शब्द वडे पृथक् पृथक् आलावाओ सूचवाया छे,
तेथी एना पांच दंडको गणाय छे.

नरकना सात, व्यंतरना आठ, ज्योतिष्कना पांच अने वैमानिकना २६ भेद होवा छतां ए प्रत्येकना एकेक ज
दंडक गणाय छे, ज्यारे भुवनपतिना दश दंडको गणाय छे तेनो शो हेतु छे ? आनो उत्तर एम सूचवाय छे के असुरकुमार
अने नागकुमार वच्चे नरकना प्रस्तर (पाथडा)नुं तेमज नारकी जीवोनुं अंतर छे, एवी रीते नागकुमार अने विद्युत्कुमार वच्चे,
एम भुवनपतिना अन्य भेदो आथी छे. आनुं अंतर नारक, व्यंतर वगैरेना संबंधमां नथी तेथी, ते प्रत्येकनो एकेक दंडक
गणाय छे, जोके रत्नप्रभा अने शर्कराप्रभा वच्चे तेना आधारभूत घनोदधि, घनवात, तनुवात अने आकाशनुं आंतरुं छे.

(१)

अथ पूर्वोत्पन्नसंख्या लिख्यते

श्रीपद्मवर्णा शरीरपद १२ मे वा अनुयोगद्वारे (सू० १४२) तथा 'पंचसंग्रहे च कथितम्.

प्रथम नारकी के जीव वर्तमान है	प्रतरके असंख्यातमे भागमे जितने आकाशप्रदेश आवें ती(इ)तने जीव प्रथम रत्नप्रभा नरकमे हैं. प्रतरका स्वरूप अने (और) श्रेणिका स्वरूप कथ्यते-सात रजु लंबी अने सात रजु चौड़ी अने एक प्रदेशकी मोटी इसकूं तो घनीकृत लोककी एक प्रतर कहीये अने सात रजु प्रमाण लंबी अने एक प्रदेश प्रमाण चौड़ी अने एक प्रदेश प्रमाण मोटी इसकूं घनीकृत लोककी एक श्रेणि कहीये । जिहां कही समुच्चये प्रतर अने श्रेणिका मापा है तिहा (वहां) ऐसी प्रतर अने श्रेणि जाननी. इत्यलं विस्तरेण.	श्रेणि अंगुल प्रमाण चौड़ी अने सात रजु प्रमाण लंबी. तिस श्रेणीमे असत् कल्पना करके श्रेणि २५६ कल्पीये. तिसका प्रथम वर्गमूल काढीये तो १६ होइ(वे). दूजा (सरा) वर्गमूल काढीये तो ४ निकले है. तिस दूजे वर्गमूलकूं पहिले वर्गमूलसं गुण्या ६४ होइ. तिण चौसठ ६४ श्रेणि प्रमाण तो चौड़ी अने सात रजु लंबी असी सूची नीपजे. तिस सूचीमे जितने आकाशप्रदेश है तितने पहिली नरकमे छ नरकके नारकी कम करके इतने नारकी जान लेने.
दूसरी नरक	श्रेणिके असंख्यातमे भागमे जितने आकाशप्रदेश आवे तितने दूजी नरकमें नारकी जान लेने.	श्रेणिके प्रदेशांका वर्गमूल काढत जब चारमा वर्गमूल आवे तिस चार १२ मे वर्गमूलका भाग पूर्वोक्त श्रेणिके प्रदेशांका दीजे जो हाथ आवे तितने नारकी दूजी नरकमे जानने. एवं सर्वत्र ज्ञेयम्.
तीसरी नरक	श्रेणि के असंख्यातमे भाग.	श्रेणिका १० मा वर्गमूल भाग हाथ लगे.
चौथी नरक	"	श्रेणि ८ स्व(मा?)मूल भाग हाथ लगे.
पांचवी नरक	"	श्रेणि ६ छठो वर्गमूलका भाग "
छठी नरक	"	श्रेणि ३ तीजो वर्गमूलका भाग "
सातवी नरक	"	श्रेणि २ दूजे वर्गमूलका भाग "
बादरपर्याप्त तेजस्काय	०	"किंचिद्भूय घनावलिके समय प्रमाण.
प्रत्येक निगोद पृथ्वीकाय अप्काय	पर्याप्त लोकके असंख्यातमे भाग.	लोकके असंख्यातमे भाग.

१ पंचसंग्रहमां पण कहुं छे । २ कहेवाय छे । ३ विस्तारथी । ४ सर्व स्थळोमां । ५ कंडक ओछा ।

बादर अप- र्यास पृथ्वी अप् तेज वायु प्रत्येक निगोद सू- क्ष्म पर्यासा अपर्यासा पृथ्वी अप् तेजो वायु निगोद	असंख्याते लोकके प्रदेशप्रमाण.	असंख्याते लोकके प्रदेशप्रमाण.
बे इं द्री ते इं द्री चौ रिं द्री नी सं ख्या	प्रतरके असंख्यातमे भागमे कोडा कोड असंख्यात जोजन प्रमाण तो चौडी अने सात रजु प्रमाण लंबी ऐसी एक श्रेणी लीजे. तेहने प्रदेशोकी असत् कल्पना ६५५३६ की करीये. तिसके वर्गमूल काढीये. प्रथम वर्गमूल २५६ का, दूजा १६, तीजा ४, चौथा २. ए कल्पना करके चार वर्गमूल है. पिण (किन्तु) परमार्थ थकी (से) असंख्याते वर्गमूल नीकले. ते सर्व वर्गमूल एकठा कर्या. अत्र तो २७८ हूइ पिण परमार्थथी असंख्याते वर्गमूल प्रमाण तो चौडी श्रेणीया अने सात रजु लंबीया. एहवी बेंद्रीयानी सूची निपजे. तिस सूचीमे जितने आकाश-प्रदेश है तितने बेंद्री जीव जान लेने. इति अनुयोगद्वारात् ज्ञेयं तथा पन्नवणा पद बारमेथी है.	एक प्रतर अंगुल के असंख्यातमे भागमें एक बेंद्री आदिक स्थापीये. इम स्थापना करता घनीकृत लोकनी एक प्रतर संपूर्ण भरायें इतने बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री है; अथवा आवलिकाके असंख्यातमे भागमें जितने समय आवें तितने कालमें एकेक बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री अपहरीये तो असंख्याती अवसर्पिणी उत्सर्पिणीमें संपूर्ण एक प्रतरके बेंद्री अपहरे जावे. एवं तेंद्री, चौरेंद्री पिण जान लेने. एह समास अने पिछना 'अनुयोगद्वार'ना समास एक ही जानना. केवल प्रकारांतर ही है. परं परमार्थथी एक ही समजना. इत्यलं विस्तरेण.
सं मू च्छि म म नु ष्य	श्रेणिके असंख्यातमे भाग.	एक प्रदेशी श्रेणी सात रजु प्रमाण लंबी तिसमे सु अंगुल प्रमाण प्रदेश लंबे लीजे; तिसमे असत् कल्पना करे के २५६ प्रदेश; तिसका प्रथम वर्गमूल १६, दूजा वर्गमूल ४ का, तीजा २ का. तिस तीजे कूं पहिले वर्गमूलसू गुण्या ३२ होइ. परमार्थ तो असंख्यात का जानना. तिस ३२ प्रदेशके खंडकूं एक संमूर्च्छिम मनुष्यके शरीर करके अपहरीये जो एक मनुष्य और हूइ तो सात रजु लंबी श्रेणिके प्रदेश अपहरे जाये. ते तो नहीं है.
गर्भज मनुष्य	पांचमे वर्गके घन प्रमाण.	


१ आ प्रमाणे अनुयोगद्वाराथी जाणवुं ।

भवनपति	प्रतरके असंख्यातमे भाग नंभःप्रदेश तुल्य जानने.	अंगुल प्रमाण श्रेणीके प्रथम वर्गमूल के असंख्यातमे भाग प्रदेश प्रमाण.
व्यं त र	प्रतरके असंख्यातमे भाग.	संख्याते योजन प्रमाण खंड एकेक व्यंतरे करी अपहरता संपूर्ण प्रतर अपहरे. इहां संख्याते योजन प्रमाण खंड चतुरस्र.
जो ति पी	"	२५६ अंगुल का खंड चउरस. तितना खंड एकेक जोतिपी करके अपहरी संपूर्ण प्रतर अपहराय. घनीकृत सर्वत्र है.
सौ ध र्म ई शा न २	"	अंगुल प्रमाण चौडी सात रजु प्रमाण लंबी श्रेणी तिसकी असत् कल्पना २५६ श्रेणी, तिसका प्रथम वर्गमूल १६ का, दूजा वर्गमूल ४ का, तीजा २ का. तीजे वर्गमूलकू दूजे वर्गमूलसू गुण्या ८ होइ. परमार्थश्री तो असंख्याती है. इम कल्पना-स्वरूप) ८ श्रेणि प्रमाण चौडी, सात रजु लंबी सूची नीपजे. तिस सूचीमे जितने आकाशप्रदेश है तितने सौधर्म ईशान देवलोकके देवता है वर्तमान कालमे. इत्यलम्.
सनत्कुमार महेन्द्र २	श्रेणीके असंख्यातमे भाग है.	श्रेणिका ग्यारमा वर्गमूल काढीनें तिस ही श्रेणिके प्रदेशांकू ग्यारमे वर्गमूलका भाग दीये जो हाथ लगे तितने देवता है. एवं जितर(ना)मा वर्गमूल होवे तिस ही का भाग.
ब्रह्मदेव	"	श्रेणिका ९ मा मूल. श्रेणिके प्रदेशो भाग.
लांतक	"	श्रेणि ७ स्वमूल. भाग उपरवत्.
महाशुक	"	श्रेणि ५ स्वमूल. भाग देना उपरवत्.
सहस्रार	"	श्रेणि ४ स्वमूल. भाग उपरवत् दे[ले]णा.
आनतादि ४	"	पल्योपमके असंख्यातमे भाग गमयप्रमाण.
त्रैवेयक ९	"	पल्योपमके बृहत्तर असंख्यातमे भाग.
अनुत्तर ४	"	पल्योपमके अतिबृहत्तम असंख्यातमे भाग.
सर्वार्थसिद्ध	संख्याते.	संख्याते, क्षेत्रइस्वत्वात्.

मुनिमहाराज १०८ श्रीमान् श्रीहर्षविजयजी

ओसवाल रावलपिंडी (पंजाब) के वासिदे.

स्वर्गवास दीलही शहर, तारीख १ अप्रैल १८९०; उमर वर्ष ५०



वर्त्तमान आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरिजीके गुरुदेव. श्रीलक्ष्मीविजयजी महाराजके
बादमें संघाडाके सर्व साधुओंके विद्यागुरु.

गुजरांवाला (पंजाब) निवासी लाला मानिकचंद छोटालाल दुगाडकी तर्फसे गुरुभक्ति निमित्ते.

एह यंत्र श्री*प्रज्ञापना' थकी तथा श्री'अनुयोगद्वार'थी.	ए यंत्र 'प्रज्ञापना,' श्री'अनुयोगद्वार'थी तथा श्री'पंचसंग्रहे' श्वेतांबर आम्नायके ग्रंथ थकी जान लेना.
--	---

*“नेरइयाणं भंते! केवइया वेउव्वियसरीरा पन्नत्ता? गोयमा! दुविहा पन्नत्ता, तंजहा—बद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य, तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सपिणिओसपिणिहिं अवहीरंति कालतो, खेत्ततो असंखिज्जाओ सेढीओ पयरस्स असंखेज्जइभागो, तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई अंगुलपढमवग्गमूलं वित्तीयवग्गमूलपडुप्पणं अहव णं अंगुलवित्तीयवग्गमूलघणप्पमाणमेत्ताओ सेढीतो” । (सू. १७८) “असुरकुमारणं भंते! विक्खंभसूई अंगुलपढमवग्गमूलस्स संखेज्जतिभागो.....एवं जाव थणियकुमारा” । (सू. १७९) पुढविकाइयाणं भंते! केवइया ओरालियसरीरगा प०? गो०! दुविहा प० तं०—बद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य, तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सपिणिओसपिणिहिं अवहीरंति कालतो, खेत्ततो असंखेज्जा लोगा,..... तेया कम्मगा जहा एएसिं चैव ओरालिया, एवं आउकाइयतेउकाइया वि । वाउकाइयाणं भंते! केवतिया ओरालियसरीरा प०? गो०! दु० प० तं०—बद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य, दुविहा वि जहा पुढविकाइयाणं ओरालिया, वेउव्वियाणं पुच्छा, गो० दु० तं०—बद्धेल्लगा य मुक्केल्लगा य, तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं असंखेज्जा, समए समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा पलितोवमस्स असंखेज्जइभागमेत्तेणं कालेणं अवहीरंति नो चैव णं अवहिया सिया,.....वणप्फइकाइयाणं जहा पुढविकाइयाणं, णवरं तेयाकम्मगा जहा ओहिया तेयाकम्मगा । वेइदियाणं भंते! केवइया ओरालिया सरीरगा प०? गो०! दु० तं०—बद्धे० मुक्के०, तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं असंखेज्जा, असंखेज्जाहिं उस्सपिणिओसपिणिहिं अवहीरंति कालतो, खेत्ततो असंखेज्जाओ सेढीओ पयरस्स असंखेज्जइभागो, तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडिओ असंखेज्जाइं सेदिवग्गमूलाइं । वेइदियाणं ओरालियसरीरेहिं बद्धेल्लगेहिं पयरो अवहीरंति, असंखेज्जाहिं उस्सपिणीओसपिणीहिं कालतो, खेत्ततो अंगुलपयरस्स आवलियाते य असंखेज्जतिभागपलिभागेणं,..... एवं जाव चउरंदिआ । पंचिदियतिरिक्खज्जोणियाणं एवं चैव ।.....मणुसाणं भंते! केवइया ओरालियसरीरगा प०? गो०! दु० तं०—बद्धे० मुक्के०, तत्थ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं सिय संखिज्जा सिय असंखिज्जा, जहण्णपदे संखेज्जा संखेज्जाओ कोडाकोडीओ तिजमलपयस्स उवरिं चउजमलपयस्स हिट्ठा, अहव णं छट्ठो वग्गो अहव णं छण्णउईंछेयणगदाइरासी, उक्कोसपए असंखिज्जा, असंखिज्जाहिं उस्सपिणिओसपिणीहिं अवहीरंति कालतो, खेत्तओ रूपपक्खित्तेहिं सेढी अवहीरईं, तीसे सेढीए आकासखेत्तेहिं अवहारो मग्गिज्जइ असंखेज्जा असंखेज्जाहिं उस्सपिणिओसपिणीहिं कालतो, खेत्ततो अंगुलपढमवग्गमूलं तइयवग्गमूलपडुप्पणं,.....। वाणमंतराणं जहा नेरइयाणं ओरालिया आहारगा य, वेउव्वियसरीरगा जहा नेरइयाणं, नवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई संखेज्जोअणसयवग्गपलिभागो पयरस्स.....। तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई बिछण्णंअंगुलसयवग्गपलिभागो पयरस्स, वेयाणियाणं पवं चैव, नवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई अंगुलवित्तीयवग्गमूलं तइयवग्गमूलपडुप्पणं अहवणं अंगुलतइयवग्गमूलघणप्पमाणमेत्ताओ सेढीओ,.....।” (सू० १८०)

† पंचसंग्रहता द्वितीय ‘बंधक’ द्वारनी गाथाओ—

“पत्तेय पज्जवणकाइया उ पयरं हरंति लोगस्स । अंगुलअसंखभागोण भाइयं भूदगतणू य ॥ ४३ ॥
 आवलिवग्गो अंतावलीय गुणिओ हु वायरो तेऊ । वाऊ लोगासंखं सेसतिगमसंखया लोगा ॥ ४४ ॥
 पज्जत्तापज्जत्ता वित्तिचउअस्सन्निणो अवहरंति । अंगुलासंखासंखप्पएसभइयं पुढो पयरं ॥ ४५ ॥
 सन्नी चउसु गईसु पढमाए असंखसेढि नेरइया । सेढी असंखेज्जसो सेसासु जहुत्तरं तह य ॥ ४६ ॥
 संखेज्जजोयणाणं सडपएसेहिं भाइओ पयरो । वंतरसरेहिं हीरइ एवं एक्केकमेएणं ॥ ४७ ॥

(२)* वृद्धि-हानि भगवती श० ५, उ० ८

०	वृद्धि	हानि
जीव	०	०
नरकादि वैमानिक २४	उत्कृष्ट आवलि असंख्य भाग	उत्कृष्ट आवलि असंख्य भाग
सिद्ध	उत्कृष्ट ८ समय	०
जघन्य सर्वत्र	१ समय	१ समय

विरह सर्वत्र अद्वा सिद्धक विरह तुल्य.

छप्पन्न दोसयंगुलसूर्इपपसेहि भाइओ पयरो । हीरइ जोइसिएहिं सट्टाणे त्थीउ संखगुणा ॥ ४८ ॥
 अस्संखसेदिखपपसतुलया पढमदुइयकप्पेसु । सेदिअसंखंससमा उवारि तु जहोत्तरं तह य ॥ ४९ ॥
 सेढीएकेकपपसरइयसूर्इणमंगुलप्पमियं । घम्माए भवणसोहम्मयाण माणं इमं होइ ॥ ५० ॥
 छप्पन्नदोसयंगुलभूओ भूओ विणिज्झ मूलतिगं । गुणिया जहुत्तरत्था रासीओ कमेण सूर्इओ ॥ ५१ ॥
 अहवंगुलप्पसा समूलगुणिया उ नेरइयसूर्इ । पढमदुइया पयाइं समूलगुणियाइं इयरणं ॥ ५२ ॥
 अंगुलमूलासंखियभागप्पमिया उ होंति सेढीओ । उत्तरविउव्वियाणं तिरियाण य सन्निपज्जाणं ॥ ५३ ॥
 सामण्णा पज्जत्ता पणतिरि देवेहि संखगुणा । संखेज्जा मणुया तहि मिच्छाइगुणा वि सट्टाणे ॥ ५४ ॥
 उक्कोसपए मणुया सेढीं रूवाहिया अवहरंति । तईयमूलाहएहिं अंगुलमूलप्पएसेहिं ॥ ५५ ॥”

* आ तेमज आ पछीनां वे यंत्रो परत्वे नीचे मुजबतुं सूत्र छे:—

जीवा णं भंते ! किं वृद्धि, हायंति, अवट्टिया ? । गोयमा ! जीवा णो वृद्धि, नो हायंति, अवट्टिया । नेरइया णं भंते ! किं वृद्धि, हायंति, अवट्टिया ? । गोयमा ! नेरइया वृद्धि वि, हायंति वि, अवट्टिया वि; जहा नेरइया एवं जाण वेमाणिया । सिद्धा णं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! सिद्धा वृद्धि, नो हायंति, अवट्टिया वि ॥ जीवा णं भंते ! केवतियं कालं अवट्टिया [वि] ? । सवद्धं । नेरइया णं भंते ! केवतियं कालं वृद्धि ? । गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्को० आवलियाए असंखेज्जतिभागं, एवं हायंति, नेरइया णं भंते ! केवतियं कालं अवट्टिया ? । गोयमा ! जह० एगं समयं, उक्को० चउव्वीसं मुहुत्ता, एवं सत्तसु वि पुढवीसु वृद्धि हायंति भाणियव्वं, नवरं अवट्टिएसु इमं नाणत्तं, तंजहा-रयणप्पभाए पुढवीए अडतालीसं मुहुत्ता, सक्कर० चोइस रातिदियाणं, वालु० मासं, पंक० दो मासा, धूम० चत्तारि मासा, तमाए अट्ट मासा, तमतमाए बारस मासा । असुरकुमारा वि० वृद्धि हायंति जहा नेरइया, अवट्टिया जह० एकं समयं, उक्को अट्टचत्तालीसं मुहुत्ता, एवं दसविहा वि; एगिंदिया वृद्धि वि हायंति वि अवट्टिया वि, एएहिं तिहि वि जह० एकं समयं, उक्को० आवलियाए असंखेज्जतिभागं, वेइंदिया वृद्धि हायंति तहेव, अवट्टिया जह० एकं समयं, उक्को० दो अंतो-मुहुत्ता, एवं जाव चउरिंदिया, अवसेसा सव्वे वृद्धि हायंति तहेव, अवट्टियाणं णाणत्तं इमं, तं० संमुच्छिमपंचिंदियतिरिखजोणियाणं दो अंतोमुहुत्ता, गम्भवक्कतियाणं चउव्वीसं मुहुत्ता, संमुच्छिममणुस्साणं अट्टचत्तालीसं मुहुत्ता, गम्भवक्कतियमणुस्साणं चउव्वीसं मुहुत्ता, वाणमंतर-जोतिससोहम्मीसाणेसु अट्टचत्तालीसं मुहुत्ता, सणकुमारे अट्टारस रातिदियाइं चत्तालीस य मुहु०, माहिंदे चउव्वीसं राति० वीस य मु०, बंभलोए पंचचत्तालीसं राति०, लंतए नउति राति०, महासुक्के

१ वधे छे । २ घटे छे । ३ काल ।

(३) * अवस्थित(ति)यन्त्रम्-जीवानां सर्वाद्वा

नारकी	उत्कृष्ट २४ मुहूर्त	जोतिषी	उत्कृष्ट ४८ मुहूर्त
रत्नप्रभा	” ४८ ”	सु(सौ)धर्म ईशान	” ” ”
शकर(कंरा)प्रभा	” १४ दिनरात्रि	सनत्कुमार	” १८ दिन ४० मुहूर्त
वालुक (का) प्रभा	” १ मास	महेंद्र	” २४ दिन २० मुहूर्त
पंकप्रभा	” २ ”	ब्रह्मलोक	” ४५ अहोरात्रि
धूम्रप्रभा	” ४ ”	लांतक	” ९० रात्रिदिन
तमप्रभा	” ८ ”	महाशुक	” १६० ”
तमतमप्रभा	” १२ ”	सहस्रार	” २०० रात्रि
भवनपति १०	” ४८ मुहूर्त	आनत प्राणत	” संख्याते मास
एकेंद्री ५	” आवलिके असंख्यात	आरण अच्युत	” संख्याते वर्ष
विगलेंद्री ३	” अंतमुहूर्त (?)	(त्रैवे०) पहिली त्रिक	” ” सौ ”
सम्मूर्च्छिम पंचेंद्री तिर्यच	” २ ”	मध्यम त्रिक	” ” हजार ”
गर्भज पंचेंद्री तिर्यच	” २४ मुहूर्त	उपर त्रिक	” ” लाख ”
सम्मूर्च्छिम मनुष्य	” ४८ ”	विजयादि ४	” पत्योपमनो असंख्या- तमो भाग
गर्भज मनुष्य	” २४ ”	सर्वार्थसिद्ध	” पत्योपमनो संख्या- तमो भाग
व्यंतर	” ४८ ”	सिद्ध	” ६ मास

जघन्य सर्वत्र एक समय इति.

सङ्घि रार्तिदियसतं, सहस्सारे दो रार्तिदियसयाइं, आणयपाणयाणं संखेज्जा मासा, आरणञ्चुयाणं संखेज्जाइं वासाइं, एवं गेवेज्जदेवाणं विजयवेजयंतजयंतअपराजियाणं असंखिज्जाइं वाससहस्साइं, सव्वट्टसिद्धे य पलिओवमस्स [अ]संखेज्जतिभागो, एवं भाणियव्वं, वड्ढति हायंति जह० एकं समयं, उक्को० आवलियाए असंखेज्जतिभागं, अवट्टियाणं जं भणियं। सिद्धा णं भंते! केवतियं कालं वड्ढति?। गोयमा! जह० एकं समयं, उक्को० अट्ट समयया; केवतियं कालं अवट्टिया? गोयमा! जह० एकं समयं, उक्को० छम्मासा ॥

जीवा णं भंते! किं सोवचया, सावचया, सोवचयसावचया, निरुवचयनिरुवचया?। गोयमा! जीवा णो सोवचया, नो सावचया, णो सोवचयसावचया, निरुवचयनिरुवचया। एगिंदिया ततिय-पप, सेसा जीवा चउहि वि पदेहि वि भाणियव्वा। सिद्धाणं भंते! पुच्छा, गोयमा! सिद्धा सोवचया,

१ जीवोनी सर्वे काल अवस्थिति छे ।

(४) * (सोपचय आदि) भग० श० ५, उ० ८

	सोवचया	२ सोवचया	सोवचयसावचया	निरुव०निरवचया
जीव	०	०	०	सर्वाद्धा
एकैद्री ५ वर्जी नरक आदि वैमानिक पर्यंत १९ दंडक	उत्कृष्ट आवलिके असंख्यातमे भाग	उत्कृष्ट आवलिके असंख्यातमे भाग	उत्कृष्ट आवलिके असंख्यातमे भाग	उत्कृष्ट आपापणे विरहप्रमाण ज्ञातव्यम्
एकैद्री ५	०	०	सर्वाद्धा	०
सिद्ध	८ समय	०	०	६ मास

ए उत्कृष्ट कालना यंत्र, जघन्य सर्वत्र १ समय ज्ञेयम्.

(५) (कृतादि युग्म) भग० श० १८, उ० ४

	जघन्य पद	मध्यम पद	उत्कृष्ट पद
पंचैद्री १६ दंडक	कृतयुग्म १	कृतयुग्मादि ४ युग्म	त्रौ(व्यो)ज
पृथ्वी आदि ४ विगलेंद्री ३	”	”	द्वापरयुग्म
वनस्पति १ सिद्धे च	०	”	०
स्त्रीसमुच्चय तथा १५ दंडकै जूदी जूदी	कृतयुग्म १	”	कृतयुग्म १

णो सावचया, णो सोवचयसावचया, निरुवचयनिरवचया । जीवा णं भंते ! केवतियं कालं निरुवचयनिरवचया ? । गोमया ! सवद्धं । नेरतिया णं भंते ! केवतियं कालं सोवचया ? गोयमा ! जह० एकं समयं, उक्को० आवलियाए असंखेज्जभागं । केवतियं कालं सावचया ? । एवं चेव । केवतियं कालं सोवचयसावचया ? एवं चेव । केवतियं कालं निरुवचयनिरवचया ? । गोयमा ! जह० एकं समयं, उक्को० बारस मु०, एगिंदिया सव्वे सोवचयसावचया सव्वद्धं, सेसा सव्वे सोवचया वि सावचया वि सोवचयसावचया वि निरुवचयनिरवचया वि जह० एगं समयं, उक्को० आवलियाए असंखेज्जतिभागं अवट्टिपहिं वक्कतिकालो भाणियव्वो । सिद्धा णं भंते केवतियं कालं सोवचया ? गोयमा ! जह० एकं समयं, उक्को० अट्ट समया, केवतियं कालं निरुवचयनिरवचया ? जह० एकं, उ० छम्मासा” । (सू० २२२)

† “नेरइया णं भंते ! किं कडजुम्मा, तेयोगा, दावरजुम्मा, कलियोगा ? । गोयमा ! जहन्नपदे कडजुम्मा, उक्कोसपदे तेयोगा, अजहन्नकोसपदे सिय कडजुम्मा १ जाव सिय कलियोगा ४, एवं जाव थणियकुमारा । वणस्सइकाइयाणं पुच्छा, गोयमा ! जह० अपदा, उक्को० य अपदा, अजह० सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा । बेइंदिया णं पुच्छा, गोयमा ! जह० कड०, उक्को० दावर०, अजह०

१ वृद्धि सहित । २ हानि सहित ।

(६) (*योग विषयक अल्पबहुत्व) भग० श० २५, उ० १

योग	सूक्ष्म एकेंद्री	बादर एकेंद्री	बेइंद्री	तेइंद्री	चौरिंद्री	असंखी पंचेंद्री	संखी पंचेंद्री
जघन्य अपर्याप्ता योग	स्तोक१ (थोडा)	२ असंख्य गुणा	३ असं.	४ असं.	५ असं.	६ असं.	७ असं.
जघन्य पर्याप्ता योग	८ असं.	९ असं.	१४ असं.	१५ असं	१६ असं.	१७ असं.	१८ असं.
उत्कृष्ट अपर्याप्ता योग	१० असं.	११ असं	१९ असं	२० असं.	२१ असं.	२२ असं.	२३ असं.
उत्कृष्ट पर्याप्ता योग	१२ असं.	१३ असं.	२४ असं.	२५ असं.	२६ असं.	२७ असं.	२८ असं.

सिय कड० कलियोगा, एवं जाव चतुरिंदिया, सेसा एगिंदिया जहा बैदिया, पंचिंदियतिरिक्ख-
जोणिया जाव वेमाणिया जहा नेरइया, सिद्धा जहा वणस्सइकाइया । इत्थीओ णं भंते ! किं कड० ?
पुच्छा, गोयमा ! जह० कडजुम्माओ, उक्को० सिय कडजुम्माओ अजह० सिय कडजुम्माओ जाव सिय
कलियोगाओ, एवं असुरकुमारित्थीओ वि जाव थणियकुमारइत्थीओ, एवं तिरिक्ख जोणियइत्थीओ,
एवं मणुसित्थीओ, एवं जाव चाणमंतरजोइसियवेमाणियदेवित्थीओ” । (सू० ६२४)

* “सव्वत्थोवे सुहुमस्स अपज्जत्तगस्स जहन्नए जोए १, बादरस्स अपज्ज० जह० जोए असंखेज्ज-
गुणे २, बैदियस्स अपज्ज० जह० जोए असं० ३, एवं तेइंदियस्स ४, एवं चउरिंदियस्स ५, असन्निस्स
पंचिंदियस्स अपज्ज० जह० जोए असं० ६, सन्निस्स पंचिं० अपज्ज० जह० जोए असं० ७, सुहुमस्स
पज्जत्तगस्स जह० जोए असं० ८, बादरस्स पज्ज० जह० जोए असं० ९, सुहुमस्स अपज्जत्तगस्स उक्को-
सए जोए असं० १०, बादरस्स अपज्ज० उक्को० जोए असं० ११, सुहुमस्स पज्ज० उक्को० जोए असं०
१२, बादरस्स पज्ज० उक्को० जोए असं० १३, बैदियस्स पज्ज० जह० जोए असं० १४, एवं तैदिय, एवं
जाव सन्निपंचिंदियस्स पज्ज० जह० जोए असं० १८, बैदियस्स अपज्ज० उक्को० जोए असं० १९, एवं
तैदियस्स वि २०, एवं चउरिंदियस्स वि २१, एवं जाव सन्निपंचिं० अपज्ज० उक्को० जोए असं० २३,
बैदियस्स पज्ज० उक्को० जोए असं० २४, एवं तेइंदियस्स वि पज्ज० उक्को० जोए असं० २५, चउरिंदि-
यस्स पज्ज० उक्को० (जोए) असं० २६, असन्निपंचिंदियपज्जत० उक्को० जोए असं० २७, एवं सन्नि-
पंचिं० पज्ज० उक्को० जोए असं० २८” । (सू० ७१७)

† १४ मा पाना उपरना सातमा यंत्र संबंधी सूत्र नीचे मुजब छे:—

“सव्वत्थोवे कम्मगसरीरजहन्नजोए १, ओरालियमीसगस्स जहन्नजोए असं० २, वेउव्वि-
यमीसगस्स जहन्नए असं० ३, ओरालियसरीरस्स जहन्नए जोए असं० ४, वेउव्वियसरीरस्स जहन्नए
जोए असं० ५, कम्मगसरीरस्स उक्कोसए जोए असं० ६, आहारगमीसगस्स जह० जोए असं० ७, तस्स
चेव उक्कोसए जोए असं० ८, ओरालियमीसगस्स ९, वेउव्वियमीसगस्स १०, एएसि णं उक्को० जोए
दोण्ह वि तुल्ले असं०, असच्चा मोसमणजोगस्स जह० जोए असं० ११, आहारसरीरस्स जह० जोए
असं० १२, तिविहस्स मणजोगस्स १५, चउव्विहस्स वयजोगस्स १९, एएसि णं सत्तण्ह वि तुल्ले
जह० जोए असं०, आहारगसरीरस्स उक्को० जोए असं० २०, ओरालियसरीरस्स वेउव्वियस्स चउव्वि-
हस्स य मणजोगस्स चउव्विहस्स य वइजोगस्स एएसि णं दसण्ह वि तुल्ले उक्को० जोए असं० ३०” ।
(सू० ७१९)

(७) पंदर योग परत्वे अल्पबहुत्व भग० श० २५, उ० १

योग १५	सत्य मन- योग १	असत्य मनयोग २	सिद्धि मन- योग ३	व्यव- हार मन योग ४	सत्य वचन- योग ५	असत्य वचन- योग ६	सिद्धि वचन- योग ७	व्यव- हार वचन ८	औदा- रिक- सिद्धि ९	वैक्रिय- सिद्धि ११	वैक्रिय- सिद्धि १२	आहा- रक १३	आहारक- सिद्धि १४	कार्मण १५
जघन्य योग	१२ असं- ख्य गुणा	१२ तुल्य	१० तुल्य	१० असंख्य	१२ तुल्य	१२ तुल्य	१२ तुल्य	१२ तुल्य	४ असंख्य गुणा	५ असंख्य असंख्य	३ असंख्य	११ असंख्य	७ असंख्य गुणा	१ स्तोत्र
उत्कृष्ट योग	१४ तुल्य	१४ तुल्य	१४ तुल्य	१४ असंख्य	१४ तुल्य	१४ तुल्य	१४ तुल्य	१४ तुल्य	१४ तुल्य	१४ तुल्य	९ तुल्य	१३ असंख्य	८ असंख्य गुणा	६ असंख्य गुणा

* पंदरमा पाना उपरना आठमा यंत्र संबंधी सूत्र नीचे सुजब छै:-

“सवत्थोवा सुहुमनिओयस्स अपज्जत्तस्स जहन्निया ओगाहणा १, सुहुमवाउक्काइयस्स अपज्जत्तगस्स जह० ओगा० असंखेज्जगुणा २, सुहुमतेऊअपज्जत्तस्स जह० ओगा० असं० ३, सुहुमआऊअपज्ज० जह० ओगा० असं० ४, सुहुमपुढविअपज्जत्त० जह० ओगा० असं० ५, वादरवाउक्काइयस्स अपज्जत्तगस्स जह० ओगा० असं० ६, वादरतेऊअपज्जत्तजहन्निया ओगा० असं० ७, वादरआउअपज्जत्त-जहन्निया ओगा० असं० ८, वादरपुढवीकाइयअपज्जत्तजहन्निया ओगा० असं० ९, पत्तेयसरीवादरवणस्सइकाइयस्स वादरनिओयस्स एएसि णं पज्जत्तगाणं एएसि णं अपज्जत्तगाणं जह० ओगा० दोणह वि तुहा असं० १०-११, सुहुमनिगोयस्स पज्जत्तगस्स जह० ओगा० असं० १२, तस्सेव अपज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगा० विसेसा १३, तस्स चैव अपज्जत्तगस्स उक्को० ओगा० वि० १७, एवं सुहुमते-यस्स पज्जत्तग० जह० ओगा० असं० १५, तस्स चैव अपज्जत्त० उक्को० ओगा० वि० १६, तस्स चैव पज्जत्त० उक्को० वि० १७, एवं सुहुमते-उक्काइयस्स वि १८।१९।२०, एवं सुहुमआउक्काइयस्स वि २१।२२।२३, एवं सुहुमपुढविकाइयस्स विसेसा २४।२५।२६, एवं वादरवाउक्का-इयस्स वि० २७।२८।२९, एवं वादरतेऊक्काइयस्स वि० ३०।३१।३२, एवं वादरआउक्काइयस्स वि० ३३।३४।३५, एवं वादरपुढविकाइयस्स वि० ३६।३७।३८, सव्वेसि त्तिविहेणं गमेणं भाणियव्वं, वादरनिगोयस्स पज्जत्तगस्स जह० ओगा० असं० ३९, तस्स चैव अपज्जत्तगस्स उक्को० ओगा० विसेसाहिया ४१, पत्तेयसरीवादरवणस्सइकाइयस्स पज्जत्तगस्स जह० ओगा० असं० ४२, तस्स चैव अपज्जत्त० उक्को० ओगा० असं० ४३, तस्स चैव पज्जत्त० उक्को० ओगा० असं० ४४”। (सू० ६५।१)

(८) (*सूक्ष्म पृथ्वीकायादिकी अवगाहना भग० श० १९, उ० ३)

		अपर्याप्ता जघन्य	पर्याप्ता जघन्य	अपर्याप्ता उत्कृष्ट	पर्याप्ता उत्कृष्ट
१	सूक्ष्म निगोद	१ स्तोक	१२ असं	१३ वि	१४ वि
२	सूक्ष्म वायु	२ असं	१५ असं	१६ वि	१७ वि
३	सूक्ष्म तेज	३ असं	१८ असं	१९ वि	२० वि
४	सूक्ष्म अप्	४ असं	२१ असं	२२ क्षु	२३ वि
५	सूक्ष्म पृथ्वी	५ असं	२४ असं	२५ वि	२६ वि
६	बादर वायु	६ असं	२७ असं	२८ वि	२९ वि
७	बादर तेज	७ असं	३० असं	३१ वि	३२ वि
८	बादर अप्	८ असं	३३ असं	३४ वि	३५ वि
९	बादर पृथ्वी	९ असं	३६ असं	३७ वि	३८ वि
१०	बादर निगोद	१० असं	३९ असं	४० वि	४१ वि
११	प्रत्येक वनस्पति	११ तुल्य	४२ असं	४३ असंख्य	४४ असंख्य गुणा

(९)*

	काइया (कायिकी)	अहिगरणी (आधिकरणिकी)	पाउ(दो)सिया (प्राद्वेषिकी)	परिताप	प्राणाति- पात
कारण	सारंभ	सारंभ	सारंभ	समारंभ	आरंभ
काइया संबंध	०	नियमा	नियमा	भजना	भजना
अहिगरणिया	नियमा	०	”	”	”
पाउ(दो)सिया	”	नियमा	०	”	”
पारितापनिका	”	”	नियमा	०	”
प्राणातिपात	”	”	”	नियमा	०

* “जस्स णं भंते ! जीवस्स कातिया किरिया कज्जइ तस्स अहिगरणिया किरिया कज्जति, जस्स

(१०) पन्नवणा पद २२ मे (*सू० २८४) क्रियायन्त्रम्

०	आरंभिता	परिग्रह	मायाप्रत्यया	मिथ्यादर्शन- प्रत्यया	अप्रत्या- ख्यान.
कारण	प्रमाद्	प्रत्याख्यान चौक	संज्वलन ४	अनंत मिथ्यात्व	अप्रत्या- ख्यान ४
गुणस्थान कौनसेमें	६	५	१०	३	४
संबंधारंभ	०	भजना	नियमा	भजना	भजना
परिग्रह	नियमा	०	"	"	"
मायाप्रत्यया	भजना	भजना	०	"	"
मिथ्यादर्शन०	नियमा	नियमा	नियमा	०	नियमा
अप्रत्याख्यान- प्रत्यया	"	"	"	भजना	०

अहिगरणिया किरिया कज्जति तस्स कातिया कज्जति ? । गो० ! जस्स णं जीवस्स कातिया किरिया कज्जति तस्स अहिगणी किरिया नियमा कज्जति, जस्स अहि० किरिया क० तस्स वि काइया किरिया नियमा कज्जति, जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया कि० तस्स पादोसिया कि०, जस्स पादोसिया कि० तस्स काइया किं क० ? । गो० ! एवं चेव, जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ जस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ तस्स कातिया किरिया कज्जइ ? । गो० ! जस्स णं जीवस्स काइया कि० क० तस्स पारितावणिया सिय कज्जइ सिय नो कज्जइ, जस्स पुण पारियावणिया कि० क० तस्स काइया नियमा कज्जति, एवं पाणाइवायकिरिया वि, एवं आदिल्लाओ परोप्परं नियमा तिण्णि कज्जति, जस्स आइल्लाओ तिन्नि कज्जति तस्स उवरिल्लाओ दोन्नि सिय कज्जति सिय नो कज्जति, जस्स उवरिल्लाओ दोण्णि कज्जति तस्स आइल्लाओ नियमा तिण्णि कज्जति, जस्स णं भंते जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जति तस्स पाणातिवायकिरिया क०, जस्स पाणाति० क० तस्स पारियावणिया कि० क० ? । गो० ! जस्स णं जीवस्स पारियावणिया कि० तस्स पाणातिवातकिरिया सिय क० सिय नो क०, जस्स पुण पाणातिपातकिरिया क० तस्स पारियावणिया किरिया नियमा कज्जति" । (प्रज्ञा० सू० २८२)

* "कति णं भंते किरियाओ पण्णत्ताओ ? । गो० ! पंच किरियाओ पं० तं०—आरंभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपञ्चक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया, आरंभिया णं भंते ! किरिया कस्स कज्जति ? गो० ! अण्णयरस्स वि पमत्तसंजयस्स, परिग्गहिया णं भंते ! किरिया कस्स कज्जइ ? । गो० ! अण्णयरस्स वि संजयासंजयस्स, मायावत्तिया णं भंते ! किरिया कस्स क० ? । गो० ! अण्णयरस्सावि अपमत्तसंजयस्स, अपञ्चक्खाणकिरिया णं भंते ! कस्स क० ? । गो० ! अण्णयरस्स वि अपञ्चक्खाणिस्स, मिच्छादंसणवत्तिया णं भंते ! किरिया कस्स क० ? । गो० ! अण्णयरस्सावि मिच्छादंसणिस्स । ...जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया क्रिया क० तस्स परिग्गहिया किं क० ? । जस्स परिग्गहिया कि० तस्स आरंभिया कि० ? । गो० ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया कि० तस्स परि० सिय क० सिय नो क०, जस्स पुण परिग्गहिया कि० तस्स आरंभिया कि० नियमा क०, जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया कि० क० तस्स मायावत्तिया कि० क० पुच्छा, गो० ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया कि० क० तस्स माया० कि० नियमा क०, जस्स पुण माया० कि० क० तस्स आरंभिया कि० सिय क० सिय नो क०, जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया कि० तस्स अपञ्चक्खाणकिरिया पुच्छा, गो० ! जस्स जीवस्स

(११) *भगवती शक्ते १ उद्देशो २ कालयन्त्रम्

०	शून्य काल	अशून्य काल	मिश्र काल	संतिष्ठन काल
नारकी	३ अनंत गुणा	१ सर्वे स्तोक १२ मुहूर्त	२ अनंत गुणा	२ असंख्यात गुणा
तिर्यंच	०	१ सर्वे स्तोक अंत- मुहूर्त त्रस आश्री	"	४ अनंत गुणा
मनुष्य	३ अनंत गुणा	१ सर्वे स्तोक १२ मुहूर्त	"	१ सर्वे स्तोक
देव	"	सर्वे स्तोक १२ मुहूर्त १	"	३ असंख्येय गुणा

(१२) अथ षट् लेइया द्वार उत्तराध्ययन ३४ मे वा श्रीपन्नवणा पद् १७ परथी ज्ञेयं

नाम १	कृष्ण लेइया १	नील लेइया २	कापोत लेइया ३	तेजोलेइया ४	पद्म- लेइया ५	शुक्ल लेइया ६
वर्णं द्रव्य- लेइया अपेक्षा २	काली घटा १ महिष शृंग गुली २ शकटना खंजन ३ नेत्रनी क्रीकी ४ इन सदश वर्ण कृष्ण	अशोक वृक्ष १ नील चासना पंक्ष २ वैडूर्य मणि ३ शुक पंक्ष ४ पेसा वर्ण	अलसीना फूल १ कोकिलानी पंक्ष २ परेवानी प्रीवा ३ पेसा वर्ण	हिंगुल १ धातु पाषाण वि- शेष रक्त २ उगता सूर्य तेजोलेइया वर्णतः	हरिताल १ हलद्री २ सण ३ असन ए वृक्षना पुष्पवत् पीत	संख १ अंकरत्न २ मचकुंद पुष्प दधि रूपाना हारवत् शुक्ल

आरंभिया कि० तस्स अपञ्च० सिय क० सिय नो क०, जस्स पुण अपञ्च० क० तस्स आरंभिया कि०
णियमा क०, एवं मिच्छादंसणवत्तियाए वि समं, एवं पारिग्गहिया वि तिहिं उवरिल्लाहिं समं संचारे-
तव्वा, जस्स माया कि० तस्स उवरिल्लाओ दो वि सिय कज्जंति सिय नो कज्जंति, जस्स उवरिल्लाओ
दो कज्जंति तस्स माया० नियमा क० जस्स अपञ्च० कि० क० तस्स मिच्छा० कि० सिय क० सिय
नो क०, जस्स पुण मिच्छा० कि० तस्स अपञ्च० कि० णियमा कज्जति" । (सू० २८४)

* "नेरइयसंसारसंचिट्टणकाले णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? । गोयमा ! ति विहे पण्णत्ते, तं०—
सुन्नकाले, असुन्नकाले, मिस्सकाले ॥ तिरिक्ख जोणियसंसारपुच्छा, गो० ! दुविहे प० तं०—असुन्न-
काले य मिस्सकाले य, मणुस्साण य देवाण य जहा नेरइयाणं ॥ एयस्स णं भंते ! नेरइयसंसार-
संचिट्टणकालस्स सुन्नकालस्स असुन्नकालस्स मीसकालस्स य कयरे कयरे हिंतो अप्पा वा बहुए
वा तुल्ले वा विसेसाहिए वा ? । गो० ! सव्वथोवे असुन्नकाले, मिस्सकाले अणंतगुणे, सुन्नकाले
अणंतगुणे ॥ तिरिक्ख० भंते ! सव्व० असुन्न०, मिस्स० अणंत०, मणुस्सदेवाण य जहा नेरइयाणं ॥
एयस्स णं भंते ! नेरइयस्स संसारसंचिट्टणकालस्स जाव देवसंसारसंचिट्टणजाव विसेसाहिए वा ? ।
गो० ! सव्व० मणुस्ससंसारसंचिट्टणकाले, नेरइयसंसार० असंखेज्जगुणे, देवसंसार० असं०,
तिरिक्खजोणिय अणंत०" ॥ (सू० २३)

नाम १	कृष्ण लेश्या १	नील लेश्या २	कापोत लेश्या ३	तेजोलेश्या ४	पद्म- लेश्या ५	शुक्ल लेश्या ६
रस द्रव्य- लेश्या आश्री ३	कटुक उंब १ नींब २ अर्कपत्र इसके रससे अनंत गुण कटुक रस	यथा त्रिकूट रस १ हस्ती पीपलना रस पद्मश्री अनंत गुणाधिक	तरुण आम्ररस कचा कंबिट्ट फल रस इनथी अनंत गुणा कषायला रस है	पक्क आम्र रस १ पाका कौठ फल २ रस इनसे अनंत गुणाधिका	घर वारुणी मद १ पुष्पका मद २ मधु मद्य- विशेष ३ सिरका इनसे अनंत गुणा	यथा खजूर रस १ द्राख रस २ खंड रस ३ मिसरी रस इनसे अनंत गुणा
गंध द्रव्य- लेश्या आश्री ४	मृतक गौ १ मृतक श्वान २ मृतक सर्प ३ इनके दुर्गंध से अनंत गुणाधिक	ए →व म्	ए →व म्	पूक सुगंध- वत् तथा सुगंध पी- सता जैसी सुगंध इनसे अनंत गुणा	ए →व म्	ए →व म्
स्पर्श द्रव्य- लेश्या आश्री ५	करवतनी धार १ गौ जिह्वा २ साम वनस्पतिना पत्र इनके स्पर्शसे अनंत कर्कश स्पर्श	ए →व म्	ए →व म्	यथा वूर वनस्पति १ म्रक्षण २ शिरीष कु- सुम इनसे अनंतसा कोमल है	ए →व म्	ए →व म्
परिणाम- समुच्चय ६	जघन्य १ मध्यम २ उत्कृष्ट ३ इनका ९ फेर २७ फेर ८१ फेर २४३ इस तरे असंख्ये २ करणा नियमन करणाके इतने परिणाम है	ए →व म्	ए →व म्	ए →व म्	ए →व म्	ए →व म्
लक्षण विशिष्ट लेदयानी अपेक्षा इह लक्षण है	२१ बोल पांच आश्रवना सेवनहार ५ तीन गुणियें अगुति ३ षट्कायना अविरति तीव्र आरंभी १	१५ बोल ईर्ष्या-पर गुण असहन १ अभि- निवेशकी १ तप रहित १ कुशास्त्री १ मायावी १	१२ बोल वांकां बोले १ वक्राचारी २ निवडमाया ३ असरल ४ अपने दोष	१३ बोल नीचा वर्ते १ अचपल २ अमाइ ३ अकुतूहल ४ विनयवंत ५	१२ बोल पतले क्रोध १ मान २ माया ३ लोभ ४	१८ बोल आर्त रौद्र वर्जे २ धर्म- ध्यान ३ शुक्ल ध्यान ध्यावे ४

नाम १	कृष्ण लेश्या १	नील लेश्या २	कापोत लेश्या ३	तेजोलेश्या ४	पद्म- लेश्या ५	शुक्लेश्या ६
पिण देवता आदिके साथ व्यभि- चार नहीं. विशिष्ट उत्कट शुद्ध अथवा अशुद्ध. ७	सर्वकृं अहितकारी १ साहसिक अनविचारें कार्यकारी १ जीव- हिंसा करता शंके नहीं १ वा इसलोक परलोकीना कष्टनी शंका नहीं ते निद्वंस- परिणामी कहिये १ अजितेंद्रिय १ सुग रहित १ एवं २१ बोल	अहीकाता (?) समाचार विषये निर्लज्ज १ विषयका लांपट्य १ द्वेषी १ शठ १ जात्यादि मदवान् १ रस लोलुप १ सातागवेषी १ आरंभीसैं अवरति १ धुद्रिक १ अन- विचारे कार्यना कारणहार ते साहसिक १	आच्छादक ५ कपटसैं प्रवर्ते ६ मिथ्यादृष्टि ७ अनार्य ८ उत्प्राशक ९ आग लोक लक आदिमे फसे ऐसे बोले ९ दुष्ट वचन बोले १० चौर ११ मत्सरी पर- संपद् असहन १२ द्रव्यके सहचर करके तिसके उरंगते तद्रूप होना सो प्र(परि)णाम कहिये सर्वत्र	विनय करे ६ दंमतेंद्री ७ शास्त्र पढीने उप- धान तप- वान् ८ प्रिय धर्मी ९ दृढ धर्मी १० पापसे डरे ११ मोक्षा- भिलाषी १२ शुभ योग- वान् एवं तेजो ना परिणाम अर्थात् लक्षण जान लेना अनंगारस्य एतत्	प्रशांत चित्त ५ दमिता- त्मा ६ शुभ योगवान् ७ शास्त्र पठन करीने उपधान तपवान् ८ अल्प- भाषी ९ उपशम- वान् १० जितेंद्रिय ११ ए लक्षण पद्मले- श्याना धणी अनागा- रस्य एतत् सम्भ- वति, नान्य- स्येति	प्रशांत चित्त ५ दान्त आत्मा ६ पांच समिति समिता ११ तीन गुप्ते गुप्ता १४ सराग १५ तथा वीत- राग १६ उपशांत- वान् १७ जितेन्द्रिय १८ एतदपि अनंगार- स्येति लक्षणम्
स्थान प्रकर्ष अपकर्ष रूप अशुभना अशुभ शुभना शुभ ८	स्थान असंख्य कितने ? जितने असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणीना समय तुल्य. क्षेत्रतः असंख्य लोकके प्रदेश नभः- प्रदेश तुल्य	ए →व म्	ए →व म्	ए →व म्	ए →व म्	ए →व म्
स्थिति नारकीनी	जघन्य १० सागरो- पम पत्योपमका	जघन्य ३ साग- रोपम पत्योप-	जघन्य १ सहस्रवर्ष			

१ इन्द्रियना उपर काबू राखनार । २ साधुनुं आ । ३ साधुमां आ संभवे छे, नहि के अन्यने विषे ।
४ आ पण साधुनुं लक्षण छे ।

नाम १	कृष्ण लेइया १	नील लेइया २	कापोत लेइया ३	तेजोलेइया ४	पद्म- लेइया ५	शुक्ललेइया ६
	असंख्यातमा भाग अधिक; उत्कृष्ट ३३ सागरोपम	मना असंख्यातमा भाग अधिक उत्कृष्ट १० साग- रोपम पल्योपमना असंख्यातमा भाग अधिक	उत्कृष्ट ३ सागरोपम पल्योपमना असंख्यातमा भाग अधिक	०	०	०
तिर्यंच	जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त	→एवम्	→एवम्	→एवम्	→एवम्	→एवम्
मनुष्य	"	"	"	"	"	छद्मस्थ एवम्, कैषली जघन्य अंतर्मुहूर्त; उत्कृष्ट देरा ऊन पूर्व कोटि
भवन्पति व्यन्तर	ज० दश हजार वर्ष; उ० पल्योपमना असंख्यातमे भाग	ज० कृष्णकी उत्कृष्टसे १ समय अधिक; उ० पल्योपमना असंख्यातमे भाग	ज० नीलकी उत्कृष्टसे १ समय अधिक; उ० पल्योप- मना असंख्या- तमे भाग	ज० दश हजार वर्ष; उ० १ सागरोपम झञ्जेरी अने व्यन्तरकी खयं ऊहाम्	०	०
जोतिषी	०	०	०	ज० पल्यो पमना ८ भाग; उ० १ पल लक्ष वर्ष अधिक	०	०
वैमानिक ९	०	०	०	ज० १ पल्योपम; उ० २ सागरोपम झञ्जेरी	ज० तेजोकी उत्कृष्टी- से १ समय अधिक; उ० १० सागरो- पम अंत- र्मुहूर्त अधिक	ज० १० सागरोपम १ समय अधिक; उ० ३३ सागरोपम

नाम १	कृष्ण लेश्या १	नील लेश्या २	कापोत लेश्या ३	तेजो लेश्या ४	पद्म-लेश्या ५	शुक्ल लेश्या ६
गति १०	दुर्गतिगामी	दुर्गतिगामी	दुर्गतिगामी	सुगतिगामी	सुगतिगामी	सुगतिगामी
आयु ११	आयुने अंते है न करे तदा मृत्यु.	अंतमुहूर्त शेष आयु थाकते नर भव जहां जाता तिस भव सदृश लेश्याका स्वरूप होवे तिस लेश्याके प्रथम समय अथवा चरम समय काल अंतमुहूर्त लेश्या वीती है अने अंतमुहूर्त ही है				
खंड १२	अनंत प्रदेशी	अनंत प्रदेशी	अनंत प्रदेशी	अनंत प्रदेशी	अनंत प्रदेशी	अनंत प्रदेशी
अवगाहना १३	असंख्य प्रदेश	असंख्य प्रदेश	असंख्य प्रदेश	असंख्य प्रदेश	असंख्य प्रदेश	असंख्य प्रदेश
वर्गणा १४	अनंती वर्गणा	एवम्	एवम्	एवम्	एवम्	एवम्
अल्पबहुत्व द्रव्यार्थ प्रदेशा १५	३ असंख्य गुणी वर्गणा	२ असंख्य गुणी०	१ स्तोक	४ असंख्य गुणी	५ असंख्य गुणी	६ असंख्य गुणी
विशुद्ध १६	अविशुद्ध	अविशुद्ध	अविशुद्ध	विशुद्ध	विशुद्ध	विशुद्ध
प्रशस्त १७	अप्रशस्त	अप्रशस्त	अप्रशस्त	प्रशस्त	प्रशस्त	प्रशस्त
ज्ञान १८	२।२।४	२।३।४	२।३।४	२।३।४	२।३।४	२।३।४।१
क्षेत्र १९	१ बहु	२ बहु	३ बहु	४ बहु	५ बहु	६ बहु
क्रांति २०	१ स्तोक	२ बहु	३ बहु	४ बहु	५ बहु	६ बहु
अल्पबहुत्व	७ विशेष	६ विशेष	५ अनंत गुण	३ संख्या	२ संख्या	१ स्तोक ६ अलेश्या ४ अनंत

अथ स्थितिका खुलासा—समुच्चय कृष्ण लेश्याकी स्थितिमे ३३ सागरोपम अंत-मुहूर्त अधिक ते पूर्वापर भवनी अपेक्षा है, अने नारकीने ३३ सागरोपम पूरी कही ते नरक भवनी अपेक्षा सूत्र है, इसी तरेह देवतानी लेश्यामे पद्म आदिकमे तिस भव अने पूर्वापर भवनी अपेक्षा सूत्रकारनी विवक्षा है, एह समाधान उत्तराध्ययनकी अवचूरिसें जान लेना,

भाव धकी १६ बोलकी (का) अल्पबहुत्वम्

१ जीवके योगस्थान जघन्य आदि सर्वसे स्तोक, २ एकेक कर्मप्रकृतिके मेद असंख्य गुणे,

३ कर्म स्थिति स्थान जघन्य आदि असंख्य गुणे. ४ पद् लेश्या स्थान स्थितिरूप असंख्य गुणे. ५ अनुभागबंधके अध्यवसाय असंख्य गुणे. ६ कर्म प्रदेश दलरूप असंख्य गुणे. ७ रस छेद जीव राससे अनंत गुणे. ८ मनःपर्यायज्ञानके पर्याय अनंत गुणे. ९ विभंगज्ञानके पर्याय अनंत गुणे. १० अवधिज्ञानके पर्याय अनंत गुणे. ११ श्रुतअज्ञानके पर्याय अनंत गुणे. १२ श्रुतज्ञानके पर्याय विशेष अधिक. १३ मतिअज्ञानके पर्याय अनंत गुणे. १४ मतिज्ञानके पर्याय विशेष अधिक. १५ द्रव्यकी अगुरुलघु पर्याय अनंत गुणे. १६ केवलज्ञाननी पर्याय अनंत गुणे कर्मग्रन्थात्.

(१३) (लेश्याका अल्पबहुत्व)

अल्पबहुत्व	कृष्ण लेश्या	नील लेश्या	कापोत लेश्या	तेजोलेश्या	पद्मलेश्या	शुक्ल लेश्या
जीव	७ वि	४ वि	४ अनंत	३ असंख्यात	२ संख्यात	१ स्तोक
नारकी	१ स्तोक	२ असंख्यात	३ असंख्यात	०	०	०
वनस्पतिकाय	४ वि	३ वि	२ अनंत	१ स्तोक	०	०
पृथ्वीकाय १ अप् २	४ वि	३ वि	२ असंख्यात	१ स्तोक	०	०
तेजस्काय वायुकाय विकलेन्द्रिय ३	३ वि	२ वि	१ स्तोक	०	०	०
१ तिर्यंच पंचेन्द्रिय	६ वि	५ वि	४ असंख्यात	३ संख्यात	२ संख्यात	१ स्तोक
२ संमूर्च्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यंच	३ वि	२ वि	१ स्तोक	०	०	०
३ गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यंच	६ वि	५ वि	४ संख्यात	३ संख्यात	२ संख्यात	१ स्तोक
४ तिर्यंच स्त्री	६ वि	५ वि	४ सं	३ सं	२ सं	१ स्तोक
संमूर्च्छिम तिर्यंच पंचेन्द्रिय	९ वि	८ वि	७ असं	०	०	०
५ गर्भज तिर्यंच पंचेन्द्रिय	६ वि	५ वि	४ सं	३ सं	२ सं	१ स्तोक

अल्पबहुत्व	कृष्ण लेश्या	नील लेश्या	कापोत लेश्या	तेजोलेश्या	पद्मलेश्या	शुक्ल लेश्या
संमूर्च्छिम तिर्यच पंचेन्द्रिय	९ वि	८ वि	७ असं	०	०	०
६ तिर्यच स्त्री	६ वि	५ वि	४ सं	३ सं	२ सं	१ स्तोक
गर्भज तिर्यच पंचेन्द्रिय	९ वि	८ वि	७ सं	५ सं	३ सं	१ स्तोक
७ तिर्यच स्त्री	१२ वि	११ वि	१० सं	६ सं	४ सं	२ सं
संमूर्च्छिम तिर्यच पंचेन्द्रिय	१५ वि	१४ वि	१३ असं	०	०	०
८ गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यच	९ वि	८ वि	७ सं	५ सं	३ सं	१ स्तोक
तिर्यच स्त्री	१२ वि	११ वि	१० सं	६ सं	४ सं	२ सं
तिर्यच पंचेन्द्रिय समुच्चय	१२ वि	११ वि	१० असं	५ सं	३ सं	१ स्तोक
९ तिर्यच स्त्री	८ वि	८ वि	७ सं	६ सं	४ सं	२ सं
तिर्यच	१२ वि	११ वि	१० अनंत	५ सं	३ सं	१ स्तोक
१० तिर्यच स्त्री	९ वि	८ वि	७ सं	६ सं	४ सं	२ असं
१ देवता	५ वि	४ वि	३ असं	६ सं	२ असं	१ स्तोक
२ देवी	३ वि	२ वि	१ स्तो	४ सं	०	०
देवी	८ वि	७ वि	६ सं	१० सं	०	०
३ देवता	५ वि	४ वि	३ असं	९ सं	२ असं	१ स्तोक
४ भवनपति देव ५ व्यंतर देव	४ वि	३ वि	२ असं	१ स्तो	०	०
६ भवनपति देवी ७ व्यंतर देवी	४ वि	३ वि	२ असं	१ स्तो	०	०

अल्पबहुत्व	कृष्ण लेख्या	नील लेख्या	कापोत लेख्या	तेजोलेख्या	पद्मलेख्या	शुक्ल लेख्या
भवनपति देव व्यंतर देव	५ वि	४ वि	३ असं	१ स्तो	०	०
८ भवनपति देवी ९ व्यंतर देवी	८ वि	७ वि	६ सं	२ सं	०	०
१० जोतिषी देव	०	०	०	१ स्तो	०	०
१० जोतिषी देवी	०	०	०	२ सं	०	०
११ वैमानिक देव	०	०	०	३ असं	२ असं	१ स्तो
११ वैमानिक देवी	०	०	०	सं४	०	०
१२ भवनपति	७ वि	६ वि	५ असं	४ असं	०	०
१२ व्यंतर	११ वि	१० वि	९ असं	८ असं	०	०
१२ जोतिषी	०	०	०	१२ सं	०	०
१२ वैमानिक	०	०	०	३ असं	२ असं	१ स्तो
१३ भवन० देवी	५ वि	८ वि	३ असं	२ असं	०	०
१३ व्यंतर देवी	९ वि	वि ८ वि	७ वि	६ असं	०	०
१३ जोतिषी देवी	०	०	०	१० सं	०	०
१३ वैमानिक देवी	०	०	०	१ स्तो	०	०
१४ भवन० देव	९ वि	८ वि	७ असं	५ असं	०	०
१४ भवन० देवी	१२ वि	११ वि	१० सं	६ सं	०	०
१४ व्यंतर देव	१७ वि	१६ वि	१५ असं	१३ असं	०	०
१४ व्यंतर देवी	२० वि	१९ वि	१८ सं	१४ सं	०	०
१४ जोतिषी देव	०	०	०	२१ सं	०	०
१४ जोतिषी देवी	०	०	०	२२ सं	०	०
१४ वैमानिक देव	०	०	०	३ असं	२ असं	१ स्तो
१४ वैमानिक देवी	०	०	०	४ सं	०	०

मनुष्यमे ९ बोलकी अल्पबहुत्व तिर्यंचवत् जान लेनी, दशमे बोलकी अल्पबहुत्व मनु-
ष्यदंडकमे नहि है, इस वास्ते ९ बोलकी तिर्यंचवत् अल्पबहुत्वं ज्ञेयम्, एह यंत्र *श्रीप्रज्ञाप-
नाजीके १७ मे पदथी अने दूजे उद्देशेथी षट् लेख्याकी अल्पबहुत्व है,

शान्तमूर्ति मुनिमहाराज श्रीमान् हंसविजयजी महाराज



जन्म :

संवत् १९१४

आषाढ वदि

अमावास्या

बडौदा, गुजरात.

मुनिपद :

संवत् १९३५

माह वदि ११

अम्बाला शहर,

पंजाब.

पालणपुरनिवासी कान्तिलाल तरफथी तेमना पिताश्री

स्व. झवेरी मोहनलाल वस्ताचंदना स्मरणार्थे.

(१४) श्रीपन्नवणा २ पदात् स्थानयंत्र क्षेत्र द्वारम्

जीवांके भेद	स्वस्थानेन- रहने करके	उपपातेन- उपजने करके	समुद्घात आथी
पृथ्वी १ अप् २ तेज ३ वायु ४ वनस्पति ५. ए ५ सूक्ष्म पर्याप्ता ५ अपर्याप्ता ५. एवं १० बोल	सर्वे लोकमे	सर्वे लोकमे	सर्वे लोकमे
बादर पृथ्वी १ अप् २ वायु ३ वनस्पति ४. ए चारों का अपर्याप्ता	लोकके असंख्यातमे भागमे	सर्वसिल्लोके- सर्वे लोकमे	सर्वलोके असंख्यलोकके प्रदेशतुल्यत्वात्
बादर तेजस्काय अपर्याप्ता १	मनुष्यलोक	मनुष्यलोकके २ ऊर्ध्वे कपाट तिर्यग् लोकका तट	सर्वे लोकमे
बादर तेजस्काय पर्याप्ता १	"	लोकके असंख्य भाग स्तोकत्वात्	लोकके असंख्यातमे भाग
बादर वायुकाय पर्याप्ता १	लोकके घणे असंख्य भागमे	एवम्	एवम्
बादर वनस्पति पर्याप्ता १	लोकके असंख्यमे भाग	सर्वे लोकमे बहुतमत्वात्	सर्वे लोकमे
शेष सर्वे जीव	"	एवम्	एवम्

(१५) *श्रीपन्नवणा अवगाहना २१मे पदात् स्पर्शनाद्वारम्

१ समग्र लोकमां असंख्य लोकना प्रवेशोनी बराबर होवाथी । २ अल्प होवाथी । ३ अत्यंत अधिक होवाथी ।

*“जीवस्स णं भंते मारणंतियसमुग्वाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पं०? गो०! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभवाहल्लेणं आयामेणं जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजभागे, उक्कोसेणं लोंगंताओ लोंगंते। एगिंदियस्स णं भंते! मारणंतिय० सरीरो० पं०? गो०! एवं चेव, जाव पुढवि० आउ० तेउ० वाउ० वणप्फइकाइयस्स । बेइंदियस्स णं भंते! मारणंतिय० पं०? गो०! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभवाहल्लेणं आयामेणं जह० अंगुलस्स असंखे०, उक्को० तिरियलोगाओ लोंगंते, एवं जाव चउरिंदियस्स । नेरइयस्स णं भंते! मार० जह० सातिरेकं जोयणसहस्सं, उक्को० अघे जाव अहेसत्तमा पुढवी, तिरियं जाव सयंभुरमणे समुहे, उहुं जाव पंडगवणे पुक्खरिणीतो। पंचिंदिय-तिरिक्खजोणियस्स णं भंते! गो०! जहा बेइंदियसरीरस्स । मणुस्सस्स णं भंते! गो०! समयखेत्ताओ लोंगंतो। असुरकुमारस्स णं भंते! जह० अंगुलस्स असं०, उक्को० अघे जाव तच्चाए पुढवीए हिट्टिहे

पालनपुरनिवासी दोसी काळीदास सांकळचंद तरफथी तेमना पिताश्री
स्व. दोसी सांकळचंद दलछाचंदना स्मरणार्थे.



प्रवर्तक मुनिवर्य श्रीमान् कान्तिविजयजी महाराज.

जन्म
सं. १९०७ कार्तिक सुद ३
वडोदरा

दीक्षा
सं. १९३६ माह सुद ११
अंबाला

प्रवर्तकपद
सं. १९५७ माह सुद १५
पाटण

मरणांत समुद्धात तेजस अवगाहना	नारकी	भवन० व्यंतर जोतिषी सौधर्म ईशान	३-८ देवलोक	९-१२ देवलोक	९ त्रैवे- यक ५ अनुत्तर	स्था व २ ५	विकलेंद्री ३ तिर्यंच पंचेन्द्री	म नु ष्य
ज घ न्य	१००० योजन साधिक पाताल- कलशकी भीति आश्री	अंगुलके असंख्या- तमे भाग स्व आभरण आदि अपेक्षा(से)	अंगुल असं- ख्यातमे भाग स्त्रीसे भोग करी मरी तिहां उपजे अन्य वीर्यमे	अंगुल असं- ख्यातमे भाग स्त्रीसे भोग करी तिहां योनिमे पहिला वीर्य है तिहां उपजे	विद्याधर श्रेणि	अंगुलके असंख्या- तमे भाग	→ एवम्	→ एवम्
उत्कृष्ट	सातमी नरक	त्रीजी नर- कका चरम अंत	पाताल- कलशके उपरले २ भागो	अधो- ग्राममे	अधो- ग्राममे	१४ रज्जु प्रमाण	७ रज्जु	७ रज्जु
तिरछा	स्वयंभूरमण समुद्र	स्वयंभूरमण समुद्रकी वे(द)दिकांत	स्वयंभूरमण समुद्र	मनुष्य क्षेत्र	मनुष्य क्षेत्र	१ रज्जु	१ रज्जु	अध रज्जु
ऊर्ध्व ऊंचा	पंडग वन वापीमे	ईषत् प्राग्भार पृथ्वी	अच्युत देवलोक	अच्युत विमान वारमा देव०	अपना विमान	१४ रज्जु	७ रज्जु	७ रज्जु

चरमंते तिरियं जाव स्वयंभूरमणसमुद्रस्स वाहिरिल्ले वेइयंते, उहं जाव इसीपभारा पुढवी, एवं जाव थणियकुमारतेयगसरीरस्स । चाणमंतरजोइसियसोहम्मीसाणगा य एवं चेव । सणकुमारदेवस्स णं भंते० ! जह० अंगु० असं०, उक्को० अधे जाव महापातालाणं दोच्चे तिभागे, तिरियं जाव स्वयंभूरमणे समुद्रे, उहं जाव अञ्जुओ कप्पो, एवं जाव सहस्सारदेवस्स अञ्जुओ कप्पो । आणयदेवस्स णं भंते० ! जह० अंगु० असं०, उक्को जाव अधोलोइयगामा, तिरियं जाव मणूसखेत्ते, उहं जाव अञ्जुओ कप्पो, एवं जाव आरणदेवस्स अञ्जुअदेवस्स एवं चेव, णवरं उहं जाव सयाइं विमाणातिं । गोविज्जगदेवस्स णं भंते० ! जह० विजाहरसेढीतो, उक्को जाव अधोलोइयगामा, तिरियं जाव मणूसखेत्ते, उहं जाव सगातिं विमाणातिं, अणुत्तरोववाइयस्स वि एवं चेव" । (प्रज्ञा० सू० २७५)

(१६) श्रीपन्नवणा पद ३दमेथी समुद्धातयंत्रम्

७ समुद्धात	०	वेदनी	कपाय	मरणां- तिक	वैक्रिय	तैजस	आहारक	केवल	असम- वहता
स्वामी	०	४ गतिना	४ गतिना	४ गतिना	४ गतिना	३ नरक विना	१ मनुष्य	१ मनुष्य	४ गति जीव

७ समुद्घात	०	वेदनी	कषाय	मरणां- तिक	वैक्रिय	तैजस	आहारक	केवल	असम- वहता
काल	०	अंतर्मुहूर्त	अंत०	अंत०	अंत०	विना अंत०	अंत०	८ समय	०
अतीत काले	जघन्य	अनंती	अनंती	अनंती	अनंती	अनंती	१	१	०
		उत्कृष्ट	"	"	"	"	४	१	
आगे करेगा, ते	जघन्य	करे वीन ही बीजो १	नही १ करे	→	ए	व	म्	→	०
		उत्कृष्ट	अनंती करे	अनंत	अनंत	अनंत	अनंत	४	१
अल्पबहुत्व	०	७ विशेष	६ असं०	५ अनंत गुण	४ असं०	३ असं०	१ स्तोक	२ संख्ये- य गुणा	८ असं० गुणा
क्षेत्र	दिशा	६	६	३, ४, ५, ६,	६	६	३	६	०
विष्कंभ बाहुल्य		शरीर प्रमाण	शरीर प्रमाण	शरीर प्रमाण	शरीर प्रमाण	शरीर प्रमाण	शरीर प्रमाण	सर्व लोक	०
आयाम लांबपणें		"	"	१४ रज्जु				"	०
विग्रह समय संख्या		३	३	३	३	३	०	०	०
क्रिया	०	३, ४, ५	३, ४, ५	३, ४, ५	३, ४, ५	३, ४, ५	३, ४, ५	०	०

(१७) केवल(लि)समुद्घातयंत्रं

प्रथम आउज्जी(आवर्जी)करण करे—आत्माकूं मोक्षके सन्मुख करे; पीछे समुद्घात करे, जिस समयमे आत्मप्रदेश सर्व लोकमे व्याप्त करे तिस समये अपने अष्ट रुचक प्रदेश लोकरुचक पर करे इति स्थानांगवृत्तौ ।

समय ८	१ समय	२ समय	३ समय	४ समय	५ समय	६ समय	७ समय	८ समय
योग ३	औदारिक	औदारिक- मिश्र	कार्मण	कार्मण	कार्मण	मिश्र	मिश्र	औदारिक
करण ८	दंड करे	कपाट करे	मंथान करे	अंतर पूरे	अंतर संहरे	मंथान संहरे	कपाट संहरे	दंड संहरे शरीरस्थ

समय ८	१ समय	२ समय	३ समय	४ समय	५ समय	६ समय	७ समय	८ समय
ऊर्ध्व अधो	लोकांत	लोकांत	लोकांत	लोकांत	लोकांत	लोकांत	लोकांत	लोकांत
पूर्व पश्चिम	शरीर- प्रमाण	शरीर- प्रमाण	"	"	"	शरीर- प्रमाण	शरीर- प्रमाण	शरीर प्रमाण
उत्तर दक्षिण	"	लोकांत	"	"	"	"	"	"
जीव- प्रदेश	सर्व शरीरसे	बाह्य स्तोक	अभ्यंतरे स्तोक	लोका- काश तुल्य	लोका- काश तुल्य	अभ्यंतर स्तोक	बाह्य स्तोक	सर्व शरीरसे

(१८) श्रीपद्मवर्णा पद ३६मे सात सद्युद्धात अल्पवहुत्वम्

द्वार	वेदनी १	कषाय २	मरणांतिक ३	वैक्रिय ४	तैजस ५	आहारक ६	केवल ७
नरक	३ संखे	४ संखे	१ स्तोक	२ असं०	०	०	०
भवनपति	३ असं.	"	२ असं.	५ संखे	१ स्तोक	०	०
पृथ्वी	३ विशेष	२ संखे	१ स्तोक	०	०	०	०
अप्	"	"	"	०	०	०	०
अग्नि	"	"	"	०	०	०	०
वायु	४ वि	३ सं	२ असं	१ स्तोक	०	०	०
वनस्पति	३ वि	२ सं	१ स्तोक	०	०	०	०
बेहंद्री	२ असं	३ संखे	"	०	०	०	०
तेंद्री	"	"	"	०	०	०	०
चौरिंद्री	"	"	"	०	०	०	०
तिर्यंच पंचेंद्री	४ असं.	५ सं	३ असं	२ असं०	१ स्तोक	०	०
मनुष्य	६ असं	७ सं	५ असं	४ सं	३ सं	१ स्तोक	२ सं
व्यंतर	३ असं	४ सं	२ असं	५ सं	१ स्तोक	०	०
जोतिषी	"	"	"	"	"	०	०
वैमानिक	"	"	"	"	"	०	०

संज्ञा—गृद्धिरूपा मोहकर्मके उदय. १३ शोकसंज्ञा—विप्रलाप वैमनस्यरूपा मोहकर्मके उदय. १४ लोकसंज्ञा—खच्छंदे घटित विकल्परूपा लोकरूढि—श्वान यक्ष है, विप्र देवता है, काकाः पितामह(ः) अर्थात् काक दादा पडिदादा है, मोरकी पांखकी पवनसे मोरणीके गर्भ होता है इत्यादि रूढि लोकसंज्ञा. ज्ञानावरणी(य)का क्षयोपशम मोहनी(य)के उदयसंज्ञ है. १५ धर्म-संज्ञा—क्षांत्यादिसेवनरूपा मोहनी(य)के क्षयोपशमसे होय. १६ ओघसंज्ञा—अव्यक्त उपयोग-रूपा, बेलडी रूख पर चडे है. ज्ञानावरणी(य) क्षयोपशमसे है. उपरी १५ संज्ञा तो संज्ञी पंचेंद्री, सम्यग्दृष्टि वा मिथ्यादृष्टिने है यथासंभव, ओघसंज्ञा एकेंद्रादि जीवांके जान लेनी. ए सर्व निर्युक्तौ.

(२०) अथ आहारादि संज्ञा ४ यंत्रं स्थानांगस्थाने ४ उद्देशे ४
वा पन्नवणा संज्ञापद

४ संज्ञा नाम	१ आहारसंज्ञा	२ भयसंज्ञा	३ मैथुनसंज्ञा	४ परिग्रहसंज्ञा
नारकी	२ संख्येय गुणे	४ संख्येय गुणे	१ स्तोक सर्वेभ्यः	३ संख्येय गुणे
तिर्यग्	४ ”	३ ”	२ संख्येय गुणे	१ सर्वसं स्तोक
मनुष्य	२ ”	१ स्तोक सर्वेभ्यः	४ ”	३ संख्येय गुणे
देवता	१ स्तोक सर्वेभ्यः	२ संख्येय गुणे	३ ”	४ ”
कारण ४।४	कोठेके रीते हूया	धी(धै)र्यहीनात्	मांस रुधिरकी पुष्टाइसें	मूर्च्छा होनेते(सें)
चार २	श्रुधा लगनेसें	भयके उदय	वेदके उदयते(सें)	लोभके उदयते(सें)
”	आहारके देखे सुनेसें	भयके वस्तुके देखनेसें	स्त्रीके देखे सुनेसें	उपगरणके देखे सुनेसें
”	आहारकी चिंता करे(रने)सें	भयकी चिंतासें	कामभोगकी चिंतोना करे(रने)सें	उपगरणकी चिंता करनेसें

(२१) सांतर निरंतर द्वारम्

गतिभेद	नारकी	तिर्यच	मनुष्य	देवता
अंतर जघन्य	१ समय	०	१ समय	१ समय
” उत्कृष्ट	१२ मुहूर्त	०	१२ मुहूर्त	१२ मुहूर्त
जीवसंख्या जघन्य	१ जीव एक समये उपजे	प्रतिसमय अनंते उपजे	१ जीव एक समय उपजे	१ जीव एक समय उपजे

१ झाड । २ निर्युक्तिने विषे । ३ बधाथी । ४ धीरज ओछी होवाथी ।

गति भेद	नारकी	तिर्यंच	मनुष्य	देवता
जीवसंख्या उत्कृष्ट	श्रेणिके असंख्यातमे भाग	अनंते उपजे	पल्यके असंख्यमे भाग	श्रेणिके असंख्य मे भाग
निरंतर प्रमाण जघन्य	२ समय निरंतर	सर्वे अद्वा	२ समय निरंतर	२ समय निरंतर
" " उत्कृष्ट	आवलिके असंख्यमे भाग	"	आवलिके असंख्यमे भाग	आवलिके असंख्यातमे भाग
जीवसंख्या जघन्य	२ जीव दो समयामे उपजे	अनंते समयसे उपजे	२ जीव दो समयामे उपजे	२ जीव दो समयामे उपजे
" उत्कृष्ट	श्रेणिके असंख्यमे भाग	सर्वे अद्वा	पल्यके असंख्यमे भाग	श्रेणिके असंख्यमे भाग
सांतरोववन्नगा	२ असंख्य गुणे	०	२ असंख्य गुणे	२ असंख्य गुणे
निरंतरोववन्नगा	१ स्तोक	०	१ स्तोक	१ स्तोक

(२२) भाषाके पुद्गल ५ प्रकारे भेदाय ते यंत्रम् पन्नवणा पद ११

भेद	खें(खं)डा भेद १	प्रतरभेद २	चूर्णि(र्ण)भेद ३	अनुतडिता भेद ४	उत्करिका भेद ५
अर्थ	लोहेके खंडवत् भाषाके खंड होय	अभ्रकके पुद्गलवत् भाषा बोल्यां पळे भेदाय	अन्नके आटेकी तरे(ह) भाषा बोल्यां पळे भेदाय	सरोवरकी अत्रेडवत् त्रेड हो कर भेदाय	परिंडकी मटरकी मूंग उडदकी फली सूकेसे दाणा उछलें
अल्पबहुत्व	५ अनंत गुणे	४ अनंत गुणे	३ अनंत गुणे	२ अनंत गुणे	१ स्तोक

भाषास्वरूपयंत्रं प्रज्ञापना पद ११

आदि—भाषाकी आदि जीवस्युं. २ उत्पत्ति—भाषाकी उत्पत्ति औदारिक १ वैक्रिय २ आहारि(र)क ३ शरीरसें. ३ भाषाका संस्थान—भाषाका संस्थान वज्रका आकार. जैसे वज्र आगे पीछे तो विस्तीर्ण होता है अने मध्य भागमे पतला होता है ऐसा संस्थान भाषाका. कसात् ? लोकन्यापे तदलोक सरीषा संस्थान है. ४ (स्पर्श)—भाषाके पुद्गल तीव्र प्रयत्नसे बोलनहारके लोकके षट् दिग् चरम अंतकूं चार समयमें स्पर्श. ५ द्रव्य—भाषा द्रव्यथी अनंतप्रदेशी स्कंध लेवे. ६ क्षेत्र—भाषा क्षेत्रथी असंख्य प्रदेश अवगाह्या स्कंध ग्रहण करे. ७ काल—भाषा कालथी यथायोग्य अन्यतर स्थिति सर्व प्रकारनी. ८ भाव—भाषा भावथी वर्ण ५, गंध २, रस ५, स्पर्श ८ एह ग्रहण करे. ९ दिशा—भाषाके पुद्गल षट् ६ दिशाथी लेवे.

१० स्थिति—भाषाकी स्थिति जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त. ११ अंतर—भाषाका अंतर जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट वनस्पति काल. १२ ग्रहण—भाषाके पुद्गल कायायोगसे ग्रहण करे. १३ व्युत्सर्ग—भाषाकी वर्गणाकूं वचनयोगसे तजे-छोडे. १४ निरंतर—भाषाके पुद्गल प्रथम समये लेवे, दूजे समय नवे ग्रहण करे अने पीछले छोडे. एवं प्रकारे तीजे ४।५।६ यावत् अंतर्मुहूर्त ताई लेवे पीछेके छोडे; अंतसमये ग्रहण न करे, पीछले छोडे. इहां पहले समय तो लेवे ही अने चरम समयमे छोडे अने मध्यके असंख्य समयामे ले(वे) वी अने छोडे वी. ए दो बातें एकेक समयमे होवे.

(२३) शरीर पांचका यंत्रं श्रीप्रज्ञापना पद २१ मेथी.

नाम १	०	औदारिक १	वैक्रिय २	आहारक ३	तैजस ४	कार्मण
स्वामी २	०	मनुष्य १ तिर्यंच २	४ गतिना	चौदपूर्वधर मनुष्य	४ गतिना	४ गतिना जीव
संस्थान ३		६ षट्	२ मूले सम० १, हुंड २ उत्तर नाना	समचतुरस्र	नाना संस्थान	नाना संस्थान
प्रमाण ४	जघन्य	अंगुलके असं- ख्यमे भाग	अंगुलके असं- ख्यमे भाग	देशोन १ हस्त	अंगुलके असं- ख्यमे भाग	अंगुलके असं- ख्यमे भाग
	उत्कृष्ट	१००० योजन	१,००,००० योजन	१ हस्त प्रमाण	१४ रज्जु प्रमाण	सर्वे लोक प्रमाण
पुद्गल चयना ५		३।४।५।६ दिशासे	६ षट् दिशासे	६ षट् दिशासे	३।४।५।६ दिशासे	३।४।५।६ दिशासे
परस्पर पांच शरीरका संयोग द्वार ६	औदारिक	०	भजना है	भजना है	नियमा है	नियमा है
	वैक्रिय	भजना है	०	०	"	"
	आहारक	नियमा है	०	०	"	"
	तैजस कार्मण	भजना है	भजना है	भजना है	०	०
अल्प- बहु- त्व ७	द्रव्यार्थे	३ असंख्येय गुणा	२ असंख्येय गुणा	१ सर्वेभ्यः स्तोक	४ अनंत गुणा	४ अनंत गुणा
	प्रदेशार्थे	"	"	"	" "	५ "

१ बधाथी ।

नाम १	०	औदारिक १	वैक्रिय २	आहारक ३	तैजस ४	कार्मण ५
द्रव्यार्थे प्रदेशार्थे उभय	द्रव्यार्थे	३ असं० गुणा	२ असं० गुणा	१ स्तोक	७ अनंत गुणा	७ अनंत गुणा
	प्रदेशार्थे	६ असंख्येय गुणा	५ ”	४ अनंत गुणा	८ ”	९ ”
अवगाह- नाकी अल्प- बहुत्वम् ८	जघन्य	१ स्तोक	३ ”	४ असंख्येय गुणा	२ विशेषाधिक	२ विशेषाधिक
	उत्कृष्ट	२ संख्येय गुणा	३ संख्येय गुणा	१ स्तोक	४ असंख्येय	४ असंख्येय गुणा
	जघन्य	१ स्तोक	३ असंख्येय गुणा	४ असंख्येय	२ विशेषाधिक	२ विशेषाधिक
	उत्कृष्ट	६ संख्येय गुणा	७ संख्येय गुणा	१ विशेषाधिक	८ असंख्येय	८ असंख्येय गुणा

योनियंत्र पन्नवणा पद ९ थी

१ संवृत योनि ते ढंकी हुइ; देव, नरक, स्थावरनी. २ विवृत-उघाडी योनि, विकलेंद्रीनी. ३ संवृतविवृत-ढंकी वी उघाडी वी, विकलेंद्री वा गर्भजवत्. ४ सचित्त योनि-जीवप्रदेश संयुक्त, स्थावरादिवत्नी. ५ अचित्त-जीव रहित योनि, देवता नारकीनी. ६ मिश्र योनि-सचित्त अचित्त-रूप, गर्भजनी. ७ शीत योनि-शीत उत्पत्तिस्थान, नारक आदिनी. ८ उष्ण योनि-उष्ण उत्पत्ति-स्थान; नरक, तेजस्काय आदिकनी. ९ शीतोष्ण-उभय उत्पत्तिस्थान; मनुष्य, देव, आदिकनी. १० शंखावर्त योनि, स्त्रीरत्नकी; जीव जन्मे नहि. ११ कूर्मोन्नत योनि-कंछुवत् ऊंची; तीर्थकर, चक्री, बलदेव (और) वासुदेवनी माता. १२ वंशीपत्रा योनि; पृथगूजननी माता, सामान्य स्त्रीनी.

(२४) ८४ लाख योनि संख्या

पृथ्वीकाय	७ लाख	द्विद्री	२ लाख
अप्काय	” ”	तेद्री	२ ”
तेजस्काय	” ”	चौरिद्री	२ ”
वायुकाय	” ”	देवता	४ ”
बादर निगोद	” ”	नारकी	४ ”
सूक्ष्म निगोद	” ”	तिर्यंच पंचेद्री	४ ”
प्रत्येक वनस्पति	१० ”	मनुष्य	१४ ”

१ काचबानी पेटे ।

(२५) कुल १९७५०००००००००००० एक कोडाकोडी ९७५० लाख कोड कुल है.

पृथ्वी	१२ लाख कोटि	जलचर	१२॥ लाख कोटि
अप्	७ " "	स्थलचर	१० " "
तेज	३ " "	खेचर	१२ " "
वायु	७ " "	उरग	१० " "
वनस्पति	२८ " "	भुजग	९ " "
बेंद्री	७ " "	मनुष्य	१२ " "
तेंद्री	८ " "	देवता	२६ " "
चौरिंद्री	" "	नारकी	२५ " "

अथ संघयणस्वरूपम्

१ वज्रऋषभनाराच—संहनन-अस्थिसंचय, वज्र तो कीली १, ऋषभ-परिवेष्टन २, नाराच-उभय मर्कटबंध ३, दोनो हाड आपसमें मर्कटबंधस्थापना, ऋषभ उपरि वेष्टन-स्थापना. वज्र उपरि तीनो हाडकी भेदनेहारी कीली ते स्थापना. काली रेखा वज्र कीली है.

२ ऋषभनाराच—ऋषभनाराचमे उभय मर्कट बंध १, नाराच उपरि वेष्टन, कीली नहीं. स्थापनाईस.

३ नाराच—मर्कटबंध तो है; अने वेष्टन अने कीली एह दोनो नहीं. स्थापना.

४ अर्धनाराच—एक पासे कीली अने एक पासे मर्कटबंध ते अर्धनाराच स्थापना.

५ कीलिका—दोनो हाडकी वींधनेहारीनि केवल एक कीली, मर्कटबंध नहीं ते. कीलिकाकी स्थापना.

६ सेवार्त्त—दोनो हाडका छेहदाही स्पर्श है, ते सेवार्त्त. छेदवृत्त छेयट्ट इति नामांतर, स्थापना.

अथ षट् संस्थानस्वरूप यंत्रं स्थानांगात्

१ समचतुरस्र—सम कहीये शास्त्रोक्त रूप, चतुर कहीये चार, अस्र कहीये शरीरना अवयव है जेहने विषे ते समचतुरस्र; सर्व लक्षण संयुत एक सो आठ अंगुल प्रमाण ऊंचा.

२ न्यग्रोधपरिमंडल—न्यग्रोध-वडवत् मंडल नाभि उपरे. परि कहीये प्रथम संस्थानके लक्षण है; एतावता वडवत् नीचे नाभि ते लक्षण हीन; वड उपरे सम तैसे नाभि उपर सुलक्षणा.

३ सादि—नाभिकी आदिमे एत(ट)ले नाभिसे हेठे लक्षणवान् अने नाभिके उपरि लक्षण रहित ते 'सादि' संस्थान कहीये.

४ कुब्ज—हाथ, पग, मस्तक तो लक्षण सहित अने हृदय, पूठ, उदर, कौठा एह लक्षण हीन ते 'कुब्ज' संस्थान.

५ वामन—जिहा हृदय, उदर, पूठ ए सर्व लक्षण सहित अने शेष सर्व अवयव लक्षण हीन ते 'वामन'; कुब्जसे विपरीत.

६ हुंड—जिहा सर्व अवयव लक्षण हीन ते 'हुंड' संस्थान कहीये.

(२६) १४ बोलकी उत्पाद (उत्पात) भगवती (श० १, उ० २, सू० २५).

असंयत भव्य द्रव्यदेव. चरणपरिणाम शुना सिथ्यादृष्टि भव्य वा अभव्य द्रव्ये क्रियाना करणहार, निखिल समाचारी अनुष्ठान युक्त, द्रव्य-लिंगधारी पिण समदृष्टीना अर्थ न करणा ते निखिल क्रिया केवलसे	जघन्य भवनपतिमे उपजे	उत्कृष्ट उपरले त्रैवेय- कमे २१मे देव
अविराधितसंयम. प्रव्रज्याके कालसे आरंभी अभ्रजचारित्रपरिणाम प्रमत्त गुणस्थानमे वी चारित्रकी घात नही करी.	प्रथम देवलोके	सर्वार्थसि- द्धिमे २६
विराधिक संयत. उपरलेसे विपरीत अर्थ अने सुकुमालका जो दूजे देवलोके गई सो उत्तर गुण विराधि थी इस वास्ते अने इहां विशिष्टतर संयम विराधनाकी है.	भवनपतिमे	प्रथम देव- लोक
श्रावक आराधिक. जिसने व्रत ग्रहण थूलसे लेकर अखंड व्रत पालक श्रावक	प्रथम देवलोके	१२ मे स्वर्गे
विराधक श्रावक. उपरिले अर्थसे विपरीत अर्थ जानना.	भवनपतिमे	जोतिषीमे
तापस पड्यो हूये पत्रादिके भोगनेहारे बालतपस्वी	"	"
असंज्ञी. मनोलब्धि रहित अकाम निर्जरावान्	"	व्यंतरमे
कंदर्पि. व्यवहारमे तो चारित्रवंत भ्रमूह वदन मुख नेत्र प्रमुख अंग मटकवीने औरांकुं हसावे ते कंदर्पिक	"	प्रथम देव- लोके
चरगपरिव्राजक. त्रिदंडी अथवा चरग-कछोटकाय; परिव्राजक-कपिल मुनिना संतानीया.	"	ब्रह्मलोके ५ स्वर्गे
किब्विषिक. व्यवहारे तो चारित्रवान् पिण ज्ञानादिके अवर्ण बोले, जमालिवत्.	"	छठे देवलोके
तिर्यंच. गाय घोडा आदिकने पिण देशविरति जानना इति वृत्तौ.	"	८ मे देव- लोके
आजीविकामति. पाखंडिविशेष आजीविका निमित्त करणी करे, गोशालाना शिष्यानी परें.	"	१२ मे स्वर्गे
आभियोगिक. मंत्र यंत्रे करी आगलेकू वश करे. विशेषार्थ वृत्तौ.	"	"
खलिंगी दर्शनव्यापन्न. लिंग तो यतिका है, पिण सम्यक्त्वसे भ्रष्ट है, निहव इत्यर्थः.	"	२१ मे देव- लोक

१ "अह भंते ! असंजयभविद्यद्वदेवाणं १ अविराहियसंजमाणं २ विराहियसंजमाणं ३ अवि-

(२७) कालादेशेन सप्रदेशी अप्रदेशी

(कालकी अपेक्षासे सप्रदेशी अप्रदेशी)	आहारक	अणाहारी	भव्य अभव्य	नो भव्य नो अभव्य	संक्षी	असंक्षी	नो संक्षी नो असंक्षी	सलेशी	कृष्णनीलकापोत	तेजोलेख्य	पद्मशुक्ल	अलेशी	सम्यग्दृष्टि	मिथ्यादृष्टि	संयत	असंयत	देशवृत्ति	नो संयत नो असंयत नो श्रावक	सकषायी	क्रोधकषाय	मानमाया	लोभकषाय	अकषायी	
जीवाणं	सप्रदेशी	सप्रदेशी	स	३	३	३	३	सप्रदेशी	सप्रदेशी	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	सप्रदेशी	अभंग	अभंग	३	
नारकाणां	३	६	३	०	३	६	०	३	३	०	०	०	३	३	६	०	३	०	३	३	६	६	०	
देव-भवनपति १० व्यंतर जोतिषी वैमानिक	३	६	३	०	३	६	०	३	३	३	३	०	३	३	६	०	३	०	३	६	६	३	०	
पृथ्वी अप्वनस्पति	सप्रदेशी	सप्रदेशी	सप्रदेशी	०	०	सप्रदेशी	०	सप्रदेशी	सप्रदेशी	६	०	०	०	सप्रदेशी	०	०	सप्रदेशी	०	०	अभंग	अभंग	अभंग	अभंग	०
तेज वायु	सप्रदेशी	सप्रदेशी	सप्रदेशी	०	०	सप्रदेशी	०	॥	॥	०	०	०	०	॥	०	०	॥	०	०	॥	॥	॥	॥	०
विगलेंद्री ३	३	६	३	०	०	३	०	३	३	०	०	०	६	३	०	०	३	०	३	३	३	३	०	
तिर्यच पंचेंद्री	३	६	०	३	३	०	३	३	३	३	३	०	३	३	६	०	३	३	३	३	३	३	३	०
मनुष्य सिद्धानां	३	६	३	०	३	६	३	३	३	३	३	६	३	३	६	३	३	३	३	३	३	३	३	३

राहियसंजमासंजमाणं ४ विराहियसंजमासंजमाणं ५ असन्नीणं ६ तावसाणं ७ कंदप्पियाणं ८ चरग-परिव्वायगाणं ९ किव्विसियाणं १० तेरिच्छियाणं ११ आजीवियाणं १२ आभिओगियाणं १३ सल्लि-गीणं दंसणवावन्नगाणं १४ एएसि णं देवलोगेसु उववज्जमाणं कस्स कहिं उववाए पण्णत्ते ? गोयमा ! असंसंजयभवियदव्वदेवाणं जहन्नेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं उवरिमगेविज्जएसु १, अवि-राहियसंजमाणं जहन्नेणं सोहम्मं कण्णे उक्कोसेणं सब्बट्टसिद्धे विमाणे २, विराहियसंजमाणं जहन्नेणं

भगवती श० ६, उ० ४, सू० २३९

श्री वि हा नी	म ति श्रु त	अ व धि	म नः पर्य व	के व ल हानी	ओ घ अ हानी	म ति श्रु त अ हानी	वि भं ग हानी	स यो गी	म न व व न यो गी	का य यो गी	अ यो गी	सा का रो प यु क्त	अ ना का रो प यु क्त	स वे दी	श्री पु ठ ष वे दी	न पुं स क वे दी	अ वे दी	स श री री तै ज स का मं ण	औ दा रि क	वै क्रि य श री री	आ हा र क श री री	अ श री री	आ हा रा दि ४ पर्या प्त	भा षा म न २ पर्या प्त	आ हा र अ प ज्ज ती	श री रा दि ३ अ पर्या प्त	भा षा म न अ पर्या प्त		
३	३	३	३	३	३	३	३	स	३	३	३	अ भं ग	अ भं ग	३	३	३	३	स० अप्र	३	३	६	३	अ भं ग	३	अ भं ग	अ भं ग	३	३	
३	३	३	०	०	३	३	३	३	३	३	०	३	३	३	०	३	०	३	०	३	०	०	३	३	६	६	६	६	६
३	३	३	०	०	३	३	३	३	३	३	०	३	३	३	३	०	०	३	०	३	०	०	३	३	६	६	६	६	६
०	०	०	०	०	अ भं ग	अ भं ग	०	अ भं ग	०	अ भं ग	०	अ भं ग	अ भं ग	अ भं ग	०	अ भं ग	०	अ भं ग	अ भं ग	अ भं ग	०	०	०	अ भं ग	०	अ भं ग	अ भं ग	०	०
०	०	०	०	०	॥	॥	०	॥	०	॥	०	॥	॥	॥	०	॥	०	॥	॥	०	०	०	॥	०	॥	॥	०	॥	॥
६	६	०	०	०	३	३	०	३	०	३	०	३	३	३	०	३	०	३	३	०	०	०	३	३	३	६	३	३	३
३	३	३	०	०	३	३	३	३	३	३	०	३	३	३	३	३	०	३	३	३	०	०	३	३	३	६	३	३	३
३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	६	३	३	३	३	३	३	३	३	३	६	०	३	३	३	६	६	६	६
३	०	०	०	३	०	०	०	०	०	०	३	३	३	०	०	३	३	३	०	०	०	३	०	०	०	०	०	०	०

भवणवासीसु उक्कोसेणं सोहम्मे कप्पे ३, अविराहियसंजमा० २ णं जह० सोहम्मे कप्पे उक्कोसेणं अञ्जुए कप्पे ४, विराहियसंजमासं० जहन्नेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं जोतिसिएसु ५, असन्नीणं जहन्नेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं वाणमंतरेसु ६, अवसेसा सव्वे जह० भवणवा०, उक्कोसगं वोच्छामि— तावसाणं जोतिसिएसु, कंदप्पियाणं सोहम्मे, चरगपरिब्बायगाणं बंभलोए कप्पे, किंविंसियाणं लंतगे कप्पे, तेरिच्छियाणं सहस्सारे कप्पे, आजीवियाणं अञ्जुए कप्पे, आभिओगियाणं अञ्जुए कप्पे, सल्लिगीणं दंसणवावन्नगाणं उवरिमगेवेज्जएसु ॥ १४ ॥” (सू. २५)

(२८) आहारी अणाहारिक

	आ हा रि क अ णा हा री	भ व्य अ भ व्य	नो भ व्य नो अ भ व्य	सं क्षी	अ सं क्षी	नो सं क्षी नो अ सं क्षी	स ले री क ण नी ल का पो त	ते जो ले श्य	प म ले श्य गु रु	अ ले री	स म्य ग ह ष्टी	मि श्र ह ष्टी	मि थ्या ह ष्टी	सं य त	अ सं य त	श्रा व क	नो सं य त नो अ सं य त नो श्रा व क	स क षा यी	क्रो ध	मा न मा या	लो भ क षा य	अ क षा यी	स ह्वा नी	म ति शु त ह्वा नी	
जीवानां	अ भं ग	अ भं ग	अ णा हा री	३	अ भं ग	अ भं ग	अ भं ग	३	३	अ णा हा री	३	आ हा री	अ भं ग	३	अ भं ग	आ हा री	अ णा हा री	अ भं ग	अ भं ग	अ भं ग	अ भं ग	अ भं ग	३	३	
नारकाणां	३	३	०	३	६	०	३	०	०	०	३	॥	३	०	३	०	०	३	३	६	६	०	३	३	
देव-भवनपति व्यंतर जोतिषी वैमानिक	३	३	०	३	६	०	३	३	३	०	३	॥	३	०	३	०	०	३	६	६	३	०	३	३	
एकेंद्री पृथ्वी आदि ५	अ भं ग	अ भं ग	०	०	अ भं ग	अ भं ग	६	०	०	०	०	अ भं ग	अ भं ग	०	अ भं ग	०	०	अ भं ग	अ भं ग	अ भं ग	०	०	०	०	
विगलेंद्री	३	३	०	०	३	३	३	०	०	०	६	३	३	०	३	०	०	३	३	३	३	३	०	६	६
तियंच पंचेंद्री	३	३	०	३	३	३	३	३	३	०	३	आ हा री	३	३	३	आ हा री	३	३	३	३	३	३	३	३	३
मनुष्याणां	३	३	०	३	६	३	३	३	३	अ णा हा री	३	॥	३	३	३	॥	०	३	३	३	३	३	३	३	
सिद्धानां	अ णा हा री	०	अ णा हा री	०	०	अ णा हा री	०	०	०	॥	अ णा हा री	०	०	०	०	०	अ णा हा री	०	०	०	०	अ णा हा री	अ णा हा री	०	

श्रीपन्नवणा पद २८ मे उ. २

अ व धि ज्ञानी	म नः प र्य व	के व ल ज्ञानी	अ ज्ञानी मति श्रुत अ ३	वि भंग ज्ञानी	स योगी	म न व च न योगी	का य योगी	अ योगी	साकारो- पयुक्त अना- कारोप- युक्त	स वेदी	स्त्री वे द पु त्र वेदी	न पुं स क वेदी	अ वेदी	स शरीरी	श्री शरीरी	वै क्रिय आ हार क शरीरी	तै ज स कर्म ण	अ शरीरी	आ- हार १ शरीर २ आन- प्राण ३ इन्द्रि- य ४ भाषा मन ५	आ हार अ प र्या ती	श रीर अ प र्या ती	इ न्द्रि य अ प र्या ती	आ न प्रा ण अ प र्या ती	भा षा म न अ प र्या ती
३	आ हारी	अ भंग	अभंग	३	अ भंग	३	अ भंग	अ णा हारी	अभंग	अ भंग	३	अ भंग	अ भंग	अ भंग	३	आ हारी	अ भंग	अ णा हारी	३	अ णा हारी	अभंग	अ भंग	अ भंग	
३	०	०	३	३	३	३	३	०	३	३	०	३	०	३	०	०	३	०	आ हार क	३	६	६	६	
३	०	०	३	३	३	३	३	०	३	३	३	०	०	३	०	०	३	०	३	३	६	६	६	
०	०	०	अभंग	०	०	०	अ भंग	०	अभंग	अ भंग	०	अ भंग	०	अ भंग	०	आ हारी	अ भंग	०	३	३	अभंग	अ भंग	अ भंग	
०	०	०	३	०	३	३	३	०	३	३	३	०	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	
आ हारी	०	०	३	आ हारी	३	३	३	०	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	
३	आ हारी	३	३	३	३	३	३	अ णा हारी	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	
०	०	अ णा हारी	०	०	०	०	०	३	अ णा- हारी	०	०	०	अ णा हारी	०	०	०	०	अ णा हारी	०	०	०	०	०	

(२९) चरम अचरम यंत्र भगवती श० १८, उ० १, सू० ६१६

१ भाव	आहार २ संज्ञी ७ असंज्ञी ८ सलेशी १० यावत् शुक्लेशी १६ मिथ्यादृष्टि १९ मिश्रदृष्टि २० संयत २१ असंयत २२ संयता-संयत-श्रावक २३ सकषायी २५ यावत् लोभकषायी २९ मति-ज्ञानी ३२ यावत् मनःपर्यवज्ञानी ३५ अज्ञानी ४० सयोगी ४१ यावत् कायायोगी ४४ सवेदी ४८ यावत् नपुंसकवेदी ५१ सशरीरी ५३ यावत् कर्मणशरीरी ५८ पांच पर्याप्ती ६४ पांच अपर्याप्ती ६९ ५२	अणा-हारी ३ सम्य-दृष्टि १८ सज्ञानी ३१ साकारो पयुक्त ४६ अना-कारोप-युक्त ४७ ५	भ व सिद्धि क ४	अ भ व सिद्धि क ५	नोभव-सिद्धिक ६ नोअभव-सिद्धिक ६ नोसंयत नोअसंयत नोसंयता-संयत २४ अशरीरी ५९	नोसंज्ञी (नोसंज्ञी) नोअ-संज्ञी ९ अलेशी १७ केवल-ज्ञानी ३६ अयोगी ४५	अक-षायी ३० अवेदी ५२	२
जीवनाम्	चरम	चरम अचरम	अचरम	चरम	अच-रम	अचरम	अचरम	अचरम
२४ दंडके	चरम	" "	चरम	चरम	"	०	चरम	चरम
सिद्धा-नाम्	अच-रम	०	अचरम	०	०	अचरम	अचरम	अचरम

(३०) पदम अपदम यंत्रम् भगवती श. १८, उ. १, सू० ६१६

भाव १	आहारक २ भव्य २४ अभव्य ५ संज्ञी ७ असं-ज्ञी ८ सलेशी १० यावत् शुक्लेशी १६ मिथ्यादृष्टि १९ असंयत २२ सकषायी २४ यावत् लोभकषायी २९ अज्ञानी ३७ यावत् विभंगज्ञानी ४० सयोगी ४१ यावत् कायायोगी ४४ सवेदी ४८ यावत् नपुंसकवेदी ५१ सशरीरी ५३ औदारिक ५४ वैक्रिय ५५ तैजस आहारक ५६ ५७ कर्मण ५८ पांच पर्याप्ती ६४ पांच अपर्याप्ती ६९ ४६	अणाहारी ३ साकारोप-युक्त ४६ अनाकारो-पयुक्त ४७	सम्यग्-दृष्टि १८ सज्ञानी २३	नोभव-सिद्धिया (क) नो अभव-सिद्धिक नोसंयत नोअसं-यत नोसं-यतासं-यत २४ अशरीरी ५९	नोसंज्ञी नोअ-संज्ञी ९ अलेशी १७ केवल-ज्ञानी ३६ अयोगी ४५	अ-क-षायी ३० अ वे दी ५२	मिश्रदृष्टि २० संयत २१ संयता-संयत २३ मतिज्ञान ३२ यावत् मनःपर्यव-ज्ञानी ३५ आहारक शरीर ५६	८
-------	--	--	-----------------------------	---	--	------------------------	---	---

१ आनुं लक्षण भगवती (सू. ६१६) नी निम्नलिखित गाथामां नजरे पडे छे:-

"जो जेण पत्तपुव्वो भावो सो तेण अपदमो होइ ।

सेसेसु होइ पदमो अपत्तपुव्वेसु भावेसु ॥"

जीव	अपढम	अपढम	अपढमपढम	पढमअपढम	पढम	पढम	पढमअपढम	पढमअपढम
४ दंडके	”	”	”	पढमअपढम	०	”	”	”
द्धानाम्	पढम	०	पढम	पढम	पढम	”	पढम	०

जिसकूं एक समय उपज्या हूया है सो 'अप्रदेशी' जानना अने जिसकूं द्वि आदि समय वंत पर्यंत हूये है सो 'सप्रदेशी' जानना. इन चारो यंत्रोमे जिस दंडकमे जो बोल है तिसकी पेक्षा जानना अपनी विचारसें. अथ प्रथम अप्रथमका लक्षण—जिसने जो भाव पहिले पाभ्या 'प्रथम;' जिसने द्वि आदि वार पाभ्या सो 'अप्रथम'. अथ चरमअचरम लक्षण गाथा—

“जो जं पावहिति पुणो भावं सो तेण अचरिमे होइ (अचरिमो होंति?) ।

अचंतविओगो जस्स जेण भावेण सो चरिमो ॥”

‘जीवाहारग १-२ भव ३ सण्णी ४ लेसा ५ दिट्ठि ६ य संजय ७ कसाए ८ ।

गाणे ९ जोगुवओगे १०-११ वेए १२ य सरीर १३ पज्जती १४ ॥” ए मूल गाथा (पृ० ७३३) ॥

(३१) भगवती श० २६, उ० १ (सू० ८२४)

	सम्यत्त्वे १ वाद	मिश्रे २ वाद	मिथ्यात्वे ३ वाद	ओधिके ४ वाद
जीव मनुष्य २ ४६	अलेशी १ सम्यग्दृष्टि २ समुच्चयज्ञानी ३ यावत् केवलज्ञानी ८ नोसंज्ञोपयुक्त ९ अवेदी १० अकषायी ११ अयोगी १२	सम्यग्-मिथ्यादृष्टि	कृष्णपक्षी १ मिथ्यादृष्टि २ अज्ञानी ३ मति-श्रुत अज्ञानी ४-५ विभंगज्ञानी ६	सलेशी प्रमुख ७ शुक्लपक्षी ८ संज्ञा ४१२ सवेदी १३ क्रोधादि स्त्री पुरुष नपुंसक १६ सकषायी प्रमुख पांच २१ उपयोग दो २३ सयोगी प्रमुख ४, एवं सर्व बोल २७ हूये.
पंचेन्द्री तिर्यंच	३९ सम्यग्दृष्टि १ ज्ञानी २ मति-ज्ञानादि ३, एवं बोल ५.	”	कृष्णपक्षी आदि उपरला ६ बोल	सलेशी प्रमुख उपरला २७ बोल जानना
भवनपति व्यंतर	३६ ”	”	”	ए २७ माहिथी पद्म १ शुक्ल २ लेश्या नपुंसकवेद ३, ए ३ वरजीने शेष बोल २४
नरक	३४ ”	”	”	तेजो १ पद्म २ शुक्ल ३ स्त्रीवेद १ पुरुषवेद २, ए ५ वरजी शेष बोल बावीस २२

	सम्यत्त्वे १ वाद	मिश्रे २ वाद	मिथ्यात्वे ३ वाद	औघिके ४ वाद
वैमानिक	३५ सम्यग्दृष्टि १ ज्ञानी २ मति ज्ञानादि ३, एवं बोल ५.	सम्यग्- मिथ्यादृष्टि	कृष्णपक्षी आदि उपरला छ बोल	ए २७ माहिथी कृष्ण आदि ३ लेश्या नपुंसकवेद ४, ए ४ वरजी शेष २३
जोतिष	३३ "	"	"	ए २७ माहिथी कृष्ण आदि ३ लेश्या पक्ष ४ शुक्ल लेश्या ५ नपुंसकवेद ६, ए ६ वरजी शेष २१
वाद	० एक क्रियावादी लाभे १	अज्ञानवादी विनयवादी	अक्रिया १ अज्ञान २ विनय ३ वाद	क्रिया १ अक्रिया २ अज्ञान ३ विनयवादी ४
आयुबंध	मनुष्य तिर्यंच क्रियावादी आयु बांधे एक वैमानिकना नव मनुष्यमे अलेशी १ केवली २ अवेदी ३ अकषायी ४ अयोगी ५ एवं पांच बोलमे आयु न बांधे; देव नारकी क्रिया- वादी आयु बांधे मनुष्यना	आयु नहीं बांधे	मनुष्य तिर्यंच आयु चारों गतिका बांधे; देवता, नारकी मनुष्य तिर्यचना आयु बांधे	क्रियावादी मनुष्य तिर्यंच कृष्ण आदि तीन ३ संक्लिष्ट लेश्यामे आयु न बांधे; शेष बोलमे वर्तता आयु बांधे. वैमानिकना शेष ३ समव- सरण च्यारों गतिका देवता नारकी क्रियावादी मनुष्य-आयु बांधे; शेष समवसरण मनुष्य तिर्यचना एकेंद्री विकलेंद्रीमे समवसरण २ अक्रिया १ अज्ञान २ विकलेंद्रीमे सज्ञानी मति श्रुतज्ञानी आयु न बांधे. अनेरो एकेंद्रीमे तेजोलेश्यामे आयु न बांधे, शेष बोलमे आयु बांधे मनुष्य, तिर्यचना; तेउ, वायु, तिर्यचना आयु बांधे ॥ क्रियावादी १ मिश्रदृष्टी २ शुक्लपक्षी ३ ए निश्चय भव्य, शेषमे भजना । इति प्रथमोद्देशकः अनत- रोव० १ अनंतो गाढा २ अनतरो आहार ३ अनंतर पञ्जसगा ४. पहमे आयु २४ दंडके न बांधे. बोल जानसे नहीं पावे अलेश्यादि १२ सो जान लेने और सर्व प्रथम उद्देशवत्. अचरममे अलेशी १ केवली २ अयोगी नहीं और सर्व उद्देशा प्रथम- वत् ज्ञेयं. द्वारगाथा—“जीवा १ य लेस्स २ पक्खिय ३ दिट्ठी ४ अन्नाण ५ नाण ६ सन्नाओ ७ । वेय ८ कसाए ९ उवओग १० जोग ११ एक्कारस वि ठाणा ॥” (भग० सू० ८१०)

(३२) (गति वगैरेमे ज्ञान अज्ञान, भगवती श० ८, उ० २, सू० ३१९-३२१)

१	जीव ओबे	५ ज्ञान भजना	३ अज्ञान भजना	२-६	पृथ्वी आदि ५ काय	०	२ नि
१५	नारकी भवन-पति व्यंतर जोतिषी वैमानिक	३ नियमा	१ ३ भजना	७	त्रसकाय	५ भ	३ भ
				८	अकाय	१ नि	०
				१	सूक्ष्म	०	२ नि
२०	पृथ्वी आदि ५	०	२ नि	२	वादर	५ भ	३ भ
२३	विगलेंद्री ३	२ नि	२ नि	३	नोसूक्ष्मनो-वादर	१ नि	०
२४	तिर्यंच पंचेंद्री	३ भ	३ भ				
२५	मनुष्य	५ भ	३ भ	१	जीव पर्यासा	५ भ	३ भ
२६	सिद्ध	१ नि	०	२	पर्यासा नारक	३ नि	३ नि
	वाटे वहते पांच गतिना	ज्ञान	अज्ञान	१५	भवनपति व्यंतर जोतिषी वैमानिक पर्यासा	३ नि	३ नि
१-२	नरक गति देवगति	३ नि	३ भ	२०	पृथ्वी आदि ५ पर्यासा	०	२ नि
३	तिर्यंच गति	२ नि	२ नि	२३	विगलेंद्री पर्यासा	०	२ नि
४	मनुष्यगति	३ भ	२ नि	२४	पंचेंद्री तिर्यंच पर्यासा	३ भ	३ भ
५	सिद्धगति	१ नि	०	२५	मनुष्य पर्यासा	५ भ	३ भ
	इन्द्रिय	ज्ञान	अज्ञान	१	अपर्यासा जीव	३ भ	३ भ
१	सइंद्री	४ भ	३ भ	२	अपर्यासा नरक	३ नि	३ भ
२	एकेंद्री	०	२ नि	१३	भवनपति व्यंतर अपर्यासा	३ नि	३ भ
५	बेंद्री, तेंद्री चौरेंद्री ३	२ नि	२ नि	१८	पृथ्वीकाय आदि ५ अपर्यासा	०	२ नि
६	पंचेंद्री	४ भ	३ भ				
७	अनिंद्री	१ नि	०	२१	बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री अपर्यासा	२ नि	२ नि
	काय	ज्ञान	अज्ञान				
१	सकाय	५ भ	३ भ				

१ नारक, भवनपति अने व्यंतरमां त्रण अज्ञाननी भजना ।

२२	तिर्येच पंचेद्री अपर्याप्ता	२ नि	२ नि	१२	तस्य अलब्धि	४ भ	३ भ
				१३	अज्ञान लब्धि	०	३ भ
२३	मनुष्य अपर्याप्ता	३ भ	२ नि	१४	तस्य अलब्धि	५ भ	०
२५	जोतिषी वैमा- निक अपर्याप्ता	३ नि	३ नि	१५	मति श्रुत अज्ञान लब्धि	०	३ भ
२६	नोपर्याप्त-नोअप- र्याप्त	१ नि	०	१७	तयोः अल- ब्धिकौ	५ भ	०
१	नरक भवस्था	३ नि	३ भ	१८	विभंग लब्धि	०	३ नि
२	तिर्येच भवस्था	३ भ	३ भ	१९	तस्य अलब्धिया	५ भ	२ नि
३	मनुष्य भवस्था	५ भ	३ भ	२०			
४	देव भवस्था	३ नि	३ भ	१	दर्शन लब्धि	५ भ	३ भ
५	अभवस्था	१ नि	०	२	तस्य अलब्धि	०	०
१	भव्य	५ भ	३ भ	३	सम्यग्दर्शन- लब्धि	५ भ	०
२	अभव्य	०	३ भ	४	तस्य अलब्धि	०	३ भ
३	नोभव्य-नोअभव्य	१ नि	०	५	मिथ्यादर्शन लब्धि	०	३ भ
१	संज्ञी	४ भ	३ भ	६	तस्य अलब्धि	५ भ	३ भ
२	असंज्ञी	२ नि	२ नि	७	सम्यग् मिथ्या- दर्शन लब्धि	०	३ भ
३	नोसंज्ञी-नोअ- संज्ञी	१ नि	०	८	तस्य अलब्धि	५ भ	३ भ
१	ज्ञानलब्धि	५ भ	०	१	चारित्र लब्धि	५ भ	०
२	तस्य अलब्धि	०	३ भ	२	तस्य अलब्धि	४ भ	३ भ
४	मतिश्रुतक लब्धि	४ भ	०	३-६	सामायिक आदि ४ चारित्र लब्धि	४ भ	०
६	तयोः अलब्धि	१ नि	३ भ	१०	ते अलब्धि	५ भ	३ भ
७	अवधि-लब्धि	४ भ	०	११	यथाख्यात लब्धि	५ भ	०
८	तस्य अलब्धि	४ भ	३ भ	१२	तस्य अलब्धि	५ भ	३ भ
९	मनःपर्यव-लब्धि	४ भ	०	१	चरित्राचरित्र लब्धि	३ भ	०
१०	तस्य अलब्धि	४ भ	३ भ	२	तस्य अलब्धि	५ भ	३ भ
११	केवल-लब्धि	१ नि	०				

३-७	दान आदि ५ लब्धि	५ भ	३ भ	९	विभंग साकार	०	३ नि
१०	तस्य अलब्धि	१ नि	०	१०	अनाकार उप-योग	५ भ	३ भ
११	बालवीर्य लब्धि	३ भ	३ भ	११	चक्षुर्दर्शन अनाकार०	४ भ	३ भ
१२	तस्य अलब्धि	५ भ	०	१२	अचक्षुर्दर्शन अनाकार०	४ भ	३ भ
१३	पंडितवीर्य लब्धि	५ भ	०	१३	अवधिदर्शन अनाकार०	४ भ	३ भ
१४	तस्य अलब्धि	४ भ	३ भ	१४	केवलदर्शन अनाकार०	१ नि	०
१५	बालपंडितवीर्य लब्धि	३ भ	०	१	सयोगी	५ भ	३ भ
१६	तस्य अलब्धि	५ भ	३ भ	२	मनयोगी	५ भ	३ भ
१	इन्द्रिय लब्धि	४ भ	३ भ	३	वचनयोगी	५ भ	३ भ
२	तस्य अलब्धि	१ नि	०	४	काययोगी	५ भ	३ भ
३	श्रोत्रेन्द्रिय लब्धि	४ भ	३ भ	५	अयोगी	१ नि	०
४	तस्य अलब्धि	१ नि २ भ	२ नि	१	सलेक्ष्यी	५ भ	३ भ
५-६	चक्षुरिन्द्रिय प्राणेन्द्रिय लब्धि	४ भ	३ भ	६	कृष्ण आदि ५	४ भ	३ भ
७-८	तस्य अलब्धि	१ नि २ भ	२ नि	७	शुक्ल लेक्ष्या	५ भ	३ भ
९	जिह्वेन्द्रिय लब्धि	४ भ	३ भ	८	अलेक्ष्यी	१ नि	०
१०	तस्य अलब्धि	१ नि	२ नि	१	सकषायी	४ भ	३ भ
११	स्पर्शनेन्द्रिय लब्धि	४ भ	३ भ	२-५	क्रोध आदि ४	४ भ	३ भ
१२	तस्य अलब्धि	१ नि	०	६	अकषायी	५ भ	०
१	साकार उपयोग	५ भ	३ भ	१	सवेदी	४ भ	३ भ
२-३	मति श्रुत साकार०	४ भ	०	२-४	स्त्री पुं नपुंसक	४ भ	३ भ
४	अवधि साकार०	४ भ	०	५	अवेदी	५ भ	०
५	मनःपर्यव साकार०	४ भ	०	१	आहारिक	५ भ	३ भ
६	केवल साकार०	१ नि	०	२	अनाहारी	४ भ	३ भ
७-८	मति-अज्ञान श्रुत-अज्ञान साकार०	०	३ भ				

(३३) (द्रव्यादि अपेक्षासे ज्ञानका विषय भग० श० ८, उ० २, सू० ३२२)

जाणे देखे	द्रव्यधी	क्षेत्रधी	कालधी	भावधी
मति	आदेशे सर्वद्रव्य	सर्व क्षेत्र	सर्व काल	सर्व भाव
श्रुत	उपयोगे सर्व	सर्व क्षेत्र	सर्व काल	सर्व भाव
अवधि	जघन्य-अनंत रूपी द्रव्य अने उत्कृष्ट- सर्व रूपी द्रव्य	जघन्य-अंगुलका असंख्यातमा भाग; उत्कृष्ट-लोक सरीषा असंख्य अलोकखंड	जघन्य-आवलिकानो असंख्यातमो भाग; उत्कृष्ट-असंख्य उत्स- पिंणी अवसर्पिणी	जघन्य-अनंता भाव; उत्कृष्ट-सर्व भावके अनंतमे भाग जाणे देखे
मनःपर्यव	अनंतानंत प्रदेशी स्कंध, एवं उत्कृष्ट पिण	समयक्षेत्र ऊंचा नवसे, ९ योजन नीचा, अधोलोकना छु(क्षु)लक प्रतर	जघन्य-पल्योपमनो असंख्यातमो भाग; एवं उत्कृष्ट पिण	अनंता भाव; सर्व भावने अनंतमे भाग
केवल	सर्व द्रव्यम्	सर्व क्षेत्र	सर्व काल	सर्व भाव
मति अज्ञान	परिग्रह द्रव्य	परिग्रह	परिग्रह	परिग्रह
श्रुत अज्ञान	"	"	"	"
विभंग	"	"	"	"

स्थितिज्ञान—ज्ञानी दुप्रकारे—(१) सादि-अपर्यवसित, (२) सादि-सपर्यवसित. सादि-सपर्य० जघन्य-अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट-६६ सागर ज्ञाज्ञेरा. मति श्रुत जघन्य—अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट-६६ सागर ज्ञाज्ञेरा. अवधि जघन्य—१ समय, उत्कृष्ट ६६ सागर ज्ञाज्ञेरा. मनःपर्यव जघन्य—१ समय, उत्कृष्ट-देश ऊन पूर्व कोड. केवल सादि अपर्यवसित.

अज्ञानी त्रिधा—(१) अनादि-अपर्यवसित, (२) अनादि-सपर्यवसित, (३) सादि-सपर्यवसित. जघन्य-अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट-अर्धपुद्गल देश ऊन.

मति, श्रुत एवं उपरवत् त्रिधा ज्ञातव्यानि. विभंगज्ञानी जघन्य-१ समय, उत्कृष्ट-३३ सागर देश ऊन पूर्व कोड अधिकम्.

(३४) (अंतरद्वार जीवाभिगम प्रति० ९, उ० २, सू० २६७)

०	अंतर जघन्य	अंतर उत्कृष्ट
ज्ञानी	अंतर्मुहूर्त	देश ऊन अर्ध पुद्गलपरावर्त
मति श्रुत ज्ञानी	"	"
अवधिज्ञानी	"	"
मनःपर्यवज्ञानी	"	"

१ ओघधी, सामान्यधी । २ ए प्रमाणे उपरनी पेटे त्रण प्रकारे जाणवां ।

०	अंतर जघन्य	अंतर उत्कृष्ट
केवलज्ञानी	०	०
अज्ञानी	अंतर्मुहूर्त	६६ सागर साक्षेरा
मति श्रुत अज्ञानी	"	"
विभंगज्ञानी	"	वनस्पति काल अनंता

(३५) (अल्पबहुत्वद्वार प्रज्ञापना प० ३, सू० ६८)

ज्ञान अज्ञान	अल्पबहुत्व	८ कै अल्पबहुत्व	पर्यव अल्पबहुत्व	८ का पर्यव अल्प- बहुत्व
मति ज्ञान	३ वि	३ वि	४ अनंत	७ वि
श्रुत ज्ञान	४ वि तु ३	४ वि तुल्य	३ ,,	५ वि
अवधि	२ असं	२ असं	२ ,,	३ अनंत गुण
मनःपर्यव	१ स्तोक	१ स्तोक	१ स्तोक	१ स्तोक
केवल	५ अनंत	५ अनंत	५ अनंत गुण	८ अनंत
मति अज्ञान	२ अनंत	६-७ अनंत	३ अनंत गुण	६ अनंत
श्रुत अज्ञान	तुल्य २ अनंत	तुल्य ६	२ अनंत	४ अनंत
विभंग ज्ञान	१ स्तोक	४ असं	१ स्तोक	२ अनंत

द्वार गाथा—“जीव १ गति ५ इंदी ७ काय ८ सुहम्म ३ पञ्जत्त ३ भवत्थ ५ भव-
सिद्धिय ३ सन्ना ३ लद्धी ७ उवओग १२ जोगिय ५।१। लेसा ८ कसाय ६ वेदे ५ य आहारे
२ नाण गोयरे १७ काले १ अंतर १० अण्णावहुयं ८ पज्जवा ८ चेव दाराइं ॥ २२ ॥”

ज्ञानस्वरूपं नन्दी प्रज्ञापना आवश्यकनिर्णयुक्ति भगवती नन्दीवृत्तिसे लिख्यते—

मतिज्ञानके मुख्य भेद—१ अवग्रह, २ ईहा, ३ अवाय, ४ धारणा.

अर्थ अवग्रह आदि चारांका—सामान्यपणे अर्थने ग्रहे ते अवग्रह. यथा कोइ मार्गमें जातां
दूरसे कोइ जंचीसी वस्तु देखी इम जाणे इह कुछ तो है ते ‘अवग्रह’ ज्ञेयं । अवग्रहमें जे पदार्थ
ग्रहा है तिसका सञ्ज्ञत अर्थ विचारे जो इह क्या वस्तु है स्थाणु-ठुंठ है अथवा पुरुष है ऐसी
विचारणा करे सो ‘ईहा’ जाननी. ईहा अनंतर काल पदार्थनो निश्चय करे जो इह तो हाले चाले
इस वास्ते पुरुष है, पिण स्थाणु नहीं ते ‘अवाय.’ धारणाते अवाय अनंतर काले निर्णीत जे अर्थ
तेह धरी राखे ते. यथा ओही पुरुष है जो मैं देखा था ते ‘धारणा.’ धारणाके भेद—१ अवि-
च्युतिधारणा, २ वासनाधारणा, ३ स्मृतिधारणा. अर्थ तीनोंका—जो अर्थ धार्या है सो

उपयोगथी क्षणमात्र व्युत्ति-भूले नहीं ते 'अविव्युत्तिधारणा' है. स्थिति अंतर्मुहूर्तनी. जे वस्तुने उपयोग था तेह तो अंस हुया है पणि संस्कार रह गया है पुष्पवासनावत् तेहने 'वासनाधारणा' कहीये. स्थिति संख्यात असंख्यात कालनी. कालांतरे कोइक तादृश अर्थ(ना) दर्शनथी संस्कारने प्रबोधेकरी ज्ञान जागृत हुया जे में एह पूर्वे दीठा था ऐसी जो प्रतीति ते 'स्मृतिधारणा' ज्ञेयं

स्थिति अवग्रह आदि ४ की—अवग्रह एक समय वस्तु देखयां पछे विकल्प उपजे हं स्या (?). ईहा अंतर्मुहूर्त विचाररूप होणें ते. अवाय अंतर्मुहूर्त निश्चय करणे करके. धारणा वासना [श्री] संख्य असंख्य काल आयु आश्री. अवग्रहके दो भेद हे. दोनोका अर्थ—१ व्यंजनावग्रह. 'व्यंजन' शब्दना तीन अर्थ है. 'व्यंजन' शब्दनी व्युत्पत्ति करीने विचार लेना श्रोत्रादिक इन्द्रिय अने शब्दादिक अर्थनो जे अव्यक्तपणे—अप्रगटपणे संबंध तेहने 'व्यंजन' कहीये. अथवा व्यंजन शब्दादिक अर्थने पिण कहीये. अथवा व्यंजन श्रोत्रादिक इन्द्रियने पिण कहीये. एतलें एहवा शब्दार्थ नीपना—अप्रगट संबंधपणे करी ग्रहीये ते 'व्यंजनावग्रह' कहीये एह व्यंजनावग्रह प्रथम समयथी लेई अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल जानना. २ अर्थावग्रह. प्रगटपणे अर्थग्रहण ते 'अर्थावग्रह' कहीये. ते एक समय प्रमाण.

व्यंजनावग्रह चार प्रकारे—१ श्रोत्र इन्द्रिय व्यंजन अवग्रह, २ घ्राण इन्द्रिय व्यंजन अवग्रह, ३ रसना इन्द्रिय व्यंजन अवग्रह, स्पर्शन इन्द्रिय व्यंजन अवग्रह.

चार इन्द्रिय प्राप्यकारी कही तेहसं व्यंजनावग्रह होय. वस्तुने पामीने परस्परे अडकीने प्रकाश करे ते 'प्राप्यकारी' कहीये. अथवा विषय वस्तुथी अनुग्रह उपघात पामे ते 'प्राप्यकारी' कहीये. ते नयन वर्जित चार इन्द्रियां जाननी. नयन, मन ते अप्राप्यकारी है, श्रोत्रेन्द्रियव्यंजनावग्रह—श्रोत्रेन्द्रिये अव्यक्तपणे शब्दना पुद्गल प्रथम समयादिकने विषे ग्राहीइ है ते 'श्रोत्रेन्द्रिय व्यंजनावग्रह.' इसीतरे घ्राण, रसन, स्पर्शनके साथ अर्थ जोड लेना.

अर्थावग्रह ६ भेदे—१ स्पर्शनेन्द्रियार्थावग्रह, २ रसनेन्द्रियार्थावग्रह, ३ घ्राणेन्द्रियार्थावग्रह, ४ चक्षुरिन्द्रियार्थावग्रह, ५ श्रोत्रेन्द्रियार्थावग्रह, ६ नोइन्द्रियार्थावग्रह. स्पर्शनइन्द्रिये करी प्रगटपणे स्पर्श सित पुद्गलने ग्रहीये ते 'स्पर्शेन्द्रियार्थावग्रह.' एवं सर्वत्र जानना. नोइन्द्रिय मन है

ईहा षट् भेदे—१ स्पर्शेन्द्रियेहा, २ रसनेन्द्रियेहा, ३ घ्राणेन्द्रियेहा, ४ चक्षुरिन्द्रियेहा, ५ श्रोत्रेन्द्रियेहा, ६ नोइन्द्रियेहा. स्पर्शन इन्द्रिये करी गृहीत जे अर्थ तेहनुं विचारणा ते 'स्पर्शन-इन्द्रिय-ईहा.' एवं सर्वत्र.

अवाय ६ भेदे—१ स्पर्शनेन्द्रियावाय, २ रसनेन्द्रियावाय, ३ घ्राणेन्द्रियावाय, ४ चक्षुरिन्द्रियावाय, ५ श्रोत्रेन्द्रियावाय, ६ नोइन्द्रियावाय. स्पर्शन इन्द्रिये गृहीत वस्तु विचारी तिसका निश्चय करना ते 'स्पर्शनेन्द्रियावाय.' एवं सर्वत्र ज्ञेयं.

धारणा षट् भेदे—१ स्पर्शनेन्द्रियधारणा, २ रसनेन्द्रियधारणा, ३ घ्राणेन्द्रियधारणा, ४ चक्षुरिन्द्रियधारणा, ५ श्रोत्रेन्द्रियधारणा, ६ नोइन्द्रियधारणा. स्पर्शन इन्द्रिये जे वस्तु गृही विचारी निश्चय करी धरी राखनी ते 'स्पर्शनेन्द्रियधारणा'. एवं सर्वत्र.

ए छ चोक चौबीस अने चार व्यंजनावग्रह एवं २८ भेद श्रुतनिश्चित मतिज्ञानके है, अने अश्रुतनिश्चित मतिना भेद औत्पत्तिकी आदि ४ बुद्धि सो तिनका विस्तार नन्दीसे ज्ञेयं, तथा श्रुतनिश्चित मतिज्ञानके ३३६ भेद है सो लिख्यते—१ बहुग्राही, २ अबहुग्राही, ३ बहुविधग्राही, ४ अबहुविधग्राही, ५ क्षिप्रग्राही, ६ अक्षिप्रग्राही, ७ अनिश्रित, ८ निश्चित, ९ असंदिग्ध, १० संदिग्ध, ११ ध्रुव, १२ अध्रुव. इनका अर्थ—कोइ एक क्षयोपशमना विचित्रपणाथी अवग्रह आदिके करी एक बेला बजाया जो भेरी, शंख प्रमुख तेहना शब्द न्यारा न्यारा जाणे ते 'बहुग्राही' अने एक अव्यक्तपणे तुर्यनी ही ज ध्वनि जाणे ते 'अबहुग्राही'. अने जे वली स्त्री प्रमुखनी बजाया मधुर आदि घणा पर्याये करी शंख प्रमुखनी ध्वनि जाणे ते 'बहुविधग्राही'. तेहथी एक विपर्यय जाणे ते 'अबहुविधग्राही'. जे शब्द आदि कद्या ते क्षिप्र-उता-बला जाणे ते 'क्षिप्रग्राही.' अने एक वली विमासीने मोडा जाणे ते 'अक्षिप्रग्राही'. एक लिंगे जाणे ते 'निश्चित,' ध्वजा देखी देहरा जाणे. विपर्यय जाणे 'अनिश्चित.' जे संशय विना जाणे ते 'असंदिग्ध.' संशय सहित जाणे ते 'संदिग्ध.' अने जे एक वारनो जाण्यो सदा जाणे पिण कालांतरे परना उपदेशनी वांछा न करे ते 'ध्रुव' कहीये. विपर्यय 'अध्रुव.' एह वारे भेदस्य पहिले २८ भेदकू गुणीये तो ३३६ मतिज्ञानना भेद होय है.

१ ईहा, २ अपोहा, ३ विमर्शा, ४ मार्गणा, ५ गवेषणा, ६ संज्ञा, ७ स्मृति, ८ मति, ९ प्रज्ञा—मतिके एकार्थ(क) नाम. एह नव मतिके नाम है.

अथ मतिज्ञान नव द्वार करी निरूपण करीये है—

१ संत० (सत्०) छता पद प्ररूपणा—मतिज्ञान किहां किहां लाभे? २ द्रव्यप्रमाण—एक कालसे कितने जीव मतिज्ञानवंत लाभे? ३ क्षेत्र—मतिज्ञानवंत कितने क्षेत्रमे है? ४ स्पर्शना—मतिज्ञानवान् कितना क्षेत्र स्पर्श्ये है? ५ काल—मतिज्ञान कितना काल रहै है? ६ अंतर—मतिनो अंतर. ७ भाग—मतिज्ञानी अन्यज्ञानीयोके कितमे(ने?) भाग? ८ भाव—मतिज्ञान षट् भावमे कौनसे भावे है? ९ अल्पबहुत्व—मतिज्ञान पूर्वप्रतिपन्नाप्रतिपद्यमान, इनमे घणे कौनसे अने स्तोक कौनसे?

(३६) छतापद द्वार वीसे भेदे यंत्र

सत् पद प्ररूपणा २० द्वारे	मति है वा नहीं ?	पृथ्वी अप् तेज वायु वनस्पति	नास्ति	जहां तीनो योग एकठेमे ४	अस्ति
चारो गतिमे १	है	त्रसकायमे ३	अस्ति	स्त्री पुरुष नपुंसक वेदे ५	अस्ति
एकेंद्री बेंद्री तेंद्री चौरेंद्रीमे प्राये	नही	एकांत काय- योगे	नास्ति	अनंतानुबंधी चौकडीमे	नही
पंचेंद्रीमे २	अस्ति	एकांत वचने काये	"		

१ अल्प ।

७

वारां कषायमे ६	अस्ति	केवलदर्शनमे १०	नास्ति	पर्याप्तमे	अस्ति
पहिली तीन भाव लेश्यामे	नास्ति	संयत ५ मे ११	अस्ति	लब्धि अपर्याप्तमे १६	नास्ति
उपरली तीन लेश्यामे ७	अस्ति	साकार अनाकार मे १२	"	सूक्ष्ममे	"
सम्यक्त्वमे	"	आहारी अनाहारी मे १३	"	बादरमे १७	अस्ति
मिथ्यात्व ५ मे ८	नास्ति	भापालब्धिवानमे	"	संज्ञीमे	"
मति आदि ४ ज्ञानमे	अस्ति	जिसके भाषाकी लब्धि नही १४	नास्ति	असंज्ञीमे प्राये १८	नास्ति
केवलज्ञानमे ९	नास्ति	प्रत्येक शरीरीमे	अस्ति	भव्यमे	अस्ति
चक्षु आदि ३ दर्शनमे	अस्ति	साधारण शरी- रीमे १५	नास्ति	अभव्यमे १९	नास्ति
				चरममे	अस्ति
				अचरममे २०	नास्ति

इति सत्पद द्वार १

२ द्रव्यप्रमाणद्वार—मतिज्ञानी सदा असंख्याता लाभे इति. ३ क्षेत्रद्वारे—मतिज्ञानी सारे एकठे करे तो लोकके असंख्यातमे भाग व्यापे. ४ स्पर्शनाद्वार—मतिज्ञानी लोकके असंख्यातमे भाग स्पर्श; क्षेत्र जो एक प्रदेश ते स्पर्शना सात प्रदेशकी होती है. ५ कालद्वार—मतिज्ञानकी स्थिति जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट ६६ सागरोपम झञ्जेरा. उपयोग आश्री मतिज्ञानी स्थिति अंतर्मुहूर्त. ६ अंतरद्वारे—मतिका अंतर, जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट देश ऊन अर्ध पुद्गलपरावर्त. ७ भागद्वार—मतिज्ञानी सर्व ज्ञानी अनंतमे भाग अने सर्व अज्ञानीके अनंतमे भाग. ८ भावद्वार—मतिज्ञान क्षयोपशम भावे है. ९ अल्पबहुत्वद्वार—नवा मतिज्ञान पडि वधनेवाले स्तोक है अने पूर्वे पडि वध्या असंख्यात गुणे. इति मतिज्ञान. अलम्.

अथ श्रुतज्ञानस्वरूप लिख्यते—१ अक्षर श्रुत, २ अनक्षर श्रुत, ३ संज्ञी श्रुत, ४ असंज्ञी श्रुत, ५ सम्यक् श्रुत, ६ मिथ्या श्रुत, ७ अनादि श्रुत, ८ अपर्यवसित श्रुत, ९ सादि श्रुत, १० सपर्यवसित श्रुत, ११ गमिक श्रुत, १२ अगमिकश्रुत, १३ अंगप्रविष्ट श्रुत, १४ अनांगप्रविष्ट श्रुत.

अथ इन चौदका अर्थ लिख्यते—१ अक्षर श्रुत. जीवसे कदापि न क्षरे ते 'अक्षर'. तेह अक्षर श्रुत तीन प्रकारका है. संज्ञाक्षरं. जाणीये जिस करी ते 'संज्ञा' कहीये; तेहनुं कारण जे अक्षर-पंक्ति तेहने 'संज्ञाक्षर' कहीये. ते ब्राह्मी लिपि आदि करी अष्टादश (१८) भेदे ए द्रव्यश्रुत कहीये. एहथी भावश्रुत होता है. भावश्रुतका कारणने 'द्रव्यश्रुत' कहीये. २ व्यंजनाक्षरं. 'व्यंजन' ते अकारादि अक्षरना उच्चारने कहीये. ते अर्थका व्यंजक है—बोधक है. एतले अकारादि अक्षरना उच्चारने 'व्यंजन' कहीए. ते व्यंजन अक्षरश्रुत अनेक प्रकारका है. एक मात्राये उचरीए ते 'इस्व' कहीये. दो मात्राये उचरीये ते 'दीर्घ' कहीये. तीन मात्राए उचरीए ते 'प्लुत' कहीये.

इत्यादिक भेद जैनेन्द्र व्याकरणसे जानना. ए पणि द्रव्यश्रुत कहीये. ३ लब्ध्यक्षरं, अक्षर उचरवानी लब्धि अथवा अक्षरार्थ समजावनेकी लब्धि ते 'लब्ध्यक्षर' कहिये. तथा लब्ध्यक्षरश्रुत छ प्रकारे है. स्पर्शनेन्द्रियलब्ध्यक्षरं. स्पर्शन-इन्द्रिये मृदु, कर्कश आदि स्पर्श पामीने अक्षर जाणे जे अर्क, तूल आदि ऊर्ण, वस्त्र आदिक शब्दार्थने विचारे ते 'स्पर्शनेन्द्रियलब्ध्यक्षर' श्रुत कहीये. एवं पांचे इन्द्रियनी विषयका समझना. एवं मनकी वस्तुके अक्षर समझने ते 'नोइन्द्रियलब्ध्यक्षर' श्रुत.

अथ दूजा भेद अनक्षर श्रुत—जिहां स्पष्टपणे अक्षर भासे नही तेहने 'अनक्षर श्रुत' कहीये. ते उच्छ्वास निःश्वास निष्ठीवन काश श्रुत सीटी आदिक अनेक प्रकारे जानना.

अथ संज्ञी श्रुत—जेहने संज्ञा हुइ तेहने 'संज्ञी' कहीये. तेहनो श्रुत ते 'संज्ञी श्रुत' कहीये. ते संज्ञी श्रुत तीन प्रकारना है. तेहना स्वरूप यंत्रात्—

(३७) संज्ञीश्रुतस्वरूपयंत्रम्

(३८) असंज्ञीश्रुतस्वरूपयंत्रम्

दीर्घ- कालिकी उपदेशेन संज्ञी १	जो प्राणीने पूर्वापर अर्थनी दीर्घ विचारणा हुइ पूर्वे इम था, संप्रति इम है, आगे एवमस्तु-इम होवेगी ऐसा विचारे तेहने 'दीर्घकालिकी उपदेशेन—उपदेश करी संज्ञी' कहीए. ते गर्भज मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, मनःपर्याप्तना धारक जानना. इति दीर्घकालिकी
हेतु उपदेशेन संज्ञी २	जे प्राणी स्वदेह पालनेके अर्थे इष्ट आहार आदिमें प्रवर्ते, अनिष्टथी निवर्ते इतनाही जाणे पिण ओर कछु पूर्वापर अर्थ न जाणे तेहने 'हेतूपदेशेन संज्ञी कहीये.' ते संमूर्च्छिम पंचेन्द्रिय मनुष्य, तिर्यंच, विकलेन्द्रिय प्राणी जानना.
दृष्टिवाद उपदेशेन संज्ञी ३	दृष्टिवाद० जे प्राणीने सम्यग्दृष्टि हुइ वीतराग भाषित वचन उपरि रुचि हुइ ते 'दृष्टिवादोपदेशे करी संज्ञी.' चौथे गुणस्थानसे प्रारंभी सब जीव ज्ञेयं.

दीर्घ कालिकी उपदेशेन असंज्ञी १	जे प्राणी पूर्वापर विचार न जाणे तिसकूं 'दीर्घकालिकी) उपदेशे करी असंज्ञी' कहीये. ते संमूर्च्छिम पंचेन्द्रिय मनुष्य, तिर्यंच, विकलेन्द्रिय, एकेन्द्रिय जानना.
हेतु उपदेशेन असंज्ञी २	जे प्राणी स्वदेह पालनेके अर्थे इष्ट वस्तु आहार आदिकके वास्ते प्रवर्ती न शके अने अनिष्ट थकी निवर्ती न शके ते स्यावर-नाम-कर्मके उदय करी तेहने 'हितो(हेतू)पदेशे करी असंज्ञी' कहीये.
दृष्टिवाद उपदेशेन असंज्ञी ३	जे प्राणीने मिथ्यादृष्टि प्रबल हुइ वीतरागनां वचन अनेकांत-स्याद्वा-दरूप जाण्यां नही ते प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव जानना. ते दृष्टिवाद उपदेशे करी असंज्ञी.

अथ पांचमा भेद सम्यक्श्रुतना कहीये है. सम्यक्श्रुतं जे श्रीजिनेन्द्र देवने वचन अनुसारे गौतम आदि गणधर रचित जे द्वादश अंग ते 'सम्यक्श्रुत' कहीये. तथा चौदा पूर्व धारीनो रच्यो यावत् दशपूर्वधारीनो रच्यो ते पिण 'सम्यक्श्रुत' जानना. दश पूर्वमे किंचित् न्यून हुइ तेहनो भाष्यो सम्यक्श्रुत हुइ अने नही पिण हुइ, "अभिन्नदसपुत्रि जस्स समसुर्यं तेण परं भयणा" इति वचनात्.

१ इ । २ जन । ३ अभिन्नदशपूर्वाणि यस्य समश्रुतं तेन परं भजना ।

अथ छद्वा भेद-‘मिथ्याश्रुतं’. मिथ्यादृष्टिनो भाष्यो जे भारत आदि वेद ४ प्रमुख जानना. इहां वली एक विचार है. सम्यक्श्रुत जो मिथ्यादृष्टि पढे तो ‘मिथ्याश्रुत’ कहीए. ते कोइ नयभेद समजे नही, रुचि पिण न हुइ तिवारे अनेकांतकूं एकांत परूपीने विघटा देवे, इस वास्ते ‘मिथ्याश्रुत’ कहीये. अने जो सम(म्यग्)दृष्टि मिथ्याश्रुत पढे तो ते ‘सम्यक् श्रुत’ कहीए. ते शास्त्र भणीने पूर्वापर विचारे तिवारे अणमिलता लागे वेदमे पूर्वे तो इम कह्या है जे- “न हिंसेत् (हिंस्यात्) सर्वभूतानि” पीछे फिर ऐसे कह्या है “यज्ञे पशून् हिंसेत्” ऐसा देखीने विचारे जो ए वचन तो परस्पर बाधित है तो धन्य श्रीवीतराग त्रिलोकपूजित जिहनी वाणी अनेकांत-स्याद्वादरूप किहां ही बाधित नही. एह छद्वा भेद श्रुतना.

सादि श्रुत सातमा द्रव्ये, क्षेत्रे, काले, भावे करी चार प्रकारका है. द्रव्यथी एक पुरुष आश्री श्रुतनी आदि है. जिहां सम्यक्त्व पाइ तहांसे आदि है. क्षेत्रथी पंच भरत, पंच ऐरवतनी अपेक्षा आदि है; प्रथम तीर्थकरने उपदेशे प्रगट हूया. कालथी अवसर्पिणी कालना त्रीजा आराके अंते, उत्सर्पिणीमे त्रीजे आरेके धुरे उपजे इस अपेक्षा आदि है. भावथी. अत्र भाव ते उपयोग कहीए. जद(ब) श्रुतमां उपयोग दीया तिहां आदि कहीये. इति सप्तमं.

(३९)

	द्रव्यथी	क्षेत्रथी	कालथी	भावथी
सपर्यवसित श्रुतयंत्रं ८	एक पुरुष आश्री सम्यक्त्व वमी वा केवल पास्या तदा अंत श्रुतनो.	पंच भरत, पंच ऐरवते जिनशासन विच्छेद आश्री अंत श्रुतनो	अवसर्पिणीमे पंचमे आरेके अंते, उत्सर्पिणीमे चौथेमे अंत	उपयोग नही तदा अंतश्रुत ज्ञाननो
अनादि श्रुत ९	घणे पुरुष आश्री अनादि श्रुत जानना	विदेह आश्री अनादि सर्वाद्वा तीर्थ	नोअवसर्पिणी-नोउत्सर्पिणी आश्री	क्षयोपशम भाव आश्री प्रवाह सदा अनादि
अनंत दशमा	सर्व पुरुष आश्री अंत नही श्रुतनो	सर्व क्षेत्र आश्री अंत नहीं	नोअवसर्पिणी-नोउत्सर्पिणी आश्री अंत नही	क्षयोपशम भाव आश्री अंत नही

गमिक श्रुत एक सदृश सूत्र है, पिण किंचित् विशेष पामीने वार वार उचरे ते ‘गमिक श्रुत’ कहीए. ते बाहुल्येन दृष्टिवाद जानना. अगमिक श्रुत बारमा. गमिकथी विपरीत ते ‘अगमिक’ ते आचारांग आदि जानना कालिक श्रुत इति. अंगप्रविष्ट द्वादशांगी जानना. अनंगप्रविष्टके दो भेद-आवश्यक. अवश्य करीये ते ‘आवश्यक’ ते सामायिक आदि षड् अध्ययन. दूजा भेद आवश्यकतिरिक्तं. ते आवश्यकथी भिन्नना दो भेद-कालिक मे दिवस निशानी प्रथम पश्चिम

पोरसीमे पढीये ते 'कालिक'-उत्तराध्ययन आदि, नंदीसे जानना. उत्कालिक-दशवैकालिक प्रमुख जानना. इन १४ भेदमे लौकिक लोकोत्तर भेद है सो समज लेना. एह चौदा भेद पुरा हूये.

अथ श्रुतज्ञान लेनेकी विधि लिख्यते—

(४०)

सुस्सुसइ १	पडिपुच्छइ २	सुणेइ ३	गिणहइ ४	ईहए ५	अपोहइ ६	धारेइ ७	करेइ ८
शिष्य सिद्धांत लेनेहार होवे तो प्रथम एक चित्तपणे गुरुना मुहथी नीकल्या वचन सांभलने वांछे ए प्रथम गुण है.	संदेह पडे विनय करी नमन होकर फेरकर पूछे ए दूजा गुण.	तथा जे गुरु संदेहना अर्थ कहै ते अछीतरे सावधान होकर सुणे.	पीछे जे संदेह नो अर्थ गुरे कह्या ते अर्थ रूडी परे प्रहण कर रखे.	ते अर्थ वळी पूर्वापर विरोध टाळीने हृदयमे विचार ना करे.	ते अर्थ विचारीने पछी निश्चय करे एह वात इम ही है.	पीछे ते अर्थ हियेमे धारी राखे, विस्मृत न हुइ.	पछे जे अनुष्ठान जिस विधिसे कह्या है तिस विधिसे करे ए आठमा गुण जानना.

(४१) सात प्रकारे शास्त्र सुननेकी विधियंत्र

मूअ १	हुंकार २	वादकार ३	पडिपुच्छ ४	विमंसा ५	पसंगपराय ६	परीयण ठिय ७
प्रथम जद शिष्य गुरु कन्है अर्थ सुणे तद विनय करी शरीर संकोची मौन करे.	दूजी वार अर्थ सुणीने मस्तक नमाय कर हुंकारा देवे.	तीजी वार गाढा प्रगट बोले हे भगवन्! ए वात इम ज है, अन्यथा नही.	चौथी वार संदेह ऊठे तो प्रश्न पूछे.	पांचमी वार ते अर्थ हियेमे विचारे.	छठी वार ते अर्थके पार जाय.	सातमी वारे गुरुनी परे शिष्य अर्थ कहै.

अथ शिष्य प्रते गुरु सिद्धांतना अर्थ किस रीतसे कहे ते वात कहीए है. गाथा—

“सुंत्तथो खलु पढमो बीओ निज्जुत्तिमीसओ भणिओ ।

तइओ य निरवसेसो एस विही होइ अणुओगो ॥”

सुत्त० पहिलां गुरु सूत्रना अक्षरार्थ मात्र अछीतरे प्रकाशे; तिहां विशेष कांइ न कहइ. किस वास्ते? पहिला विशेष कहतां शिष्यनी बुद्धि मूढ हो जावे, कुछ भी समजे नही. पीछे दूजी वार अर्थ जाण्या पीछे निर्युक्ति सहित सूत्र विशेष बखाणे. ते विशेष रूडी परे जाण्या पीछे वली तीजी वारे शिष्यने निरवशेष ते सूत्र माहिला विशेष अने सूत्रमे जो न कह्या गम्य शेष आदि सगला प्रकाशे. ए सिद्धांतना अनुयोग कहीए अर्थ कहेवानी विधि जाननी. इति श्रुतज्ञानस्वरूप संक्षेपथी संपूर्ण.

१ सूत्रार्थ: खलु प्रथमो द्वितीयो निर्युक्तिमिश्रको भणितः । तृतीयश्च निरवशेष एष विधिर्भवत्यनुयोगः ॥

अथ अवधिज्ञानस्वरूप कथ्यते—अवधिना भेद असंख्य, अनंत है. ते सर्वका स्वरूप नाही लिख्या जावे है; इस वास्ते चौदे भेदे अवधिज्ञाननउ निक्षेप कहीए स्थापना कहुं हुं (?) अने पंदरवे द्वारे ऋद्धिप्राप्त कहीए लब्धिवंत, तिस वास्ते कितनीक लब्धिना स्वरूप कहसुं. अवधिना चौदे द्वारका नाम यंत्रसे जानना—

१ अवधि—अवधिज्ञानना प्रथम द्वारे नाम आदिक भेद कथन करियेंगे. २ क्षेत्रपरिमाण—अवधिज्ञानका क्षेत्रपरिमाण कथना. ३ संस्थान—अवधिज्ञानका संस्थान—आकारविशेष कहना. ४ अनुगामी—अनुगामी एक अवधि लोचननी परे धणीके साथ जावे ते 'अनुगामी' अने जे धणीके साथ न जावे ते 'अननुगामी' तेहना स्वरूप. ५ अवस्थित—जैसा अवधि उपज्या है तितना ही रहै, वधे घटे नहीं ते 'अवस्थित'. ६ चल—वधे घटे परिणामविशेषे ते 'चल' अवधि कहीये. ७ तीव्र मंद—कितनाका अवधि चोखा ते 'तीव्र', डोहरारूप ते 'मंद' कहीये. ८ प्रतिपाति—अवधिना उपजणो विणसनो ते 'प्रतिपाति'. ९ ज्ञान—ज्ञानद्वारे वखाणवो. १० दर्शन—दर्शनद्वारे वखाणवो. ११ विभंग—मिथ्यात्वीका अवधिज्ञान ते 'विभंग'. १२ देश—अवधि देश थकी उपजे अने सर्व थकी उपजे. १३ क्षेत्र—क्षेत्र विषे संबद्ध असंबद्ध विचाले अंतर हूइ ते. १४ गति—गहंदिक्काये मतिज्ञानवत् वीस द्वारे. १५ ऋद्धिप्राप्त—लब्धिका स्वरूप. एह सामान्य प्रकारे द्वारनामार्थकथनम्.

(४२) अथ प्रथम अवधिज्ञानना नामद्वारमे नामादि छ प्रकारे

स्थापनासार्थकयंत्रं

नाम-अवधि १	स्थापना-अवधि २	द्रव्य-अवधि ३	क्षेत्र-अवधि ४	काल-अवधि ५	भव-अवधि ६	भाव-अवधि ७
नाम-अवधि जीवका अथवा अजीवका 'अवधि' ऐसा नाम देवे ते 'नाम-अवधि; अथवा अवधि ऐसा जो नाम ते 'नाम- अवधि' कहीए.	स्थापना-अवधि अवधिज्ञानीये जे द्रव्य अथवा क्षेत्र दीठा है तिसका जो आकार अथवा अवधिना धणी जे पुरुष तेहनो जे आकार स्थापीये ते स्थापना-अवधि कहीये.	द्रव्य-अवधि अवधिज्ञाननो धणी पुरुष जिस अवसरमे असावधान होय तथा उपयोग रहित 'अवधि' शब्द उचरे ते 'द्रव्य- अवधि.'	जिस क्षेत्रमे रहीने अवधिज्ञाने करी वस्तु देखे ते 'क्षेत्र- अवधि' कहीए.	तथा काल- अवधि. जिस कालमे अवधि उपजे ते 'काल-अवधि; अथवा जिस कालमे अवधिका व्याख्यान करे-प्रकाशे ते 'काल-अवधि' कहीये	भव-अवधि नारकीने भवे अथवा देवताने भवविषये जे अवधि- ज्ञान उपजे ते 'भव- अवधि' ज्ञान कहिये	भाव-अवधि क्षयोपशम आदि भावे जे अवधिज्ञान उपजे ते 'भाव- अवधि; अथवा जे द्रव्यनापर्याय तेहने 'भाव' कहिये ते भाव आश्री जे अवधि ते 'भाव-अवधि.' इति सप्तार्थ.

अथ दूजा क्षेत्रपरिमाणद्वार कहे है—तीन समयका उपनो आहारक सूक्ष्म पनक फूलिननो जीव तेहनो शरीर जितना बडा होवे ग्हे (है ?) तितना अवधिज्ञानी जघन्य क्षेत्र देखे. हिवै सूक्ष्म पनक जीव कथा ते कैसा ते कत कहे है. सहस्र योजन प्रमाण शरीर जे मत्स्य हुइ ते मत्स्य मरीने पहिले समय आपणा शरीर नऊं कडाह संहरीने सहस्र योजन प्रमाण प्रतर कहीये. मांडा (मादा) रूप थइ अने बीजे समये ते शरीर नउ प्रतर संहरीने सहस्र योजन प्रमाण सूचीने आकारे हुये अने तीजे समये ते सूचीरूप शरीर संहरीने सूक्ष्म रूप थइने ते मत्स्यनो जीव आपणा शरीर बाहिर जे पनग हूये तिस माहे उपजे ते 'सूक्ष्म पनक' कहीए. जब तीन समयका उपना आहार करे तेहनो शरीर जितना बडा होवे तितना क्षेत्र अवधिज्ञानी जघन्य जाणे. इति जघन्य अवधिक्षेत्रम्.

अथ अवधिका उत्कृष्ट क्षेत्र कहीये है—श्रीअजितनाथने वारे पंदरे कर्मभूमे उत्कृष्टा घणा मनुष्य हुइ अने अग्निनो आरंभ मनुष्य ज करे तिस वास्ते बादर अग्निना जीव पिण घणा हुइ; ते बादर अने सूक्ष्म अग्निका जीवांकी श्रेणि माडीइ ते श्रेणि इतनी बडी नीपजे लोकमे व्यापी अलोकमे लोक सरीषा असंख्याता खंड व्यापे ते श्रेणि अवधिज्ञानीने शरीरे लगाइने चारो ओर फेरीये तिस श्रेणिने चारो ओर असंख्य रज्जु परमाणु जितना क्षेत्र स्पर्शा है तितना क्षेत्र उत्कृष्ट परम अवधिज्ञानी देखे. अलोकमे देखने योग्य वस्तु तो नही, पिण शक्ति इतनी है जो कर वस्तु होती तो देखता. इति उत्कृष्ट अवधिक्षेत्रम्.

अथ अवधिज्ञान आश्री क्षेत्रनी वृद्धिये कितना काल वधइ अने कालनी वृद्धिये कितना क्षेत्र वधे ते (४३) यंत्रात्—

	क्षेत्रथी जाणे		ते कालथी कितना जाणे ?
१	अंगुलके असंख्यातमे भाग	१	ते आवलिके असंख्यमे भाग
२	” संख्यातमे ”	२	” ” संख्यातमे भाग
३	एक अंगुल प्रमाण क्षेत्र	३	एक आवलिका ऊणी
४	पृथक् अंगुल क्षेत्र देखे	४	” ” पूरी जाणे
५	एक हस्त ” ”	५	अंतर्मुहूर्तनी वात जाणे
६	” कोश ” ”	६	एक दिवस ऊणी किंचित्
७	” योजन ” ”	७	पृथक् दिवस ९ ताइं
८	२५ ” ” ”	८	एक पक्ष किंचित् न्यून

	क्षेत्रथी जाणे		ते कालथी कितना जाणे ?
९	भरतक्षेत्र परिमाण देखे	९	अर्ध मास कालथी
१०	जंबूद्वीप देखे ते	१०	एक मास झाञ्जेरा
११	अह्वाइ द्वीप परिमाण देखे	११	एक वर्ष कालथी
१२	रुचक द्वीप तेरमा	१२	पृथक् वर्ष
१३	संख्याते द्वीप देखे ते	१३	संख्याता कालकी वात
१४	संख्याते वा असंख्य द्वीप	१४	कालथी असंख्य काल

संख्याते योजन परिमाण द्वीप समुद्र असंख्याते देखे; असंख्य योजन परिमाण द्वीप संख्याते देखे.

हिवै द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एह चारोमे वृद्धि हुइ कौनसेकी वृद्धि हुइ अने कौनसे की न हुइ ते (४४) यंत्रम्—

काल वधे	क्षेत्र वधे	द्रव्य वधे	पर्याय वधे
द्रव्य ,,	क्षेत्र काल भजना	काल भजना	काल भजना
क्षेत्र ,,	द्रव्य वधे	क्षेत्र ,,	क्षेत्र ,,
भाव ,,	भाव ,,	पर्याय वधे	द्रव्य ,,

इस यंत्रका भावार्थ—काल आश्री जिवारे अवधिज्ञान वृद्धि हुइ तदा क्षेत्र, द्रव्य, पर्याय एह तीनो वधे अने क्षेत्रकी वृद्धि हुये कालकी भजना कहनी—वधे वी अने नही वी वधे. किस वास्ते ? क्षेत्र अतिसूक्ष्म है अने काल स्थूल—मोटा कहा है तिस वास्ते जो घणा क्षेत्र वधे तो काल वधे अने जो थोडा क्षेत्र वधे तो काल कुछ भी नही वधे इति भावः. वली क्षेत्रनी वृद्धि होय तो द्रव्य अने पर्याय निश्चय ही वधे. किस वास्ते ? क्षेत्रथी द्रव्य अतिसूक्ष्म है. एक आकाशप्रदेश क्षेत्रमे अनंता द्रव्य समा रखा है. अने द्रव्यथी पर्याय अतिसूक्ष्म है. कौसात् ? एक द्रव्यमे अनंती पर्याय पीत रक्त आदि है तिस वास्ते क्षेत्र वधे द्रव्य, पर्याय दोनो वधे. तथा द्रव्य अने पर्यायके वधे क्षेत्र कालके वधनेकी भजना. द्रव्य अने पर्याय सूक्ष्म है अने क्षेत्र काल मोटा है इस वास्ते वधे अने नही पिण वधे. तथा द्रव्य वधे पर्याय निश्चय वधे अने पर्याय वधे द्रव्य वधे वी अने नही पिण वधे.

पालणपुरनिवासी दोसी काळीदास सांकळचंद तरफथी तेमनां मातुश्री
स्व. बाई परसनबाईना स्मरणार्थे.

इयवर्गणा१	इयवर्गणा२	अथवर्गणास्वरूप इहलोकसर्वश्लोक लगुजुल्लेकरीनस्याहे तेजुजुलकिम२हे।
कालवर्गणा३	नाववर्गणा४	तेकदीयेहे उजुलकीन्यारीन्यारीवर्गणाहे
उदारीकअयोग्यवर्गणा५		वर्गणाहे सरीषा२इयवनाथोकडाकहीए
उदारिकअयोग्यवर्गणा६		तेवर्गणाउयरदोष२काल३नाव४श्रीधवार५
उज्याऽअयोग्यवर्गणा७		कारेहे तेकिमएकपरमाणुएकलाइमजि
वैकिय अयोग्यवर्गणा८		तनापरमाणुयाहेतेहनीएकवर्गणाजाननी
उज्याऽअयोग्यवर्गणा९		दोदोपरमाणुमिलरहेहेतेहनीइजीवर्गणा
आहारकअयोग्यवर्गणा१०		इमतीनतीननीतीजीएकवार२नीइमसख्या
उज्याऽअयोग्यवर्गणा११		तेपरमाणुये असंखपरमाणुये अनंतपर
तेजसअयोग्यवर्गणा १२		माणुयेतेहनीन्यारी२वर्गणाजाननीइमइय
उज्या अयोग्यवर्गणा१३		वर्गणाअनतीलियहे इतिइयवर्गणा१अथ
नाथाअयोग्यवर्गणा १४		दोत्राश्रीजेपरमाणुयाअथवामोलाइयए
उज्याऽअयोग्यवर्गणा १५		केआकाशापदेशेर स्यातेसर्वनीएकवर्गणा
आनप्राणअयोग्यवर्गणा१६		एमदोपदेशेर स्यानीइजीवर्गणा इमतालो१।
अनयअयोग्यवर्गणा१७		लेनाजालगअसंखपदेश्यापतेहनीन्यारी२
कर्मअयोग्यवर्गणा१८		वर्गणादोत्राश्रीअसंख्यातीइहे२ तथाका
उज्याऽअयोग्यवर्गणा १९		लाश्रीतेएकपरमाणु दोपरमाणुएवतीनवा
अनयअयोग्यवर्गणा२०		र संखवति असंखवतिअनतेमरणएकवेमि
अनयअयोग्यवर्गणा२१		लरसिहे इममेजितन्याकीएकसमयकीस्ति
अनयअयोग्यवर्गणा२२		तिहेतिनसर्वकीएकवर्गणा एकत्रोसमय
अनयअयोग्यवर्गणा२३		रहेतेहनीइजीवर्गणा इमअसंखसमयस्ति
अनयअयोग्यवर्गणा२४		तिलगअसंखवर्गणाजानलेनीइतथा
अनयअयोग्यवर्गणा२५		वश्रीतेदिजपरमाणुया कितनेककालाकित
अनयअयोग्यवर्गणा२६		नाश्रीधवलाकितनानीला कितनापीला इमव
अनयअयोग्यवर्गणा२७		ण गंधरसस्यर्जकरीजेपरमाणुन्यारा२ऊइ
अनयअयोग्यवर्गणा२८		तेसर्वनीन्यारी२अनतीवर्गणाजाननी४एवध
अनयअयोग्यवर्गणा२९		वर्गणा तथा कितनाकजुल्लस्केधयो जापरमाणु
अनयअयोग्यवर्गणा३०		अनेवादरपरिणामहे तेउदारिकशरीरनेअ
अनयअयोग्यवर्गणा३१		योग्यहेतिसवास्तेउदारिकअयोग्यवर्गणा५
अनयअयोग्यवर्गणा३२		कहीये तिसथीअधिकसरजुल्लस्केधमह
अनयअयोग्यवर्गणा३३		रकशरीरनेपरिणामायायोग्यहेतेउदारीकयो
अनयअयोग्यवर्गणा३४		ग्यवर्गणा६ तेहथीअधिकजुल्लमयस्केध
अनयअयोग्यवर्गणा३५		सइमपरणामीहेतेउदारिकनेयोग्यनदीअ
अनयअयोग्यवर्गणा३६		नेवैकियाश्रीयाजापरमाणुहेअनेवादरप
अनयअयोग्यवर्गणा३७		रिणामहे तिसवास्तेवैकियकेकामनदीआ
अनयअयोग्यवर्गणा३८		वैइसवास्तेउज्याऽअयोग्यवर्गणाकहीये ५ एवं
अनयअयोग्यवर्गणा३९		कर्मअयोग्यवर्गणाताइतीनतीनवर्गणाजाननी
अनयअयोग्यवर्गणा४०		एकअयोग्यइजीवर्गणाअनतीनउज्याऽअयोग्य
अनयअयोग्यवर्गणा४१		अथउदारिकवतएववर्गणा२०हेतीहेअ
अनयअयोग्यवर्गणा४२		थ२श्रीधववर्गणानास्वरूपकर्मवर्गणाश्री

ॐ

जैनाचार्य श्री १००८ श्रीविजयानंदसूरीश्वरजीकृत नवतत्त्वसंग्रहनी
स्वहस्ते लखेली प्रति उपरथी.

हिवै पीछे कालथी क्षेत्र सूक्ष्म कक्षा ते कितरमे भाग सूक्ष्म है ते वात कहीये है. प्रथम तो काल सूक्ष्म. एक चुटकी वजातां असंख्य समय वीते. तेह थकी क्षेत्र असंख्यात गुणा सूक्ष्म. एक अंगुल मात्र क्षेत्रमे जितने आकाशप्रदेश है ते समय समय एकेक काढतां असंख्याती अवसर्पिणी बीते. क्षेत्रथी द्रव्य सूक्ष्म अनंत गुणा. एकेक प्रदेशमे अनंते द्रव्य है. ते द्रव्यथी पर्याय सूक्ष्म अनंत गुणी. एकेक द्रव्यमे अनंती है.

अथ हिवै जदा पहिलां अवधिज्ञान उपजे तदा पहिलां कौनसा द्रव्य देखे ते वात कहीये है—ते पुरुष आदिकने जद पहिलां अवधिज्ञान उपजे ते पहिलां तैजस शरीर योग्य जे द्रव्य अने भाषा योग्य जे द्रव्य ते दोनोके विचाले जे अयोग्य द्रव्य है, ते द्रव्य कैसा है? कुछ भारी है, कुछ हलका है ते 'गुरुलघु' कहीये अने जे भारी पिण न हुइ अने हलका पिण न हुइ ते 'अगुरुलघु' कहीये. जघन्य अवधिज्ञानना घणी गुरुलघु, अगुरुलघु ए दोनोही देखे. एक कोइ तैजस शरीरके समीप है ते गुरुलघु है अने जे भाषाद्रव्यके समीप है ते अगुरुलघु है. पीछे जे जघन्य अवधि कक्षा तिसके स्वरूपके वास्ते वर्गणाका स्वरूप लिख्यते—

(१) द्रव्यवर्गणा, (२) क्षेत्रवर्गणा, (३) कालवर्गणा, (४) भाववर्गणा, (५) औदारिक अयोग्य वर्गणा, (६) औदारिक योग्य वर्गणा, (७) उभय अयोग्य वर्गणा, (८) वैक्रिय योग्य वर्गणा, (९) उभय अयोग्य वर्गणा, (१०) आहारक योग्य वर्गणा, (११) उभय अयोग्य वर्गणा, (१२) तैजस योग्य वर्गणा, (१३) उभय अयोग्य वर्गणा, (१४) भाषा योग्य वर्गणा, (१५) उभय अयोग्य वर्गणा, (१६) आनप्राण योग्य वर्गणा, (१७) उभय अयोग्य वर्गणा, (१८) मन योग्य वर्गणा, (१९) उभय अयोग्य वर्गणा, (२०) कर्म योग्य वर्गणा, (२१) ध्रुव वर्गणा, (२२) योग्य ध्रुव वर्गणा, (२३) अयोग्य ध्रुववर्गणा, (२४) अध्रुववर्गणा, (२५) शून्यतरवर्गणा, (२६) अशून्यतरवर्गणा, (२७) ध्रुवानंतरवर्गणा, (२८) तनुवर्गणा, (२९) मिश्र स्कंध, (३०) अचित्त महास्कंध.

अथ वर्गणा स्वरूप—इह लोक सर्व अलोक लग पुद्गले करी भर्या है. ते पुद्गल किम किम है ते कहीये है. पुद्गलकी न्यारी न्यारी वर्गणा है. 'वर्गणा' शब्दे सरीषा सरीषा द्रव्यना थोकडा कहीए. ते वर्गणा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावथी चार प्रकारे है. ते किम? एक परमाणु एकला इम जितना परमाणुया है तेहनी एक वर्गणा जाननी. दो दो परमाणु मिल रहे है तेहनी दूजी वर्गणा. इम तीन तीननी तीजी. एवं चार चारनी. इम संख्याते परमाणुये, असंख्य परमाणुये, अनंत परमाणुये तेहनी न्यारी न्यारी वर्गणा जाननी. इम द्रव्यवर्गणा अनंती होय है. इति द्रव्यवर्गणा. अथ क्षेत्र आश्री जे परमाणुया अथवा मोटा द्रव्य एके आकाशप्रदेशे रखा ते सर्वनी एक वर्गणा. एम दो प्रदेशे रखानी दूजी वर्गणा. इम तां लगे लेना जां लग असंख्य प्रदेश व्यापे. तेहनी न्यारी न्यारी वर्गणा क्षेत्र आश्री असंख्याती हुइ है. तथा काल आश्री ते एक परमाणु, दो परमाणु एवं तीन, चार, संख्याते, असंख्याते, अनंते परमाणु एकटे

मिले रहे है. इनमे जितन्याकी एक समयकी स्थिति है तिन सर्वकी एक वर्गणा. एकत्र दो समय रहै तेहनी दूजी वर्गणा. इम असंख्य समयस्थिति लग असंख्याती वर्गणा जान लेनी. तथा भाव आश्री तेहि ज परमाणुया कितनेक काला, कितना ही धवला, कितना नीला, कितना पीला इम वर्ण, गंध, रस, स्पर्श करी जे परमाणु न्यारा न्यारा हुइ ते सर्वनी न्यारी न्यारी अनंती वर्गणा जाननी. एवं ४ वर्गणा. तथा कितनाक पुद्गलस्कंध थोडा परमाणु अने बादर परिणामे है ते औदारिक शरीरने अयोग्य है तिस वास्ते 'औदारिक अयोग्य वर्गणा' ५ कहीये. तिसथी अधिकतर पुद्गलस्कंध औदारिक शरीरने परिणमावा योग्य है ते 'औदारिक योग्य वर्गणा.' ६ तेहथी अधिक पुद्गलमय स्कंध सूक्ष्म परिणामी है ते औदारिकने योग्य नही अने बैक्रिय आश्री थोडा परमाणु है अने बादर परिणाम है तिस वास्ते बैक्रियके काम नही आवे; इस वास्ते 'उभय अयोग्य वर्गणा' ७ कहीये. एवं कर्म योग्य वर्गणा तांइ तीन तीन वर्गणा जाननी:—एक अयोग्य, दूजी योग्य, तीजी उभय अयोग्य. अर्थ औदारिकवत्. एवं वर्गणा २० होती है. अथ २१ मी ध्रुववर्गणाना स्वरूप—कर्मवर्गणाथी अधिक पुद्गलमय एकोत्तर वृद्धिं अनंत परमाणुरूप ध्रुववर्गणा है. इह वर्गणा चउदा रज्ज्वात्मक लोकमे सदैव पामीये, इस वास्ते 'ध्रुव वर्गणा' २१ कहीये. पिण एह एकोत्तर वृद्धिये वधती अनंती जाननी. पीछे औदारिकादि वर्गणा जगमे सदैव लाभे; तिस वास्ते तिनका नाम 'योग्य ध्रुववर्गणा' २२ कहीये. अने ए २१ मी ध्रुववर्गणा अतिसूक्ष्म परिणाम बहुद्रव्यमय भणी औदारिकादिने योग्य नही, तिस वास्ते इसकीही संज्ञा 'अयोग्य ध्रुववर्गणा' २३ है. ते ध्रुववर्गणाथी अधिक पुद्गलमय वली एक अध्रुववर्गणा है. ते पुद्गलद्रव्य चउदे रज्ज्वात्मक लोकमे कंदे पामीये कंदे नहि पामीये, इस वास्ते इसका 'अध्रुववर्गणा' २४ नाम. एह पिण एकोत्तर वृद्धि वाधती अनंती जाननी. एह पिण औदारिकादिकने योग्य नही, सूक्ष्म अने बहुद्रव्यत्वात्. तिसथी अधिक पुद्गलमय 'शून्यतर वर्गणा' हे. शून्यतर क्या कहीये? एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु इम एकेक परमाणु करी वर्गणा वधे तां लगे जां लगे अनंता परमाणु मिले पिण ए वर्गणा वधतां वीचमे. एकोत्तर वृद्धिनी हाण पडे अने वली पांच सात परमाणु लगे एकोत्तर वृद्धि वधे अने वीचमे वली एकोत्तर वृद्धिनी हाण पडे इम एकोत्तर वृद्धि आश्री वीचमे शून्य पडे; इस वास्ते 'शून्यतर वर्गणा.' २५ एह पिण अनंती जाननी. तथा तिसथी अधिक पुद्गलमय अशून्यतर वर्गणा है. ते वर्गणामे एकोत्तर वृद्धि आश्री वीचमे शून्य न पडे; इस वास्ते 'अशून्यतर वर्गणा' २६ ऐसा नाम. एह पिण औदारिकादिने योग्य नही. तेहथी अधिक पुद्गलमय चार प्रकारे 'ध्रुवानंतर वर्गणा' है. इस जगतमे सदैव लाभे, तिस वास्ते ध्रुव अने आरंभ्या पीछे एकोत्तर वृद्धिका अंतर न पडे, इस वास्ते अनंतर दोनो; मिली 'ध्रुवानंतर' नाम. चार भेद मोटा. एकोत्तर वृद्धिये अंतर पडे पहिली. एक फेर एकोत्तर वृद्धि अनंत लग वधीने फेर मोटा अंतर ए दूजी. एवं चार जान लेनी. २७ ध्रुवानंतरथी अधिक पुद्गलमय एकोत्तर वृद्धिये वधती चार 'तनु

वर्गणा' है. ते पिण ध्रुवानंतर वर्गणावत् बीच बीच अंतर पडनेसे चार प्रकारे जाननी. ते औदारिक आदि पांच शरीरने योग्य तो नही पिण अगले पुद्गलके विछडनेसे अने नवे पुद्गलके मिलनेसे घटती वधती शरीरने योग्यता अभिमुख हुइ; तिस वास्ते ते 'तनु वर्गणा' २८ नाम. ध्रुवानंतर वर्गणावत् चार भेद जानने. तेहथी अधिक पुद्गलमय एक मिश्र स्कंध है. एह स्कंध घणा सूक्ष्म है अने कुछक बादर परिणामे है. इन दोनो परिणामके वास्ते 'मिश्र स्कंध' नाम. तेहथी अधिक पुद्गलमय 'अचित्त महास्कंध' है. ते घणा पुद्गल एकठा मिली ढिग रूप होता है. ते 'अचित्त महास्कंध' विस्रसा परिणामे करी केवलिसमुद्धातनी परे चउदे रज्ज्वात्मक लोक व्यापे अने चार समयमे पीछे फिर कर स्वस्थानमे आवे. इम सर्व समय आठ जानने. एह स्कंध कदे हूये अने कदे नही बी होय. पुद्गल तो सर्व अचित्त ही है, तो इसका नाम 'अचित्त स्कंध' कयुं कहा इति प्रश्न. अथ उत्तरम्—केवली जद समुद्धात करे तदा जीवना प्रदेशे करी मिश्र जे कर्मना पुद्गल तिण करी सर्व लोक व्यापे ते 'सचित्त कर्म पुद्गल' कहीये. तिसके टालने वास्ते 'अचित्त' शब्द कीधा. इति संक्षेप करके वर्गणा स्वरूपम्.

इण औदारिक आदि द्रव्यमे कौनसा गुरुलघु है अने कौनसा अगुरुलघु है ए वात कहीये है. औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस ए चार द्रव्य अने तैजस द्रव्यके नजीक जे द्रव्य है (ते) सर्व द्रव्य 'गुरुलघु' है, बादर परिणाम करके; अने कार्मण, मनोद्रव्य, भाषाद्रव्य, आनप्राणद्रव्य अने भाषाद्रव्यके समीपका द्रव्य ते सर्व सूक्ष्म परिणाम करके 'अगुरुलघु' कहीये. जघन्य अवधिके विषयके ए गुरुलघु अने अगुरुलघु द्रव्य जाने देखे.

हिवै द्रव्यकी वृद्धि हूया क्षेत्र, काल कितना वधे ए वात कहीये है. (४५) यंत्रसे इसका स्वरूप—

द्रव्यथी	क्षेत्रथी	कालथी
मनोद्रव्य देखते	लोकका संख्यातमा भाग	पल्योपमका संख्यातमा भाग
कर्मद्रव्य ,,	” ” ”	” ” ”
ध्रुवानंतर वर्गणा, शून्यतर वर्गणा आदि देखे	चौद रज्ज्वात्मक लोक देखे	पल्योपम किंचित् न्यून देखे
तैजस, कार्मण शरीर तैजस-योग्य भाषायोग्य वर्गणा देखे.	असंख्य द्वीप, समुद्र देखे	असंख्य काल देखे

अथ परमावधि ज्ञानना धणी उत्कृष्टा कौनसा सूक्ष्म द्रव्य देखे ते वात कहीये है—क्षेत्रके एक प्रदेशे रखा परमाणु द्रव्यणुक आदिक द्रव्य परमावधिनो धणी देखे. अने कार्मण शरीर देखे. कार्मण शरीर असंख्याते प्रदेश नियमा अवगाहवे है. उत्कृष्ट अवधिनो धणी जितना अगुरुलघु द्रव्य जगमे है ते सर्व देखे. जो तैजस शरीर अवधिनो धणी देखे तो कालथी नव भव लगे देखे. ते नव भव असंख्य काल प्रमाणके जानने.

हिवै परमावधिनो धणी कितना क्षेत्र जाणे अने कितना काल जाणे ए वात कहीये है.
(४६) यंत्रम्—

द्रव्यथी	क्षेत्रथी	कालथी	भावथी
सूक्ष्म, बादर सर्व रूपी द्रव्य देखे	सर्व लोक अन्निके सर्व जीवाकी सूची प्रमाण अलोकमे देखे	असंख्याती अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल देखे	एकेक द्रव्य प्रते संख्याता पर्याय देखे परमावधि

एह अवधि मनुष्य आश्री कह्या. हिवै तिर्यच आश्री अवधिज्ञान कहीये है. पंचेन्द्रिय तिर्यच
अवधिज्ञाने करी औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस ए सर्व द्रव्य देखे अने इसके मापेका क्षेत्र,
काल, भाव आपे विचारणा कर लेनी. एह मनुष्य तिर्यचने क्षयोपशमक अवधिज्ञान कह्या.

(४७) हिवै भवप्रत्यय नारकी देवताना अवधिमे प्रथम नारकीना अवधि क्षेत्र यंत्र
लिख्यते—

विषय	रत्नप्रभा	शर्कराप्रभा	वालुकाप्रभा	पंकप्रभा	धूमप्रभा	तमप्रभा	तमतमप्रभा
जघन्य	३॥ गाउ	३ गाउ	२॥ गाउ	२ गाउ	१॥ गाउ	१ गाउ	॥ गाउ
उत्कृष्ट	४ ”	३॥ ”	३ ”	२॥ ”	२ ”	१॥ ”	१ ”

असुर-जघन्य २५ योजन, उत्कृष्ट असंख्य द्वीप समुद्र. नव निकायव्यंतर-जघन्य २५
योजन, उत्कृष्ट संख्याते द्वीप. जोतिषी-जघन्य संख्याते द्वीप, उत्कृष्ट संख्यतर द्वीप.

सौधर्म ईशान	३-४ स्वर्ग	५-६ स्वर्ग	७-८ स्वर्ग	९-१२ स्वर्ग	६ त्रैवेयक	३ त्रैवेयक	५ अनुत्तर
रत्नप्रभाका नीचला चरम अंत	दूजीका नीचला चरम अंत	त्रीजीका	चौथीका	पांचमीका चरम अंत	छठीका	सातमीका चरम अंत	किंचित् न्यून लोक सर्व

‘सौधर्म’ देवलोकथी नव त्रैवेयक पर्यंत जघन्य अंगुलके असंख्यमे भाग देखे. पूर्व
भव अवधि अपेक्षा सर्व विमानवासी ऊंचा तो अपनी ध्वज ताई देखे अने तिरछा असंख्य
द्वीप, समुद्र देखे. असंख्यातके असंख्य भेद है.

(४८) हिवै आयु आश्री अवधिज्ञान कितना होवे है ते यंत्रात् ज्ञेयं.

अर्ध सागरथी ओछी आयुवाला	संख्याते योजन प्रमाण देखे उत्कृष्ट
पूरी अर्ध सागरनी आयुवाला देवता	असंख्य ” ” ”
अर्ध सागरसे उपरांत जिसकी आयु है ते	” ” ” ”

(४९)

०	जघन्य अवधि	उत्कृष्ट अवधि	मध्यम अवधि	अभ्यंतर	वाह्य	देश अवधि	सर्व अवधि
देव नरक	०	०	अस्ति	अस्ति	०	अस्ति	०
तिर्यंच	अस्ति	०	”	०	अस्ति	”	०
मनुष्य	”	अस्ति	”	अस्ति	”	”	अस्ति

(५०)

०	अनुगामी	अननुगामी	वर्धमान	हीयमान	प्रतिपाति	अप्रतिपाति	अवस्थित	अनवस्थित
देव नरक	अस्ति	०	०	०	०	अस्ति	अस्ति	०
मनुष्य	”	अस्ति	अस्ति	अस्ति	अस्ति	”	”	अस्ति
तिर्यंच	”	”	”	”	”	”	”	”

ए यंत्र दोनो प्रसंगात्. तथा उत्कृष्टा अवधिज्ञान दो प्रकारे है—एक प्रतिपाति, दूजा अप्रतिपाति. जो उत्कृष्टा चौद रज्जात्मक लोक लगे व्यापे पिण अगाडी अलोकमे एक प्रदेश तक (भी) व्यापणेकी शक्ति नही तां लग अवधिज्ञान ‘प्रतिपाति’ कहीये; अने जे अवधि अलोकमे एके प्रदेशे व्यापे ते ‘अप्रतिपाति.’ इति क्षेत्रप्रमाण द्वार द्वितीय.

हियै तीजा संस्थान द्वार—जघन्य अवधिज्ञानका संस्थान पाणीके बिंदुवत् गोल है. अने उत्कृष्ट अवधिज्ञान वर्तुल आकारे ज हुइ, पिण कुछक लांबे आकारे हुइ. कसात्? शरीरके चारों ओर अग्निके जीवांकी सूची फेरणे करी उत्कृष्ट अवधिका क्षेत्र कहा है. अने शरीरका कोठा तो वर्तुल नही किन्तु कुछक लांबा है, इस वास्ते उत्कृष्ट अवधिज्ञानका संस्थान वर्तुल अने कुछक लांबा है. मध्यम अवधिज्ञानका संस्थान विचित्र प्रकारना है. ते यंत्रसे जानना. किंचित् संस्थान ज्ञानका.

(५१) (नारक आदिका अवधिका संस्थान)

नारकीनो अवधि	भवनपति	मनुष्य तिर्यंच	व्यंतर	जोतिषी	१२ देवलोक	९ ग्रैवेयक	५ अनुत्तर
त्रापाने आकारे जिस करके नदीना पाणी तरीये ते ‘त्रापु’ कहिये तद्वत् संस्थाने	धान्य भरणेका ठेका तेहने संस्थाने	नाना प्रकारना संस्थान असंख्य भेदे	पडहा बीचमे तो मोटा अने दोनो पासे सम तेहने संस्थाने	झालर ते डौरुवजंतर तेहने संस्थाने	मृदंगने आकारे एक पासे चौडा, दूजे पासे सांकडा	फूलनी चंगेरी-वत्	बालिकानो चोल जे बालकने माथे उपर पिहरणनी परे शरीरे पहेरे तद्वत्

भवनपति व्यंतरनो अवधिज्ञान ऊंचा घणा अने और देवताके नीचा घणा तथा नारकी, जोतिपीने तिरछा घणा अने मनुष्य, तिर्यचने ऊंचा बी हुई अने नीचा बी होवे अने थोडा बी होवे अने घणा बी होवे; तिस वास्ते विचित्र कहा. इति संस्थानद्वार ३.

हिवै चौथा अनुगामीद्वार. अवधिज्ञान दो प्रकारे है. एक अनुगामिक १ अननुगामी २. जिस पुरुषकूं अवधिज्ञान उपना ते पुरुषके साथ ही अवधिज्ञान चाले, अलग न रहे; जिम हस्तगत दीवा जिहां जाय तिहां साथ ही आवे तिम अवधिज्ञान पुरुषके साथ ही आवे ते 'अनुगामिक'; अने जे अवधि पुरुषको जौनसे क्षेत्रे उपना है ते अवधिज्ञान तिस ही ज क्षेत्रे रहै, पुरुष साथ अन्यत्र जगे न जाय जिम सांकले बांध्या दीवा जिहां है तिहां ही रहै तिम ते अवधिज्ञान जिस क्षेत्रे उपना तिहां ही प्रकाश करे, पुरुष चले साथ न चले अने तेही पुरुष जदि फिरकर तिस ही क्षेत्रमे आवे तदा अवधिज्ञान फेर होवे ते 'अननुगामिक' अवधिज्ञान कहीये. हिवे तेहना स्वरूप लिखीये है—

अनुगामी १ अननुगामी २ मिश्र ३ मिश्र कया कहीए ? जे अवधिज्ञान उपना एक पासेका तो तिहां ही रहै अने दूजे पासेका पुरुषके साथ चाले ते 'मिश्र' अवधिज्ञान कहीये. फिरकर तिस ही क्षेत्रमे आवे तो चारो ओर फेर देखने लगे है. एह अवधि मनुष्य, तिर्यचने होता है. ए अनुगामी द्वार ४. (५२) हिवे अवस्थित द्वार पांचमा कहीये है.—

स्थिति	क्षेत्र आश्री स्थिति १	उपयोग आश्री स्थिति २	गुण आश्री स्थिति ३	पर्याय आश्री स्थिति ४	लब्धि आश्री स्थिति ५
अवधि-ज्ञानकी पांच प्रकारे	३३ सागरोपम अनुत्तर विमानके देवता आश्री	अंतर्मुहूर्त उपरांत एक द्रव्यमे उपयोग नहीं रहै है	आठ समयसे उपरांत गुणमे उपयोग नहीं रहै है	पर्याय सात समय प्रमाण उपयोग रहै	लब्धि आश्री ६६ सागर साधिक

हिवै चल द्वार ६—जे अवधिज्ञान वधे बी अने घटे बी ते 'चल' अवधिज्ञान कहीये. ते छ प्रकारे वधे अने छ प्रकारे हान होय ते.

(५३) यंत्रसे स्वरूप हान अने वृद्धिका जानना—

संख्या	अनंत भाग १	असंख्य भाग २	संख्यात भाग ३	संख्यात गुण ४	असंख्य गुण ५	अनंत गुण
अधिक	असत् १००	१००	१००	१००	१००	१००
	कल्पना ९९	९८	९०	१०	२	१
हीन	असत् ९९	९८	९०	१०	२	१
	कल्पना १००	१००	१००	१००	१००	१००

(५४) हिं वै ए छ प्रकारमे अवधिज्ञाननी वृद्धि हान कितने प्रकारे है ते यंत्रमे स्वरूप लिख्या—

संख्या	क्षेत्र आश्री हान वृद्धि	काल आश्री हान वृद्धि	द्रव्य आश्री हान वृद्धि	पर्याय आश्री हान वृद्धि
हान ६ प्रकारे, वृद्धि ६ प्रकारे	असंख्य भाग हानि वृद्धि, असंख्य गुण हानि वृद्धि, संख्यात भाग हा० वृ०, संख्यात गुण हा० वृ० ४	असं० भाग हा० वृ० असं० गुण हा० वृ० सं० भाग हा० वृ० सं० गुण हा० वृ० ४	अनंत भाग हा० वृ० अनंत गुणा हा० वृ० २ द्रव्य घणा वधे घटे अस्मात् २	षट् प्रकारे हान वृद्धि छ प्रकारका स्वरूप यंत्रसे जानना

इति छठा चल द्वार संपूर्णम् ।

हिं वै ७ मा तीव्र मंद द्वार कहीये है—किताएक अवधिज्ञान फाडारूप हुइ थोडासा दीसे अने बीचमे वली न दीसे, थोडेसे अंतरमे फेर दीसे. स्थापना ००. इम फाडा रूप जानना. जिम जालीमे दीवेका तेज पडे छिद्रमे तो तेज है अने ओर जगे नही ते तेज फाडा फाडा रूप दीसे तिम जे अवधिज्ञाने करी किहां दीसे अने किहां नही दीसे, लगत मार प्रकाश न हुइ ते 'फाडारूप' अवधिज्ञान कहाता है. ते अवधिज्ञानना फाडा कितना होवे ते वात कहीये है—

एक जीवने अवधिज्ञानका फाडा संख्याता अने असंख्याता हुइ पिण ते जीव जदा एक फाडा देखे तदा सर्व ही फाडा देखे. जिस वास्ते जीवके उपयोग एक ज होय है. एक वार दो उपयोग न हुइ, तिस वास्ते सर्व फाडयामे एक वार एकठा ही उपयोग जानना. हिं वै ते फाडा तीन प्रकारना है—कितनाक तो अनुगामिक १, कितनाक अननुगामिक २, कितनाक मिश्र ३. तीनाका अर्थ उपरवत्. तथा ते फाडा वली तीन प्रकारे है—एक प्रतिपाति है १, कितनेक अप्रतिपाति २, कितनेक मिश्र ३. हिं वै जे अवधि उपजीने फाडारूप ते कितनाक काल रहीने विणसे ते फाडा 'प्रतिपाति' कहीये १; कितनाक न विणसे ते 'अप्रतिपाति' २; अने जे कितनेक फाडे प्रतिपाति अने अप्रतिपाति ते 'मिश्र' ३. ए अवधि मनुष्य, तिर्यचने हुइ पिण देव, नरकने नही. अनुगामी अप्रतिपाति फाडारूप अवधिज्ञान 'तीव्र' चोखे परिणामे करी उपजे ते फाडा 'तीव्र' कहीये है. अने अननुगामी प्रतिपाति फाडारूप अवधि मंद परिणामे करी उपजे है, तिस वास्ते 'मंद' कहीये है. इति तीव्र मंद द्वार ७.

अथ प्रतिपाति द्वार—अवधिज्ञानका एक समयमे उपजणा अने विणसना कहीए है. जे अवधि जीवके एके दिशे उपजे ते 'बाह्य' अवधिज्ञान कहीये. अथवा जे जीवके सर्व फा(पा)से फाडारूप अवधि हुइ ते 'बाह्य' अवधिज्ञान कहीये. ते बाह्य अवधिका उपजणा अने विणसना अने दोनो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आश्री एक समयमे हुइ ते किम द्रव्य आश्री ते बाह्य

अवधि एक समयेसे उपजणा बी विणसना बी अने दोनो वात पिण हूइ है. दावानलने दृष्टांते करी जिम दवानल एक पासे बूझे अने दूजे पासे वधे तिम कितनाक अवधिज्ञान एक पासे नवा उपजे अने दूजे पासे आगला अवधि विणसे, इस वास्ते एक समयमे कदे दो वात पिण होय है. तथा कितनाक अवधिज्ञान जीवके शरीरके थकी सर्व पासे प्रकाश करे ते शरीर विचाले फाडा कुछ बी नही होय ते 'अभ्यंतर' अवधि कहीये. जिम दीवानी कांति दीवाथी अलग नही है, चारो ओर प्रकाश करे तिम अवधि पिण ऐसा हूये ते 'अभ्यंतर' अवधिज्ञाननो उत्पाद अने विनाश ए दो वाते एक समयमे न होवे, एके समयमे एक ज वात हूइ. जिम दीवा उपजे एक समय अने विणसनेका अन्य समय तिम अभ्यंतर अवधिके एक समय एक ही वात होय. हिवै अवधिज्ञाने करी जदा एक द्रव्य देखे तदा पर्याय कितना देखे ए वात कहीये है—जदा एक द्रव्य परमाणु प्रमुख अवधि करी देखे तदा द्रव्यना पर्याय संख्याता देखे अने असंख्याता देखे; जघन्य तो चार पर्याय—रूप, रस, गंध, स्पर्श ए चार देखे. एह आठमा उत्पाद प्रतिपातद्वार संपूर्णम्.

(५५) हिवै ज्ञान दर्शन विभंग एह तीन द्वार कहे है, ते यंत्रम्—

ज्ञान १	दर्शन २	विभंग ३
जिस अवधिज्ञाने करी विशेष जाणे ते 'साकार ज्ञान' कहीए.	सामान्य जाणे, पिण विशेष न जाणे ते 'अनाकार दर्शन' कहीए	समदृष्टिका तो ज्ञान कहीए अने मिथ्यात्वीके ते 'विभंगज्ञान' कहीए.
स्वामी-समदृष्टि मिथ्यादृष्टि	समदृष्टि मिथ्यादृष्टि	मिथ्यादृष्टि

भवनपतिसे लेकर नव ग्रैवेयक पर्यंत ते सर्व देवताना अवधिज्ञान अने विभंग ज्ञान क्षेत्र, काल आश्री दोनो सरीखा जानना. द्रव्य, पर्याय आश्री विशेष कुछ है. चोखे ज्ञान विना विशेष न जाणे ते समदृष्टिके चोखा है अने 'अनुत्तर' विमानवासी देवताने अवधिज्ञान होय है पिण विभंग नही. ते पांच 'अनुत्तर' विमानवासी देवताके जे अवधिज्ञान हूइ ते क्षेत्र, काल आश्री असंख्य विषय करके असंख्याता जानना; अने द्रव्य, पर्याय विषय आश्री ते ज्ञान अनंता कहीए. ए ज्ञान, दर्शन, विभंगरूप तीन द्वार वखाणेया. इति द्वारम् ९।१०।११.

अथ १२ मा 'देश' द्वार लिख्यते—नारकी, देवता अने तीर्थकर[पति]नो ज्ञानथी अबाह्य हूइ एहने शरीरसंबंध प्रदीपनी परे सर्व दिशे प्रकाशक इनका अवधिज्ञान जानना. एतले नारकी, देवता, तीर्थकर ए अवधि करी सर्व दिशे देखे; तथा शेष तिर्यच, मनुष्य देशथी बी देखे अने सर्वथी बी देखे. तथा नारकी, देव, तीर्थकर एहने अवधिज्ञान निश्चय होय; ओरोंके भजना जाननी. ए बारमा देशद्वार.

अथ क्षेत्रने मेले अवधिज्ञानका संख्यात असंख्यातपणा कथ्यते—जे अवधि जीवना शरीरसंबंध हूइ दीवानी कातिनी परे अलग न हूइ ते 'संबंध अवधिज्ञान' कहीए; अने जे

अवधि शरीरथी अलग होय ते अवधि 'असंबंध' कहीए. ते असंबंध अवधिका धणी दूरसे तो देखे पिण नंबजीकसे न देखे. ते जीव अने अवधिज्ञानका क्षेत्रके विचाले अंतर पडे इति भावः.

हिवै जे संबद्ध अवधिज्ञान होय तेह नउ क्षेत्र आश्री संख्याता अने असंख्याता योजन प्रमाण विषय है तिम जे असंबद्ध अवधिज्ञान होवे तिसका क्षेत्र आश्री इम हीज विषय जाननी, परंतु ते धणीके अने अवधिके क्षेत्रके विचाले अंतर पडे ते (५६) यंत्रसे—

असंबद्ध अवधि ४	संख्यात योजन	संख्यात योजन	असंख्य योजन	असंख्य योजन
अंतर ४	संख्यात योजन अंतर	असंख्य योजन अंतर	संख्येय ,,	,, ,,

एह असंबंध अवधिके ४ भंग है अने जे संबद्ध अवधि हूइ ते कितनाक तो लोकसंबंधे लोकान्ते जाय लागे पिण अलोकमे नही गया अने जो अलोक संबंध हूइ तो अलोकमे लोक सरीखा खंड असंख्याता व्यापे. इति १३ मा क्षेत्रद्वार संपूर्णम्.

हिवै गतिद्वार १४ मा. ते गति आदिक वीस द्वारे यथासंभवे मतिज्ञानवत् विचारणा इति. हिवै अवधि लब्धिसे अवधिज्ञान होय है. प्रसंगात् शेष लब्धिका स्वरूप लिख्यते—
 १ आमोसहि—जिनके शरीरके स्पर्शे सर्व रोग जाये. २ विष्पोसहि—विद्रुप्रसवण अर्थात् वेडीनीति लघुनीति ही औषधि है. ३ खेलोसहि—श्लेष्म जिनका औषधि है. ४ जल्लोसहि—जिनकी मयल ही औषधि है. ५ सन्वोसहि—शरीरका अवयव सर्व औषधिरूप है. ६ संभिन्नसोड—एक इन्द्रिये करी सर्व इन्द्रियांनी विषये जाणे. ७ ओहि—सर्व रूपी द्रव्य जिस करी जाणे ते अवधि. ८ उज्जुमइ—अढाइ अंगुल ऊणा मनुष्यक्षेत्रमे मनके भाव जाणे. ९ विउलमइ—संपूर्ण मनुष्यक्षेत्रमे मनके भाव जाणे. १० चारण—विद्यासे विद्या-चारण, तपसे जंघाचारण आकाशमे उडे. ११ आसीविस—शाप देणे की शक्ति ते 'आशी-विष' लब्धि. १२ केवली—केवलज्ञान, केवललब्धि. १३ गणहर—गणधरपणा पामे ते गणधरलब्धि. १४ पुन्वधर—पूर्वाणां ज्ञान होना ते 'पूर्व' लब्धि. १५ अरिहंत—त्रैलोक्यना पूजनीक ते 'तीर्थकर' लब्धि. १६ चक्रवट्टी—चक्रवर्तिपणा पामे ते 'चक्रवर्ति' लब्धि. १७ बलदेव—बलदेवपणा पावणा ते 'बलदेव' लब्धि. १८ वासुदेव—वासुदेवपणा पावणा ते 'वासुदेव' लब्धि. १९ खीर-महु-सप्पिरासव—खीर-चक्रवर्तीना भोजन, महु-मिश्री दूध, सप्पि-घृत ऐसा मीठा वचन. २० कोठबुद्धि—जैसे कोठेमे बीज विणसे नही तैसे सन्नार्थ विणसे नही. २१ पयाणुसारी—एक पदके पठनेसे अनेक पद आवे. २२ बीयबुद्धि—एक पदके पठनेसे अनेक तरे के अर्थ जाणे. २३ तेयग—जिणे तपविशेषे करी तेजोलेश्या उपजे. २४ आहारग—चवदेपूर्वधर आहारक शरीर करे (जब) शंका पडे. २५ सीयलेसाय—शीतलेश्या उपजे तपविशेषे करी. २६ वेयन्वदेह—घणे रूप करवानी शक्ति. २७ अक्खीण-महाणसी—आहार जां लगे आप न जीमे तां लगे और जीमे तो खूटे नही. २८ पुलाय—चक्रवर्ती आदिकनी सैन्या चूर्ण करनेकी शक्ति.

१ पासेथी । २ पुरीष । ३ सूत्र । ४ मेल । ५ पूर्वोक्त ।

अर्हत, चक्री, वासुदेव, बलदेव, संभिन्नश्रोत, चारण, पूर्वधर, गणधर, पुलाक, आहारक (ए) दश लब्धियां भव्यस्त्रीने नहीं होती है. शेष १८ हुवै तथा ए अने केवली, ऋजुमति, विपुलमति एवं तेरह लब्धियां अभव्य पुरुषने न हुवै, शेष पंदर हुवै. तथा अभव्य स्त्रीयाने पिण १३ ए अने मधुक्षीरास्रव लब्धि एवं चौद नहीं हुवै, शेष १४ हुवै. ए पंदरे द्वारे कही अवधिज्ञान वखाण्या.

मनःपर्यवज्ञानको दो भेद—ऋजुमति १ विपुलमति २. केवलज्ञानका एक भेद है. एह पांच ज्ञानका स्वरूप लेशमात्र लिखा, विशेष नंदीमे.

(५७) अथ 'उपमा' प्रमाण लिख्यते—असंख्याताका मापे आठ.

१	पल्योपम स्वरूप	कूवा योजन १ लांबा चौडा तिसकी परिधि ३ योजन साधिक. इह योजन प्रमाणांगुलसे है. तिसकू वादर पृथ्वीके शरीर तुल्य रोमखंडसे भरिये ठांस कर जिसे (अग्निसे) जले नहीं, जलसे बहे नहीं, चक्रीसैन्याके उपर चलनेसे दबे नहीं; तिसमेसुं सौ सौ वर्ष गये एकेक खंड काढीये. जब रीता होवे सर्व कूवा तद एक पल्योपम कहीये.
२	सागर	दस कोडाकोडी कूये खाली होइ तद एक सागरोपम ज्ञेयं.
३	सूची अंगुल	पल्योपमके छेद जितने होइ उतने ठिकाणे पल्योपमके समय लिखके आपसमे गुणाकार कीजे. जो छेहदे आवे सो सूची अंगुलके प्रदेशांकी गिणती. तिसके छेद ६५५३६।१६ छेद.
४	प्रतर अंगुल	पल्य समय १६ छेद ४ १६।१६।१६।१६ सूची अंगुल ६५५३६ प्रदेश सूची अंगुलका वर्ग सो प्रतर अंगुल ४२९४९६७२९६; छेद ३२.
५	घन अंगुल	प्रतर अंगुल ४२९४९६७२९६ कूं सूची अंगुल ६५५३६ थी गुण्या घन अंगुल होय. २८।४७४९७६७।०६५६; तिसके छेद ४८.
६	लोकाकाश-श्रेणि	पल्यके छेद जितने होइ तिनका असंख्यमा भाग लीजे. तितने ठिकाने पर घन अंगुलके प्रदेश रखकर आपसमे गुणाकार कीजे. जो छेहदे आवे सो लोकाकाशके श्रेणी एकके प्रदेश होइ. ७९२२८।६२५१-४२६४३३७५९३५४३९५०३३६; छेद ९६. पल्य छेद असंख्य भाग घन अंगुल छेद छेद लोकाकाश-श्रेणि सम १६, ४ २ २८।४७९७६७।०६५६।४८।४८ छेद ९६
७	लोक-प्रतर	लोकश्रेणिका वर्ग कीजे सो लोकप्रतर. तिसके छेद १९२.
८	लोक-घन	१९२ छेद प्रतरके है. तिनकूं श्रेणि छेद ९६ सुं गुणाकार कर्या 'लोक-का घन' होय. तिसके छेद २८८ अंक. सर्व असत् कल्पना जानने.

अथ प्रकारांतरसुं श्रेणि करनेकी आम्नाय—जघन्य प्रतर असंख्यातकूं दुगणा करे, उस पर पल्योपमकी वर्गशलाकाकूं भाग दीजे. जो हाथ आवे उसकूं घनांगुलकी वर्गशलाकामे भेल दीजै सो लोकाकाशकी श्रेणिकी वर्गशलाका हूई. इसकी असत् कल्पनाका (५८) यंत्रसे स्वरूप जानना—

जघन्य प्रतर असंख्य	दूणा	पल्यकी वर्ग-शलाका	भाग देतें हाथ लगे	घनांगुल वर्गशलाका	भेला कीये	छाटा वर्ग
१	२	२	१	५	६	७९२२८१६५१४९६४३३७- ५९३५४३९५०३३६


(५९) श्रीअनुयोगद्वार(सू० १४६)से संख्य असंख्य अनंत स्वरूपं

संख्यात	०	जघन्य	मध्यम	उत्कृष्ट
अ	परित्त	”	”	”
सं	युक्त	”	”	”
ख्या	असंख्य	”	”	”
त	परित्त	”	”	”
अ	युक्त	”	”	”
नं	अनंत	”	”	”
त				

एकका वर्ग भी एक तथा घन भी एक. गुणाकार एके से जिस राशिकूं कीजीये सो जौ की त्यौ रहै तथा एकसूं भाग जिस राशिकूं दीजीये सो वी जौ की त्यौ रहे. तिस कारणसे एका गिणतीमे नही. दूयेसे गिणती. सो दूया 'जघन्य संख्याता' कहीये. इसथी आगे ३।४।५ यावत् उत्कृष्ट संख्यातेमेसुं एक ऊणा होइ तहा ताइ सर्व 'मध्यम संख्याता' जानना. अब उत्कृष्ट संख्याता लिखीये है विस्तरात्—

सरसो १; यवमे ८, अंगुलमे ६४, हाथमे १५३६, दंडमे ६१४४, कोशमे १२२८८-०००, सूची-योजनमे ४९१५२०००, प्रतर-योजनमे २४१५९१९१०४००००००, घन-योजनमे ११८७४७२५५७९९८०८००००००००००.

विष्कंभ एक लाख योजन, गभीरपणा १०००, परिधि ३१६२२७ योजन झझेरी वेदका ८ योजन. शिखा २८७४८ योजनकी.



१ अनवस्थित पाला. २ शलाका पाला. ३ प्रतिशलाका पाला. ४ महाशलाका पाला.

१ विस्तरथी ।

अथ पाला १ तिसके योजन योजन प्रमाण खंड करणेकी आम्नाय लिख्यते—इहा पाला एक योजन, लक्ष विष्कंभ जंबूद्वीप समान, जिसका भूमिमे अवगाढपणा १००० योजन तिस पालेकी तीन कांड तीनमे प्रथम कांड १००० योजनके अवगाढपणेका, दूजा कांड ८ योजनको जाडपणेका, तीजा कांड २८७४८ योजनकी सिखा, तिसका मूलमे विष्कंभ तथा परिधि जंबूद्वीप समान, उपरि जाके सिखा बंधे तिहा सरसोका दाणा १ उसके उपरि दाणा दूजा नव हरे (रहे?).

(६०) इन तीन कांडका घन खंड यंत्रम्—

१ संख्या	२ कांड	विष्कंभ	अवगाढ	घनयोजन प्रमाण खंड
१	प्रथम कांड भूमिमे	एक लाख योजन मूल	१००० योजन	७९०५६९४१५० योजन १॥ कोस ६॥ हाथ १००० गुण्या कर्या ७९०५६९४१५०४३९ योजन १ कोस १६२५ धनुष घनयोजनके खंड ह्ये.
२	दूजा कांड भूमिसे उपरि वेदका ताइ	"	८ योजन	७९०५६९४१५० योजन १॥ कोस ६२॥ हाथ ८ गुणा कर्या ६३२४५५३२०३ योजन २ कोस १२५ धनुष इतने घनयोजन प्रमाण खंड ह्ये.
३	कांड तीजा वेदका से उपरि सिखा ताइ	"	२८७४८ योजन	२७७७७११६१६ योजन परिधिका छट्टा वांटा तिसका वर्ग होइ इसकूं सिखासूं २८७४८ गुणा कर्या घनयोजन प्रमाण खंड ७९८५३६५३५३६७६८.

अथ इन तीनों कांडाके घन योजन मिलाइये तदा अंक चवदे होय ८७८२२५९३-२४०४१० ए समस्त पालेके घनयोजन ह्ये. एक घनयोजनमे ११८७४७२५५७९९८०८-०००,०००,००० सरसों तिस थकी गुणाकार कीजे तब अंक अडतीस आवे. तितने १ पालेमे सरसुं जानने. अंक अग्रे-१०४२८६९१९४४५२१४५५२२८९७५८४१२८ ०००००-००००० अंक.

अनवस्थित पालेकूं असत्कल्पनाथी कोइ उठावै दाणा १ द्वीपमे, दाणा १ समुद्रमे इस तरे जंबूद्वीप आदिकमे प्रक्षेपे करी ठाली होवे तदा एक दाणा अनवस्थितका तो नही ओर दाणा १ शलाका पालामे प्रक्षेपिये. अब जहां ताइ दाणे द्वीप समुद्रामे गये है तिण सर्व ही द्वीप समुद्रां प्रमाण पाला कल्पिये. तिणथी आगेके द्वीप समुद्रामे एकेक दाणा प्रक्षेपिये जदा रीता होय तदा १ दाणा शलाकामे फेर प्रक्षेपिये. ऐसेही अनवस्थित पालेके भरणे अने रिक्त करनेसे एकेक दाणे करी शलाका भरीये. अने जिहां छेहडला दाणा गया है तितने द्वीप समुद्रां प्रमाण अनवस्थित पाला भरीये; भरके उठाइये नही, किन्तु शलाका पाला उठाइये. उठा करके ते अनवस्थित पल्यांक ते क्षेत्रथी आगे एक एक दाणा अनुक्रमे द्वीप समुद्रने विषे प्रक्षेपिये. जदा तिसका अंत आवै तदा प्रतिशलाका पालेमे प्रथम प्रतिशलाका प्रक्षेपी पडै

वली अनवस्थित पाला उठाके जिस जगे शलाका पाला पूरा हुआ था ते क्षेत्रथी आगे द्वीप समुद्रामे एकेक सरसों अनुक्रमे प्रक्षेपीये. पछे वली शलाका पालामे एक दाणा प्रक्षेपीये. इसी तरे वली अनवस्थित पाला भरणे अने रीता करणेसे शलाका भरीये. तदा अनवस्थित अने शलाका ए दोनो भर्या हुंता; पछे शलाका पाला उठाइने पूर्वोक्त प्रकारे आगले द्वीप समुद्रामे प्रक्षेपीये. पछे वली एक दाणा प्रतिशलाका पालामे प्रक्षेपीये. एवं अनवस्थित पालेके भरणे रीते करणेसे शलाका पाला भरीये अने शलाकाके भरणे रीते करणेसे प्रतिशलाका भरीये. जदा प्रतिशलाका १ शलाका २ अनवस्थित ३ एवं तीनो पाले भरे होइ तदा प्रतिशलाका पाला उठाइने तिमज आगले द्वीप समुद्रामे प्रक्षेपीये. जिहा पूरा होय तदा १ दाणा महाशलाका पालेमे प्रक्षेपीये. फेर शलाका पाला उठाइने तिमज आगे संचारीने प्रतिशलाका पल्यमे वली एक सरसव प्रक्षेपीये. पछे अनवस्थित उठाइने तिम ज शलाका पालानी समाप्तिना क्षेत्र आगे द्वीप समुद्रामे प्रक्षेपी तदा शलाका पल्यमे वली एक दाणा प्रक्षेपीये. एवं अनवस्थित पाला उठावणे अने प्रक्षेपणे करी शलाका पल्य भरणे तथा शलाका पल्यने उपाडवे प्रक्षेपवे करी प्रतिशलाका पाला भरणे. तथा प्रतिशलाका पालाने उपाडवे प्रक्षेपवे करी महाशलाका पल्य भरणे. इम करता जदा चारो ही पल्य भर्या हुइ और अनवस्थितादि चारो पालोंके जितने दाणे द्वीप समुद्रामे प्रक्षेप करे है वे भी सर्व जव चारो पालोमे मेलिए तदा उत्कृष्ट संख्या-तेसे एक सरसव अधिक होय है. तिस एक सरसों सहित कीयां 'जघन्य परित्त असंख्याता' होय. इस जघन्य परित्त असंख्यकूं अन्योन्य अभ्यास कीजे तिसमेसुं दोय दोय निकासिये. तहा ताइ 'मध्यम परित्त असंख्याते' होय. तिसमे एक भेलीये तब 'उत्कृष्ट परित्त असंख्याता' होय. तिसमे एक और मिले तब 'जघन्य युक्त असंख्य' होय.

अन्योन्य अभ्यासकी आम्लाय—यथा ५ का अन्योन्य अभ्यास करणा है. प्रथम ५ कूं विषे २ दीजे स्थापना—१११११. एकेकके उपरि वै ५।५ पांच पांच दीजे.

स्थापना—^{५५५५५}
१११११ अत्र उपरिकी पंक्तिके अंकाकूं आपसमे गुणाकार कीजे.

स्थापना—	५	५	५	५	५
	१	१	१	१	१
	५	२५	१२५	६२५	३१२५

छेछा गुणाकार करते जे राशि आवे सो उत्पन्न राशि जाननी. इस तरे अन्योन्य अभ्यासकी रीति जाननी.

जघन्य युक्त असंख्य प्रमाण एक आवलिके समय है. तिसका अन्योन्य अभ्यास करे तो अने दोय निकासिये तो तहा ताइ 'मध्यम युक्त असंख्याते' कहीये.

तिसमे एक भेले 'उत्कृष्ट युक्त असंख्याते' होय. उत्कृष्ट युक्त असंख्यातेमे एक भेलीये तब 'जघन्य असंख्यात असंख्याते' होय. इसका अन्योन्य अभ्यास कीजे. तिणमेषु दोय निकासिये तहां ताइ 'मध्यम असंख्यात असंख्याते' होय. उसमे एक भेले तब 'उत्कृष्ट असंख्यात असंख्याते' होते है. मत्वंतरे च—

अनेरा आचार्य वली 'उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यातानो स्वरूप इम कहे है यथा जघन्य असंख्यात असंख्यातानी राशिनी वर्ग करीये, पछे ते वर्गित राशिना वली वर्ग करीये, पछे वली वर्गराशिना वर्ग करीये. इम तीन बार करके तिसमे दस बोल असंख्यातांके भेलीये. ते कौनसे ? (१) लोकाकाशना प्रदेश, (२) धर्मास्तिकायना प्रदेश, (३) अधर्मास्तिकायना प्रदेश, (४) एक जीवना प्रदेश, (५) सूक्ष्म बादर अनंतकाय वनस्पतिना औदारिक शरीर, (६) अनंतकायना शरीर वर्जिने शेष पृथ्वीकाय, अष्काय, तेजस्काय, वायुकाय, प्रत्येक वनस्पतिकाय अने त्रसकाय इन सबके शरीर, (७) स्थितिबंधना कारणभूत अध्यवसाय ते पिण असंख्याता, (८) अनुभागबंधके अध्यवसाय, (९) योगच्छेद प्रतिभाग, (१०) उत्सर्पिणी अवसर्पिणीरूप कालना समय. एवं १० बोल पूर्वोक्त त्रिवर्गित राशिमे प्रक्षेपके फेर सर्व राशि तीन बार वर्ग करीये; जे राशि हूये तिसमेसुं एक काढ्या 'उत्कृष्ट असंख्यात असंख्याता' होय.

(६१) मध्यम असंख्यात असंख्यातमे जे पदार्थ है तिनका यंत्रम्—

द्रव्यथी १	बादर पर्याप्त तेजस्कायसे लगाय के सर्व निगोदके शरीरपर्यंत ए सर्व मध्यम असंख्यात असंख्याते.
क्षेत्रथी २	सूक्ष्म अपर्याप्त जीवके तीसरे संमेकी अवगाहना जितने क्षेत्रमे होवे तहांसे लगाय परम अवधिज्ञानका क्षेत्र ए मध्यम असंख्यात असंख्याते जानने. इहां प्रदेशा आश्री जानना.
कालथी ३	सूक्ष्म उद्धार पल्योपमके समयथी लगाय ४ स्थावर वनस्पति विनाकी कायस्थितिके समय ए सर्व मध्यम असंख्य असंख्य जानने.
भावथी ४	सूक्ष्म निगोदके जीवके योगस्थानसूं लगाय के संज्ञी पर्याप्तके अनुभाग बंधके अध्यवसायके स्थानक ए सर्व मध्यम असंख्यात असंख्याते. इति नव बोल असंख्याताके जानने.

उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यातमे एक भेलीये तब 'जघन्य परिच्छ अनंता' होय. तिसका पूर्ववत् अन्योन्य अभ्यास कीजे. तिसमेसुं दोय निकासिये तहां ताइ 'मध्यम अपरिच्छ अनंता' होय. तिसमे एक भेलीये तब 'उत्कृष्ट परिच्छ अनंता' होय. उत्कृष्ट परिच्छ अनंतेमे एक भेलीये तब 'जघन्य युक्त अनंता' होय. अभव्य जीव इतने है. तिसका पूर्ववत् अन्योन्य अभ्यास कीजे. तिसमेसुं दोय निकासिये तहां ताइ 'मध्यम युक्त अनंता' होय. तिसमे एक भेलीये तब 'उत्कृष्ट युक्त अनंता' होय. तिसमे एक भेले 'जघन्य अनंत अनंत' होय. इसथी आगे सर्व 'मध्यम अनंत अनंता' जानना. उत्कृष्ट अनंत अनंता नही.

अनेरा आचार्य वली इम वखाणे है—जघन्य अनंत अनंता पूर्वली परे तीन बार

वर्ग करी पीछे ए छ बोल अनंता प्रक्षेपीये. तद्यथा—(१) सर्व सिद्ध, (२) सर्व सूक्ष्म बादर निगोदना जीव, (३) सर्व वनस्पतिना जीव, (४) तीनों कालके समय, (५) सर्व पुद्गल, (६) सर्व लोकालोकाकाश प्रदेश. एवं बोल छ प्रक्षेपी सर्व राशिकूं त्रिवर्ग करीये. जो राशि हुई तो पिण उत्कृष्ट अनंत अनंता न हूवे. तिवारे पछी केवलज्ञान दर्शनना पर्याय प्रक्षेपीये. इम कर्या उत्कृष्ट अनंत अनंता नीपजे. इस उपरांत और वस्तु नही. एणी परे एकेक आचार्यना मतने विषे कया. अने श्रीसूत्रना अभिप्रायथी जो उत्कृष्ट अनंत अनंता नही. तत्त्व केवली जाणे. इति अनुयोगद्वार(सू. १४६)वृत्तिवाक्यप्रमाणात् अत्र लिखिता अस्माभिः ।

(६२) मध्यम अनंत अनंतेमे जो जो पदार्थ है तिनका यंत्रम्

द्रव्यथी १	सम्यक्त्वके प्रतिपात्तिसे लगायके सर्व जीव तथा दोप्रदेशी स्कंधसे लेकर सर्व पुद्गल मध्यम अनंत अनंतेमे जानने.
क्षेत्रथी २	आहारक शरीरके विखरे थके जितने स्कंध होय तिनकू 'मुक्केलगा' कहीये. सो अनंत स्कंध है. तिणोने जितना क्षेत्र स्पर्शा तिससुं लगायके सर्व आकाशके प्रदेश ए सर्व मध्यम अनंत अनंते जानने.
कालथी ३	अर्ध पुद्गलपरावर्तथी लगायके तीनों कालके समय ए सर्व मध्यम अनंत अनंते जानने.
भावथी ४	सूक्ष्म अपर्याप्त निगोद जीवके जघन्य अज्ञानके पर्याय तिणसे लगायके केवलज्ञानके पर्याय ए सर्व मध्यम अनंत अनंते जानने.




अथ जंबूद्वीपके उपरि सरसूं शिखा चढे तिसकी आम्नाय लिख्यते गोमट(म्मट)सारात् दोहा—धान तीन है सुकओ, बादरनीका जोइ ।

नौ ९ दस १० ग्यारह ११ भाग, इह जो परिधिका होइ ॥ १ ॥

वेधक कहीये पुंजको, तासो करि गुणकार ।

परिधि छठे भाग कृति, घन फल कयौ निहार ॥ २ ॥

(६३) स्वरूपयंत्रं

सुक धान गेहु आदि	बादर धान चणा आदि	नीका धान सरसो आदि
		
परिधि ९	परिधि १०	परिधि १३
२ ३ ४ ए घन फल	२ ७ ९ ए घनफल	३ १३ ३६ ए घनफल

१ अनुयोगद्वारनी वृत्तिना वाक्यना आधारे अहीं अमे लखेल छे । २ गोमटसार नामना दिगंबरिय ग्रंथमांथी ।

(६४) वर्गके छेदांका स्वरूप निरूपक यंत्रम्—

वर्ग	प्रथम	द्विजा	तीजा
अंक	४	१६	२५६
छेद	२	४	८
स्थापना	स्थापना	स्थापना	स्थापना
०	२,१	८,४,२	१२८,६४,३२,१६,८,४,२

अथ लोकोत्तर गिणती लिख्यते—

चौपाइ—लोकोत्तर गिणती सिद्धांत, जासौ संख असंख अनंत ।

ताके भेद दोइ मन मानि, छेद गिणतओ वरग प्रमानि ॥ १ ॥

छेद राशिका आधा आधा, जब लग अंतमे एक ही लाधा ।

राशिकूं आपही सौ गुणाकार, 'वरग' कहे इह बुद्धिविचार ॥ २ ॥

दोहा—धारा तीन ही जानीये, वरगधार घनधार ।

होइ घनघनाधार इम, पंडित कहे विचार ॥ १ ॥

(६५) अथ इन तीनों धारका जो प्रयोजन है सो यंत्रं गोमट्ट(ममट)सारात्

वर्गशलाका १	वर्गधारा ४	छेदशलाका २
२	१६	४
३	२५६	८
४	६५५३६	१६
५	४२९४९६७२९६	३२
६	१८४४६७४४०७३७०९५५१६१६	६४
७	३९ अंक आवै	१२८
८	७८ " "	२५६
संख्याते	संख्याते वर्ग जाइये तब जघन्य परित्त असंख्याते आवै	संख्याते
"	संख्याते वर्ग जाइये तब जघन्य युक्त असंख्याते आवै	"
असंख्याते	असंख्याते वर्ग जाइये तब जघन्य असंख्य असंख्याते आवै	असंख्याते
"	असंख्याते वर्ग जाइये तब सूक्ष्म अज्ञापल्योपमके समय होय	"
"	असंख्य वर्ग जाइये तब सूची अंगुलके प्रदेश	"
"	१ विरीया वर्ग कीजे तब प्रतर अंगुलके प्रदेश	"
"	असंख्य वर्ग जाइये तब जघन्य परित्त अनंत होय	"

१ वार ।

असंख्याते	असंख्य वर्ग जाइये तब जघन्य युक्त अनंत आवे	असंख्यात
"	अनंत वर्ग जाइये तब जघन्य अनंत अनंते आवे	अनंत
अनंत	अनंत वर्ग जाइये तब जीवास्तिकाय	"
"	अनंते वर्ग जाइये तब पुद्गलास्तिकाय	"
"	अनंते वर्ग जाइये तब अद्वा-काल	"
"	अनंते वर्ग जाइये तब सर्व आकाश श्रेणिके प्रदेश	"
"	१ विरिया वर्ग कीजे तब सर्व आकाश प्रतरके प्रदेश	"
"	अनंते वर्ग जाइये तब धर्मास्तिकायके पर्याय	"
"	अनंत वर्ग जाइये तब १ जीवके पर्याय	"
"	अनंते वर्ग जाइये तब जघन्य अज्ञानके पर्याय	"
"	अनंत वर्ग जाइये तब क्षायिक सम्यकत्वके पर्याय	"
"	वर्ग अनंते जाइये तब केवलज्ञान(के) पर्याय	"
वर्गशलाका	घनधारा	छेदशलाका
१	८	३
२	६४	६
३	४०९६	१२
४	१६७७७२१६	२४
५	२८१४७४९७६७१०६५६	४८
६	७९२२८१६२५१४२६४३३७५२३५४३९५०३३६ गर्भज मनुष्य	९६
७	५८ अंक	१९२
८	११६ अंक	३८४
असंख्य	असंख्य वर्ग जाइये तब घनांगुलके प्रदेश आवै	असंख्य
"	असंख्य वर्ग जाइये तब लोकाकाश श्रेणिके प्रदेश आवै	"
"	१ विरिया वर्ग कीजे तब लोकाकाश प्रतर प्रदेश आवै	"
वर्गशलाका	घनाघन धारा	छेदशलाका
१	५१२	९
२	२६२१४४	१८
३	६८७१९४७६१३६	३६
४	२२ अंक	७२
५	४१ "	१४४
६	८२ "	२८८
७	१६४ "	५७६

८	२२७	१०५२
असंख्य	असंख्य वर्ग जाइये तब लोकाकाश प्रदेश आवै	असंख्य
"	" " " " तेउकायके सर्व जीव राशि	"
"	" " " " तेउकायकी कायस्थिति समय	"
"	१ विरिया वर्ग कीने तब परम अवधिज्ञानका क्षेत्र आवै	"
"	असंख्य वर्ग जाइये तब स्थितिबंधके अध्यवसाय	"
"	" " " " अनुभागबंधके "	"
"	" " " " निगोदके शरीर औदारिक	"
"	" " " " निगोदकी कायस्थिति	"

दोहा—च्यारि ४ आठ ८ ओ पांचसे, बारह ५१२ आदि कहंत ।

धारा तीनो जाणिये, आगे वर्ग अनंत ॥ १ ॥

चौपड़—कृत धारामे वर्ग विचार, ताके घन लइये घनधार ।

घनाघन धारामे तस वृंद, इम भाषे सबही जिनचंद ॥ १ ॥

दोइ २ तीन ३ अरु नौ ९ है छेद, आदि तिहुं धारा इम भेद ।

आगे दुगुण दुगुण सब ठाम, वरग कृति घन वृन्दो नाम ॥ २ ॥

दूने कृतिमे तिगुने घणा, नौ गुण छेद घनाघन तणा ।

इक इक धारा तीन प्रकार, गुण १ पुनि भाग २ अयसि ३ निहार ॥ ३ ॥

छेद जोग है इस गुणकार, तस विजोग है भागाहार ।

निजसम थल थापीजे रास, अनो अन्नताको अभ्यास ॥ ४ ॥

दोहा—पहिले विरलन देय पुनि, तासौ है उत्पन्न ।

विरलन जाहि विषे(खे)रीये, देय उपरजो दिन्न ॥

चौपड़—विरलन राशि करो गुणाकार, देय छेद सौ बुद्धिविचार ।

जो आवे सो छेद प्रमाण, उत्पन्न राशि इह विद्यमान ॥ १ ॥

विरलन राशि स्थापना—४ । १ १ १ १, देय राशि स्थापना—४ ४ ४ ४ देय राशिके

१ १ १ १

छेद २ सें देय राशिकूं गुण्या लब्ध ८ छेद, इतने उत्पन्न राशिके २५६ छेद होय.

दोहा—अर्ध अर्ध जो छेदको, कीजे सो कृति रास ।

अपने छेद समान ही, वर्ग होय अभ्यास ॥ १ ॥

राशि १६, छेद ४. चौथे ठिकाणे उत्पन्न राशि १८४४७४४०७३७०९५५१६१६.

(६६) अथ इन्द्रियस्वरूपयंत्रम् प्रज्ञापना १५ मे पदे

	निवर्तन इन्द्रिय	अभ्यन्तर इन्द्रिय १	५ इन्द्रियांका संस्थान कदंब पुष्प आदिका कह्या है. अंगुलके असंख्य भाग.
द्रव्य इन्द्रिय	आकार	बाह्य इन्द्रिय २	८ इन्द्रिय कर्ण २, नेत्र २, नासिका २, जिह्वा १, स्पर्श १, इनका संस्थान नाना प्रकारे.
	उपकरण	बाह्य इन्द्रिय १	खड्ग धारा समान स्वच्छतर पुद्गल समूह रूप जैसे खड्ग धाराके सार पुद्गल काम करे है तैसे इन्द्रियाके सारता तिनके व्याघातसे अंधा, बहिरा आदि होता है.
		अभ्यन्तर २	अभ्यन्तर उपकरण शक्तिरूप जानने.
भाव इन्द्रिय	लब्धि १	श्रोत्रेन्द्रिय आदि विषय सर्व आत्माके प्रदेशामे तदावरणीय कर्मका क्षयोपशम.	
	उपयोग २	स्व स्व विषयमे लब्धिरूप इन्द्रियाके अनुसार आत्माका व्यापार ते 'उपयोग इन्द्रिय' कहीये. इति नन्दीवृत्तौ.	

(६७) श्रीप्रज्ञापना पद १५ से इन्द्रिययंत्रम्

इन्द्रिय	जघन्य आदि	श्रोत्रेन्द्रिय	चक्षु	घ्राण	रसनेन्द्रिय	स्पर्शन
संस्थान	०	कदंब पुष्पका	मसूर चंद्र	अतिमुक्त	छु (खु) रप्प	नाना संस्थान
जाडपणा	०	अंगुल असंख्य भाग	→ ए	व	म्	→
विस्तार	०	”	एवम्	एवम्	पृथक् अंगुल	शरीरप्रमाण
स्कंध	०	अनंत प्रदेश	→ ए	व	म्	→
अवगाहन	असंख्य प्रदेश	→	ए	व	म्	→
अल्प बहुत्वम्	अवगाहना	२ संख्येय गुणा	१ स्तोक	३ संख्य	४ असंख्य	५ संख्यस्वरूप टीकामे
	प्रदेश	७ संख्येय	६ अनंत	८ संख्येय	९ असंख्येय	१० संख्येय
	कर्कश गुरु	२ अनंत	१ स्तोक	३ अनंत	४ अनंत	५ अनंत
	मृदु लघु	९ अनंत गुणे	१० अनंत गुणे	८ अनंत गुणे	७ अनंत गुणे	६ अनंत गुणे
स्पृष्ट	०	स्पृष्ट	अस्पृष्ट	स्पृष्ट	स्पृष्ट	स्पृष्ट
प्रविष्ट	०	प्रविष्ट	अप्रविष्ट	प्रविष्ट	प्रविष्ट	प्रविष्ट
विषये	जघन्य	अंगुल असंख्य	→ ए	व	म्	→
	उत्कृष्ट	१२ योजन	लाख योजन झञ्जेरी	नव योजन	नव योजन	नव योजन

१ नन्दीसूत्रनी वृत्तिमां ।

(६८) अथ इन्द्रियांकी उत्कृष्ट विषय

श्रोत्रेन्द्रिय	१२ योजन	८०० धनुष्य				
चक्षु	लक्ष "	५९०८ "	२९५४ धनुष्य			
घ्राण	९ "	४०० "	२०० "	१०० धनुष्य		
रसना	९ "	५१२	२५६ "	१२८ "	६४ घ.	
स्पर्शन	९ "	६४००	३२०० "	१६०० "	८०० घ.	४०० घ.
०	श्रोत्रेन्द्रिय संज्ञी	पंचेन्द्रिय असंज्ञी	चौरेंद्री	तीनेंद्री	बेइंद्री	एकेंद्री

(६९) अथ श्वासोच्छ्वासस्वरूपयंत्रम्

आणमंति	ध्यानमे जो ऊंचा सास (श्वास) लेवे सो 'आणमंति' कहीये.
पाणमंति	ध्यानमे जो नीचा सास लेवे सो 'पाणमंति' कहीये.
उसास	ध्यान विना जो ऊंचा सास लेवे सो 'उसास' (उच्छ्वास) .
निसास	ध्यान विना जो नीचा सास लेवे सो 'निःश्वास' कहीये.

(७०) (द्रव्यप्राणादि)

भावप्राण ४	द्रव्यप्राण १०	भावप्राण ४	द्रव्यप्राण १०
ज्ञानप्राण १	ज्ञानप्राणसे ५ इन्द्रिय- प्राण उत्पत्ति ५	सुखप्राण ३	सुखप्राणसे श्वासोच्छ्- वास प्राण १
वीर्यप्राण २	वीर्यप्राणसे मनबल, वचन, काया	जीवितव्यप्राण ४ सर्व ४ हूये	जीवितव्यप्राणसे आयु प्राण; एवं १०

(७१) *आठ आत्मा भगवती श० १२, उ० १० (सू० ४६७)

	द्रव्यात्मा	कषायात्मा	योगात्मा	उपयो- गात्मा	ज्ञानात्मा	दर्श- नात्मा	चारि- त्रात्मा	वीर्यात्मा
द्रव्यात्मा १	०	नियमा	नि	नि	नि	नि	नि	नि
कषायात्मा २	भजना	०	भ	भ	भ	भ	भ	भ
योगात्मा ३	भ	नि	०	भ	भ	भ	भ	भ
उपयोगात्मा ४	नि	नि	नि	०	नि	नि	नि	नि
ज्ञानात्मा ५	भ	भ	भ	भ	०	भ	नि	भ
दर्शनात्मा ६	नि	नि	नि	नि	नि	०	नि	नि
चारित्रात्मा ७	भ	भ	भ	भ	भ	भ	०	भ
वीर्यात्मा ८	भ	नि	नि	भ	भ	भ	नि	०

*अल्पबहुत्व—“सर्वथोवाओ चरिसायाओ, नाणायाओ अणंतगुणाओ, कसायाओ अणंत०,

(७२) भगवती श० १२, उ० ९ (सू० ४६१-४६६), पंच देव

पंच देव-नाम	गुण	आगति नरकशी	तिर्यच गति	मनुष्य गति	देवगति	स्थिति	रूप विकुर्वे	काल करी कहां जावे	संतिष्ठन काय-स्थिति	अंतर	अल्प-बहुत्व	अवगाहना
भव्य-द्रव्य-देव १	तिर्यच, मनुष्य, देवता होणे-वाला	सातो नरकका आवे	युगल वर्जा शेष सर्व आवे	युगल वर्जा शेष सर्व माहे-शी आवे	सर्वार्थ-सिद्धि वर्जा २५ देवलोकादि सर्व देव	ज० अंत-मुहूर्त; उ० तीन पत्योपम	ज० १,२,३ उ० असंख्य	४ जातके देवतामे एक-स्मिन्	ज० अंत-मुहूर्त; उ० तीन पत्योपम	ज० दश हजार वर्ष; अंत-मुहूर्त अधिक; उ० वन-स्पतिकाल	४ असंख्यात गुणा	ज० अंगुलके असंख्य भाग; उ० हजार योजनकी
नर देव २	चक्रवर्ती	प्रथम नरकशी आवे	नही	०	सर्व देवतानो आव्यो	ज० सातसो वर्ष; उ० चार-लक्ष पूर्वनी	ज० १,२,३; उ० असंख्य	भोग न त्यागो तो नरकमे	ज० ७०० वर्ष; उ० ८४ लक्ष पूर्व	ज० १ सागर झरेरा; उ० देश ऊन अर्ध पुद्गल	१ सर्वस्तोक	ज० ७ धनुष्यकी; उ० ५०० धनुष्यकी
धर्म-देव ३	साधु	पहिली पांच नरकशी आवे	तेज, वायु युगल वर्जा शेष सर्व आवे	युगल वर्जा ने शेष सर्व आवे	वैमानिक प्रमुख सर्व ४ देवशी आवे	ज० अंत-मुहूर्त; उ० देश ऊन पूर्व कोटि	"	वैमानिक-मे तथा मोक्षे	ज० १ समय; उ० देश ऊन पूर्व कोटि	ज० पृथक् पत्योपम; उ० देश ऊन अर्ध पुद्गल	३ संख्यात-गुणा	ज० १ हाथ झरेरी; उ० ५०० धनुष्य
देवाधिदेव ४	तीर्थंकर	पहिली तीन नरकशी आवे	०	०	वैमानिकशी	ज० ७२ वर्ष; उ० ८४ लक्ष पूर्वनी	शक्ति-तो है, परंतु विकुर्वे नही	मुक्ति-मे जावे	ज० ७२ वर्ष; उ० ८४ लक्ष पूर्व	०	२ संख्यात गुणा	ज० ७ हस्तकी उ० ५०० धनुष्यकी
भाव देव ५	चार प्रकारना देवता	०	एकें-द्री ५, विगलेंद्री ३ वर्जा शेष आवे	संमू-च्छिम मनुष्य वर्जा शेष सर्व-शी आवे	०	ज० दस हजार वर्ष; उ० ३३ सा-गरोपम	ज० १,२; उ० अ-संख्य	पृथ्वी अप् वन-स्पति गर्भज तिर्यच ३; मनुष्यमे	ज० दस हजार वर्ष; उ० ३३ सा-गरोपम	५०० धनुष्यकी ज० अंत-मुहूर्त; उ० वन-स्पतिकाल	५ असंख्यात गुणा	ज० १ हस्तकी उ० ७ हाथ; उत्तर वैक्रिय लाख योजन

जोगायाओ वि०, वीरियायाओ वि उवयोगदवियदंसणायाओ तिन्नि वि तुल्लाओ वि०"—भगवती सू० ४६७।

(૭૩) (પુદ્ગલપરાવર્તન) ભગવતી શ૦ ૧૨, ૩૦ ૪ (સૂ૦ ૪૪૮)

પુદ્ગલપરા-વર્તન ૭	ઔદારિક ૧	વૈક્રિય ૨	તૈજસ પુદ્ગલ ૩	કાર્મણ ૪	મનપુદ્ગલ ૫	વચનપુદ્ગલ ૬	આનપ્રાણ ૭
સ્તોક કાલ સર્વમે કિસ કા ?	૩ અનંત	૭ અનંત	૨ અનંત	૧ સ્તોક	૫ અનંત ગુણા	૬ અનંત	૪ અનંત
થોડા પુદ્ગલ કૌનસા [કસ્ય] અને બહુતા કૌનસા ?	૫ અનંત ગુણા	૧ સ્તોક	૬ અનંત ગુણા	૭ અનંત	૩ અનંત	૨ અનંત	૪ અનંત

(૭૪) અથ પર્યાપ્તિયંત્રમ્

પ્રથમ સમય ૧	પ્રારંભકાલયંત્રમ્					સર્વ પર્યાપ્તિકા સમુચ્ચય-કાલ	સમાપ્તિકાલયંત્રમ્						
	૨ સમય	૩ સમય	૪ સમય	૫ સમય	૬ સમય		સ્વામી	૧ સ્તોક	૨ અસં-ચ્ય	૩ વિ-શેષ અધિ-ક	૪ વિશે-ષ	૫ વિશે-ષ	૬ વિ-શેષ
આ-હાર	આ-હાર	આ-હાર	આ-હાર	આ-હાર	આ-હાર	સમય	સંજ્ઞી પંચે-ન્દ્રિય	આ-હાર	શરીર	ઇન્દ્રિ-ય	શ્વા-સો-ચ્છ-વાસ	ભાષા	મન
	શરીર	શરીર	શરીર	શરીર	શરીર	અંતર્મુહૂર્ત	વિક-લે-ન્દ્રિય	"	"	"	"	"	
		ઇન્દ્રિ-ય	ઇન્દ્રિ-ય	ઇન્દ્રિ-ય	ઇન્દ્રિ-ય	"	એકે-ન્દ્રિય	"	"	"	"		
			સાસો	સાસો	સાસો	"	લ-બ્ધિ-અપર્ય	"	"	"			
				ભાષા	ભાષા	૦	૦	૦	૦				
					મન	૦	૦	૦					

નિશ્ચયનયમતેન સર્વ પર્યાપ્તિ એક સાથ પ્રારંભે પિણ વ્યવહાર નય મતે એક સમયાંતર, આહાર પર્યાપ્તિને એક સમય લગે અને અન્ય સર્વને અંતર્મુહૂર્ત કાલમ્ પૃથક્ પૃથક્.

૧ નિશ્ચય નયના અભિપ્રાય અનુસાર ।

(७५) (पर्याप्ति अपर्याप्ति षट्)

द्वार	भेद	पर्याप्ति षट् ६		अपर्याप्ति षट् ६	
		प्रारंभ— सर्व पर्याप्ति साथ मांडे	समाप्ति— अनुक्रमसे पूरी करे	प्रारंभ— सर्व एक साथ मांडे	समाप्ति— अनुक्रमसे पूरी करे
०	०	०	०	०	०
	लब्धि अपर्याप्त	०	०	४ साथ मांडे	३ पूरी करे
एकेन्द्रिय	पर्याप्ता	४ साथ मांडे	४ अनुक्रमे पूरी करे	०	०
बेइंद्री, सेइंद्री, बौरिंद्री, असंखी पंचेंद्री	लब्धि अपर्याप्त	०	०	५ साथ मांडे	४ अनुक्रमे पूरी करे
	लब्धि पर्याप्त	५ साथ मांडे	३।४।५ अनुक्रमे पूरी करे	०	०
गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यंच पंचेंद्री	करण अपर्याप्त	६ साथ मांडे	” ” ”	०	०
	करण पर्याप्त	” ” ”	६ अनुक्रमे पूरी करे	०	०
नैरयिक १ देवता	करण अपर्याप्त	” ” ”	५ अनुक्रमे पूरी करे	०	०
	करण पर्याप्त	” ” ”	६ पूरी करे	०	०

(७६) पर्याप्तिके सर्व कालकी अल्पबहुत्व

आहार पर्याप्ति १	शरीर पर्याप्ति २	इन्द्रिय पर्याप्ति ३	श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति ४	भाषा पर्याप्ति ५	मन पर्याप्ति ६
१ स्तोक	२ असंख्य	३ विशेष अधिक	४ विशेष	०	०
” ”	” ”	” ”	” ”	०	०
” ”	” ”	” ”	४ वि. काल करे	५ वि. काल करे	०
” ”	” ”	” ”	” ” ” ” ”	” ” ” ” ”	०
” ”	” ”	” ”	४ वि.	५ विशेष	६ किञ्चित् न्यून
” ”	” ”	” ”	” ”	” ”	६ विशेष अधिक
” ”	” ”	” ”	” ”	” ”	६ अधूरी ते किञ्चित् न्यून
” ”	” ”	” ”	” ”	” ”	६ तुल्यम्

(७७) श्रीप्रज्ञापना पद २८ मेथी पर्याप्ति स्वरूपयंत्रमिदम्

पर्याप्ति ६	आहार १	शरीर २	इन्द्रिय ३	श्वासोच्छ्वास ४	भाषा ५	मन ६
अपर्याप्ति	अपर्याप्त	अपर्याप्त	अपर्याप्त	अपर्याप्त	अपर्याप्त	अपर्याप्त
आहारक अनाहारी	नियमात् अनाहारी	आहारी अनाहारी	आहारी अनाहारी	आहारी अनाहारी	आहारी अनाहारी	आहारी अनाहारी

(७८) आहारयंत्र पन्नवणा पद २८

द्वार	भेद	स्वामी	संख्या
मे द तीन ३	सचित्त १	तिर्यच १ मनुष्य २	१
	अचित्त २	देव १, नरक, २, तिर्यच ३, मनुष्य ४	२
	मिश्र ३	तिर्यच १, मनुष्य २	३
मे द तीन ३	ओज १	अपर्याप्त अवस्थामे १	४
	रोम २	रोम पर्याप्त २	५
	कवल ३	बेंद्री, तेहंद्री, चौरेंद्री, तिर्यच पंचेंद्री, मनुष्य	६
मे द दो २	आभोगनिवृत्तितः	रोमआहारी कवल आहारी	७
	अनाभोगनिवृत्तितः	ओज आहारी, रोम आहारी	८
मे द दो २	मनोज्ञ	देवता आदिक	९
	अमनोज्ञ	नरक आदिक	१०

अथ १४ गुणस्थान स्वरूप लिख्यते—(१) मिथ्यात्व गुणस्थान, (२) सास्वादन गु., (३) मिश्र गु., (४) अविरति सम्यग्दृष्टि गु., (५) देशविरति गु., (६) प्रमत्त संयत गु., (७) अप्रमत्त संयत गु., (८) निवर्त्य बादर (अपूर्वकरण ?) गु., (९) अनिवर्त्त बादर (अनिवृत्ति) गु., (१०) सूक्ष्म संपराय गु., (११) उपशांतमोह गु., (१२) क्षीणमोह गु., (१३) स्त्रीगी केवली गु., (१४) अयोगी (केवली) गु. इति नाम.

अथ लक्षण—प्रथम गुणस्थानका लक्षण—कुदेव माने; कुदेवके लक्षण—यथ विषयी होवे, पुण्य प्रकृति भोग ले, राग द्वेष सहित होवे तेहने देव माने १. कुगुरु-चारित्र्य धर्म रहित जे अन्यलिङ्गी तथा खलिङ्गी गुणभ्रष्ट, परिग्रहना लोभी, अभिनिवेशकी(शी), पात्र महाव्रते

रहित तेहने गुरु माने. धर्म—यथार्थ आत्मपरिणति केवलभाषित अनेकांत—स्याद्वादरूप जिम है तिम न माने, अपनी कल्पनासे सहहणा करे, पूर्व पुरुषांका मत अंश करे, सूत्र अर्थ विपरीत कहै, नय प्रमाण न समजे, एकांत वस्तु प्ररूपे, कदाग्रह छोडे नही ते. मिथ्यात्वमोहनीयके उदये सत्पदार्थ मिथ्या भासे जैसे धतुरा पीये हूये पुरुषकू श्वेत वस्तु पीत भान होवे तथा जैसे ज्वरके जोरसे भोजनकी रुचि नही होती है तैसे मिथ्यात्वके उदय करी सत् पदार्थ जूठा जाने है ते प्रथम गुणस्थानके लक्षण.

जैसे पुरुषने खीर खंड खाके वम्या, पिण किंचित् पूर्वला खाद वेदे है तैसे उपशमसम्यक्त्व वमतां पूर्व सम्यक्त्वका खाद वेदे है. इति द्वितीय.

जैसे 'नालिकेर' द्वीपका मनुष्यका अन्नके उपरि राग नही, अने द्वेष बी नही तिनोने कदे अन्न देख्या नही इस वास्ते. ऐसे जैन धर्म उपरि राग बी नही द्वेष बी नही ते मिश्र गुणस्थानका लक्षण जानना. इति तृतीय.

अठारें दूषण रहित सो देव, पांच महाव्रतधारी शुद्ध प्ररूपक सो गुरु, धर्म केवलिभाषित स्याद्वादरूप. चौकडी दूजीके उदये अविरति है इति चतुर्थ.

१२ (?) अनुव्रत पाले, ११ पडिमा आराधे, ७ कुव्यसन, २२ अभक्ष्य टाले, ३२ अनंत-फाय वजे, उभय काले सामायिक, प्रतिक्रमणा करे, अष्टमी, चौदस, अमावास्या, पूर्णमासी, कल्याणक तिथि इनमे पोषध करे ओर तिथिमे नही अने इकवीस गुण धारक ए (पांचमाका) लक्षण.

छठा—सतरे भेदे संयम पाले, पांच महाव्रत पाले, ५ समिति, ३ गुप्ति पाले, चारित्रिया, संतोषी, परहित वास्ते सिद्धान्तका उपदेश देवे, व्यवहारमे कले (रह?) कर चौदा उपगणधारी परंतु प्रमादी है. एह लक्षण छठेकों.

सातमे—संज्वलन कषायना मंदपणाथी नष्ट हुया है प्रमाद जेहना, मौन सहित, मोहके उपशमावनेकू अथवा क्षय करनेकू प्रधान ध्यान साधनेका आरंभ करे, मुख्य तो धर्मध्यान हुइ, अंशमात्र रूपातीत शुरू ध्यान पिण होवे है, षडावश्यक कर्तव्यसे रहित, ध्यानारूढत्वात्.

अष्टमा—क्षपक श्रेणिके लक्षण—आसन अकंप, नासिकाने अग्रे नेत्रयुगल निवेशी कलुक उघाड्या है नेत्र ऐसा होके संकल्प विकल्परूप जे वायुराजा तेहथी अलग कीना है चित्त, संसार छेदनेका उत्साह कीधा है ऐसा योगीन्द्र शुरू ध्यान ध्यावा योग्य होता है पीछे पूरक ध्यान, कुंभक ध्यान, स्थिर ध्यान ए तीनो शुरूके अंतरमें वमे है. इति अष्टम लक्षण.

नवमे गुणस्थानके नव भाग करके प्रकृति क्षय करे. इति नवमा.

दसमे सूक्ष्म लोभ संज्वलन रह्या और सर्व मोहका उपशम तथा क्षय कीया.

सर्वथा मोहके उपशम होणे करके उपशांतमोह गुणस्थान कहीये है. ११ मा.

सर्वथा मोहके क्षय होणे ते क्षीणमोह गुणस्थान कहा. १२ मा.

च्यार घातीया कर्म क्षय किया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, यथाख्यात चारित्र, अनंत वीर्य इन करके विराजमान, योग सहित इति सयोगी.

मन, वचन, काया योग रूंधीने पांच हख अक्षर प्रमाण काल पीछे मोक्ष.

(७९) आगे गुणस्थान पर नाना प्रकारके १६२ द्वार है तिनका स्वरूप यंत्रसे—

		१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	जीव भेद १४	१४	७	१	२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
२	योग १५	१३	१३	१०	१३	११	१३	११	९	९	९	९	९	७	०
३	उपयोग १२	५	५	६	६	६	७	७	७	७	७	७	७	२	२

जीवभेदमे दूजे गुणस्थानमे वादर एकेंद्रीका भेद १ अपर्याप्त कहा है सो इस कारण—
ते एकेंद्रीमे साखादन सम्यक्त्व है अने सूत्रे न कही तिसका समाधान—एकेंद्रीमे साखादन
कोइक कालमे होइ है, बहुलताइ करके नही होती, इस कारण ते सूत्रमे विवक्षा नही करी.
अने कर्मग्रंथमे कोइ कालकी विवक्षा करके कहा है. इस वास्ते विरोध नही. एह समाधान
भगवतीकी वृत्तिमे कहा है. दूजे गुणस्थानमे अपर्याप्तका भेद है ते करण अपर्याप्ता
जानने, लब्धि अपर्याप्ता तो काल करे है. अने दूजे गुणस्थाने अपर्याप्ता काल नही करे. तथा
योगद्वारमे पांचमे छठे गुणस्थानमे औदारिकमिश्र योग कर्मग्रंथे न मान्यो, किस कारण? ते
तिहां वैक्रिय आहारककी प्रधानता करके तिनो ही का मिश्र मान्या; अन्यथा तो १२ तथा
१४ योग जानने, परंतु गुणस्थानद्वार तो कर्मग्रंथकी अपेक्षा है; तिस वास्ते कर्मग्रंथकी
अपेक्षा ही ते सर्वत्र उदाहरण जानना. तथा उपयोगद्वारमे पहिले १, दूजे गुणस्थाने ५ उपयोग
कहै है सो तीन अज्ञान, चक्षु, अचक्षु दोइ दर्शन; एवं ५ उपयोग जानने. दूजे गुणस्थानमे
ज्ञान मलिन है, मिथ्यात्वके अभिमुख है. अवश्य मिथ्यात्वमे जायगा, तिस कारण ते अज्ञान
ही कहा; अन्यथा तो तीन ज्ञान, तीन दर्शन जानने. अवधिदर्शन अवधिज्ञान विना न
विवक्ष्यो. इस कारण ते ५ उपयोग कहै; अन्यथा तो प्रथम गुणस्थाने ३ अज्ञान, ३ दर्शन
जानने तथा तीजे गुणस्थानमे ज्ञान अंशकी विवक्षा ते तीन ज्ञान, तीन दर्शन है; अने अज्ञान
अंशकी विवक्षा करे तीन अज्ञान, तीन दर्शन जानने.

	द्रव्य लेश्या ६	६	६	६	६	६	३	१	१	१	१	१	१	१	०
५	भाव- लेश्या ६	६	६	६	३	३	३	१	१	१	१	१	१	१	०

भावलेश्या तीन—कृष्ण, नील, कापोत; एह तीन लेश्या वर्तता सम्यक्त्व न पंडित्वजे
अने सम्यक्त्व आया पीछे तो तीनो भावलेश्या होइ है इति भगवतीवृत्तौ अने तीन
अप्रशस्त भावलेश्यामे देशवृत्ती (विरति?) सर्ववृत्ती (विरति?) नही होइ.

६	मूल हेतु ४	४	३	३	३	३	२	२	२	२	२	२	१	१	०
७	उत्तर हेतु ५७	५५	५०	४३	४६	३९	२६	२४	२२	१६	१०	९	९	७	०
०	मिथ्यात्व ५	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	अविरत १२	१२	१२	१२	११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	कपाय २५	२५	२५	२१	२१	१७	१३	१३	१३	७	१	०	०	०	०
०	योग १५	१३	१३	१०	१३	११	१३	११	९	९	९	९	९	७	०
८	अल्पबहुत्व	अनंत गुणा १४	असं. १०	असं. ११	असं. १२	असं. ९	सं. ८	सं. ७	वि. ३ ५	वि. ३ ४	वि. ३ ३	थोवा १	सं. २	सं. ६	अनंत गुणा १३
९	मूलभाव ५	३	३	३	५	५	५	५	५	५	५	५	४	३	२
१०	उत्तर भाव ५३	३४	३२	३३	३६	३४	३४	३०	२७	२८	२३	२१	२०	१३	१२
०	उपशम २	०	०	०	१	१	१	१	१	२	२	२	०	०	०
०	क्षायिक ९	०	०	०	१	१	१	१	१	१२	१२	२	२	९	९
०	क्षयोपशम १८	१०	१०	११	१२	१४	१४	१४	१३	१२	१२	१२	१२	०	०
०	औदयिक १२	२१	२०	२०	१९	१७	१५	१२	१०	१०	४	३	३	३	२
०	परिणामी ३	३	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	१	१

मूल भाव ५, तद्यथा—(१) औपशमिक, (२) क्षायिक, (३) क्षायोपशमिक, (४) औदयिक, (५) परिणामिक. उत्तर भेद ५७—औपशमिकके दो भेद—(१) उपशमसम्यक्त्व, (२)

उपशमचारित्र, एवं दो; क्षायिक भाव ९ भेदे—(१) केवलज्ञान, (२) केवलदर्शन, (३) क्षायिक सम्यक्त्व, (४) क्षायिक चारित्र, (५) दानान्तराय, (६) लाभान्तराय, (७) भोगान्तराय, (८) उपभोगान्तराय, (९) वीर्यान्तराय एवं ५ क्षय करी, एवं ९; क्षयोपशमके १८ भेद— (१) मति, (२) श्रुत, (३) अवधि, (४) मनःपर्यव, (५-७) तीन अज्ञान, (८-१०) तीन दर्शन केवल विना, (११-१५) पांच अन्तरायका क्षयोपशम, (१६) देशविरति (१७) सर्वविरति, (१८) क्षयोपशमसम्यक्त्व, एवं १८; औदयिकके २१ भेद—गति ४, कषाय ४, वेद ३, लेख्या ६, मिथ्यात्व १, एवं १८, (१९) अज्ञान, (२०) अविरति, (२१) असिद्धपणउ, एवं सर्व २१; परिणामिकके ३—(१) जीव, (२) भव्य, (३) अभव्य, एवं ३; एवं सर्व ५३. नवमे गुणस्थानमे उपशमचारित्र अने क्षायिकचारित्र जो कहे है सो तीसरी चौकडीके क्षय तथा उपशमकी अपेक्षा है; उपशम क्षपक श्रेणि आश्री; अन्यथा तो चारित्र क्षयोपशमभावे है. तेरेमे १४ मे एक जीव परिणामिक भाव जानना.

११	समुद्धात ७	५	५	२	५	५	६	१।५	१	१	१	१	०	१	०
----	---------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

सातमे गुणस्थानमे ५ समुद्धात कही है ते पूर्व अपेक्षा करके जाननी. सातमे (१) वेदनीय, (२) कषाय, (३) वैक्रिय, (४) आहारक ए चार समुद्धात करता तो नहीं, पिण वैक्रिय, आहारक शरीर विना समुद्धातके होते नहीं. इस वास्ते ५; एक होवे तो मारणान्तिक समुद्धात जाणवी. इति अलं विस्तरेण.

१२	ध्यान पाया १६	८	८	८	१२	१२	७	४	५	१	१	१	१	१	१	२
										प्रथम					दूजा	

छठे गुणस्थानमे ७ पाये कहे है सोइ आर्तध्यानका प्रथम पाया नही ते. यथा सेवे भोगे है जे कामभोग तिनका वियोग न वलै. तत्त्वं बहुश्रुतात् गम्यम् ।

१३	दंडक २४	२४	२२	१६	१६	२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१४	वेद स्त्री आदि	३	३	३	३	३	३	३	३	३	०	०	०	०	०	०
१५	चौरित्र ७	१	१	१	१	१	३	३	२	२	१	१	१	१	१	
१६	योनि लक्ष ८४	८४	५६	२६	२६	१८	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	
१७	कुल १९७५- ००००,०००, ०००	१९७- ५०	११६॥ १८७	११६॥	११६॥	६५॥	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	
१८	आश्रव भेद ४२	४१	४१	४१	४०	४०	३२	३२					७	१	१	१

छठे गुणस्थानमे बत्तीस भेद आश्रवके है, तद्यथा—(१) पारिग्रहिकी क्रिया, (२) मिथ्यादर्शनप्रत्यया, (३) अप्रत्याख्यानक्रिया, (४) सामंतोपनिपातिकी क्रिया, (५) ईर्याप-

१ विस्तारथी सर्वु । २ तत्त्व बहुश्रुतथी जाणवुं । ३ अवयम, देशविरति अने सामायिक आदि ५ चारित्र ।

थिकी क्रिया, (६) प्राणातिपात, (७) मृषावाद, (८) अदत्तादान, (९) मैथुन, (१०) परिग्रह; एवं दश नास्ति अने सत्तावीसमे पांच इन्द्रिय टली.

१९	संवर भेद ५७	०	०	०	१२	१२	५७	५७	५७	५७	४५	४५	४५	३०	३०
----	----------------	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ए सर्व संवरना भेद खंधिया विचारितव्यं—सर्वगुणस्थान उपर विचार लेना.

२०	ध्रुवबंधी ४७	४७	४६	३९	३९	३५	३१	३१	३१	२९	१८	१८	१४	०	०	०	०
----	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

ध्रुवबंधी प्रकृति ४७ लिख्यते—ज्ञानावरणीय ५, दर्शनावरणीय ९, कषाय १६, भय १, जुगुप्सा १, मिथ्यात्व १, तैजस १, कर्मण १, वर्ण १, गंध १, रस १, स्पर्श १, निर्माण १, अगुरुलघु १, उपघात १, अंतराय ५, एवं ४७. जां लगे एहना बंध है तां लगे अवश्यमेव बंध होइ है; इस वास्ते इनका नाम 'ध्रुवबंधी' कहीये. दूजे गुणस्थानमे एक मिथ्यात्व टली. तीजे गुणस्थानमे अनंतानुबंधी ४, निद्रानिद्रा १, प्रचलाप्रचला १, सत्यानर्द्धि १ एवं सात टली. त्रीजेवत् चोथे. पांचमे अप्रत्याख्यान ४ नही. छठे प्रत्याख्यानावरण चार नही. एवं सातमे तथा आठमेके प्रथम भागमे तो सातमेवत्; दूजे भागमे निद्रा १, प्रचला १, ए, दो टली, त्रीजे भागमे तैजस १, कर्मण १, वर्ण १, गंध १, रस १, स्पर्श १, निर्माण १, अगुरुलघु १, उपघात १, एवं ९ टली. चोथे भागमे भय १, जुगुप्सा १, एवं २ टली, १८ का बंध. एवं नवमे दसमे ४ टली. संज्वलनका चौक, पांच ज्ञान, चार दर्शन, पांच अंतराय, एवं १४ का बंध; आगे नास्ति.

२१	अध्रुवबंधी १३	७०	५५	३५	३८	३२	३२	२८	२७	४	३	३	१	१	१	०
----	------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---

अध्रुवबंधी प्रकृति ७३ है.—हास्य १, रति १, शोक १, अरति १, वेद ३, आयु ४, गति ४, जाति ५, औदारिक १, वैक्रिय १, आहारक १ इन तीनोहीके अंगोपांग ३, संघयण ६, संस्थान ६, आनुपूर्वी ४, विहायोगति २, पराघात १, उच्छ्वास १, आतप १, उद्घोत १, तीर्थकर १, त्रसदशक १०, स्थावरदशक १०, गोत्र २; एवं सर्व ७३. अर्थ—कारण तो मिथ्यात्व आदि बंधनेका है अने ए ७३ प्रकृतिका बंध होय बी अने नही बी होय; इस वास्ते इनका नाम 'अध्रुवबंधी' कहीये. प्रथम गुणस्थानमे तीन टले—आहारक १, आहारक-अंगोपांग १, तीर्थकर १; एवं ३. दूजे गुणस्थाने १५ टली—नपुंसक वेद १, नरकत्रिक ३, जाति ४, पंचेन्द्रिय विना, छेहला संहनन १, छेहला संस्थान १, आतपनाम १, थावर १, सूक्ष्म १, साधारण १, अपर्याप्त १, एवं १५ टली. तीजेमे २० टली—स्त्रीवेद १, आयु ३, तीर्थच गति १, तीर्थच

१ पोतानी मति प्रमाणे । २ त्रीजानी पेठे । ३ नथी ।

आनुपूर्वी १, मध्यके ४ संहनन, मध्यके ४ संस्थान, उद्घोत १, अशुभ चाल १, दुर्भग नाम १, दुःस्वर १, अनादेय १, नीच गोत्र १, एवं २० टली. चौथेमे तीन वधी-मनुष्य-आयु १, देव-आयु १, जिन-नाम १. पांचमे ६ टली—मनुष्यत्रिक ३, औदारिक १, औदारिक-अंगोपांग १, प्रथम संहनन, एवं ६ टली. छठे पांचमे वत्. सातमे आहारक तदुपांग २ वधी, ६ टली—असातावेदनीय १, शोक १, अरति १, अस्थिर नाम १, अशुभ १, अयश १; एवं ६. आठमेके दो भाग. प्रथम भागमे एक देव-आयु टली. दूजे भागमे चारका बंध—साता-वेदनीय १, पुरुषवेद १, यशकीर्ति १, ऊंच गोत्र १, एवं ४ का बंध, शेष २३ टली. नवमेके प्रथम भागे ४, दूजे भागमे १ पुरुषवेद टला, तीनका बंध. दशमेऽपि एवं ३ का बंध. आगले तीन गुणस्थानमे एक सातावेदनीयका बंध. १४ मा अवंधक जानना.

२२	ध्रुव उदयी २७	२७	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	१२	०
----	------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

ध्रुव उदयी प्रकृति २७ है, ते यथा—ज्ञानावरणीय ५, दर्शनावरणीय ५, चक्षु आदि ४, मिथ्यात्व १, तैजस १, कार्मण १, वर्ण १, गंध १, रस १, स्पर्श १, निर्माण १, अगुरु-लघु १, स्थिर १, अस्थिर १, शुभ १, अशुभ १, अंतराय ५, एवं २७. एह प्रकृति जां लगे उदय है तां लगे अवश्य उदय है, अंतर न पडे; इस कारणसे इनका नाम 'ध्रुव उदयी' कहीये. दूजेमे मिथ्यात्वमोहनीय टली. एवं यावत् १२ मे गुणस्थान ताई २६ का उदय. तेरमे १४ टली—पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पांच अन्तराय, एवं १४. चौदमे ध्रुव उदयी कोई प्रकृति नहीं है.

२३	अध्रुव उदयी ९५	९०	८५	७४	७८	६१	५५	५०	४६	४०	३४	३३	३१	३०	१२
----	-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

अध्रुव उदयी ९५ प्रकृति है, तद्यथा—निद्रा ५, वेदनीय २, मोहकी २७ मिथ्यात्व विना, आयु ४, गति ४, जाति ५, शरीर ३, अंगोपांग ३, संहनन ६, संस्थान ६, आनुपूर्वी ४, विहायोगति २, पराघात १, उच्छ्वास १, आतप १, उद्घोत १, तीर्थकर १, उपघात १, त्रसादि ८, स्थिर १, शुभ १, ए दो विना आठ, स्यावर ८, अस्थिर १, अशुभ १, ए दो विना गोत्र २; एवं सर्व ९५. कदेक उदय हूइ, कदेक उदय नहीं होय; इस वास्ते 'अध्रुव उदयी' कहीये. पहिलेमे ५ नहीं—सम्यक्त्वमोह १, मिश्रमोह १, आहारक शरीर १, तदुपांग १, जिननाम १; एवं ५ नहीं. दूजेमे ५ नहीं—नरक-आनुपूर्वी १, आतप १, सूक्ष्म नाम १, साधारण १, अपर्याप्त १; एवं ५ नहीं. तीजेमे १२ टली—अनंतानुबंधी ४, तीन आनुपूर्वी, च्यार जात, स्यावर नाम १, एवं १२ टली; अने एक मिश्र मोहनीय वधी. चौथेमे चार आनु-पूर्वी, सम्यक्त्वमोहनीय १, एवं ५ वधी, अने एक मिश्र मोहनीय टली. पांचमेमे १७ टली—

अप्रत्याख्यान ४, नरकत्रिक ३, देवत्रिक ३, वैक्रिय शरीर १, तदुपांग १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १, तिर्यच-आनुपूर्वी १, मनुष्य-आनुपूर्वी १; एवं १७ नहीं. छठमे आठ टली—प्रत्याख्यानावरण ४, तिर्यच आयु १, तिर्यच गति १, उद्घोत १, नीच गोत्र १, एवं ८ टली; अने दोय वधी—आहारक १, तदुपांग १. सातमे पांच टली—निद्रा ३, आहारक १, तदुपांग १; एवं ५ टली. आठमे ४ टली—सम्यक्त्वमोहनीय १, छेहला तीन संहनन ३; एवं ४ टली. नवमे ६ टली—हास्य १, रति १, शोक १, अरति १, भय १, जुगुप्सा १; एवं ६ टली. दशमे ६ टली—वेद ३, लोभ विना संज्वलनकी ३; एवं ६ टली. ग्यारमे एक संज्वलनका लोभ टला. बारमे संहनन २ टले. अने द्विचरम स(म)य दोय निद्रा टली. तेरमे एक जिननाम वध्या. चौदमे १८ टली, १२ रही तिन बारांका नाम—साता वा असाता १, मनुष्यगति १, पंचेन्द्रिय जाति १, सुभग १, त्रसनाम १, बादर १, पर्याप्त १, आदेय १, यश १, तीर्थकर १, मनुष्य-आयु १, उंच गोत्र १; एवं १२ है. छेहले समय एक वेदनीय १, उंच गोत्र १; एवं २ टली. तीर्थकरकी अपेक्षा एह १२. तथा ९ का उदये.

२४	ध्रुव सत्ता १३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०

ध्रुव सत्ता १३० है, तद्यथा—ज्ञानावरणीय ५, दर्शनावरणीय ९, वेदनीय २, सम्यक्त्वमोहनीय १, मिश्रमोहनीय १, ए दो विना २६ मोहकी, तिर्यच गति १, जाति ५, वैक्रिय १, आहारक विना शरीर ३, औदारिक अंगोपांग १, पांच बंधन—(१) औदारिक बंधन, (२) तैजस बंधन, (३) कार्मण बंधन, (४) औदारिक तैजस कार्मण बंधन, (५) तैजस कार्मण बंधन, एवं ५, इम पांच ही संघातन, संहनन ६, संस्थान ६, वर्ण आदि २०, तिर्यच-आनुपूर्वी १, विहायोगति २, प्रत्येक ७ तीर्थकर विना, त्रस आदि १०, स्थावर आदि १०, नीच गोत्र १, अंतराय ५, एवं १३०.१३० बंधना मध्ये पांच बंधन टले है ते लिख्यते—वैक्रिय बंधन १, आहारक बंधन १, वैक्रिय तैजस कार्मण बंधन १, आहारक तैजस कार्मण बंधन १, औदारिक आहारक तैजस कार्मणबंधन १; एवं ५ बंधने टले. एवं संघातन ५. ध्रुव सत्ताका अर्थ—जां लगे ए प्रकृतिकी सत्ता कही है तां लगे सदाइ लामे; इस वास्ते 'ध्रुव सत्ता' कहीये. सातमे गुणस्थान ताइ १३० की सत्ता. आठमे क्षपक उपशम श्रेणिकी अपेक्षा दो प्रकारकी सत्ता जाननी—१३० की सत्ता उपशम सम्यक्त्वकी अपेक्षा ग्यारमे ताइ जाननी; अने क्षपककी अपेक्षा आठमे पांच टली, तद्यथा—अनंतानुबंधी ४, मिथ्यात्वमोहनीय १; एवं ५ टली. नवमे ३३ टली—निद्रानिद्रा १, प्रचलाप्रचला १, स्त्यानद्धि १, मोहकी १९ संज्वलनके माया, लोभ विना, तिर्यच गति १, पंचेन्द्रिय विना जाति ४, तिर्यच-आनुपूर्वी १, आतप १, उद्घोत १, स्थावर १, सूक्ष्म १, साधारण १; एवं ३३ टली. नवमेके नव भाग करके ३३ टालनी, यथा—प्रथम भागमे तो आठमे गुणस्थानवत्. दूजे भागमे १४ टली—तिर्यचद्विक

२, जाति ४, थीणत्रिक ३, उद्घोत १, आतप १, स्थावर १, सूक्ष्म १, साधारण १; एवं १४ टली; तीजे भागे ८ टली—दो चौकडी; चौथे भागे नपुंसकवेद १; पांचमे भागे स्त्रीवेद १; छठे भागे हास्य आदि ६; सातमे भागे पुरुषवेद १; आठमे भागे संज्वलन क्रोध १; नवमे भागे संज्वलन मान १; एवं सर्व भागोमे ३३ टली. दशमे गुणस्थाने एक संज्वलननी माया टली. बारमे संज्वलन लोभ टला. तेरमे १६ टली—निद्रा १, प्रचला १, ज्ञानावरणीय ५, दर्शनावरणीय ४, अंतराय ५; एवं १६ टली. चौदमे ७४ की सत्ता तो तेरमेवत्. छेहले समय सातकी सत्ता—त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, आदेय १, सुभग १, पंचेन्द्रिय १, साता वा असाता १, एवं ७ रही. मुक्तौ गमने सर्व प्रकृतिका व्यवच्छेद मंतव्यं.

२५	अध्रुव सत्ता २८	२८	२७	२७	२८	२८	२८	२८	२८	२८	२८	२८	२१	२१	२१	२१
----	--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

अध्रुव सत्ता २८ प्रकृति लिख्यते—सम्यक्त्वमोह १, मिश्रमोह १, आयु ४, तीन गति तीर्थच विना, वैक्रिय शरीर १, तदुपांग १, आहारक शरीर १, तदुपांग १, बंधन ५, संघातन ५, इनका स्वरूप ध्रुव सत्तामे लिख्या है, तीर्थच विना तीन आनुपूर्वी, तीर्थकर १, उंच गोत्र १; एवं २८. अध्रुव सत्ताका अर्थ—सदा सत्तामे न लामे, इस वास्ते 'अध्रुव सत्ता'. दूजेमे एक तीर्थकर नाम टला. एवं त्रीजे. चौथेथी मांडी ११ मे ताइ २८ की सत्ता, तीर्थकर नाम एक मिला. आठमे गुणस्थाने क्षपक श्रेणि अपेक्षा २३ की, सत्ता; ५ टली—सम्यक्त्वमोहनीय १, मिश्रमोह १ मनुष्य विना आयु ३; एवं ५. नवमे २ टली—नरकगति १, नरक आनुपूर्वी १, दशमे, बारमे, तेरमे, चौदमे २१ तो नवमेवत्, अने पांचवी सत्ता छेहले समय—मनुष्यत्रिक १, उंच गोत्र १, तीर्थकर १. एवं ५ की सत्ता जाननी.

२६	सर्वघाती २०	२०	१९	१२	१२	८	४	४	४	२	२	०	०	०	०
----	----------------	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

सर्वघाती २०—केवलज्ञानावरणीय १; केवलदर्शनावरणीय १, निद्रा ५, कषाय १२ संज्वलन विना, मिथ्यात्वमोहनीय १; एवं सर्व २०. सर्वघातीका अर्थ—आत्माका सर्वथा गुण हणे है, इस वास्ते 'सर्वघातिक' नाम. दूजे मिथ्यात्वमोहनीय टले. तीजे, चौथे अनंतानु-बंधी ४, निद्रा ३; एवं ७ टली. पांचमे अप्रत्याख्यान ४ टली. छठे, सातमे तीजी चौकडी टली. आठमे सातमेवत्. आगे दो रही—केवलज्ञानावरणीय १, अने केवलदर्शनावरणीय १. एह द्वार बंध अपेक्षा है.

२७	वेशघाती २५	२५	२४	२३	२३	२३	२३	२१	२१	१७	१२	०	०	०	०
----	---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

१ मोक्षे अतां तो बधी प्रकृतियो उच्छेद मानवो ।

देशघाती २५—मति आदि ज्ञानावरणीय ४, तीन दर्शनावरणीय केवल विना, संज्वलन ४, हास्य आदि ६, वेद ३, अंतराय ५; एवं २५. अर्थ—देश थकी आत्माना गुण हणे, नं तु सर्वथा. दूजे नपुंसकवेद टला. तीजेसे लेइ छठे ताइ स्त्रीवेद टल्या. सातमे अरति १, शोक १ टले. एवं आठमे, नवमेमे हास्य १, रति १. भय १, जुगुप्सा १; एवं ४ टली. दशमे संज्वलनका चौक ४, पुरुषवेद १; एवं ५ टली. आगे बंध नहीं.

२८	अघाती ७५	७२	५८	३९	४२	३६	३६	३४	३३	३	३	१	१	१	०
----	-------------	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---

अघाती ७५ है—वेदनीय २, आयु ४, नामकी ६७, गोत्र २; एवं ७५. अर्थ—ज्ञान, दर्शन, चारित्र इनकूं न हणे; इस वास्ते 'अघाती' कहीये. पहिलेमे आहारकद्विक २, जिननाम १; एवं तीन नहीं. दूजे १४ टली—छेवट्ट (सेवार्त) संहनन १, हुंडक संस्थान १, एकेन्द्रिय जाति १, स्थावर १, सूक्ष्म १, साधारण १, अपर्याप्त १, आतप १, विकलत्रिक ३, नरकत्रिक ३; एवं १४. तीजेमे १९ टली—दुभग १, दुःस्वर १, अनादेय १, संहनन ४ मध्यके, संस्थान ४ मध्यके, अग्रशस्त विहायोगति १, तिर्यच गति १, तिर्यच-आनुपूर्वी १, आयु ३ नरक विना, उद्घोत १, नीच गोत्र १; एवं १९. चौथे ३ मिले—मनुष्य-आयु १, देव-आयु १, जिननाम १; एवं ३. पांचमे ६ टली—प्रथम संहनन १, औदारिक १, तदुपांग १, मनुष्यगति १, मनुष्य-आयु १, मनुष्य-आनुपूर्वी १; एवं ६. एवं पांचमेवत् छठे. सातमे ४ टली—असाता १, अस्थिर १, अशुभ १, अयश १; एवं ४ टली. आहारक १, तदुपांग १, मिले. आठमे एक देव-आयु टली. नवमे ३० टली, अने ३ रही तेहनां नाम—सातावेदनीय १, यश १, उंच गोत्र १, एवं दशमे, ११ मे, १२ मे, १३ मे एका साताबंध.

२९	पुण्य मेद ४२	३९	३८	३४	३७	३१	३१	३३	३२	३	३	१	१	१	०
----	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---

पुण्यप्रकृति ४२—सातावेदनीय १, नरक विना आयु ३, मनुष्य-देव-गति २, पंचेन्द्रिय जाति १, शरीर ५, अंगोपांग ३, प्रथम संहनन १, प्रथम संस्थान १, शुभ वर्ण आदि ४, मनुष्य-देव-आनुपूर्वी २, शुभ चाल १, उपघात विना प्रत्येक ७, त्रस दशक १०, उंच गोत्र; एवं ४२. सुखदायक अने शुभ है, इस वास्ते 'पुण्यप्रकृति' कहीये. पहिलेमे ३ टली—आहारकद्विक २, तीर्थकर नाम १; एवं ३. दूजे एक आतापनाम टला. तीजे चार टली—तीन आयु ३, उद्घोत १; एवं ४. चौथे तीन मिली—मनुष्य-देव-आयु २, जिननाम १. पांचमे ६ टली—मनुष्यत्रिक ३, प्रथम संहनन १, औदारिक १, तदुपांग १; एवं ६. एवं छठे, सातमे आहारक १, तदुपांग १; एवं दो मिली. आठमे एक देव-आयु टली. नवमे २९ टली;

१ नहि के बधी रीते । २ एकलो ।

तीन रही—साता १, यश १, उंच गोत्र १. एवं दशमे. आगे एक सातावेदनीयका बंध. चौदमे गुणस्थानमे बंधका व्यवच्छेद है.

३०	पापप्रकृति ८२	८२	६७	४४	४४	४०	३६	३०	२८	२३	१४	०	०	०	०
----	---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

पापप्रकृति ८२—ज्ञानावरणीय ५, दर्शनावरणीय ९, असाता १, मोहकी २६, नरक-आयु १, नरक-तिर्यच-गति २, जाति एकेन्द्रिय आदि ४, संहनन ५, संस्थान ५, अशुभ वर्ण आदि ४, नरक-तिर्यच-आनुपूर्वी २, अशुभ चाल १, उपघात (आदि) स्थावर दशक १०, नीच गोत्र १, अंतराय ५; एवं ८२. अर्थ—दुःख भोगवे अथवा आत्माना आनंदरस शोषे ते 'पाप.' दूजेमे १५ टली—मिथ्यात्व १, हुंडक संस्थान १, छेवट्ट संहनन १, नपुंसक वेद १, जाति ४, स्थावर १, सूक्ष्म १, साधारण १, अपर्याप्त १, नरकत्रिक ३; एवं १५. तीजे २३ टली—अनंतानुबंधी ४, स्त्यानार्धित्रिक ३, दुभग १, दुःस्वर १, अनादेय १, संहनन ४ मध्यके, संस्थान ४ मध्यके, अशुभ चाल १, स्त्रीवेद १, नीच गोत्र १, तिर्यच-गति १, तिर्यच-आनुपूर्वी १; एवं २३. एवं चौथे पिण. पांचमे दूजी चौकडी ४ टली. छठे तीजी चौकडी ४ टली. सातमे ६ टली—अस्थिर १, अशुभ १, असाता १, अयश १, अरति १, शोक १; एवं ६. आठमे २ टली—निद्रा १, प्रचला १. नवमे ५ टली—वर्णचतुष्क ४, उपघात १. दशमे ९ टली—हास्य १, रति १, भय १, जुगुप्सा १, संज्वलनचतुष्क ४, पुरुषवेद १; एवं ९. ग्यारमे १४ टली—ज्ञानावरणीय ५, दर्शनावरणीय ४, अंतराय ५; एवं १४ टली, बंध नही.

३१	परावर्तिनी ९१	८९	७४	४७	४९	३९	३५	३१	३१	८	३	१	१	१	०
----	---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---

परावर्तिनी ९१—निद्रा ५, वेदनीय २, कषाय १६, हास्य १, रति १, शोक १, अरति १, वेद ३, आयु ४, गति ४, जाति ५, औदारिक, वैक्रिय, आहारक शरीर ३, अंगोपांग ३, संहनन ६, संस्थान ६, आनुपूर्वी ४, विहायोगति २, आतप १, उद्घोत १, त्रस १०, स्थावर १०, गोत्र २; एवं ९१. अर्थ—'परावर्तिनी' ते कहीये जे अनेरी प्रकृतिनो बंध, उदय निवारिने अपना बंध, उदय दिखावे [ते परावर्तिनी] यतः (पंचसंग्रहे बन्धव्यद्वारे गा. ४२)—

“विणिवारिय जा गच्छइ बंध उदयं व अण्णपगईए ।

सा हु परियत्तमाणी अणिवारं(रं)ति अपरियत्ता[ए] ॥”

पहिलेमे २ टली—आहारक द्विक २. दूजेमे १५ टली—नरकत्रिक ३, जाति ४ पंचेन्द्रिय विना, छेवट्ट संहनन १, हुंडक संस्थान १, नपुंसकवेद १, स्थावर १, सूक्ष्म १, साधारण १, अपर्याप्त १, आतप १; एवं १५ नही. तीजेमे २७ टली—अनंतानुबंधी ४, स्त्यानार्धित्रिक ३, तिर्यचत्रिक ३, देव-मनुष्य-आयु २, स्त्रीवेद १, दुभग १, दुःस्वर १, अनादेय १, संहनन ४ मध्यके, संस्थान ४ मध्यके, दुर्गमन १, नीच गोत्र १, उद्घोत १; एवं २७ टली. चौथेमे २ मिली—देव-आयु १, मनुष्य-आयु १. पांचमे १० टली—दूजी चौकडी ४, प्रथम

१ छाया—विनिवार्ये या गच्छति बन्धमुदयं वाऽन्यप्रकृतेः ।

सा खलु परावर्तमाना अनिवारयन्ती अपरावर्तमाना ॥

संहनन १, औदारिकद्विक २, मनुष्यत्रिक ३; एवं १०. छठे ४ टली—तीजी चौकडी ४. सातमे ६ टली—अस्थिर १, अशुभ १, असाता १, अयश १, अरति १, शोक १; एवं ६ टली; आहारकद्विक २ मिले. आठमे एक देव-आयु टली. नवमे २२ टली, ८ रही (ता)का नाम—संज्वलनचतुष्क ४, पुरुषवेद १, साता १, यश १, उंच गोत्र १; एवं ८ रही. दशमे ५ टली, ३ रही (ता)का नाम—साता १, यश १, उंच गोत्र १; एवं ३ रही. ग्यारमे, बारमे, तेरमे एक सातावेदनीयका बंध मंतव्यम्—

३२	अपरावर्ति २९	२८	२७	२७	२८	२८	२८	२८	२८	२८	१४	१४	०	०	०	०
----	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

अपरावर्ति २९ लिख्यते—ज्ञानावरणीय ५, चक्षु आदि ४, भय १, जुगुप्सा १, मिथ्यात्व १, तैजस १, कर्मण १, वर्ण आदि ४, पराघात १, उच्छ्वास १, अगुरुलघु १, तीर्थकर १, निर्माण १, उपघात १, अंतराय ५; एवं २९. जे परनो बंध, उदय निवार्या विना आपणा बंध, उदय दिखलावे ते 'अपरावर्तिनी.' पहिलेमे एक तीर्थकरनाम टल्या. दूजे तथा तीजे एक मिथ्यात्व टली. चौथेसे लेइ ८ मे ताई १ तीर्थकरनाम मिल्या. नवमे तथा दशमे १४ टली, १४ रही—ज्ञानावरणीय ५, दर्शनावरणीय ४, अंतराय ५; एवं १४ रही. आगे बंध नही. इति एवं बंध अधिकार. अथ उदय अधिकार जानना—

३३	क्षेत्रविपाकी ४	४	३	०	४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

क्षेत्रविपाकी चार—आनुपूर्वी ४. जिस क्षेत्रमे जावे तिहां वाट बहता उदय होइ ते 'क्षेत्रविपाकी,' "पुच्ची उदय बंके" इति वचनात्. आनुपूर्वी वक्रगतिमे उदय होइ.

३४	भवविपाकी ४	४	४	४	४	२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
----	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

भवविपाकी आयु ४—जिस भवमे उदय होइ तिहां ही रस देवे, न तु भवांतरे इति.

३४	जीवविपाकी ७८	७५	७२	६४	६४	५५	४९	४६	४५	३९	३२	३२	३०	३०	१७	११
----	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

जीवविपाकी ७८—ज्ञानावरणीय ५, दर्शनावरणीय ९, वेदनीय २, माहे २८, गति ४, जाति ५, विहायोगति २, उच्छ्वास १, तीर्थकर १, त्रस आदि त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, सुभग आदि ४, स्थावर १, सूक्ष्म १, अपर्याप्त १, दुर्भग आदि ४, गोत्र २, अंतराय ५; एवं ७८. जीवने रस देवे पिण शरीर आदि पुद्गलने रस न देवे, तैसात् 'जीवविपाकी' नाम. पहिले ३ टली—सम्यक्त्वमोहनीय १, मिश्रमोहनीय १, जिननाम १. दूजे ३ टली—सूक्ष्मनाम १, अपर्याप्त १, मिथ्यात्वमोहनीय १; एवं ३. तीजे ९ टली—अनंतानुबंधी ४, एकेंद्री १, बेइंद्री १, तेंद्री १, चौरिंद्री १, स्थावर १; एवं ९ मिश्रमोहनीय मिली. चौथे एक मिश्रमोहनीय टली, सम्यक्त्वमोहनीय मिली—पांचमे ९ टली—दूजी चौकडी ४, गति २,

दुर्भग १, अनादेय १, अयश १; एवं ९. छठे ६ टली—तीजी चौकडी ४, तिर्यच-गति १, नीच गोत्र १; एवं ६ टली. सातमे ३ निद्रा टली. आठमे एक सम्यक्त्वमोहनीय टली. नवमे हास्य आदि ६ टली. दशमे ३ वेद, लोभ विना तीन संज्वलनकी; एवं ६ टली, ११ मे संज्वलनका लोभ टला. बारमे ३२ तो ग्यारमेवत्. अंतके द्विसमयेमे दो निद्रा टली. तेरमे १४ टली—ज्ञाना० ५, दर्शना० ४, अंतराय ५; एवं १४; तीर्थकरनाम मिल्या. चौदमे ६ टली—एक तो वेदनीय साता वा असाता १, विहायोगति २, सुखर १, दुःखर १, उच्छ्वास १; एवं ६ टली; ११ रही—साता वा असाता १, मनुष्यगति १, पंचेन्द्रिय १, सुभग १, त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, आदेय १, यश १, तीर्थकर १, उंच गोत्र; एवं ११.

३५	पुद्गलविपाकी ३६	३४	३२	३२	३२	३०	३०	३१	२६	२६	२६	२६	२४	२४	१०
----	--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

पुद्गलविपाकी ३६—शरीर ५, अंगोपांग ३, संहनन ६, संस्थान ६, वर्ण आदि ४, पराघात १, आतप १, उद्घोत १, अगुरुलघु १, निर्माण १, उपघात १, प्रत्येक १, साधारण १, स्थिर १, शुभ १, अस्थिर १, अशुभ १; एवं ३६. पहिले २ टली—आहारक-द्विक २. दूजे २ टली—आतप १, साधारण १. एवं तीजे, चौथे. पांचमे वैक्रियद्विक २. छठे १ टली—आहारक १; अने आहारकद्विक २ मिले. सातमे २ टली—आहारकद्विक २. आठमे ३ टली—अंतके ३ संहनन. एवं ११ मे ताइ. १२ मे २ टली—दूजा, तीजा संहनन. एवं तेरमे बारमेवत्. (अर्थ)—पुद्गलने रस देवे पिण जीवने नही.

३६	ज्ञानावरणीयके बंधस्थान	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	०	०	०	०
३७	ज्ञानावरणीयके उदयस्थान १	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	०	०
३८	ज्ञानावरणीयके सत्तास्थान १	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	०	०

ज्ञानावरणीय कर्मना बंधस्थान १, पांच प्रकृतिना, एवं उदयस्थान १, सत्तास्थान १ पांच रूप.

३९	दर्शनावरणीयके बंधस्थान ३	९	९	६	६	६	६	६	६	४	४	४	०	०	०
----	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

नवनो बंधस्थान प्रथम. दूजे गुणस्थानमे १. छका बंधस्थान त्रीजासे लेकर आठमे गुण-स्थानके प्रथम भागमे होइ है. छके बंधमे ३ टली—निद्रानिद्रा १, प्रचलाप्रचला १, स्त्या-नार्धि १; एवं ३ टली. चारनो बंधस्थान अपूर्वकरणके दूजे भागथी लेकर दशमे ताइ है. चारके बंधस्थानमे २ प्रकृति टली—निद्रा १, प्रचला १. एवं दर्शनावरणीयके बंधस्थान १।६।४.

४०	दर्शनउदयस्थान २	५ ४	५ ४	५ ४	५ ४	५ ४	५ ४	५ ४	५ ४	५ ४	५ ४	५ ४	५ ४	० ०	० ०
----	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

चारका उदयस्थान होवे तो चक्षु आदि ४, जो पांचका उदयस्थान होवे तो तिहां निद्रा एक कोइ जिसका जिस गुणस्थानमे उदय है सो प्रक्षेपीये तो पांचका उदयस्थान,

४१	दर्शनसत्ता- स्थान ३	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	०	०
----	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

मिथ्यात्वसे लेकर उपशान्तमोह लगे नवकी सत्तानो एक स्थान, उपशपश्रेणि अपेक्षा अने क्षपकश्रेणि आश्री नवमे गुणस्थानके प्रथम भाग लगे नवनी सत्ता, नवमेके दूजे भागथी प्रारंभी बारमेके छेहले दो समय लगे सत्यानर्धि त्रिक क्षये ६ नी सत्तास्थान, बारमेके छेहले समय दो निद्रा क्षये ४ का सत्तास्थान ज्ञातव्यम्,

४२	वेदनीयके बंधस्थान १	साता वा अ- साता	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	सा ता	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	०	०
----	------------------------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

वेदनीयका बंधस्थान १-साता वा असाता, आपसमे विपर्ये(र्यय) है, इस वास्ते बंधस्थान १ जानना,

४३	वेदनीयका उदयस्थान १	साता वा अ- साता	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं
----	------------------------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

वेदनीयका उदयस्थान १-साता वा असाता, दोनो(का) समकालमे उदय नहीं, इस वास्ते एक स्थान,

४४	वेदनीयके सत्तास्थान २	१ वा १	१ १	१ १	१ १	१ १	१ १	१ १	१ १	१ १	१ १	१ १	१ १	१ १	१ १	१ १
----	--------------------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

वेदनीयके सत्तास्थान २ साता वा असाता, जो साता क्षय कीनी होइ तो असाताकी सत्ता; असाता क्षय करी होइ तो साताकी सत्ता; इस वास्ते दो सत्तास्थान ज्ञेयम्,

४५	मोहके बंध- स्थान १०	२२	२१	१७	१७	१३	९	९	९	५ ४ ३ २ १	०	०	०	०	०	०
----	------------------------	----	----	----	----	----	---	---	---	-----------------------	---	---	---	---	---	---

मोहनीयके दश बंधस्थान; तत्र २२ नो बंध किम् ? २८ माहेथी ६ काटे—सम्यक्त्व-मोहनीय १, मिश्रमोहनीय १, वेद २, हास्ययुगल २ अथवा अरतियुगल २; इनमे (से) एक युगल लीजे; एवं ६ टली. २१ के बंधे मिथ्यात्व १ टली. १७ ने बंधे प्रथम चौकडी ४ टली. १३ ने बंधे दूजे चौकडी ४ टली. ९ ने बंधस्थाने तीजी चौकडी ४ टली. ५ ने बंधे ४ टली—हास्य १, रति १, भय १, जुगुप्सा १; एवं ४. नवमेके पहिले भागे ५ बांधे; दूजे भागमे पुरुषवेद टला; तीजे भागे संज्वलनक्रोध टला; चौथे भागे संज्वलनमान टला; पांचमे भागे माया टली.

४६	मोहके उदय-स्थान ९	७	७	७	६	५	४	४	४	२	१	०	०	०	०
		८	८	८	७	६	५	५	५	१					
		९	९	९	८	७	६	६	६	१					
		१०	९	९	१०	८	७	७	६	१					

उदयस्थानमे पश्चानुपूर्वी समजना. दसमे एक संज्वलन लोभनो उदय. एवं एक स्थान. नवमे संज्वलना एक कोइ उदय; एवं १. जो चार जगे एकेकका अंक लिख्या सो चार तरे(ह) उदय—क्रोध १ वा मान १ वा माया १ वा लोभ १. दोके उदयमे एक कोइ वेद घालीये तो २. अपूर्वकरणे हास्य १, रति १, घाले ४ का उदय. भय प्रक्षेपे ५ का उदय; जुगुप्सा प्रक्षेपे ६ का उदय; सातमे तथा छठे प्रत्याख्यानीया कोइ एक घाले सातका उदय; पांचमे अप्रत्याख्यानीया कोइ एक घाले ८ नो उदय; अविरति मिश्र गुणस्थाने अनंतानुबंधी एक कोइ घाले ९ नो उदय. मिथ्यात्वगुणस्थाने एक मिथ्यात्व घाले १० का उदय. एवं उदय-स्थान नव.

अथ सुगमताके वास्ते फिर लिखीये है—मिथ्यात्वगुणस्थानमे चार उदयस्थान. प्रथम सातका उदय—मिथ्यात्व १, कोइ अप्रत्याख्यान चारोंमें १, कोइ प्रत्याख्यान १, कोइ संज्वलन १. कोइ किस वास्ते ? एक चौकडीना क्रोध आदि वेदातां सघलाइ क्रोध वेदे क्रोध, एवं मान आदि वेदे मान; जातके सदृशपणे करी तीन वेद माहे एक कोइ वेद १, हास्य १, रति १ वा शोक १, अरति १ इनमे एक युगल लीजे; एवं ७. आठके उदयमे भय वा जुगुप्सा; अथवा अनंतानुबंधी चारमे(से) एक इन तीनों माहेथी एक, सात पूर्वली; एवं ८. नवके उदयमे अनंतानुबंधी १, भय १ लीजे; अथवा अनंतानुबंधी १ जुगुप्सा १ लीजे; अथवा भय १, जुगुप्सा १ लीजे; एवं ९. दशमे तीनों—अनंतानुबंधी १, भय १, जुगुप्सा १; ए तीनों सातमे घाले. दूजेमे सातका उदयमे चारों चौकडीका खजातीया एकेक; एवं ४; हास्य १, रति १, शोक १, अरति १, इनमेसुं एक जुगल २, एक कोइ वेद १; एवं ७. आठमे भय १ वा जुगुप्सा १ घाले ८. भय १, जुगुप्सा १ दोनो घाले ९. एवं मिश्रे जानना. चौथे गुणस्थाने ६ नो उदय उपशमसम्यक्त्व वा क्षायिक सम्यक्त्वना धणीने है. अप्रत्याख्यान १, प्रत्याख्यान १, संज्वलन १, इनमेसुं एकेक खजातीया ३, एक कोइ वेद १, एक कोइ युगल; एवं ६. सातमे

भय १ वा जुगुप्सा १ वा सम्यक्त्वमोहनीय १ घाले ७. सम्यक्त्वमोह १, भय १ वा सम्यक्त्वमोह १, जुगुप्सा १ वा भय १, जुगुप्सा १ घाले ८; तीनों घाले ९. पांचमे गुणस्थाने प्रत्याख्यान १, संज्वलन १, एक कोइ वेद १, एक कोइ युगल २; एवं ५. भय १ वा जुगुप्सा १ वा सम्यक्त्वमोह १ घाले ६; भय १, वा जुगुप्सा १ वा भय १ सम्यक्त्वमोह १ वा जुगुप्सा १ सम्यक्त्वमोह १ घाले ७; तीनों घाले ८. छठे गुणस्थानमे संज्वलन १, एक कोइ वेद १, एक कोइ युगल २; एवं ४. क्षायिक तथा उपशमसम्यक्त्वना धर्मीने ४ का उदय; भय १, जुगुप्सा १ सम्यक्त्वमोहनीय पीछली तरे घालीये तो ५।६।७ का उदय होवे. छठे गुणस्थानवत् सातमा. आठमे नवमेका पहिले लिखाही है.

४७	मोहके सत्ता-स्थान १५	२८ २७ २६	२८	२८ २७ २६	२८ २७ २६	२८ २७ २६	२८ २७ २६	२८ २७ २६	२८ २७ २६	२८ २७ २६	२८ २७ २६	२८ २७ २६	२८ २७ २६	२८ २७ २६	२८ २७ २६	२८ २७ २६
----	----------------------	----------------	----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

मोहनीयके सत्तास्थान १५. सर्व सत्ता २८. सम्यक्त्वमोहनीय रहित २७, मिश्र रहित २६. ए छव्वीसनी सत्ता अभव्यने हुइ है. तथा २८ मे चार अनंतानुबंधी क्षये २४ नी सत्ता, मिध्यात्व क्षये २३ नी सत्ता, मिश्रमोह क्षये २२ नी सत्ता, सम्यक्त्वमोहनीय क्षये २१ नी सत्ता, दूजी, तीजी चौकडी क्षये १३ नी सत्ता, नपुंसकवेद क्षये १२ नी सत्ता, स्त्रीवेद क्षये ११ नी सत्ता, हास्य आदि ६ क्षये ५ नी सत्ता, पुरुषवेद क्षये ४ नी सत्ता, संज्वलनक्रोध क्षये ३, मान क्षये २, माया क्षये १; एवं १५ सत्तास्थान गुणस्थान पर सुगम है.

४८	आयुना बंध-स्थान १	१	१	०	१	१	१	१	०	०	०	०	०	०	०	०
४९	उदयस्थान १	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
५०	सत्तास्थान १	१ वा २	१ वा २	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	ए वं	१	१	१

जहां ताइ पर भवनो आयु बांध्या नहीं तहां ताइ जौनसे आयुका उदय है तिसही की एक सत्ता १; पर भवना आयु बांध्या पीछे दोकी सत्ता. नरकआयु बांध्या छै तो भी ग्यारमा गुणस्थान आ जावे है; इस वास्ते चार आयुमे एक कोइकी सत्ता है.

५१	नामकर्मके बंध-स्थान ८	२३।२५ २६।२८ २९।३०	२८ २९ ३०	२८ २९	२९ ३०	२८ २९	२८ २९	२८ २९ ३० ३१	२८ २९ ३० ३१	१	१	०	०	०	०
----	-----------------------	-------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	---	---	---	---	---	---

नामकर्मके बंधस्थान ८. तिर्यच-गति योग्य सामान्ये पांच बंधस्थान ते कौनसे ? २३। २५।२६।२९।३०, ए पांच बंधस्थान, प्रथम एकेन्द्रिय योग्य तीन बंध स्थान २३।२५।२६. प्रथम तेवीस कहे छै—तिर्यच-गति १, तिर्यच-आनुपूर्वी १, एकेन्द्रिय जाति १, औदारिक १, तैजस १, कार्मण १, हुंड संस्थान १, वर्ण आदि ४, अगुरुलघु १, उपघात १, स्थावर १, सूक्ष्म १ वा बादर १ एकतरं, अपर्याप्त १, प्रत्येक साधारण १ एकतरं १, अस्थिर १, अशुभ १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १, निर्माण १; एवं २३ एकेन्द्रिय अपर्याप्त माहे जाणे(ने)-वाला मिथ्यात्वी हुइ ते बांधे. एहीमे पराघात १, उच्छ्वास १ सहित कीजे तो २५ होइ है. अपर्याप्ताकी जगे पर्याप्ता जानना. ए २५ का बंध जे मिथ्यात्वी पर्याप्त एकेन्द्रियमे जाणे-हारा बांधे; परं इतना विशेष स्थिर १ वा अस्थिर १, शुभ वा अशुभ, यश वा अपयश, इनमेसं तीन कोइ ले लेनी. अथ २६ का बंध तेरां तो पहली तेवीसकी लेनी अने परघात १, उच्छ्वास १, आतप १ वा उद्घोत १, बादर १, स्थावर १, पर्याप्त १, प्रत्येक १, स्थिर १ वा अस्थिर १, शुभ वा अशुभ १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश वा यश १, निर्माण १; एवं २६. जो मिथ्यात्वी एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त माहे जाणेवाला है ते बांधे. हिवे बेइंद्रीने बंधस्थान तीन— २५।२९।३०. प्रथम २५—तिर्यच-गति १, तिर्यच-आनुपूर्वी १, बेइंद्री जाति १, उदीरी (औदारिक ?) १, तैजस १, कार्मण १, हुंड संस्थान १, सेवार्त संहनन १, औदारिक अंगोपांग १, वर्ण आदि ४, अगुरुलघु १, उपघात १, त्रस १, बादर १, अपर्याप्त १, प्रत्येक १, अस्थिर १, अशुभ १ दुर्भग १, अनादेय १, अयश १, निर्माण १; एवं २५. जे मिथ्यात्वी अपर्याप्त बेइंद्रीमे जाणेवाला है ते बांधे. २५ मे चार घाले २९. पराघात १, उच्छ्वास १, अशुभ चाल १, दुःस्वर १; एवं ४ घाले २५ मे २९ होइ. अने अपर्याप्तने ठामे पर्याप्त जानना अने स्थिर वा अस्थिर एक १, शुभ वा अशुभ एक १, यश वा अयश १; एवं २९. जे मिथ्यात्वी बेइंद्री पर्याप्ता माहे जाणेवाला है ते बांधे. तीसके बंधमे एक उद्घोतनाम घाले ३०. एह पण उपर-वत् बेइंद्रीमे जाणेवाला बांधे. एवं तेइंद्री, चौरिंद्री; नैवरं जाति न्यारी न्यारी कहनी. हिवे तिर्यच पंचेद्रीने तीन बंधस्थान—२५।२९।३०. पचीसका बंध बेइंद्रीवत्; विशेष जातिका. २९ का बंध—तिर्यच-गति १, तिर्यच-आनुपूर्वी १, पंचेन्द्रिय जाति १, औदारिकद्विक २, तैजस १, कार्मण १, छ संहननमे एक कोइ १, संस्थानमे छमे एक कोइ १, वर्ण आदि ४, अगुरु-लघु १, उपघात १, पराघात १, उच्छ्वास १, प्रशस्त, अप्रशस्त गतिमे एकतर १, त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, प्रत्येक १, स्थिर वा अस्थिर १, शुभ वा अशुभ १, सुभग वा दुर्भग १, सुस्वर वा दुःस्वर १, आदेय अनादेय एकतरं १, यश वा अयश १, निर्माण १; एवं २९; जे मिथ्यात्वी पर्याप्त तिर्यच पंचेन्द्रियमे जाणेवाला बांधे अने जो २९ का साखादनमे बांधे तो हुंड, छेवट्ट वजीने पांचा माहे एक कोइ लेना. ३० के बंधमे एक उद्घोत नाम प्रक्षेपे ३०; जे मिथ्यात्वी तिर्यच पंचेन्द्रिय पर्याप्तमे जाणेवाला बांधे. हिवे मनुष्यने तीन बंधस्थान—२५।२९।

३०. प्रथम पचीसने बंध बेइंद्रीने कहा तीम जानना. मिथ्यात्वी मनुष्य अपर्याप्तमे जाणेवाला बांधे; नवरं मनुष्य-गति १, मनुष्य-आनुपूर्वी १, पंचेन्द्रिय जाति १. एकहनी(?) २९ का बंध तीन प्रकारे है—एक तो मिथ्यात्वगुणस्थान आश्री, दूजा साखादन आश्री, तीजा मिश्र अविरति आश्री. मिथ्यात्व, साखादनमे २९ का बंध बेइंद्रीवत् जानना. मिश्र अविरतिका २९ बंध लिखीये है—मनुष्य-गति १, मनुष्य-आनुपूर्वी १, पंचेन्द्रिय जाति १, औदारिक-द्विक २, तैजस १, कर्मण १, समचतुरस्र संस्थान १, वज्रकृपभनाराच संहनन १, वर्ण आदि ४, अगुरुलघु १, उपघात १, पराघात १, उच्छ्वास १, प्रशस्त विहायोगति १, त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, प्रत्येक १, स्थिर वा अस्थिर १, शुभ वा अशुभ १, सुभग १, सुखर १, आदेय १ यश वा अयश १, निर्माण १; एवं २९. ए २९ मनुष्यगति योग्य तीर्थकरनाम प्रक्षेपे ३०. एवं ४ मनुष्य पर्याप्ताने है. हिचै देवगति प्रयोग चार बंधस्थान—२८।२९।३०।३१. देव-गति १, देव-आनुपूर्वी १, पंचेन्द्रिय जाति १, वैक्रियद्विक २, तैजस १, कर्मण १, प्रथम संस्थान १, वर्ण आदि चार ४, अगुरुलघु १, पराघात १, उपघात १, उच्छ्वास १, शुभ चाल १, त्रस १, बादर १, प्रत्येक १, पर्याप्त १, स्थिर वा अस्थिर १, शुभ वा अशुभ १, सुभग १, सुखर १, आदेय १, यश वा अयश १, निर्माण १; एवं २८. एह २८ नो बंध पहिलेसे छठे ताइ है. देवगतिके जाणेवाले आश्री तथा कोइ एक भंग अपेक्षा ७ मे, ८ मे गुणस्थाने है. एक तीर्थकरनाम प्रक्षेपे २९ का बंध देवगति योग्य चौथेसे आठमे ताइ ७।८ मे भंग अपेक्षा तीर्थकर रहित कीजे. आहारकद्विक २ मिले ३०. ते यथा—देव-गति १, देव-आनु-पूर्वी १, पंचेन्द्रिय १, वैक्रियद्विक २, आहारकद्विक २, तैजस १, कर्मण १, प्रथम संस्थान १, वर्ण आदि ४, अगुरुलघु १, पराघात १, उपघात १, उच्छ्वास १, शुभ चाल १, त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, प्रत्येक १, स्थिर १, शुभ १, सुभग १, सुखर १, आदेय १, यश १, निर्माण १; एवं ३०. सातमे, आठमे देवगति योग्य बांधे. तीर्थकर नाम प्रक्षेपे ३१. सातमे, आठमे देवगति योग्य एक बांधे तो यशकीर्ति नवमे, दशमे तथा आठमे कोइ भागमे. इति नामकर्मस्य(णः) बन्धस्थानानि अष्टौ समाप्तानि.

५२	नामकर्मके उद- यस्थान १२	२१।२४	२१।२४	३९	२१।२५	२५।२७	२५	२७	२९	३०	३०	३०	३०	३०	२०	२१	२६	२७	८
		२५।२६																	
		२७।२८																	
		२९																	
		२९।३०	३०	२८।२९	३०।३१	२९	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	२८	२९	३०	३१	९	
		३०	३१	३०	३१	३०													

नामकर्मके उदयस्थान १२. ते यथा—२०।२१।२४।२५।२६।२७।२८।२९।३०।३१।
८।९; एवं १२. प्रथम एकेन्द्रियने उदयस्थान पांच—ते कौनसे? २१।२४।२५।२६।२७.
प्रथम २१ उदय कहीये है. नामकर्मकी ध्रुवोदयी १२—तैजस १, कर्मण १, अगुरुलघु १,

अस्थिर १, स्थिर १, शुभ १, अशुभ १, वर्ण आदि ४, निर्माण १; एवं १२; तिर्यच-गति १, तिर्यच-आनुपूर्वी १, स्थावर १, एकेन्द्रिय जाति १, सूक्ष्म १, बादर १, पर्याप्त वा अपर्याप्त १, दुर्भग १, अनादेय १, यश वा अयश १, एवं ९. बारां उपरली एवं २१ प्रकृति. एकेन्द्रिय विग्रहगतिमे होय तदा २१ का उदय होइ. हिवै शरीर कीधे २४ का उदय होइ ते किम ? औदारिक शरीर १, हुंड संस्थान १, उपघात १, प्रत्येक या साधारण १, ए चार प्रक्षेपे, तिर्यगानुपूर्वी १ काटे २४ का उदय एकेन्द्रिये शरीरपर्याप्ति पूरी कीधा पीछै. २४ मे पराघात प्रक्षेपे २५ का उदय. बादर वायुकाय वैक्रिय करतां शरीरपर्याप्ति पूरी हुइ. एही २५ का उदय औदारिकने ठामे वैक्रिय घालीये. पचवीसमे उच्छ्वास घाले २६ होइ अथवा शरीरपर्याप्ति पूरी हुइ जो कर उच्छ्वासनो उदय नहीं हुइ तो उच्छ्वास काठीने आतप तथा उद्घोत एक लीजे; एवं २६. जौनसी छव्वीसमे उच्छ्वास है तिन छव्वीसमे आतप तथा उद्घोत एक प्रक्षेपे २७. अथ बेइंद्रीने उदयस्थान ६, ते यथा—२१|२६|२८|२९|३०|३१. प्रथम २१ का उदय, बारां तो ध्रुवोदयी १२ नामकर्मकी अने तिर्यच-गति १, तिर्यच-आनु-पूर्वी १, बेइंद्री जाति १, त्रसनाम १, बादर १, पर्याप्त वा अपर्याप्त १, दुर्भग १, अनादेय १, यश वा अयश १, एवं सर्व २१. बेइंद्री वक्रगति करे तद २१ का उदय. अथ शरीर कीधे २६ का उदय—औदारिक शरीर १, तदुपांग १, हुंड संस्थान १, सेवार्त संहनन १, उपघात १, प्रत्येक १. एवं ६ प्रक्षेपे २१ मे अने तिर्यगानुपूर्वी १ काटे २६ रही. इन २६ मे अशुभ चाल १, पराघात १ ए २ घाले २८. इनमे उच्छ्वास १ घाले २९ [जो कर उच्छ्वासनो उदय न हूया हो तो उद्घोत घाले २९ तथा शरीरपर्याप्ति हूइ है] तथा उच्छ्वासवाली २९ मे दुःस्वर तथा सुस्वर घाले ३० श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी हुइ अने स्वरनो उदय नहीं हूया तो उद्घोत घाले ३० होइ. २९ मे सुस्वर १, उद्घोत १, अथवा दुःस्वर १, उद्घोत १ घाले ३१ होय. एवं तेंद्रीने ६ स्थान, एवं चौरिंद्रीने; नवरं जाति आपापणी लेनी. अथ पंचेन्द्रिय तिर्यचने उदयस्थान ६, ते यथा—२१|२६|२८|२९|३०|३१; एवं ६. बारां तो ध्रुवोदयी १२ पीछेकी अने तिर्यच-गति १, तिर्यगानुपूर्वी १, पंचेन्द्रिय १, त्रसनाम १, बादर १, पर्याप्त वा अपर्याप्त १, सुभग वा दुर्भग १, आदेय वा अनादेय १, यश वा अयश १, बारां पीछली; एवं २१. तिर्यच विग्रहगतिमे होइ तद २१ (का) उदय. शरीर कर्या २१ माहेथी आनुपूर्वी १ काठी औदारिकद्विक २, पद् संस्थानमेसुं एक कोइ संस्थान १, छ संहननमे एक कोइ संहनन १. उपघात १, प्रत्येक १, ए ६ घाले २६ होइ. हिवै शरीर पर्याप्त हूओ तदा पराघात १, प्रशस्त १, अप्रशस्त १ ए दोनोमे एक १ घाले २८ होइ. हिवै २८ मे उच्छ्वास घाले २९ अथवा शरीरपर्याप्ति पूरी हूइ अने उच्छ्वासनो उदय न हूया होइ तो उद्घोत १ घाले २९. अने २९ मे स्वर घाले ३०; उद्घोत घाले ३१. हिवै तिर्यच पंचेन्द्रिय वैक्रिय करतां उदयस्थान ५, ते यथा—२५|२७|२८|२९|३०. प्रथम २५ का

वर्णन—तिर्यंचने २१ कही है ते माहेथी एक आनुपूर्वी काढे २० रही अने वैक्रियद्विक २, प्रथम संस्थान १, उपघात १, प्रत्येक १, ए ५ प्रक्षेपे २५. हिवै शरीरपर्याप्ति पूरी हूये प्रशस्त गति १, पराघात १ ए २ प्रक्षेपे २७. उच्छ्वास १ घाले २८. अथवा शरीरपर्याप्ति पूरी है अने उच्छ्वासनो उदय नहीं हूया तो उद्घोत घाले २८. भाषापर्याप्ति पूरी हूये उच्छ्वास सहित २८, सुखर घाले २९; अथवा उच्छ्वासनी पर्याप्ति (पूरी) हूइ अने खरनो उदय न हूया तो उद्घोत १ घाले २९, सुखर घाले पिण २९, उद्घोत घाले ३० होय है. अथ सामान्ये मनुष्यने उदयस्थान ५, ते यथा—२१।२६।२८।२९।३०. हिवै २१।२६।२८ तीनो तिर्यंच पंचेन्द्रिय-वत्; नवरं मनुष्य-गति १, मनुष्य-आनुपूर्वी १ ए २ कहनी. हिवै २९ का उदय उद्घोत सहित होवे. उच्छ्वास १, सुखर तथा दुःखर ए २ अठावीसमे घाले ३०. तथा २९ होइ इहां उद्घोत वैक्रिय तथा आहारककी अपेक्षा है; अन्यथा तो नहीं. हिवै मनुष्य वैक्रिय करे तदा उदयस्थान ५ है, ते यथा—२५।२७।२८।२९।३०. प्रथम २५ कहं—मनुष्यगति १, पंचेन्द्रिय जाति १, वैक्रियद्विक २, प्रथम संस्थान १, उपघात १, त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, प्रत्येक १, सुभग वा दुर्भग १, आदेय तथा (वा ?) अनादेय १, यश वा अयश १, एवं १३; अने बारां ध्रुवोदयी, एवं २५. देशवृती(विरति) अने संयतने वैक्रिय करतां सर्व कृति प्रशस्त जाननी. शरीरपर्याप्ति थये पराघात १, प्रशस्त चाल १, ए २ घाले २७; उच्छ्वास १ घाले २८. अथवा संयत उत्तर वैक्रिय करतां शरीरपर्याप्ति कीधां जो उच्छ्वासनो उदय नहीं हूया तो उद्घोत १ घाले २८. भाषापर्याप्ति पूरी कीधे उच्छ्वास १, सुखर १ ए २ सत्तावीसमे घाले २९. संयतने जो खरनो उदय नहीं तो उद्घोत घाले २९. सुखर सहित २९, उद्घोत १ घाले ३०. हिवै आहारकशरीर करतां साधुने उदयस्थान ५, ते यथा—२५।२७।२८।२९।३०. प्रथम २५ नो कहं. पां(पी)छे मनुष्यगते २१ कही ते माहेथी आनुपूर्वी १ काढी पांच घाले—आहारकद्विक २, प्रथम संस्थान १, उपघात १, प्रत्येक १, ए ५ प्रक्षेपे २५, पिण इहां दुर्भग, अनादेय, अयश नहीं; प्रशस्त तीनो जानने. शरीरपर्याप्ति कीधां पराघात १, प्रशस्त खगति १, ए २ घाले २७; उच्छ्वास घाले २८; अथवा उच्छ्वासना उदय नहीं तो उद्घोत १ घाले २८. भाषापर्याप्ति हूयां उच्छ्वास सहित २८, सुखर सहित २९, अथवा उच्छ्वास-पर्याप्ति हूइ है अने खरनो उदय नहीं तो उद्घोत घाले २९. खर सहित जो २९ तो उद्घोत घाले ३०. हिवै केवलीने १० उदयस्थान, ते यथा—२०।२१।२६।२७।२८।२९।३०।३१।९।८. प्रथम २० का कहं—मनुष्यगति १, पंचेन्द्रिय जाति १, त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, सुभग १, आदेय १, यश १, एवं ८; अने बारां १२ ध्रुवोदयी, एवं २०. इह उदय अतीर्थ-कर केवली समुद्घात करतां त्रीजे, चौथे, पांचमे समय केवल कार्मण काययोगे वर्ततां एह उदयस्थान होता है. तीर्थकरनाम प्रक्षेपे २१. तथा बीसमे औदारिकद्विक २, छ संस्थानेमे एक कोइक संस्थान १, प्रथम संहनन १, उपघात १, प्रत्येक १; एवं ६ प्रक्षेपे २६. अतीर्थ-कर केवली दूजे, छठे, सातमे समय औदारिक मिश्र योगे वर्ततां हूइ तद २६ का उदय हूइ,

सो तीर्थकरनाम सहित २७, तीर्थकर केवली औदारिक मिश्र योगे वर्ततां ए भंग होइ तथा २६ मे पराघात १, उच्छ्वास १, प्रशस्त वा अप्रशस्त खगति १, सुखर तथा (वा) दुःखर १, ए चार प्रक्षेपे ३० होइ है. अतीर्थकर केवली सयोगी पहिले आठमे समये औदारिक काय-योगे वर्ततां उदय जानना. ३० मे तीर्थकरनाम प्रक्षेपे ३१. ए सयोगी केवली तीर्थकर औदारिक योगे वर्ततां हूइ. सयोगी केवली वचनयोग रूंधे तदा ३० का उदय. उच्छ्वास रूंधे तदा २९ का उदय. हिवै सामान्य केवलीने पाछे ३० का उदय कया है तेमेसूं वचनयोग रूंधे २९, उच्छ्वास रूंधे २८. हिवै ९ का उदय कहीये है—मनुष्यगति १, पंचेन्द्रिय १, त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, सुभग १, आदेय १, यश १, तीर्थकर १; एवं ९. चौदमेके छेहले समय तीर्थकरने ए उदयस्थान; सामान्य केवलीने तीर्थकरनाम रहित ८ का उदय. हिवै देवताने उदयस्थान ६, ते ए—२१।२५।२७।२८।२९।३०. देव-गति १, देव-आनुपूर्वी १, पंचेन्द्रिय १, त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, सुभग तथा दुर्भग १, आदेय तथा अनादेय १, यश वा अयश १, ए नव अने वारां ध्रुवोदयी; एवं २१. ए विग्रहगतिमे २१ का उदय.

अथ अपर्याप्तपणे शरीर करतां वैक्रियद्विक २, उपघात १, प्रत्येक १, समचतुरस्र संस्थान १, ए ५ प्रक्षेपे, देव-आनुपूर्वी काठे २५ का उदय. शरीरपर्याप्ति पूरी हुयां पराघात १, प्रशस्त गति १, ए २ घाले २७. इन २७ मे उच्छ्वास घाले २८. जो कर उच्छ्वासनो उदय नही तो उद्घोत घाले २८. भाषापर्याप्ति पूरी हुयां स्वर घाले २९. जोकर स्वरनो उद्घोत नही हूया तो उद्घोत घाले २९. देवताने दुःखरनो उदय नही है. उत्तर वैक्रिय करतां देवताके उद्घोत लामे, २८ मे स्वर सहित २९, उद्घोत घाले ३०. हिवै नारकीने उदय-स्थान ५, ते यथा—२१।२५।२७।२८।२९. नरक-गति १, नरक-आनुपूर्वी १, पंचेन्द्रिय १, त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १, एवं ९; अने वारां ध्रुवोदयी, एवं २१. अपर्याप्तपणे शरीरपर्याप्ति करतां वैक्रिय शरीर १, वैक्रिय अंगोपांग १, हुंड संस्थान १, उपघात १, प्रत्येक १, ए ५ प्रक्षेपे, नरक-आनुपूर्वी १ काठे २५. पराघात १, अप्रशस्त खगति १ घाले २७, उच्छ्वास घाले २८. भाषापर्याप्ति पूरी हुया दुःखर घाले २९. गुणस्थान पर एकेन्द्रिय आदि देइ विचार लेना. एह उदय अधिकार गहन है सो भूल चूक सप्ततिसूत्रसे शुद्ध कर लेना. मेरी समजमे जितना आया है सोइ तितना ही लिख्या है. शुद्ध अशुद्ध शोध लेना.

५३	नामकर्मके सत्तास्थान १२	९२।८९	९२	९२	९३	९३	९३	९३	९३	९३	९२	९३	९३	८०	८०		
		८८।८६			८९	८९	८९	८९	८९	८९	८९	८९	८९	८९	८९	७९	७९
		८०।७८			८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	७६

नामकर्मके सत्तास्थान १२, ते ए—९३।९२।८९।८८।८६।८०।७९।७८।७६।७५।९।८; एवं १२. सर्व सत्ता तो ९३. तीर्थकर टले ९२. तथा ९३ माहेथी आहारक शरीर १

आहारक अंगोपांग १, आहारक संघातन १, आहारक बंधन १, ए ४ रहित कीषां ८९ की सत्ता. तीर्थंकर टले ८८. नरक-गति १, नरक-आनुपूर्वी १, ए २ टले ८६. देव-गति १, देव-आनुपूर्वी १, वैक्रिय शरीर १, वैक्रिय अंगोपांग १, वैक्रिय संघातन १, वैक्रिय बंधन १; एवं ६ टले ८०. नरकगति योग्य ८० मे ६ घालीये ८६ कीजे—नरक-गति १, नरक-आनु-पूर्वी, वैक्रिय चतुष्क ४, एवं ८६ नी सत्ता; अथवा ८० मे ६ घाले—देव-गति १, देव-आनु-पूर्वी १, वैक्रिय ४; एवं ६ घाले ८६ देवगति योग्य जाननी. तथा ८० मे मनुष्य-गति १, मनुष्य-आनुपूर्वी १, ए २ टले ७८ नी सत्ता. ए पूर्वोक्त सात ठाम संसारी जीवने न हूइ. पिण [क्षपक श्रेणे नही] क्षपक श्रेणे ए सत्ता जाणवी. ९३ माहेथी १३ रहित कीजे, ते—नरकद्विक २, तीर्थचद्विक २, एकेन्द्रिय आदि चार जाति ४, स्थावर १, आतप १, उद्घोत १, सूक्ष्म १, साधारण १; एवं १३ टली ८० ए सत्ता क्षपक श्रेणे. तीर्थंकर टाले ७९. ८९ मे तेरां एही टले ७६ की सत्ता. क्षपके ८८ माहेथी तेरें टले ७५ की सत्ता क्षपकने. हिवै नवनी सत्ता—मनुष्यगति १, पंचेन्द्रिय १, त्रस १, वादर १, पर्याप्त १, सुभग १, आदेय १, यश १, तीर्थंकर १; एवं ९. अयोगी गुणस्थानके छेहले समय तीर्थंकरने ए सत्ता; सामान्य केवलीने तीर्थंकरनाम विना ८ नी सत्ता. गुणस्थान उपर सुगम है.

५४	गोत्रका बंध-स्थान १	उं वा नी	उं वा नी	उं	उं	उं	उं	उं	उं	उं	उं	०	०	०	०
५५	गो० उदयस्थान १	”	→	ए	व	म्	”	”	”	”	”	उं	उं	उं	उं
	गो० सत्तास्थान २	उं १ नी १	—	—	—	→	ए	व	म्	—	—	—	—	→	११ २१
५७	अंतरायका बंध-स्थान १	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	०	०	०	०
५८	अं० उदयस्थान १	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	०	०
५९	अं० सत्तास्थान १	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	०	०
६०	ज्ञानावरणीय भंग २	१ प	१ प	१ प	१ प	१ प	१ प	१ प	१ प	१ प	१ प	१ प	१ प	१ प	०

ज्ञानावरणीयके भंग २. बंध ५ का उदय ५, सत्ता पांच; १ बंध नही, उदय ५, सत्ता ५; एवं २ भंग.

६१	दर्शनावरणीयके भंग ११	१ २ एवं २	१ २	३ ४	३ ४	३ ४	३ ४	३ ४	३ ४	३ ४	३ ४	६ ५	६ ५	६ ५	८ ९	१० ११	० ०	० ०
----	----------------------	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	--------

अंकसंख्या	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	०
बंध	९	९	६	६	४	४	४	०	०	०	०	०
उदय	४	५	४	५	४	५	४	४	५	४	४	०
सत्ता	९	९	९	९	९	९	६	६	९	६	४	०

एह उपरले यंत्रमे दर्शनावरणीयके ११ भंग है, सोइ विचार लेना सुगम है.

वेदनीयके भंग गुणस्थान उपर ८	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
६२	२	२	२	२	२	२	३	३	३	३	३	३	३	३	५
	३	३	३	३	३	३	४	४	४	४	४	४	४	४	६
	४	४	४	४	४	४	५	५	५	५	५	५	५	५	७

अंक	भंगरचना अंक	१	२	३	४	५	६	७	८
०	बंध	असाता	असाता	साता	साता	०	०	०	०
०	उदय	”	साता	असाता	”	असाता	साता	असाता	साता
०	सत्ता	असाता साता	→	ए	व	म्	→	”	”

एह वेदनीयका यंत्र अयोगीके द्विचरम समये पांचमा ६ भंग चरम समये साता क्षय ७ मा असाता क्षय ८ मा.

देवताना यंत्र ५

अंक	१	२	३	४	५
बंध	०	म	ति	०	०
उदय	दे	दे	दे	दे	दे
सत्ता	दे	दे म	दे ति	दे म	दे ति

तिर्यंच-यंत्र ९

१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
०	दे	म	ति	न	०	०	०	०
ति	ति	ति	ति	ति	ति	ति	ति	ति
ति	ति दे	ति म	ति ति	ति न	ति दे	ति म	ति ति	ति ति न

मनुष्य-यंत्र ९

६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
०	दे	म	ति	न	०	०	०	०
म	म	म	म	म	म	म	म	म
म	म दे	म म	म ति	म न	म दे	म म	म ति	म न

नरक-यंत्र ५

२४	२५	२६	२७	२८
०	म	ति	०	०
न	न	न	न	न
न	न म	न ति	न म	न ति

आ यु के भं ग २८	११२	२	३	७	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
	३१४	३	८	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७
	५१६	७	९	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११
	७१८	८	१०	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२
	९११	९	१०	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३
	१२१३	१६	२०	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५
	१४१५	१७	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६
	१६१७	१८	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७
	१८२०	२५	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०
	२१२२	२६	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१
	२३२४	२६	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१
	२५२६	२६	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१
२७२८	२२	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	
एवं २६; दो नहीं १०१९	२६	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	

गोत्रके सात भंग हैं—सो पहिला तेजस्काय वायु-कायमे; दूजा मिथ्यात्व साखादनमे; तीजा मिथ्यात्व साखादनमे; चौथा १मे, २मे, ३मे, ४मे, ५मे; पांचमा भंग एकसे दस तक गुणस्थानोमे; छठा उपशमथी अयोगी द्विचरम समय; ७ मा अयोगीके अंत समयमे कहो. अथ सुगमताके वास्ते यंत्र लिख्यते—

अंकसंख्या	१	२	३	४	५	६	७
बंध	नीच	नीच	नीच	उंच	उंच	०	०
उदय	”	”	उंच	”	”	उंच	उंच
सत्ता	”	नीच उंच	नीच उंच	नीच उंच	नीच उंच	नीच उंच	”

६४	गोत्रके भंग	१, ३, ४, ५	२, ३, ४, ५	४	४	४	५	५	५	५	५	६	६	६	६
६५	अंतराभंग	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	अंत १	अंत का १	०	०
६६	एक जीव रज्जु स्पर्श	१४ रज्जु	१२ रज्जु	८ रज्जु	८ रज्जु	६ रज्जु	७ रज्जु देश ऊन	→	ए	व	मू	→	१४	७ रज्जु देश ऊन	

दूजे गुणस्थानवाला बारां रज्जु स्पर्श तिसकी युक्ति लिख्यते—‘स्वयंभूरमण’ समुद्रके पश्चिमका मत्स्य साखादनवाला मरीने सातमी नरककी पृथ्वीमे अथवा घनोदधिमे समश्रेणि जाइने पीछे तिरछा पूर्वकू जावे साढे तीन रज्जु, पीछे कूणमे जावे अढाइ रज्जु, एवं १२ रज्जु होइ घनोदधिमे वा पृथ्वीमे उपजे. तथा चोक्तं पञ्चसङ्गहे (द्वितीये बन्धकद्वारे गा० ३२)—गाथा—

“छट्टाए (छट्टीणं?) नेरइउ(ओ) सासणभावेण एह तिरिमणु[लो]ए ।
लोगंतनिक्खुडेसु जंतते (तिने) सासणगुणट्ठा(त्था) ॥”

१ छाया—षष्ठा नैरथिकः साखादनभावेन एति तिर्यञ्चानुष्ये(षु) ।

लोकान्तनिष्कूटेषु यान्यन्ये साखादनगुणस्थाः ॥

इस गाथासे जैसे १२ रज्जु स्पर्शें तैसें विचार लेना. मैने पंचसंग्रहका अर्थ नहीं देखा; अपनी विचारसे लिखा है. विचारसे लिखना यथायोग्य होय अने नहीं भी होइ, इस वास्ते पंडितें शुद्ध विचारके जैसें होय तैसें लिख देना, मेरे लिखनेका कुछ प्रयोजन नहीं समजना; अर्थमे जैसा लिखा होइ सो लिख देना.

त्रीजे चौथे गुणस्थानवाला ८ रज्जु स्पर्शें तिसकी युक्ति (पंचसङ्ग्रहका द्वितीय बन्धक-द्वारकी) इस (३१ मी) गाथासे समज लेना:—

गाथा—“सहस्रारन्तिकदेवा नारयणेहेण जन्ति तइयभुवं ।

निजन्ति अच्युयं जा अच्युयदेवेण इयरसुरा ॥”

बारमे देवलोकका देवता मिश्रवाला वा चौथे गुणस्थानवाला नारकीके नेह कही चौथी नरककी पृथ्वी लगे जाये. तीन रज्जु तो नीचेके हूये अने ५ रज्जु बारमा देवलोक है; एवं ८ रज्जु. त्रीजी नरक तो सारी अने चौथीके नरकावास ताइं एवं ३ रज्जु; आगे पंचसंग्रहके अर्थ मुजब लिख देना. मेरी समजमें आया तैसे लिख्या है. श्रावक बारमे देवलोकके कूपेमे उपजे, त्रसनाडीके अभ्यंतर तिस आश्री ६ रज्जु. सर्वत्र पंचसंग्रहसे शंका दूर कर लेनी.

६७	संज्ञी असंज्ञी द्वार	सं असं	सं असं	सं	सं	सं	सं	सं	सं	सं	सं	सं	सं	०	०
६८	शाश्वते गुणस्थान	शा	अशा	अशा	शा	शा	शा	शा	अशा	अशा	अशा	अशा	अशा	शा	अशा

सातमा गुणस्थान जैन मतके शास्त्रमे किहां ही अशाश्वत नहीं कया. अने जो कोई कहै है सो इ भूल है, उक्तं पंचसंग्रहे (द्वितीये बन्धकद्वारे गा० ६)—

“मिच्छा अविरयदेसा पमत्त अपमत्तया सजोगी य ।

सन्वद्धं” इति वचनात् अशाश्वता नहीं है. इति अलं विस्तरे(ण).

६९	जघन्य स्थिति द्वार	अंत- मुहूर्त	१ स म य	अं त मुहूर्त	अं त मुहूर्त	अं त मुहूर्त	१ स म य	→	ए	व	म्	→	अं त मुहूर्त	अं त मुहूर्त	अं त मुहूर्त
७०	उल्कृष्ट स्थिति द्वार	अणा अप १ अणा । स २ सा सा देश ऊन अर्ध पुदल	६ आ व लिका	”	३३ सागर झरोरी एक	देश ऊन पूर्व कोड	अं त मुहूर्त	→	ए	व	म्	→	देश ऊन पूर्व कोड	”	”

१ सहस्रारान्तिकदेवा नारकलेहेण यान्ति तृतीयभुवम् ।

नीयन्तेऽच्युतं यावत् अच्युतदेवेनेतरसुराः ॥

२ मिथ्याविरतदेशाः प्रमत्ताप्रमत्तकौ सयोगी च । सर्वाद्धम्

इहां छठे गुणस्थानकी उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्तकी कही है, सो प्रमत्त गुणस्थान अंतर्मुहूर्त ही रहै है, अने जे श्रीभगवतीजीमे प्रमत्त संयतिके कालकी पूजा करी है तिहां गुणस्थान आश्री नहीं है, तिहां तो प्रमत्तका सर्व काल एकठा कर्या देश ऊन कोड पूर्व कह्या है, पणि छठे गुणस्थानकी स्थिति नहीं कही, छठे गुणस्थानकी स्थिति अंतर्मुहूर्तकी कही है, उक्तं पंचसंग्रहे (गा० ७८)—

गाथा—“समया अंतमहु(मुहू) पमत्त अ(म)पमत्तयं भयंति मुणी ।

देस्रणा पुव्वकोडीओ (देस्रणपुव्वकोडिं) अण्णोणं चिट्ठेहिं (चिट्ठंति) भयंता ॥”

अर्थ—समयसे लेइ अंतर्मुहूर्त ताई प्रमत्त अप्रमत्तपणा भजे—सेवे मुनि देश ऊन पूर्व कोड आपसमे दोनो ही गुणस्थानमे रहै, एतावता छठे सातमे दोनोहीमे देश ऊन पूर्व कोड रहै, परंतु एकले छठे अथवा एकले सातमे देश ऊन पूर्व कोड नहीं रहै, इति गाथार्थः. शंका होय तो भगवतीजीकी टीकामे कह्या है सो देख लेना, अने मूल पाठमे देश ऊन पूर्व कोडकी कही है सो प्रमत्तका सर्व काल लेकर कही है, परंतु छठे गुण आश्री स्थिति भगवतीजीमे नहीं कही तथा सातमे गुणस्थानकी स्थिति जघन्य एक समयकी कही है, अने श्रीभगवतीजीमे सर्व अप्रमत्तके काल आश्री जघन्य तो अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट देश ऊन पूर्व कोडकी, तिसका न्याय चूर्णिकारे ऐसा कह्या है—सातमे गुणस्थानसे लेइ कर उपशांतमोह लगे सर्व गुणस्थान अप्रमत्त कहीये, तिन सर्वका काल जघन्य एकठा करीये ते जघन्य अप्रमत्तका काल लाभे, इस अपेक्षा जघन्य स्थिति है, पणि सातमेकी अपेक्षा नहीं, तथा टीकाकारने मते अप्रमत्त गुणस्थानवाला अंतर्मुहूर्त पहिला काल न करे, इस वास्ते अंतर्मुहूर्तकी स्थिति है, आगे तच्च केवली विदंति, सूत्राशय गंभीर है.

७१	प्रमाण द्वार	अनंते	पल्योप- मके असंख्य भागे	ए	व	म्	सं- ख्या त	→	ए	व	म्	→
७२	लोकस्य (दर्शन द्वार	सर्व लोक	लोकके असंख्या तमे भाग	→	→	→	ए	व	म्	→	→	सर्व लोक दूजे वत्

१ समयादन्तर्मुहूर्तं प्रमत्ततामप्रमत्ततां भजन्ति मुनयः ।

देशोनपूर्वकोटिमन्योन्यं तिष्ठन्ति भजमानाः ॥

२ एटला पूरतुं । ३ गाथानो अर्थ । ४ सर्वज्ञ जाणे छे ।

७३	मार्गणा द्वार गुणस्थानका आवे	२।३।४ ५।६	४।५ ६	१।४ ५।६	१।३ ५।६ ७।८ १।१०।११	१ ४ ६	७	१।४ ५।६ ८	७ ९ ८	१० ८	११ ९	१०	१०	१२	१३
७४	गुणस्थानमे जावे	३।४। ५।७	१	१ ४	१।२ ३।५ ७	१।२ ३।४ ७	१।२ ३।४ ५।७	४ ६ ८	७ ९ ४	८ १० ४	९ ११।१२ ४	१० ४	१३	१४	मोक्षमे

पहिले गुणस्थानकी गत(ति) मार्गणामे ३।४।५।७; एह गति तो सादि मिथ्यात्वी आश्री है; अने जिस जीवने पहिलाही मिथ्यात्व गुण० छोड्या है तिसकी गत ४।५।७ मे होइ, औरमे नही.

७५	परिषह- द्वार २२	०	०	०	०	०	२२	२२	२२	२२	२४	२४	२४	२१	२१
७६	आत्मद्वार ८	६ ज्ञान चारित्र विना	६ ज्ञान चारित्र विना	७ चारित्र विना	७	७	८	८	८	८	७	७	७	७	६

दूजे तथा त्रीजे गुणस्थानमे ज्ञान अज्ञानकी चर्चा उपयोग द्वारसे समज लेनी.

७७	आहारी १	आहारी १ है	१ है	—	—	—	→	प	व	म	—	—	—	→	० नही
७८	अनाहारी १	१ है	१ है	१ नही	१ है	१ नही	—	→	प	व	म	—	→	१ है	१ है
७९	शरीरद्वार ५	४	४	३	४	४	५	५	३	३	३	३	३	३	३
८०	नियंठाद्वार २६	०	०	०	०	०	४	३	१	१	१	१	१	१	१

सातमे गुणस्थान अलब्धोपजीवी है, एतले लब्धि न फोरवे, अंप्रमत्तत्वात्.

८१	संयतद्वार ५	०	०	०	०	०	३	३	२	२	१	१	१	१	१
८२	सम्यक्त्व- द्वार ५	०	साखा- दन	०	४	४	४	४	२	२	२	२	१	१	१
८३	वेदद्वार ३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	उ तथा नही	उ प क्ष	उ प क्ष	उ प क्ष
८४	संज्ञाद्वार ४	४	४	४	४	४	४	तथा नो- सन्ना	नो	नो	नो	नो	नो	नो	नो

१ अप्रमत्तपण होवाशी ।

८५	गति ४ मे जावे	४	३ नरक विना	०	मनुष्य देव	देव	—	→	ए	वम्	—	→	०	०	मोक्ष
८६	भंग सन्नि- पातके ६	१ त्रिक छटो	१ एवम्	१ एवम्	तीन भंग	→	ए	वम्	→	३	३	४	२	१	१
८७	भाषक अभाषक २	२	२	१ भा	२	१	१	१	१	१	१	१	१	२	१ अ भा ष क
८८	पढम अपढम	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	ए व म म्
८९	चरम अचरम	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	ए व म म्
९०	भव्य अभव्य	२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
९१	आयुबंध करे	४	३	०	२	१	१	१	०	०	०	०	०	०	०
९२	परिणामकी हान वृद्धि ६ स्थान	६ स्थान	—	→	ए	व	म्	—	→	तुल्य	ए	व	म्	→	०

बंधी बंधति बंधिस्सति १, बंधी बंधति न बंधिस्सति २, बंधी न बंधति बंधिस्सति ३, बंधी न बंधति न बंधिस्सति ४; ए चार भंग सर्व कर्म आश्री सर्व गुणस्थानमे विचार लेना.

९३	५ कर्म आश्री भंग चारमे	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	३ ४	४ ४	४ ४	४ ४
९४	वेदनीय आश्री	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	४ ४
९५	मोह आश्री भंग	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	१ २	३ ४	३ ४	४ ४	४ ४	४ ४
९६	आयु आश्री भंग	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	३ ४	१ २ ३ ४	१ ३ ४	१ ३ ४	१ ३ ४	३ ४	३ ४	३ ४	३ ४	४ ४	४ ४	४ ४
९७	खलिग, अन्य- लिग, गृहि- लिग, ३ द्रव्ये	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३

१ जुओ भगवती (श० ८, उ० ८, सू० ३४३)।

१८	संघयण ६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
१९	संस्थान ६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
१००	ईरियावहिया मंग ८	३,७ ८	३ ७	३ ७	३ ७	३ ७	३ ७	३ ७	३ ७	३ ७	३ ७	३ ७	३ ७	३ ७	३ ७	३ ७	३ ७
१०१	सराग वीत- राग २	सराग	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स
१०२	दृष्टिद्वार ३	मि	स	मि श्रि	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स
१०३	पर्याप्त अपर्याप्त २	२	२	१	२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१०४	प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी २	अप्र	अप्र	अ प्र	अ प्र	प्र अ प्र	प्र	प्र	प्र	प्र	प्र	प्र	प्र	प्र	प्र	प्र	प्र
१०५	सूक्ष्म बादर २	२	बादर	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१०६	त्रस स्थावर २	त्र०स्था०	त्र०स्था०	त्र	त्र	त्र	त्र	त्र	त्र	त्र	त्र	त्र	त्र	त्र	त्र	त्र	त्र
१०७	गति कौन- सीमे?	४	४	४	४	म ति	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म
१०८	परत अपरत संसार	२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१

प्रथम गुणस्थानमे परत संसार हो जावे है, मेघकुमारके हाथीके भववत् ज्ञेयं.

१०९	गुणस्थानमे काल करे	काल करे	करे	करे नही	क	क	क	क	क	क	क	क	क	न	न	क
११०	परभव साथ जाये	जाये	जाये	न	जाये	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न
१११	इन्द्रियद्वार ५	१२।३।४।५	१।२।३ ४।५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	०	०
११२	गति जाये देवलोक	२१	१२	०	१२	१२	२१	२६	०	०	०	०	०	०	०	०

११३	अवगाहना- द्वार	जघन्य-अंगु- लके असं- ख्यातमे भाग, उत्कृष्ट-ह- जार योजन झञ्जेरी	ए	व	म्	ए	व	म्	ज-१ हाथ झञ्जे- री, उ- ५०० धनु- ष्य	ए	व	म्	ज-२ हाथ उ- ५०० धनु- ष्य	→	ए	व	म्	→	
११४	द्रव्यप्रमाण संख्याद्वार	अनंते	असं- ख्याते	ए	व	म्	ए	व	म्	पृथक् हजार कोड									
११५	काल स्थिति छता	सर्वाद्वा	ज-१ स मय, उ- पल्यके असं- ख्यातमे भाग	ए	व	म्	स र्वा द्वा	स र्वा द्वा	स र्वा द्वा	स र्वा द्वा	ज-१ सम- य, उ- अंत- मुहूर्त	ए	व	म्	ए	व	म्	७ ८ स म य	अंत- मुहूर्त ७ स- मय
११६	निरंतर गुणस्थानमे आवे	पल्योपमके असंख्या- तमे भाग ताइ	एवम्	ए	व	म्	आव- लिका के अ- सं- ख्या- तमे भाग ताइ	ए	व	म्	८ समय	→	ए	व	म्	→	→	→	
११७	एक जीव आश्री अंतरा	ज-अंतमु- हूर्त, उ-६६ सागर झञ्जेरा	ज-अंत- मुहूर्त, उ- अर्ध पुद्ग- ल देश ऊन					→	ए	व	म्			→	०	०	०	०	

११८	घणा जीव आश्री अंतर	नही	ज-१ स मय, उ- पल्यका असंख्य भाग	ए	व	म्	न ही	न ही	न ही	न ही	उप- शम श्रेणि पृथक् वर्ष क्षपके ६ मास	ए	व	म्	ए	व	म्	पृ थ क् व र्ष	६ मा स	न ही	६ मास
११९	उतरे चडे	चडे	उतरे	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	उ त रे	व र्ष	व र्ष	व र्ष	व र्ष	व र्ष		

१२०	चडत पडत गति	दूहर गति	पाणी नीधी २	इलका उल्लंघिका	४	३ इलका विना	३ दूहर विना	ए	व	म्	४	पाणी नी उल्लं	इलका	इलका	०
१२१	सिद्ध जीव केते गुण-स्थान स्पर्शे ?	नियमा	भजना	भ	नि	भ	नि	नि	नि	नि	नि	भ	नि	नि	नि
१२२	संस्पर्शे गुणस्थान सामान्येन	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	१२	१३	१४
१२३	नियमा संस्पर्शे	१	३	३	२	३	४	३	५	६	७	८	८	९	१०
१२४	भजना स्पर्शे	१०	८	८	९	८	७	८	६	५	४	३	४	४	४
१२५	भव केते करे ?	अनंते	अनंते	अनंते	असंख्याते	असंख्याते	७	७	३	३	३	२	१	१	१
१२६	विरहद्वार	नही	ज-१ समय, उ-अंतर्मुहूर्त	एवम्	नही	नही	नही	नही	ज-१ समय, उ-पृथक् वर्ष वा ६ मास	एवम्	एवम्	ज-१ समय, उ-पृथक् वर्ष	ज-१ समय, उ-६ मास	नही	ज-१ समय उ-६ मास
१२७	वीर्य ३	बालवीर्य	बाल	बाल	बाल	बाल पंडित	पं	पं	पं	पं	पं	पं	पं	पं	०
१२८	समोहिया असमोहिया २	२	२	असमो	२	२	२	१	१	१	१	१	१	२	१
१२९	विप्रहगति ऋजुगति २	२	२	०	२	२	२	२	२	२	२	२	०	०	ऋजु
१३०	तीर्थमे अतीर्थमे	अतीर्थ	एवम्	एवम्	२	ती	२	२	२	२	२	ती	२	२	२
१३१	लिंग स्त्री आदि तीन	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
१३२	प्राण १०	४१।७।८। ९।१०	४।६।७।८ ९।१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	५	१

१३३	आहारदिग् ६ ना	३।५। ५।६	३।५। ५।६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	०
१३४	ओज रोम कवल आहार ३	३	३	२	३	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	०
१३५	सच्चित्त अच्चित्त मिश्र आहार ३	३	३	३	३	३	३	३	३	१ अच्चि- त्त	ए व म	ए व म	१	१	१	०
१३६	समवसरण ४	३	३	२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१३७	जघन्य स्थिति बांधे ८ कर्मकी	आयु जघन्य	०	०	०	०	०	०	०	मो ह ज घ	५ क र्म	वे द नी य	वे द नी य	वे द नी य	०	०
१३८	मध्यम बांध आठ कर्म	८	८	७	८	८	८	७	७	६	०	०	०	०	०	०
१३९	उत्कृष्ट बांध ८ कर्म आश्री	८	०	०	०	०	०	०	आ यु	०	०	०	०	०	०	०
१४०	मूल कर्मका बांध	७ ८	७ ८	७	७	७	७	७	७	७	७	६	१	१	१	०
१४१	मूल उदय	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	७	७	४	४	४
१४२	मूल उदी- रणा	७ ८	७ ८	८	७	७	७	७	६	६	६	६	५	५	२	०
१४३	मूल सत्ता	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	७	४	४

त्रीजे गुणस्थानमे ८ कर्मकी उदीरणा इस वास्ते कही है, उदीरणा ८ कर्मकी तब ताइ होइ है जब ताइ एक आवलिका प्रमाण उदय काल प्रकृतिका रखा होइ अने जिवारे आवलिके माहे प्रवेश करे तिवारे उदीरणा नही होय अने तीजा गुणस्थान आवलि प्रमाण आयु शेष रहेसे पहलेही आवे है; आवलि प्रमाण आयु शेष रहै तीजा गुणस्थान ही आवे है, इस वास्ते ८ की उदीरणा सत्यं. ऐसे ही दशमे गुणस्थानमे मोहकी उदीरणा टली आवलिमे प्रवेश करे, अैसेही १२ मे ५ की तथा २ वेदनीय उपर इह संज्ञा न जाननी, इति अलं विस्तरेण.

૧૪૪	ઉત્તર પ્રકૃ- તિકા ૧૨૦ બંધ	૧૧૭	૧૦૧	૭૪	૭૭	૬૭	૬૩	૫૨ ૫૮	૫૮ ૫૬ ૨૬	૨૨ ૧૮	૧૭	૧	૧	૧	૦
-----	---------------------------------	-----	-----	----	----	----	----	----------	----------------	----------	----	---	---	---	---

પહિલેમે ત્રીન ટલી—આહારકદ્વિક ૨, તીર્થકર ૧; ંવં ૩. ઢૂજેમે ૧૬ ટલી—મિથ્યાલ ૧, હુંડ સંસ્થાન ૧, નપુંસકવેદ ૧, સેવાર્ત સંહનન ૧, ંકેન્દ્રિય ૧, સ્થાવર ૧, આતપ ૧, સૂક્ષ્મ ૧, સાધારણ ૧, અપર્યાપ્ત ૧. વિકલ ૩, નરકત્રિક ૩; ંવં ૧૬. ત્રીજે ૨૭ ટલી—અનંતાનુબંધી ૪, સ્થાનર્ધિત્રિક ૩, ઢુર્ભગ ૧, ઢુઃસ્વર ૧, અનાદેય ૧, સંસ્થાન ચાર મધ્યકે, સંહનન ચાર મધ્યકે, ઢુર્ગમન ૧, સ્ત્રીવેદ ૧, નીચ ગોત્ર ૧, તિર્યચત્રિક ૩, ઉદ્ધોત ૧, મનુષ્ય-આયુ ૧, દેવ-આયુ ૧; ંવં ૨૭. ચૌથેમે ત્રીન મિલી—તીર્થકર ૧, મનુષ્ય-દેવ-આયુ ૨; ંવં ૩. પાંચમે ૧૦ ટલી—અપ્રત્યાખ્યાન ૪, પ્રથમ સંહનન ૧, ંૌદારિકદ્વિક ૨, મનુષ્યત્રિક ૩; ંવં ૧૦. છઠે ૪ ટલી—પ્રત્યાખ્યાન ૪. સાતમે ૬ ટલી—અસ્થિર ૧, અશુભ ૧, અસાતા ૧, અયશ ૧, અરતિ ૧, શોક ૧; ંવં ૬. ઢો મિલી—આહારકદ્વિક ૨ અને જો આયુ ૧ ટલે તો ૫૮. આઠમેકે પ્રથમ ભાગમે ંવં ૫૮, ઢૂજે ભાગમે નિદ્રા ૨ ઢો ટલે ૫૬, ત્રીજે ભાગમે ૩૦ ટલી—તીર્થકર ૧, નિર્માણ ૧, સદ્ગમન ૧, પંચેન્દ્રિય ૧, તૈજસ ૧, કાર્મણ ૧, આહારકદ્વિક ૨, સમચતુરસ્ર ૧, વૈક્રિયદ્વિક ૨, વર્ણચતુષ્ક ૪, અગુહ્લણુ ૧, ઉપઘાત ૧, પરાઘાત ૧, ઉચ્છ્વાસ ૧, ત્રસ ૧, વાદર ૧, પર્યાપ્ત ૧, પ્રત્યેક ૧, સ્થિર ૧, શુભ ૧, સુભગ ૧, સુસ્વર ૧, આદેય ૧; ંવં ૩૦. નવમેકે પ્રથમ ભાગમે ૪ ટલી—હાસ્ય ૧, રતિ ૧, મય ૧, જુગુપ્સા ૧; ંવં ૪; નવમેકે ઢૂજે ભાગમે પુરુષવેદ ૧, સંજ્વલનત્રિક ૩; ંવં ૪. ઢસમે ંક સંજ્વલનનો લોભ ટલ્યો. ગ્યારમેમે ૧૬ ટલી—જ્ઞાનાવરણીય ૫, ઢર્શનાવરણીય ૪, અંતરાય ૫, યશ ૧, ંચ ગોત્ર ૧; ંવં ૧૬. આગે ૧ સાતા વાંધે. ૧૪ મે નહી.

૧૪૫	ઉત્તર પ્રકૃ- તિના ઉદય ૧૨૨	૧૧૭	૧૧૧	૧૦૦	૧૦૪	૮૭	૮૧	૭૬	૭૨	૬૬	૬૦	૫૨	૫૭ ૫૫	૪૨	૧૨
-----	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----------	----	----

પહિલે ૫ ટલી—આહારકદ્વિક ૨, તીર્થકર ૧, મિશ્ર મોહનીય ૧, સમ્યક્ત્વ-મોહનીય ૧; ંવં ૫ ટલી. ઢૂજે ૬ ટલી—મિથ્યાલ ૧, આતપ ૧, સૂક્ષ્મ ૧, અપર્યાપ્ત ૧, સાધારણ ૧; ંવં ૫, નરક-આનુપૂર્વી ૧; ંવં ૬ ટલી. ત્રીજેમે ૧૨ ટલી—અનંતાનુબંધી ૪, ંકેન્દ્રિય આદિ જાતિ ૪, સ્થાવર ૧, આનુપૂર્વી ૩; ંવં ૧૨. અને ચૌથે મિશ્ર મોહ ૧ ટલી અને ૫ મિલી—આનુપૂર્વી ૪, સમ્યક્ત્વ-મોહ ૧, પાંચમે ૧૭ ટલી—અપ્રત્યાખ્યાન ૪, વૈક્રિયદ્વિક ૨, નરક-ત્રિક ૩, દેવત્રિક ૩, મનુષ્ય આનુપૂર્વી ૧, તિર્યગાનુપૂર્વી ૧, ઢુર્ભગ ૧, અનાદેય ૧, અયશ ૧; ંવં ૧૭. છઠે ૮ ટલી—પ્રત્યાખ્યાન ૪, તિર્યચ-આયુ ૧, તિર્યચ-ગતિ ૧, ઉદ્ધોત ૧, નીચ ગોત્ર ૧; ંવં ૮ ટલી અને આહારકદ્વિક મિલે. સાતમે ૫ ટલી—સ્થાનર્ધિત્રિક ૩, આહા-

रकद्विक २; एवं ५. आठमे ४ टली-सम्यक्त्वमोहनीय १, अंतके संहनन ३; एवं ४. नवमे ६ टली-हास्य १, रति १, शोक १, अरति १, भय १, जुगुप्सा १; एवं ६. दसमे ६ टली-वेद ३, संज्वलनना क्रोध १, मान १, माया १; एवं ६. ग्यारमे संज्वलना लोभ टल्या. बारमे २ संहनन टले; द्विचरम समय निद्रा १, प्रचला १ टली. तेरमे १४ टली-ज्ञानावरणीय ५, दर्शना-वरणीय ४, अंतराय ५; एवं १४ टली; तीर्थकरनाम मिला १. चौदमे ३० टली-असाता वा साता १, वज्रकषभनाराच १, निर्माण १, स्थिर १, अस्थिर १, शुभ १, अशुभ १, सुस्वर १, दुःस्वर १, प्रशस्त खगति १, अप्रशस्त खगति १, औदारिकद्विक २, तैजस १, कार्मण १, संस्थान ६, वर्णचतुष्क ४, अगुरुलघु १, उपघात १, पराघात १, उच्छ्वास १, प्रत्येक १; एवं ३०. चौदमे १२ रही तिनका नाम—साता वा असाता १, मनुष्यगति १, पंचेंद्री १, सुभग १, त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, आदेश १, यश १, तीर्थकर १, मनुष्य-आयु १, उंच गोत्र; ए १४.

उत्तर प्रकृ- तिका उदी- रणा १२२	११७	१११	१००	१०४	९७	८१	७३	६९	६३	५७	५६	५४	५२	३९	०
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

पहिलेसे छठे ताइ उदयवत् उदीरणा. सातमेसे तेरमे ताइ तीन टली-वेदनीय २, मनु-
ष्य-आयु १, और सर्व उदयवत् उदीरणा जाननी. चौदमे उदीरणा नास्ति इत्यलम् ।

१४७	उत्तर प्रकृति सत्ता १४८														
१४८	आकर्ष गुण- स्थान कितनी विरीया आवे ?	ज. १, उ. पृथक् सय; घणे भवे. ज. २, उ. असंखे	ज. उ. १ घणे भवे आश्री ज. २, उ. ५ वार	ज. १, उ. पृथक् सय; घणे भव ज. २, उ. असंख	ए व म्	ए व म्	ज. १ उ. सं- ख्या- ती वार	ए व म्	ज. १ उ. ४; घणे ज. २ उ. ९	ए व म्	ए व म्	ज. १, उ. ४; घणे ज. २, उ. ५ वार	ए क वा र	ए क वा र	ए क वा र
१४९	कर्मनिर्जरा	०	असंख. गुणी	—	—	→	ए	व	म्	—	—	—	—	—	→
१५०	हीयमान वर्धमान २ अवस्थित	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	वर्ध वर्ध	वर्ध अव स्थि	वर्ध मा न
१५१	स्थानक	असंख्य लोक- प्रमाण	—	→	ए	व	म्	—	→	अंत- मुहूर्त सम- प्रमा- ण	ए व म्	१	१	१	१

१ नथी । २ आ कोष्ठक तेमज तेना सषठीकरण माटे मूल प्रतिमां जग्या रखायेली छे, परंतु तेनो उपयोग ग्रन्थकारे
करीं नथी ।

१५२	श्रेणि उपशम क्षपक	०	०	०	०	०	०	०	२	२	२	१	१	१	१
१५३	कल्प ५	०	०	०	०	०	५	५	४	४	४	४	४	४	४
१५४	चवके दंडके जावे	२४	२१	०	१६	१	१	१	१	१	१	१	०	०	मोक्षमे

१५५	पर्याप्ति ६	४	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	१ वा ६
१५६	अनुव्रत १२	०	०	०	०	१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५७	महाव्रत ५	०	०	०	०	०	५	५	५	५	५	५	५	५	५
१५८	सम्यक्त्व-सामायिक १, श्रुतसामायिक २, देश-व्रतीसामायिक ३ सर्व-व्रतीसामायिक ४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५९	मोहना बंध-भंग २१	२२ ने बंधे भंग ६	२२ ने बंधे भंग ४	१७ ने बंधे भंग २	१७ ने बंधे भंग २	१३ ने बंधे भंग २	९ ने बंधे भंग २	९ ने बंधे भंग २	९ ने बंधे भंग २	९ ने बंधे भंग २	५ ने १, ३ ने १, २ ने १, २ ने १	०	०	०	०

बावीसवो बंधस्थाने पीछे लिख्या है । अथ भंगस्वरूप—हास्य रति वा अरति शोक २ ए दो भंग पुरुषवेद साथ; एवं २ स्त्रीवेद साथ; एवं २ भंग नपुंसकवेद संघाते; एवं २२ ने बंधे भंग ६. इकीसेके बंधे भंग ४—अरति शोक पुरुषवेद १, हास्य रति पुरुषवेदसे बंधे २; एवं पुरुषवेद काठीने स्त्रीवेदसुं दो भंग करणा; एवं ४. नपुंसकवेदका बंध साखादने नही. १७ ने बंधे भंग २—हास्य रति पुरुषवेद १, अरति शोक पुरुषवेद २; एवं २; स्त्रीका बंध नही. तेराके बंधमे एही दो भंग जानने. छठे गुणस्थानमे ९ के बंधमे एही दो भंग; एवं ९ के बंधमे, आगे पिण एही दो भंग अने नवमेमे ५ ने बंधे एक भंग १, ४ ने बंधे १ भंग, ३ ने बंधे भंग १, २ ने बंधे भंग १, अने १ ने बंधे भंग १. यद्यपि सातमे आठमे गुणस्थानमे अरति १ शोकका बंध नही है तथापि भंगनी अपेक्षा सप्ततिसूत्रमे बंध कहा है इति अलम्—

१६०	मोहके उदय-भंग १९५	२४	२४	२४	२४	२४	२४	२४	२४	२४	१२	१	०	०	०	०
		७२	४८	४८	७२	७२	७२	७२	४८	४८	४	१	०	०	०	०
		७२	२४	२४	७२	७२	७२	७२	२४	२४						

उदयभंग रचना. प्रथम गुणस्थानमे २२ ने बंधे सात आदि ७।८।९।१० उदयस्थान ४; इनका स्वरूप पीछे उदयस्थानमे लिख्या है सो जान लेना. इहां सातने उदयमे भंग २४ ते किम? हास्य रति पुरुषवेद १ अरति शोक पुरुषवेद २; एवं दो २; ए ही दो स्त्रीवेदसुं २; ए ही दो नपुंसकवेदसुं, २; एवं ६ हुये; ए ही ६ क्रोधसुं; एवं ६ मानसुं; एवं ६ मायासे; एवं ६ लोभसे; एवं सर्व २४ हुये. हिवे आठने उदय तीन चौवीसी ३ ते किम? अप्रत्याख्यान १, प्रत्याख्यान १, मिथ्यात्व १, संज्वलन १, एक कोइ वेद १, हास्य १, रति १; अथवा एहने ठामे अरति शोक इणमे भय घाले एतले आठने उदय एक चौवीसी; इम भय काठी जुगुप्सा घाले आठमे दूजी चौवीसी; जुगुप्सा काठी अनंतानुबंधीयासुं तीजी चौवीसी; एवं ८ ने उदय ७२ भंग. हिवे नवने उदय तीन चौवीसी ते किम? सातमे भय जुगुप्सा घाले ९. ए नवने उदय भय जुगुप्सा संघाते पीछे कहा ते छ विकल्प क्रोध, मान, माया, लोभसे एक चौवीसी १; अथवा जुगुप्सा काठे भय, अनंतानुबंधीसुं नवने उदय दूजी चौवीसी २; अथवा भय काठी जुगुप्सा, अनंतानुबंधीयासुं तीजी चउवीसी ३; एवं भंग ७२. हिवे सातमे भय, जुगुप्सा, अनंतानुबंधी १ घाले १० ने उदय एक चौवीसी. पुरुषवेद आदिकसुं. हिवे २१ ने बंधे सात आदि ७।८।९ लगे तीन उदयना ठाम. सातने उदय अनंतानुबंधी १, अप्रत्याख्यान १, प्रत्याख्यान १, ए चार (?) ए कोइ एक कोइ वेद १, हास्य रति १, अरति शोक ए दोनोमे एक कोइ; एवं ७. एही पाछला छ विकल्प क्रोध १, मान १, माया १ लोभसुं एक चउवीसी १; सातमे भय घाले आठनो उदय, भय संघाते एक चौवीसी १; भय काठी जुगुप्सासुं एक चौवीसी; एवं भंग ४८. सातमे भय, जुगुप्सा समकाले घाले नवनो उदय. नवने उदय एक चौवीसी. ए साखादन गुणस्थानमे जाणवा. प्रथम सत्तराने बंधे मिश्र गुणस्थानमे तीन उदयना ठाम; तिहां चौवीसी चार ते किम? अप्रत्याख्यान १, प्रत्याख्यान १, संज्वलन १, एक कोइ वेद १, कोइ एक जुगल मिश्र; एवं ७ नो उदय. ध्रुव पाछला ६ विकल्प, क्रोध १, मान १, माया १, लोभसुं छ गुणा एतले एक चौवीसी. सातमे भय घाले एतले आठने उदय पीछली परे एक चौवीसी १; भय काठी जुगुप्सासे आठने उदय दूजी चौवीसी २; सात मध्ये भय, जुगुप्सा समकाले घाले नवने उदय पाछली तरे एक चौवीसी १; एवं मिश्र गुणस्थाने ४ चउवीसी. हवै अविरतिने ६।७।८।९ ए चार उदयठाम उपशम अथवा क्षायिक सम्यक्त्वना धर्णीने ए ६ ना उदय हुये अप्रत्याख्यान १, प्रत्याख्यान १, संज्वलन १, एक कोइ वेद १, एक कोइ युगल २; एवं ६ ने उदय एक चउवीसी. ए छ मांहे भय घाले सातने उदय एक चउवीसी १; भय काठी जुगुप्सासे सातने उदय दूजी चउवीसी २; जुगुप्सा काठी वेदक सम्यक्त्वसुं सातने उदय तीजी चौवीसी ३; अप्रत्याख्यान १, प्रत्याख्यान १, संज्वलन १, वेद १, युगल ६; ए छ माहे भय, जुगुप्सा घाले एतले आठने उदय एक चौवीसी १; जुगुप्सा काठी भय, वेदक, सम्यक्त्वसुं आठने उदय दूजी चउवीसी २; भय काठी जुगुप्सा वेदकसुं आठने उदय तीजी चौवीसी ३. अप्रत्याख्यान १, प्रत्याख्यान १, संज्वलन १, वेद १, युगल २,

भय १, जुगुप्सा १ वेदक १; एवं ९ ने उदय एक चौवीसी. तेराने बंधे पांच आदि देह आठ लगे. चार उदयना ठाम हुइ ५।६।७।८ प्रथम ५ ते किम ? प्रत्याख्यान १, संज्वलन १, वेद १, एक कोइ युगल, ए पांचने उदय पाछली परे एक चौवीसी १; ए पांच माहे भय घाले ६ ने उदय एक चौवीसी १; भय काढी जुगुप्सा घाले ६ ने उदय पाछली तरे एक चौवीसी १; ए दूजी चौवीसी २; जुगुप्सा काढी वेदकसुं त्रीजी चौवीसी ३. प्रत्या० १, संज्व० १, एक केहु वेद १, एक कोइ युगल २, भय १, जुगुप्सा; एवं ७ ने उदय एक चौवीसी; अथवा जुगुप्सा काढी भयने वेदकसुं सातने उदय दूजी चौवीसी; भय काढी जुगुप्साने वेदकसुं सातने उदय तीजी चौवीसी ३; प्रत्या० १, संज्व० १, एक कोइ वेद १, एक कोइ युगल २, भय १, जुगुप्सा १, वेदक १; एवं आठने उदय पूर्ववत् एक चौवीसी १. नवने बंधे प्रमत्त १, अप्रमत्त १, अपूर्वकरण १ ए चार गुणस्थानमे नवने बंधे चार आदि ४।५।६।७ ए उदयस्थान. प्रथम चारका किम ? संज्वलन एक कोइ १, एक कोइ वेद १, एक कोइ युगल २, ए चार प्रकृतिना उदय क्षायिक वा उपशम सम्यकत्वना धणीने प्रमत्त आदि चार गुणस्थानना धणीने हुइ. एवं नवने बंधे चारने उदय पूर्ववत् एक चौवीसी; ए चार माहे भय घाले; एवं पांचने उदय पूर्ववत् एक चउवीसी; भय काढी जुगुप्सा घाले पांचने उदय दूजी चौवीसी; जुगुप्सा काढी वेदकसुं पांचने उदय त्रीजी चौवीसी ३; संज्व० १, वेद एक केहु १, युगल एक केहु २, एह चारमे भय, जुगुप्सा घाले छने उदय एक चौवीसी १; अथवा जुगुप्सा काढी भय १ वेदकसुं दूजी चौवीसी २; भय काढी जुगुप्सा वेदकसुं छने उदय तीजी चौवीसी ३. संज्व० १, एक केहु वेद १, एक युगल २, भय १, जुगुप्सा १, वेदक १; एवं सातने उदय एक चौवीसी. पांचने बंधे दो उदयना स्थान ते किम ? संज्वलन १, एक कोइ वेद १, ए दोने उदय त्रिण वेद ३, क्रोध १, मान १, माया १, लोभ १ से चार गुणा कीजे तो बारां भंग होइ. हिवै पांचने बंधे संपूर्ण. चारनु बंध १, तीननो बंध, दोनो बंध, एकनो बंध. ए चारोमे एकेक प्रकृतिन(उ) उदय ते किम ? पांचना बंधमेसुं पुरुषवेद विच्छेद कीधे चार रहै; ते चारने बंधकाले एक कोइ संज्वलननो उदय इहां चार भांगा उपजे ते किम ? कोइ क्रोधने उदय श्रेणि पडिवज्जे; एवं मान १, माया १, लोभ १. इहां कोइ एक आचार्यने मते इम कह्यो ६ बांधवाने काले एक कोइ वेदनी इच्छा करे तेह भणी तेहने मते बांधवाने पहिले समये चार त्रिक बारां भंग उपजे; तेह भणी तेहने मते २४ भंग हूइ ते किम ? बारा भंगा पांचना बंधना, बारा एहना मतना; एवं २४. चौवीसी सर्व ४१. संज्वलना क्रोध छेदे तीनका बंध, क्रोध टाली एक कोइनो उदय जो संज्वलना क्रोधनउ उदय तु संज्वलना क्रोधनो बंध हुइ. “जो बंधइ सो वेध(द?)इ” इति वचनात्. संज्वलना मान छेदे दोनो उदय; मान टाली एक कोइनो उदय. माया छेदे लोभनो बंध, लोभनो उदय. संज्वलना क्रोध थकी ४ भंग, मानसे ३, मायासे २ भंग, लोभसे एक भंग; एवं भंग ११. पिछली ४१ चौवीसी अने एह ग्यारा, सर्व एकत्र कीया ९९५ भंग मोहोदयके है.

अजीव द्रव्य	द्रव्यथी	क्षेत्रथी	कालथी	भावथी	गुणथी
काल ४	अनंता	मनुष्यलोक- प्रमाण	” ”	वर्ण आदि ५ नहीं	वर्तन(ना) गुण कालस्य
पुद्गलास्तिकाय ५	अनंत	लोकप्रमाण	” ”	वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है	ग्रहणलक्षण

(८१) अनुयोगद्वार(सू० ७४,८०-८९)से पुद्गलयंत्रम्

	आनुपूर्वी १	अनानुपूर्वी २	अवक्तव्य ३
सत्पदप्ररूपणा	नियमात् अस्ति	अस्ति	अस्ति
द्रव्यपरिमाण	अनंते	अनंते	अनंते
क्षेत्र	संख्य भाग १, असंख्य भाग २ घणे, संख्ये घणे, असंख्ये सर्वे लोक	असंख्यमे भाग लोकके	असंख्यमे
स्पर्शना	क्षेत्रवत् पांच बोल जानने; वरं स्पर्शना कहनी	असंख्यमे भाग	असंख्यमे भाग
काल	एक द्रव्य आश्री असंख्य काल; नाना आश्री सर्वाद्धा	→ एवम्	→
अंतर	एक द्रव्य आश्री अनंत काल; नाना आश्री सर्वाद्धा	एक० असंख्य; नाना सर्वाद्धा	एक अनंत काल; नाना सर्वाद्धा
भाग	शेष द्रव्यके घणे असंख्य भाग अधिक	शेष द्रव्य० असंख्य भाग हीन घणे	→
भाव	सादि पारिणामिक भावे है	→ एवम्	→
अल्पबहुत्व द्रव्यार्थे	४ असंख्येय गुण	२ विशेष अधिक	१ स्तोक
” प्रदेशार्थे	५ अनंत गुणे	अप्रदेश स्तोक २	विशेष अधिक ३
स्वरूप	त्रिप्रदेशी ४५।६।७।८।९ यावत् अनंत	परमाणु	द्विप्रदेशी

जिस स्कंधमे आदि, अंत पाइये, मध्य पाइये सो 'स्कंध आनुपूर्वी' कहीये १. जिस स्कंधमे तीन बोलमेसु कोइ बी न पाइये सो 'अनानुपूर्वी' कहीये. जिस स्कंधमे आदि, अंत पाइये पिण मध्य न पाइये सो 'अवक्तव्य' कहीये.

अथ अग्रे लोकस्वरूप व्यवहार नयके मतसे लिखिये है; निश्चयमे तो अनियत प्रमाण है.


सातमी नरकके आकाशके तले अर्थात् नीचे दाय प्रतर आपसमे सहस्र अने सात राज (२३जु)-के लंबे चौड़े हैं. तिसके ऊपर एक प्रदेश हीन दाय प्रतर है. तिनके ऊपर एक प्रदेश हीन चार प्रतर सरीषे हैं. तिनके ऊपर एक प्रदेश हीन दाय प्रतर सरीषे हैं, तिन के ऊपर एक प्रदेश हीन दो प्रतर हैं. ऐसे ही १ प्रदेश हीन फेर दाय प्रतर है. एक प्रदेश हीन फेर दाय प्रतर है. एवं सर्व १४ प्रतर चढेसे बारा प्रदेशकी हान होइ; इसी तरे चढे प्रतर चढे फेर बारा प्रदेश भटे. औसा सात रज्जु ताइ चढे प्रतर चढे बारे घटालेने अने ऊर्ध्व लोकमे सात प्रदेश चढे चारकी हान जाननी. चारकी आदिमे वृद्धि उपर हान जाणवी अने जे दूजी तरफ दो आदि-कके अंक लिखे हैं सो प्रतरके प्रदेशांकी संख्याके कृतयुग्म अने दापरयुग्म ज्ञेयं. इति अलम्. (८३)

लोकश्रेणि		अलोकश्रेणि			
	०	ऊर्ची	तिरछी	तिरछी	ऊर्ची
संख्य, असंख्य, अनंत	द्रव्यार्थे	असंख्य	असंख्य	अनंत	अनंत
संख्य, असंख्य, अनंत	प्रदेशार्थे		"	"	"
युग्म ४	द्रव्यार्थे	संख्य, असंख्य	कृतयुग्म	कृतयुग्म	कृतयुग्म
" "	प्रदेशार्थे	कृतयुग्म	४	४।३।२।१	४।३।२।१
चतुर्भंगी	श्रेणि अपेक्षा	४ २ सादि सांत	सादि सांत	अण अण अण स ३ सा अण ३	अण अण अण स स अण स सप ४

(८७) श्रीभगवती दशमे गते प्रथम उद्देशके दस दिग् स्वरूपयंत्रम्

०	इन्द्रा पूर्व दिग्	आग्नि कूण	यमा दक्षिण	नैऋत्य कूण	वरुणा पश्चिम	वायव्य कूण	सोमा उत्तर	ईशान कूण	तमा अधो	विमला ऊर्ध्व दिग्
उद्भव उत्पत्ति	रुचकसे			→	ए	व	म्			→
संस्थान	जूया	मुक्ता- प्रल	जूया	मुक्ता०	जूया	मुक्ता०	जूया	मुक्ता०	गोस्तन	गोस्तन
लोक देश	एक दशमे	बहु	१	बहु	१	बहु	१	बहु	१	१
आयाम लंबी	३॥ रज्जु २॥ " " ॥ " "	→	ए	व	म्	३ रज्जु २॥ " " ॥ " "	३॥ रज्जु २॥ " " ॥ " "	३॥ रज्जु २॥ " " ॥ " "	७ श्लोत्री	प्रदेश ऊन सात राज
द्रव्यार्थे	सर्व स्तोक १	१	१	१	१	२	१	१	१	१
प्रदेशार्थे	असंख्य गुणी ५	असंख्य ४	असंख्य ५	असंख्य ५	असंख्य ५	असंख्य ५	असंख्य ५	असंख्य ५	विशेष ३	असंख्य २


(८४) लोकका स्वरूप



अथ लोकस्वरूप विचार मुख्य २ भूमि १४ विश्लेष कीधे १२ रहै. एवं १४ प्रदेशके चंदे बारां प्रदेशकी हान होय है. उदाहरण यथा-आदिमे चौदा प्रदेश है अने अंतमे २ प्रदेश है. सो चौदाका नाम 'भूमि' है अने दोका नाम 'मुख' है. सो मुख्य २ चवदे माहिथी कादे

१२ रहै इसका नाम ' विश्लेष ' है. इस कारण ते चवदें प्रदेशके चढे ते बारा घटे अने ऊर्ध्व लोकमे मुख २, भूमि १०, विश्लेष ८ रहै. एवं ७ प्रदेश चढे ४ की वृद्धि अने ऊपर हाणा. एवं सर्वत्र ज्ञेयम्. कोइ कहै है जां एकेक प्रदेश लोक घट्या है, सो अशुद्ध है: किस वास्ते ? अलोककी ऊंची श्रेणिमे तीन युग्म कहै है श्री भगवतीजीमे— कृतयुग्म, द्वापरयुग्म, त्रौज; एवं ३. अने जां प्रदेश प्रदेशकी हान वृद्धि माने चारो ही युग्म हो जावे है; इस वास्ते द्वे द्वे चार द्वे द्वे द्वेके चढनेसे एकेक प्रदेशकी हान होती है. एवं सर्वत्र ज्ञेयम्.

अथ श्रीपञ्चवणाजीमे १० मे पदे १२ बोलकी अल्पबहुत्व लिख्यते—सर्वसे थोडा लोकका एकेक अचरम खंड १, लोकके चरम खंड असंख्य गुणे, तेभ्यः अलोकके चरम खंड विशेषाधिक ३, तेभ्यः लोकालोकके चरमाचरम खंड विशेषाधिक ४, तेभ्यः लोकके चरम प्रदेश असंख्यात गुणे ५, तेभ्यः अलोकके चरम प्रदेश विशेषाधिक ६, तेभ्यः लोकके अचरम प्रदेश असंख्य गुणे ७, तेभ्यः अलोकके अचरम प्रदेश अनंत गुणे ८, तेभ्यः लोक अलोकके चरमाचरम प्रदेश विशेषाधिक ९, तेभ्यः सर्व द्रव्य विशेषाधिक १०, ते किम ? जीव, पुद्गल, काल अनंते अनंते है, इस वास्ते, तेभ्यः सर्व प्रदेश अनंत गुणे १७ (?), अबक्तव्य प्रदेश मिले लोक स्वरूपमे जां पीले रंग करे है चार खंड तिस यकी सर्व पर्याय अनंत गुणी ? प्रति प्रदेश अनंती है; एवं १२. इह स्वरूप १०।११ मे बालका केवली जाणे पिण्डादि समजमे आया तैसे लिख्या है; आगे जां बहुभुत कहै सो सत्य; सूत्राशय अति गंभीर है.



अथ चरमाचरम स्वरूप लिख्यते—गोल अने पीला तो लोकका अचरम खंड है. अने जे लाल रंग के आठ खंड है तिनकुं लोकके ' निखुड ' कहीये है तिनकुं ही लोकके ' चरम खंड ' कहीये है. तिनके ऊपर बारां खंड नीले ' अलोकके चरम खंड ' कहीये है. तिन बारां खंडसे परे जां अलोक है सो सर्व अलोकका एक अचरम खंड है. इन चारके प्रदेशांकुं ' चरम तथा अचरम ' कहीये है. एतावता चरम खंडके सर्व ' चरम प्रदेशनू अचरम खंडके ' अचरम प्रदेश ' जानने. असत् कल्पना करके आठ अने बारा खंड लोकालोकके कहै है. परमार्थी असंख्य निखुड जानने अने ए जां निखुड है सो (स ?) म

त्रेणि सर्व नही है. तिम्बका यथा स्वरत्नकी स्थापना-

ऐसा स्वरूप है ए वात श्रीअनुयोगद्वारे है. अने सम वी है इति अलम्.

हिवै पुद्गलके छव्वीस भंग्याकी स्थापना पल्लवणाजीको (श्रीमलयगिरि सूरिकृत)

टीकासे है ते यथा-परमाणु-पुद्गलमें १ भंग पावें तीजा अवक्तव्य, इदं (यं) च-
स्थापना □ दोप्रदेशीमें भंग २ पावें चरम एक, अवक्तव्य एक, इदं च स्थापना □ □ त्रि-
प्रदेशीमें भंग ४ पावें १।३।१।११. स्थापना □ □ □ □ □ □ चारप्रदेशीमें भंग सात १।३।१

१०।११।१२।२३।९ स्थापना □ □ □ □ □ □ □ □ पांचप्रदेशीमें ११
भंग. स्थापना १।३।७।१।१०।११।१२।२३।२३।२५।२५. □ □ □ □ □ □ □ □
□
६ प्रदेशीमें १५ भंग लभें ते. १।३।७।८।९।१०।११।१२।१३।१४।१५।२३।२४।

२५।२६. एवं १५. इदं च स्थापना □
□ सात प्रदेशी स्कंधमें १७ भंग पावें.


इदं च स्थापना □
□ आठ प्रदेशीमें १८. इदं

च स्थापना □
□ एवं नवशी
अनंतप्रदेशी पर्यंत ज्ञेयम्.


(८५) श्रीप्रज्ञापना दशमे पदात् यंत्रं

(८६) श्रीभ्रमवतीके षोडशमे शते ८ मे उद्देशे

०	द्रव्यार्थे क्षेत्रं		प्रदेशार्थे		०	द्रव्यार्थे	प्रदेशार्थे
०	अचरम	चरमाणि	अपरम प्रदेश	चरम प्रदेश	चार दिशा चरमांत	असंख्येय गुणे २	संख्येय गुणे ५
लोक	सर्व स्तोक १	असंख्य गुणे २	असंख्य गुणे ७	असंख्य गुणे ५	अधो चरमांत	सर्व स्तोक १	संख्येय गुणे ४
अलोक	सर्व स्तोक १	विशेषाधिक ३	अनंत गुणे ८	विशेषाधिक ६	ऊर्ध्व " " " "	" " " "	असंख्येय गुणे ३
तदुभय	विशेषाधिक ४		विशेषाधिक ९		०	०	०



जैसे क्षुल्लक प्रतरका स्वरूप है तैसी स्थापना; जैसा एह प्रतर है अैसा ही इसके उपर दूजा प्रतर है. इन दांनोंका नाम 'क्षुल्लक प्रतर' है. इनके मध्यके आठ प्रदेशाकी 'रुचक' संज्ञा है. इनसे १० दिशा.



(८८) श्री भगवत्यां १० मे शते प्रथम उद्देशे, ११ मे शते दसमे उद्देशे, षोडशमे शते ८ मे उद्देशे

जीव अजीव द्रव्यम्	देश प्रदेश	चार दिग्	चार विदिग्	ऊर्ध्व दिग्	अधो दिग्	अधो लोक	तिर्यग् लोक	ऊर्ध्व लोक	लोकना १ प्रदेशे	दिग् चरमान्त ४	ऊर्ध्व लोकचरमान्त	अधो-लोकचरमान्त	बीस बोल-दिशा १०, लोक ३, प्रदेश १, चरमान्त ६, एवं सर्व २०
जीव	०	अनंत	०	०	०	अनंत	अनंत	अनंत	०	०	०	०	७ बोलमे अनंत; १३ बोलमे शून्य.
एकेन्द्रिय	देश	३।३	→	→	→	ए	व	म्	→	→	→	→	२० बोलमे घणे एकेन्द्रियाके घणे देश ३३
”	प्रदेश	”	३३	३३	३३	३३	३३	३३	३३	३३	३३	३३	२० बोलमे भंग ३।३
बेंद्री, तेइंद्री, चौरिंद्री, पंचेद्री.	देश	”	११ १३ ३३	११ १३ ३३	११ १३ ३३	”	”	”	११ ०० ३३	११ १३ ३३	११ ०० ३३	११ ०० ३३	७ बोलमे ३३; १० बोलमे ११।१३।३३; बोल ३मे ११।१३.
बें.ते., बी., पं.	प्रदेश	”	०० १३ ३३	०० १३ ३३	०० १३ ३३	”	”	”	०० १३ ३३	०० १३ ३३	०० १३ ३३	०० १३ ३३	७ बोलमे ३३, बोल ११ मे १३।३३
अनिन्द्रिय	देश	”	११ १३ ३३	११ १३ ३३	११ १३ ३३	”	”	”	११ ०० ३३	०० १३ ३३	३३	११ ०० ३३	८ मे ३३ बोल; ६ मे ११।१३।३३; ४ मे १३।३३; दसमे ३१।१३.
”	प्रदेश	”	०० १३ ३३	०० १३ ३३	०० १३ ३३	”	”	”	११ १३ ३३	०० १३ ३३	”	१३ ३३	८ मे ३३ बोल; ११ मे १३।३३; १ मे ११।१३।३३
अजीव	रूपी	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	२० मे चार
”	अरूपी	७	७	७	६ काल विना	७	७	६	६ ७	६	६	६	१३ बोलमे ७; सात बोलमे ६.

जिहां ११ लिख्ये है तिहां प्रथम एकातो एक जीव परला एका देशके कांठेमे एक देश अने प्रदेशके कांठेमे एक प्रदेश, तीनका अंक है जहां तिहां बहुवचन जानना, इति अलम्.

(१०) भगवती शते १२मे, उद्देशक १०मे पुद्गलभंग (११) भगवती शते ८ उद्देशे १०मे पुद्गलके भंग ८

१	सद्भाव					१	
२	असद्भाव					२	
३	स					३	
४	"	अस				१२	
५	"	स				१३	
६	अस	"				२३	
७	"	"	अस			१२३	
८	स	अस	स			११२	
९	"	स	"			१३३	
१०	"	"	"			११३	
११	"	अस	"			२३३	
१२	अस	स	अस			२२३	
१३	स	अस	स			१२३	
१४	"	"	"	अस		११२२	
१५	"	स	"	स		११३३	
१६	अस	"	अस	"		२२३३	
१७	स	"	"	"		१२३३	
१८	"	अस	स	अस		१२२३	
१९	"	"	"	स		११२३	
२०	"	"	"	अस	स	१२२३३	
२१	"	स	अस	स	"	११२३३	
२२	"	अस	स	अस	"	११२२३	
२३	"	"	"	स	अस	स	११२२३३

१	द्रव्य	○	
२	द्रव्यदेश		
३	द्रवाण्डं	○ ○	
४	द्रव्यदेशा		
५	द्रव्यं च द्रव्यदेशे	○	
६	द्रव्यं च देशा	○	
७	द्रवाण्डं च द्रव्यदेशे च	○	
८	द्रवाण्डं च द्रव्यदेशा च	○	
भगवती ५मे शते उद्देशे ७मे भंग ९			
१	देशेणं	देशं छ-सद्	
२	"	देशं	
३	"	सर्वं	
४	देशेहिं	देशं	
५	"	देशे	
६	"	सर्वं	
७	सर्वेणं	देशं	
८	"	देशे	
९	"	सर्वं	

(१२) भगवती शतक ५मे उद्देशे ७ स्पष्टिनियन्त्रम्


			१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	परमाणु-पुद्गल	परमाणु-स्पर्श	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	"	द्विप्रदेशी स्कंध	०	०	०	०	०	०	७	०	०
३	"	तिप्र. स्पर्श	०	०	०	०	०	०	"	८	"
४	द्विप्रदेशी स्कंध	पर. स्पर्श	०	०	३	०	०	०	०	०	"
५	"	द्विप्रदे. "	१	०	"	०	०	०	७	०	"
६	"	तिप्रदे. "	"	२	"	०	०	०	"	८	"
७	तिप्रदेशी "	पर. "	०	०	"	०	०	६	०	०	"
८	"	द्विप्र. "	१	०	"	४	०	"	७	०	"
९	"	तिप्रदेशी क्	"	२	"	"	५	"	"	८	"

द्रव्य देश करके ८ भांगे है. सो परमाणुमे २ पावें- १।२; द्विप्रदेशीमे भंग ५ पावें-१-५; त्रिप्रदेशीमें ५ भंग पावें-१-७; चार प्रदेशीमें भंग ८ पावें-१-८; एवं पांचसे लेकर अनंत-

प्रदेशीपर्यंत एही ८ भंग है.

(९३) श्रीभगवतीके (अ. २५, उ. ३) मे ५ संस्थानस्वरूप तथा देशयंत्रस्थापना.

संस्थान	सूची		प्रतर		घन		जुम्म	
	ओज प्रदेश १।३।५	युग्म ३।४।६	ओज १।३।५	युग्म ३।४।६	ओज १।३।५	युग्म ३।४।६	जुम्म	० ० ०
परिमंडल	० ०	० ०	० ०	२० प्रदेश	० ०	४ प्रदेश	४ कृतयुग्म	० ० ०
वट्ट	० ०	० ०	५	१२ "	७	३२	१।३।४	० ० ०
त्र्यस	० ०	० ०	३	६ "	३५	४	२।३।४	० ० ०
चतुरस्र	० ०	० ०	९	४ "	२७	८	१।३।४	० ० ०
आयतन	३	२	१५	६ "	४५	१२	१।२।३।४	० ० ० ०



ऋजुगति में एक समय पर भव जातां लागे, अनाहारिक नास्ति. एक वक्रमें दो समय लागे; प्रथम समय अनाहारिक, दूजे समये आहार लेवे. द्विवक्रमें तीन समय लागे; प्रथम दो समय अनाहारी, तीजे समये आहार लेवे. तीन वक्रमें चार समय लागे, प्रथम तीन समय अनाहारी, चौथे समय आहार लेवे. चार वक्रमें पांच समय लागे, प्रथम चार समय अनाहारी, पांच मे समये आहार लेवे. श्रीभगवतीजी (सू.) मे तो तीन समय अनाहारिक कहा है तो चार समय कैसें हूये तिसका उत्तर—श्रीभगवतीजीमे बहुलताइकी विवक्षा करके तीन समय कहे है. अल्पताकी विवक्षा नहीं करी, कदे कदे इक चार समय अनाहारिक होता है. कोइ कहै जो पांच समयकी गति न मानीये तो क्या काम अटके है तिसका उत्तर—प्रथम तो पूर्वाचार्योंने पांच समयकी गति मानी है, श्रीजिनभद्रगणि क्षमाश्रमण आदि देइ सर्व वृत्तिकारोने मानी है, इस वास्ते सत्य है. तथा सातमी नारकीके स्थावरनाडीके कूणेवाला जीव मरीने 'ब्रह्म-देव' लोककी स्थावर नाडीके कूणे मे उपजणहार पांच समयकी विग्रह विना उपज नहीं सकता, एह विचार सूक्ष्म बुद्धिसे विचार लेना. इस विना काम अटके है. इसकी साख भगवती-की वृत्तिमे तथा पन्नवणाकी वृत्तिमे वा (बृहत्)संघयणी (गा. ३२५-३२६)मे है.

(८९) श्रीभगवती शते १३मे चतुर्थ उद्देशके प्रदेशांकी परस्परस्पर्शानयनम्

०	धर्मास्तिकायके	अधर्मास्तिकायके	आकाशास्तिकायके	जीवके	पुद्गलके	कालके
धर्मास्तिकायका एक प्रदेश	३१४५६ प्रदेश-स्पर्श	४५६१७	७	अनंते	अनंते	अनंते
अधर्मास्तिकायका " "	४५६१७	३१४५६	"	"	"	"
आकाशास्तिकायका " "	१२३१४५६१७	१२३१४५६१७	६	"	"	"
जीवका " "	४५६१७	४५६१७	७	"	"	"
परमाणुपुद्गल	४५६१७	४५६१७	"	"	"	"

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	पुद्गलपद ज्ञेयम्
४	६	८	१०	१२	१४	१६	१८	२०	२२	जघन्य पद
७	१२	१७	२२	२७	३२	३७	४२	४७	५२	उत्कृष्ट "

चूर्णिकारे नयमते करी एक अवग्रही प्रदेशना दोय गिन्या अने टीकाकारे माणु करी व्याख्यान कर्या है. इति रहस्यं पुद्गलकी स्पर्शनामे. परमाणु जघन्य के अधर्मके स्पर्श, तिनका स्वरूप पीछे लिख्या ही है; अने दोय प्रदेशी आदिक र

१ ग्रंथकारे १२४ मा पृष्ठनी पछी आनी योजना करी छे, परंतु छपावती वेळा ए पृष्ठमां समावे आ यंत्र अहीं आपेल छे.

स्पर्शनामे दो दो प्रदेश बधा लेने अने उत्कृष्टी स्पर्शनामे पांच पांच प्रदेशानी सर्वत्र वृद्धि जान लेनी. इति अलं विस्तरेण.

(९४) भगवती श० २५, उ० ४ (सू० ७४०) परमाणु द्विप्रदेशादि १३ बोलाकी अल्पबहुत्वयंत्रम्

द्रव्य-यंत्रम् १	परमाणु १	द्विप्रदेशी २	त्रिप्रदेशी ३	४ प्रदेशी ४ स्कंध	५ प्रदेशी ५ स्कंध	६ प्रदेशी ६ स्कंध	७ प्रदेशी ७	८ प्रदेशी ८	९ प्रदेशी ९	१० प्रदेशी १०	संख्यात प्रदेशी ११	असंख्यात प्रदेशी १२	अनंत प्रदेशी १३
द्रव्यार्थे	११ वि	१० वि	९ वि	८ वि	७ वि	६ वि	५ वि	४ वि	३ वि	२ अनंत गुणा	१२ संख्यात गुणा	१३ असंख्य गुणा	१ स्तोक
प्रदेशार्थे	२ अनंत गुणा	३ वि	४ वि	५ वि	६ वि	७ वि	८ वि	९ वि	१० वि	११ वि	१२ वि	१३ असंख्य गुणा	१ स्तोक

क्षेत्र-यंत्रम् २	एक प्रदेशाव-गाढा १	२ प्र. गा. २	३ प्र. गा. ३	४ प्रदेशाव-गाढा ४	५ प्रदेशाव-गाढा ५	६ प्र. गा. ६	७ प्र. गा. ७	८ प्र. गा. ८	९ प्र. गा. ९	१० प्र. गा. १०	संख्यात प्र. गा. ११	असंख्य-प्रदेशाव-गाढा १२
द्रव्यार्थे	१० वि	९ वि	८ वि	७ वि	६ वि	५ वि	४ वि	३ वि	२ वि	१ सर्व से स्तोक	११ संख्येय गुणा	१२ असंख्येय गुणा
प्रदेशार्थे	१ स्तो	२ वि	३ वि	४ वि	५ वि	६ वि	७ वि	८ वि	९ वि	१० वि	११ संख्यात	१२ असंख्यात

एक समय स्थितिक आदि १२ बोलका यंत्रना क्षेत्रवत् निर्विशेष ॥ भावयंत्र एक गुण भला आदि यावत् अनंत गुण १३ बोल. वर्णना ५, गंध २, रस ५, शीत स्पर्श १, उष्ण २, स्निग्ध ३, लु(रू)क्ष ४, एवं १६ बोलमेथे एकेक बोलना तेरां तेरां बोल करके द्रव्य जान लेना. (९५)

एक गुण कर्कश आदि	द्विगुण २	त्रिगुण ३	४ गुण ४	५ गुण ५	६ गुण ६	७ गुण ७	८ गुण ८	९ गुण ९	१० गुण १०	संख्येय गुण ११	असंख्य गुण १२	अनंत १३
२ वि	३ वि	४ वि	५ वि	६ वि	७ वि	८ वि	९ वि	१० सं.	११ असं.	१२ असं.	१३ बहु	
२ वि	३ वि	४ वि	५ वि	६ वि	७ वि	८ वि	९ वि	१० बहु	११ बहु	१२ बहु	१३ बहु	

(९६) भगवती शतक २५, उ. ४ सू. ७४१

द्रव्य	परमाणु १	संख्यातप्रदेशी २	असंख्यातप्रदेशी ३	अनंतप्रदेशी ४
द्रव्यार्थे	२ अनंत गुणा	३ संख्यात गुण	४ संख्येय गुण	१ स्तोक
प्रदेशार्थे	" " "	" संख्येय "	" असंख्येय "	" "
द्रव्यार्थे	३ "	४ संख्यात "	६ असंख्यात	" "
प्रदेशार्थे	०	५ " "	७ "	अनंत २

क्षेत्रयंत्र	एकप्रदेशावगाढा १	संख्यातप्रदेशावगाढा २	असंख्यप्रदेशावगाढा ३
द्रव्यार्थे	१ स्तोक	२ संख्येय गुणा	३ असंख्येय गुणा
प्रदेशार्थे	" "	" " "	" " "
द्रव्यार्थे	" "	" " "	४ " "
प्रदेशार्थे	०	३ " "	५ " "

क्षेत्रयंत्रवत् कालयंत्र कालयंत्रमे एक समय स्थिति आदि कहनी.

भाव एक गुण कर्कश आदि ४	१ गुण	संख्येय गुण	असंख्येय गुण	अनंत गुण
द्रव्यार्थे	" स्तोक	२ संख्येय	३ असंख्येय	४ अनंत
प्रदेशार्थे	" "	" असंख्येय	" "	" "
द्रव्यार्थे	" "	" [अ]संख्येय	४ "	६ "
प्रदेशार्थे	०	३ "	५ "	७ "

सोले बोलना यंत्र परमाणु आदिवत् जान लेना द्रव्यवत्.

(९७) परमाणु आदि अनंतप्रदेशी स्कंध चल अचल स्थिति
भगवती (श० २५, उ० ४, सू. ७४४)

	जघन्य स्थिति	उत्कृष्ट स्थिति
चल (सैज) एकवचने	१ समय	आवलिके असंख्यातमे भाग
अचल (निरेज) "	" "	असंख्याता काल

चल बहवचने अचल बहवचने सर्वाद्रा.

(९८) अंतरयंत्रं भग० सू. ७४४

	परमाणु-पुद्गल		द्विप्रदेश आदि-अनंत प्रदेश पर्यन्त		
	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	
चल	स्वस्थाने	१ समय	असंख्य काल	१ समय	असंख्यात काल
एकवचने	परस्थाने	" "	" "	" "	अनंत "
अचल एकवचने	स्वस्थान	" "	आवलि असंख्य भाग	" "	आवलि असंख्य भाग
	परस्थान	" "	असंख्य काल	" "	अनंत काल
बहुवचने	चल	नास्ति अंतरं	नत्थि	नत्थि	नत्थि
	अचल	" "	नास्ति अंतरं सर्वत्र		
अंतर समुच्चये	१ समय	असंख्य काल	असंख्य काल	१ समय	उत्कृष्ट असंख्य काल

(९९) कालमान स्थितिमान यंत्रम् भग० श. २५, उ. ४ (सू. ७४४)

		परमाणु		द्विप्रदेशादि-अनंत प्रदेशी पर्यन्त	
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट
	देशैज	०	०	१ समय	आवलिके असंख्यमे भाग
एकवचने	सर्वैज	१ समय	आवलिके असंख्यमे भाग	" "	" " "
	निरेज	" "	असंख्य काल	" "	असंख्य काल
बहुवचने	देशैज	०	सर्वाद्धा		सर्वाद्धा

(१००) अंतर मानका यंत्र (भग० सू. ७४४)

		परमाणु		द्विप्रदेशादि-अनंत प्रदेशी (पर्यन्त)	
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट
देशैज	स्वस्थाने	०	०	१ समय	असंख्य काल
	परस्थाने	०	०	" "	अनंत "
सर्वैज	स्वस्थाने	१ समय	असंख्य काल	" "	असंख्य "
	परस्थाने	" "	" "	" "	अनंत "
			सर्वाद्धा		सर्वाद्धा

१ परमाणुपुद्गलो तेमज द्विप्रदेशादि स्कंधो सर्वे अंशे सदा काल कपे तेमज सदा काल निष्कंप रहे ।

(१०१) भगवती (श. २५, उ. ४, सू. ७४४, पृ. ८८५)

	०	परमाणु १	संख्यात प्रदेश २	असंख्य प्रदेश ३	अनंत प्रदेश ४
द्रव्यार्थे	देशैजा	०	७ असंख्य	८ असंख्य	३ अनंत
	सर्वैजा	६ असंख्य	५ ”	४ अनंत (? असं.)	१ स्तोक
	निरेजा	९ ”	१० ”	११ असंख्य	२ अनंत गुणा
प्रदेशार्थे	देशैज	०	६ ”	७ ”	३ ”
	सर्वैज	०	५ ”	४ ”	१ स्तोक
	निरेज	०	८ ”	९ ”	२ अनंत
द्रव्यार्थे प्रदेशार्थे	देशैज	०	१२ ”	१४ ”	५ ”
	सर्वैज	११ असंख्य	९ ”	७ अनंत	१ स्तोक
	निरेज	१६ ”	१७ संख्यात	१९ असंख्य	३ अनंत
	देशैज	०	१३ ”	१५ ”	६ ”
	सर्वैज	०	१० ”	८ ”	२ ”
	निरेज	०	१८ ”	२० ”	४ ”

(१०२) परमाणुपुद्गल सैज निरेज (अल्पबहुत्व) भग० श. २५, उ. ४ (सू. ७४४)

अल्पबहुत्व	परमाणु यावत् असंख्य- प्रदेशी स्कंध	अनंतप्रदेशी स्कंध
चला	१ स्तोक	१ स्तोक (?)
अचला	२ असंख्य गुण	२ अनंत गुणा (?)

(१०३) अल्पबहुत्व

	अल्पबहुत्व	परमाणु	संख्यातप्रदेशी	असंख्यातप्रदेशी	अनंतप्रदेशी
द्रव्यार्थे	सैजा	३ अनंत गुण	४ असंख्य गुणा	५ असंख्यात	२ अनंत गुण
	निरेजा	६ असंख्य	७ संख्य ”	८ ”	१ स्तोक
प्रदेशार्थे	सैजा	अप्रदेशा०	३ असंख्य ”	४ ”	२ अनंत गुणा
	निरेजा		५ ”	६ ”	१ स्तोक
द्रव्यार्थे	सैजा	५ अनंत	६ ”	८ ”	३ अनंत
	निरेजा	१० असंख्य	११ ”	१३ ”	१ स्तोक
प्रदेशार्थे	सैजा	०	७ ”	९ ”	४ अनंत
	निरेजा	०	१२ ”	१४ ”	२ ”

१ सा संबंधी उल्लेख विचारणीय जणाय छे ।

(१०४)

परमाणु संख्येय प्रदेश असंख्येय प्रदेश अनंत प्रदेशी से(सि)या चल निरेया अचल
अल्पबहुत्व.

परिणाम	जीव	मूर्त्त	सप्रदेश	एक	अक्षेत्री	किरिया	नित्य	कारण	कर्ता	सर्वगत
२ मेद	१	१	५	३	४ (५?)	२	४	५	१	१
जीव, पुद्गल परि- णामी	जीव १ एक जीव १	मूर्त्तवंत पुद्गल १	धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, पुद्गल	धर्म, अधर्म, आकाश	धर्म, अधर्म, पुद्गल, जीव, काल	जीव १, पुद्गल २; ए क्रिया- वंत	धर्म, अधर्म, काल, आकाश ए ४ नित्य	धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल	एक जीव कर्ता	आकाश १
४ अपरि- णाम	अजीव ५	अमूर्त्त ५	अप्र- देशी १	अनेक ३	क्षेत्री १	अकि- रिया ४	अनित्य २	अकारण १	अकर्ता ५	असर्व- गत ५
धर्म, अधर्म, आकाश, काल ए; ४ अपरि- णामी	धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल	धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव ए ५	काल- द्रव्य १	पुद्गल १, काल २, जीव ३; ए अनेक	एक आकाश- द्रव्य	धर्म, अधर्म, आकाश, काल ए ४	जीव १, पुद्गल- पर्याय २; विभाव- अपेक्षया	जीव एक अकारण	धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल	धर्म, अधर्म, जीव, काल, पुद्गल

“परिणाम १ जीव २ मुत्ता ३, सपएसा ४ एग ५ खित्त ६ किरिया ७ य ।

निच्चं ८ कारण ९ कत्ता १०, सव्वगय ११ इयर हि यपएसा ॥ १ ॥

दुन्नि २ य एगं १ एगं १, पंच ५ ति ३ पंच ५ ति ३ पंच ५ दुन्नि २ चउरो ४ य ।

पंच ५ य एगं १ एगं १, दस १० एय उत्तरगुणं २ च ४ ॥ २ ॥

पण ५ पण ५ इग १ य तिन्नि ३ य, एग १ चउरो ४ दुन्नि २ एक १ पण ५ पणगं ५ ।

परिणामेयरभेया, बोद्धव्वा सुद्धबुद्धिहिं ॥ ३ ॥”

(१०५) भगवती (श. २५, उ. ४)

युग्म	धर्म	अधर्म	आकाश	जीव	पुद्गल	काल
द्रव्यार्थे	१	१	१	४	४।३ २।१	४
प्रदेशार्थे	४	४	४	”	४	०
प्रवेशावगाढ	”	”	”	”	”	०
समयस्थिति	”	”	”	”	”	०

१ परिणामजीवमूर्ताः सप्रदेशा एकक्षेत्रक्रियाश्च । नित्यं कारणं कर्ता, सर्वगत इतरे हि चाप्रदेशाः ॥ १ ॥

द्वे च एकं एकं पञ्च त्रि पञ्च त्रि, पञ्च द्वे चलारि च । पञ्च च एकं एकं दश एते उत्तरगुणाश्च ॥ २ ॥

पञ्च पञ्च एकं त्रीणि च एकं चलारि द्वे एकं पञ्च पञ्च च । परिणामेतरमेदा बोद्धव्याः सुद्धबुद्धिभिः ॥ ३ ॥

युगम	धर्म	अधर्म	आकाश	जीव	पुद्गल	काल
अल्पवहुत्व	द्रव्यार्थे १	१	१	३ अनंत गुण	५ अनंत गुण	७ अनंत गुण
हुत्व	प्रदेशार्थे २ असंख्य	२ असंख्य	८ अनंत	४ असंख्य	६ असंख्य	०

(१०६)

१	धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ३	द्रव्यार्थ	स्तोक
२	धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय २	पएस (प्रदेश)	असंख्य
३	जीवास्तिकाय १	द्रव्यार्थ	अनंत
४	" "	पएस	असंख्य
५	पुद्गलास्तिकाय "	द्रव्यार्थ	अनंत
६	" "	पएस	असंख्य
७	काल	द्रव्यार्थ	अनंत
८	आकाशास्तिकाय १	प्रदेश	"

अथ कालकी अल्पबहुत्व ६२ बोला

(१) सर्वसं स्तोक समयनो काल, (२) आवलिनो काल असंख्य गुण, (३) जघन्य अंतर्मुहूर्त १ समय अधिक, (४) जघन्य आयुबंधकाल संख्येय गुण, (५) उत्कृष्ट आयुबंधकाल संख्येय गुण, (६) जघन्य अपर्याप्ती एकेन्द्रिय न संख्येय, (७) उत्कृष्ट अपर्याप्त एकेन्द्रियनो विशेष, (८) पर्याप्त एकेन्द्रियनो जघन्य काल विशेष, (९) पर्याप्त निगोद उत्कृष्ट विशेष अधिक, (१०) उत्कृष्ट त्रसकायविरह सं०, (११) जघन्य अपर्याप्त बेइंद्रीनो विशेष०, (१२) उत्कृष्ट अपर्याप्त बेइंद्रीनो विशेष०, (१३) जघन्य पर्याप्त बेइंद्रीनो विशेष०, (१४) जघन्य तेइंद्री अपर्याप्त काल विशेष०, (१५) उत्कृष्ट अपर्याप्त तेइंद्रीनो विशेष०, (१६) जघन्य पर्याप्त तेइंद्रीनो विशेष०, (१७) उत्कृष्ट पर्याप्त चौरिंद्रीनो विशेष०, (१८) उत्कृष्ट अपर्याप्त चौरिंद्री विशेष०, (१९) जघन्य पर्याप्त चौरिंद्री विशेष०, (२०) जघन्य अपर्याप्त पंचेद्रीनो विशेष०, (२१) उत्कृष्ट अपर्याप्त पंचेद्रीनो विशेष०, (२२) जघन्य पर्याप्त पंचेद्रीनो विशेष०, (२३) उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल संख्येय, (२४) मुहूर्तनो काल समय १ अधिक विशेष, (२५) अहोरात्रनो काल संख्येय गुण, (२६) उत्कृष्ट तेउकायनी स्थिति सं०, (२७) पक्षनो काल संख्येय गुण, (२८) मासनो काल संख्येय गुण, (२९) तेइंद्रीनी उत्कृष्ट स्थिति विशेष०, (३०) ऋतुनो काल विशेष०, (३१) आयन वा चौरिंद्री उत्कृष्ट स्थिति सं०, (३२) वर्षनो काल संख्येय गुण, (३३) युगनो काल संख्येय

गुण, (३४) बेइंद्री उत्कृष्ट स्थिति संख्येय, (३५) वायुकाय उत्कृष्ट स्थिति संख्येय, (३६) अप्काय उत्कृष्ट स्थिति संख्येय, (३७) वनस्पति उत्कृष्ट या देव, नरक जघन्य वि०, (३८) पृथ्वीकाय उत्कृष्ट स्थिति संख्येय, (३९) उद्धार पत्यनो असंख्य भाग संख्येय, (४०) उद्धार पत्यनो काल असंख्य गुण, (४१) उद्धार सागरनो काल संख्येय, (४२) जघन्य अद्वा पत्यका असंख्य भाग असंख्येय, (४३) उत्कृष्ट अद्वा पत्यका असंख्य भाग असंख्य, (४४) अद्वा पत्यनो काल असंख्य गुण, (४५) उत्कृष्ट मनुष्यनी कायस्थिति संख्येय, (४६) अद्वा-सागरनो काल संख्येय, (४७) उत्कृष्ट देव-नारक-स्थिति संख्येय, (४८) अवसर्पिणी उत्स-र्पिणी काल सं०, (४९) क्षेत्र पत्यनो काल असंख्य गुण, (५०) क्षेत्रसागरनो काल संख्येय गुण, (५१) तेउनी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्य, (५२) वायुनी उत्कृष्ट कायस्थिति विशेष०, (५३) अप्नी उत्कृष्ट कायस्थिति विशेष०, (५४) पृथ्वीनी उत्कृष्ट कायस्थिति विशेष०, (५५) कार्मण पुद्गलपरावर्तन अनंत गुण, (५६) तैजस पुद्गल परावर्तन अनंत गुण, (५७) औदारिक पुद्गल परावर्तन अनंत, (५८) श्वासोच्छ्वास पुद्गल परावर्तन अनंत, (५९) वैक्रिय पुद्गलपराव-र्तन अनंत गुण, (६०) वनस्पतिनी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्य, (६१) अतीत अद्वा अनंत गुण, (६२) अनागत अद्वा विशेष अधिक.

(१०७) द्रव्य ६; गुण चार २ एकेकना नित्य है

धर्म	अरूपी १	अचेतन २	अक्रिया ३	गतिसहाय ४
अधर्म	" "	" "	" "	स्थितिस्वभाव "
आकाश	" "	" "	" "	अवगाहदान "
काल	" "	" "	" "	वर्तमान व जीर्ण "
पुद्गल	रूपी "	" "	सक्रिय "	पूरण-गलन "
जीव	अनंत ज्ञान "	अनंत दर्शन "	अनंत चारित्र "	अनंत वीर्य "

(१०८) पर्याय षट् द्रव्यना चार चार

धर्म १	स्कंध नित्य	देश अनित्य	प्रदेश अनित्य	अगुरुलघु
अधर्म २	" "	" "	" "	"
आकाश ३	" "	" "	" "	"
काल ४	अतीत	अनागत	वर्तमान	"
पुद्गल	वर्ण	गन्ध	रस	स्पर्श
जीव	गुरु	लघु	अगुरुलघु	अव्याबाध

पुद्गलका वर्ण आदि, धर्म अगुरुलघु पर्याय.

(१०९) पुद्गलयंत्रं भगवती (श० २०, उ. ४)

	वर्ण	गन्ध	रस	स्पर्श	संस्थान	भंग
परमाणु	५	२	५	४	१	२००
२ प्रदेश	१५	३	१५	९	२	
३ ,,	४५	५	४५	२५	३	
४ ,,	९०	६	९०	३६	४	
५ ,,	१४१	"	१४१	"	५	
६ ,,	१८६	"	१८६	६	"	
७ ,,	२१६	"	२१६	"	"	
८ ,,	२३१	"	२३१	"	"	
९ ,,	२३६	"	२३६	"	"	
१० ,,	२३७	"	२३७	"	"	
२० ,,	"	"	"	"	६	

(११०) भगवती शते ८ उद्देशो १ मे पुद्गलयंत्रं

पुद्गल	प्रयोगपरिणत	मीसा (मिश्र)	विस्रसा
अल्पबहुत्व	१ स्तोक	२ अनंत गुणा	३ अनंत गुणा

जीवे ग्रह्णा 'प्रयोग,' सा जीवने तज्या परिणामांतरे परिणम्या नही ते 'मीसा,' स्वभावे परिणम्या अभ्रवत् ते 'विस्रसा;' एवम् ३.

नरक ७, भवनपति १०, व्यंतर ८, ज्योतिषी ५, देवलोक २६, सूक्ष्म ५, स्यावर बादर ५, बेइंद्री १, तेइंद्री १, चौरिंद्री १, असंज्ञी पंचेंद्री ५, संज्ञी पंचेंद्री तिर्यच ५, असंज्ञी मनुष्य १, संज्ञी मनुष्य १, एवं सर्व ८१, ए प्रथम दंडक. इनकू अपर्याप्तसे गुण्या ८१, पर्याप्त अपर्याप्त १६१, शरीरसे गुण्या ४९१, जीवेंद्रीसे गुण्या ७१३, शरीरेंद्रीसे गुण्या २१७५. १६१ कू पांच वर्ण, पांच गंध, पांच रस, आठ स्पर्श, पांच संस्थानसे गुण्या ४०२५, ४९१. कू इन पचीससे गुण्या ११६३१ (१२२७५?), ७१३ कू इन वर्ण आदि २५ से गुण्या १७८२५, २१७५ कू इन २५ से गुण्या ५१५२३ (५४३७५?).

इति आत्मरामसंकलता(ना?)यां अजीवतत्त्वं द्वितीयं संपूर्णं ॥



अहं नमः ॥ अथ 'पुण्य' तत्त्व लिख्यते—

नव प्रकारे बांधे पुण्य, ४२ प्रकारे भोगवे. सातावेदनीय १, देव २, मनुष्य ३ तिर्यचना आयु ४, देवगति ५, मनुष्यगति ६, पंचेन्द्रिय ७, औदारीक ८, वैक्रिय ९, आहारक १०, तैजस ११, कार्मण शरीर १२, तीन अंगोपांग १५, वज्रऋषभनाराच संहनन १६, समचतुरस्र संस्थान १७, शुभ वर्ण १८, गंध १९, रस २०, स्पर्श २१, देव-आनुपूर्वी २२, मनुष्य-आनुपूर्वी २३, प्रशस्त खगति २४, पराघात २५, उच्छ्वास २६, आतप २७, उद्धोत २८, अगुरुलघु २९, तीर्थंकर ३०, निर्माण ३१, त्रस ३२, बादर ३३, पर्याप्त ३४, प्रत्येक ३५, स्थिर ३६, शुभ ३७, सौभाग्य (सुभग) ३८, सुखर ३९, आदेय ४०, यशकीर्ति ४१, उच्च गोत्र ४२; ए प्रकारे पुण्य भोगवे.

अथ उक्कृष्ट पुण्य प्रकृतवान् तीर्थंकर महाराजका समवसरणस्वरूप लिख्यते—

“मुंणि वेमाणिया देवि साहुणि ठंति अग्गिकोणंमि ।
जोइसिय भवण वितर देवीओ हुंति नेरईए ॥ १ ॥
भवणवणजोइदेवा वायव्ये कप्पवासिनो अमरा ।
नरनारीओ ईसाणे पुव्वाइसु पविसिउं ठंति ॥ २ ॥

द्वादश परिषत् नाम—

“उसभस्स तिन्नि गाळ वत्तीस धनुणि वद्धमाणस्स ।
सेसजिणाण असोगो देहाउ दुवालसगुणो य ॥ १ ॥
किंकिळि कुसुमवुट्ठी दिव्वजुणि चामरासणाइं ।
भामंडल य छत्त भेरी जिणिंद (? जयंति) जिणपाडिहेराइं ॥ २ ॥
दप्पण भदासण वद्धमाण वरकलस मच्छ सिरिवच्छा ।
सत्थिय नंदावत्तो विविहा अट्ट मंगल्ला ॥ ३ ॥

समवसरण अढाइ कोस धरतीसे ऊंचा जानना अंबरे । मध्यमे मणीपीठको [के] उपरि आसन चार है. तीन चारो ही सिंहासनाके उपरि अशोक वृक्ष छाया करता है. पूर्वके सिंहासन उपर तीर्थंकर त्रैलोक्यपूज्य परम देव विराजमान होय है. अने अन्य सिंहासन तीन उपरि भगवान् सरीषे(खे) तीन रूप व्यंतर देवता बनाय कर स्थापन करते है. सो भगवान्की अतिशय करी भगवान् सदृश दिखलाइ देते हे. ऐसा मालूम होवे है जानो एह भगवान् ही

१ मुनयो वैमानिका देव्यः साध्यस्तिष्ठन्ति अग्गिकोणे । ज्योतिष्कभवन(पति)व्यन्तरदेव्या भवन्ति नैकस्ये ॥
भवनवनज्योतिर्देवा वायव्ये कल्पवासिनोऽमराः । नरनार्य ईशाने पूर्वोदिषु प्रविश्य तिष्ठन्ति ॥
ऋषभस्य त्रीणि गव्यूतानि द्वात्रिंशद् धनूषि वर्धमानस्य । शेषजिनानामशोको देहाद् द्वादशगुणश्च ॥
कङ्कलिः कुसुमवृष्टिर्दिव्यध्वनिश्चामरासनानि । भामण्डलं च छत्रं भेरी जिनेन्द्र । जिनप्रातिहार्याणि ॥
दर्पणो भद्रासनं वर्धमानं वरकलशं मत्स्यः श्रीवत्सः । स्वस्तिको तन्द्यावर्तो विविधानि खड्ग मङ्गलानि ॥

१ अनवस्थित

२ शलाका



४ महाशलाका


३ प्रतिशलाका



अनुसंधान माटे जुओ पृ. ६७.

प्रथमगट रत्नमय मणीमय कोसीसा १
द्विजागट सुवर्णमय रत्नमय कोसीसा २
तिजागट रूपामय सुवर्णमय कोसीसा ३

मणी पीठका विस्तीर्ण धनु ५००



सोपान १०००
सोपान २२००
सोपान ४०००

सोपान १०००
सोपान २२००
सोपान ४०००

आठवान भी एकेक द्वारके पास दो दोहें.

रूपमय प्रसन्न भित्ति पृथुल धनु ३३
भित्ति धनु ३३ हस्त १ अंगुल ८
प्रकार समकारांतर धनु ६३००९५

अनुसंधान माटे
जुओ पृ. १३६.

उर्ध्वलोके षंडुक ९४०८

सूचीरज्जु २३५२

प्रतररज्जु १८८

घनरज्जु १४७

जब व्यवहार नय करी पूर्ण समरज्जु
प्रमाण घनी कृत लोक मानिये तदा
ए प्रमाण होता है.


३६ लोके षंडुक ४०६४

सूचीरज्जु १०१६

२ प्रतररज्जु २५४

घनरज्जु ६३११

आना अनुसंधान
माटे जुओ पृ. १८३.



उभयलोके षंडुक २१९५२

सूचीरज्जु ५४८८

प्रतररज्जु १३७२

घनरज्जु ३४३

अधोलोके षंडुक १२५४४

सूचीरज्जु ३१३६

प्रतररज्जु ७४८

घनरज्जु १९६

ए व्यवहार नयमतेन

अने जो गोल घनरज्जु करणा होवे

सौ चतुरस्र घनरज्जु याकूं उन्नीस

१९ गुणा करके बाबीस २२ का

माम लेना जो हाथ आवे सो

गोस घनरज्जु जानने.

उभयलोके षंडुक १५२९६

सूचीरज्जु ३८२४

प्रतररज्जु ९५६

घनरज्जु २३९

अधोलोके षंडुक ११२३२

सूचीरज्जु २८०८

प्रतररज्जु ७०२

घनरज्जु १७५११

उपदेश देते हैं, हे नाथ ! मेरी एह प्रार्थना है जो सर्वसुख आपका समवसरण देखूं भक्ति संयुक्त पदपंकज स्पर्श मस्तकेन. (१११) (चक्री आदि संबंधी माहिती)

चक्री-नाम	पिता-नाम	माता-नाम	कुमार-काल	मंडलिक-काल	विज-येसा	पट्ट-खंड-राज्य	दीक्षा-काल	पूर्व-जन्म-नाम	पूर्व-जन्म-नगरी	आग-ति-आया	गति-गया	आयु	अव-गाह	नगरी-नाम
१ भरत	ऋषभदेव	सुमंगला	पूर्व ७७ लाख	वर्ष १०००	६० हजार वर्ष	पूर्व ६ लाख	पूर्व १ लाख	पीठनी	पुंडरी-किणी	सर्वार्थ-सिद्ध	मोक्ष	पूर्व ८४ लक्ष	५०० धनु	विनीता
२ सगर	सुमति राजा	यशवती	पूर्व ५०० सहस्र	वर्ष ५० हजार	३० हजार वर्ष	वर्ष ७० लाख	पूर्व १ लाख	विजय-राजा	पृथ्वी-पुर	विजय विमान	"	पूर्व ७२ लक्ष	४५० धनु	अयोध्या
३ मधवा	समुद्र-विजय	सुमद्रा	वर्ष २२ लाख ५० हजार	वर्ष ५ हजार	१० हजार वर्ष	वर्ष ३ लाख ९० हजार	३ लाख	शि-शिभ राट	पुंडरी-किणी	त्रैवेयक	देव-लोक ३	वर्ष ५ लाख	४२ धनु	श्रावस्ती
४ सन्त-कुमार	अश्वसेन राट	सहदेवी	वर्ष ५० हजार	"	१ हजार वर्ष	वर्ष ९० हजार	वर्ष १० हजार	मंरु राजा	मंहा-पुरी	महेन्द्र ४	"	वर्ष ३ लाख	४१ धनु	हस्तिनापुर
५ शांति-नाथ	विश्वसेन राट	अचिरा	वर्ष २५ हजार	वर्ष २५ हजार	वर्ष ८००	वर्ष २४२-००	वर्ष २५ हजार	मेघ-रथ राजा	पुंडरी-किणी	सर्वार्थ-सिद्ध	मोक्ष	वर्ष १ लाख	४० धनु	गजपुर
६ कुंथु-नाथ	सूरसेन राट	श्री-राणी	२३७-५० वर्ष	वर्ष २३७-५०	वर्ष ६००	वर्ष २३१-५०	वर्ष २३१-५०	सिंह-रथ राजा	सुंसी-मा	"	"	वर्ष ९५ सहस्र	३५ धनु	"
७ अर-नाथ	सुदर्शन	देवी राणी	वर्ष २१ हजार	वर्ष २१ हजार	वर्ष ५००	वर्ष २०६-००	वर्ष २१ हजार	धन-पति राट	क्षेम-पुरी	अप-राजित	"	वर्ष ८४ सहस्र	३० धनु	"
८ सुभूम	कार्ति-वीर्य	तारा राणी	वर्ष ५ हजार	वर्ष ५ हजार	"	वर्ष ४९५-००	दीक्षा नहीं	कैना-भ राजा	धन-पुरी	जयंत विमान	७ मी नरक	वर्ष ६० सहस्र	२८ धनु	"
९ महा-पद्म	पद्मोत्तर राजा	ज (ज्वा) ला देवी	वर्ष ५००	वर्ष ५००	वर्ष ३००	वर्ष १८७-००	वर्ष १० हजार	११ वितहु राजा	१२ बीत-शोका	ब्रह्म-देव	मोक्ष	वर्ष ३० सहस्र	२० धनु	वाराणसी

१ मस्तक बड़े ।

३-१३ आ तेमज कीजां पण केटलांक नामो त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रथी जुदां पडे छे ते विचारणीय छे ।

१० हरि- वेण	महाहरि	मोरा राणी	वर्ष ३२५	वर्ष ३२५	वर्ष १५०	वर्ष ३२५०	वर्ष ३५०	महे- न्द्र राट्ट	विज- यपुर	महे- न्द्र ४	"	वर्ष १० सहस्र	१५ धनु	कंपि- लपुर
११ जय	विजय राजा	विप्रा राणी	वर्ष ३०००	वर्ष ३०००	वर्ष १००	वर्ष १९००	वर्ष ३००	अभि- त राट्ट	राज- पुर	ब्रह्म- लोक	"	वर्ष ३ सहस्र	१२ धनु	राज- गृह
१२ ब्रह्म- दत्त	ब्रह्मभूत राजा	चूल- णी	वर्ष २८	वर्ष ५६	वर्ष १६	वर्ष ६००	दीक्षा नही	संभू- तजी	काशी	महा- शुक	७ मी नरक	वर्ष ७००	७ धनु	कंपि- लपुर

९ वासुदेव	त्रिपृष्ठ	द्विपृष्ठ	स्वयंभू	पुरुषो- त्तम	पुरुष- सिंह	पुरुषपुं- डरीक	दत्त	नारायण लक्ष्मण	कृष्ण
पूर्व भव नाम	विश्व- भूति	पर्वत	धनदत्त	समुद्र- दत्त	सैवाल	मित्र	ललित- मित्र	पुनर्वसु	गंगदत्त
पूर्व भव आचार्य	संभूति	सुभद्र	सुदर्शन	शीतल	श्रेयांस	कृष्ण	गंगदत्त	सागर- समित	द्रुमसेन
निदान नगर	मथुरा	प्रोतवृद्ध (?)	श्रावस्ती	पोतन- पुर	राजगृह	काकंदी	कौशांबी	मिथिला	हस्तिना- पुर
पिता नाम	प्रजापति	ब्रह्मा	सौम्य	रुद्र	शिव	महाशिर	अग्नि- शिख	दशरथ	वासुदेव
माता नाम	सृगावती	उमा	पृथ्वी	सीता	अमृता	लक्ष्मी	शेष- मति	कैकेयी सुमित्रा	देवकी
अवगाहना-धनु	८०	७०	६०	५०	४५	२९	२६	१६	१०
गति-नरक	सातमी	छठी	छठी	छठी	पांचमी	छठी	छठी	चौथी	त्रीजी
आयु-वर्ष	८४ लक्ष	७२ लक्ष	६० लक्ष	३० लक्ष	१० लक्ष	६५ सहस्र	५६ हजार	१२ सहस्र	९ सहस्र

९ प्रतिवासुदेव	अश्व- त्रीव	[से]ता- रक	मेरक	मधुकै- सव (टम)	निसुंभ	बल	प्रह्लाद	रावण	जरा- सिंध
----------------	----------------	---------------	------	----------------------	--------	----	----------	------	--------------

९ बलदेव	अचल	विजय	भद्र	सुप्रभ	सुदर्शन	आनंद	नंदन	पद्म रामचंद्र	राम बलभद्र
पूर्व भव नाम	विश्व- नंदी	स(सु)- बंधु	सागर- दत्त	ललित	वराह	धर्म	सेन	अपरा- जित	ललि- तांग

माता नाम	भद्रा	सुभद्रा	सुप्रभा	सुदर्शना	विजया	वैजयंती	जयंती	अपरा- जिता	रोहिणी
गति	मोक्ष	—	→	ए	व	म्	—	→	ब्रह्मलोक
आयु	८५ लक्ष वर्ष	७५ लक्ष वर्ष	६५ लक्ष वर्ष	—	१७ लक्ष वर्ष	८५ हजार वर्ष	६५ हजार वर्ष	१५ हजार वर्ष	१२ सौ वर्ष
तीर्थंकरके वारे	श्रेयांस	वासु- पूज्य	विमल- नाथ	अनंत- नाथ	धर्मनाथ	१८।१९ के अंतरे	१८।१९ के अंतरे	२०।२१ के अंतरे	नेमि- नाथ
वर्ण	सुवर्ण	—	—	→	ए	व	म्	—	→

इति नवतत्त्वसंग्रहे पुण्यतत्त्वं तृतीया(यं) संपूर्णम्.



अथ 'पाप'तत्त्व लिख्यते—प्राणातिपात १, मृषावाद २, अदत्तादान ३, मैथुन ४, परिग्रह ५, क्रोध ६, मान ७, माया ८, लोभ ९, राग १०, द्वेष ११, कलह १२, अभ्याख्यान १३, पैशुन्य १४, परापवाद १५, रतिअरति १६, मायामृषा १७, मिथ्यादर्शनशल्य १८ इनसे पापका बंध होइ.

८२ प्रकारे पाप भोगवे—ज्ञानावरणीय ५, दर्शनावरणीय ९, असातावेदनीय १, मोहनीय २६, नरक-आयु १, नरक-तिर्यच-गति २, जाति ४, संहनन ५, संस्थान ५, अशुभ वर्ण आदि ४, नरक-तिर्यच-आनुपूर्वी २, अशुभ विहायोगति १, उपघात १, स्थावरदशक १०, नीच गोत्र १, अंतराय ५; एवं सर्व ८२ प्रकारे भोगवे.

इति नवतत्त्वसंग्रहे पापतत्त्वं चतुर्थं सम्पूर्णम्.



अथ 'आश्रव'तत्त्व लिख्यते—

२५ क्रियाओ—(१) काइया—कायाव्यापार करी नीपनी ते 'कायिकी'. (२) अह्मिगणीया—जिस करी जीव नरक आदिकनो अधिकारी होय ते 'अधिकरण', ते भूंडा अनुष्ठान अथवा खड्ग आदि तिहां उपनी ते 'अधिकारणिकी'. (३) पाउसिया—मत्सरभावे नीपनी ते 'प्राद्रेषिकी'. (४) परियावणिया—आपकूं अथवा परकूं परितापना करता 'पारि-
तापनिकी'. (५) पाणाइवातिया—अपणा अथवा परना प्राण हरता 'प्राणातिपात' क्रिया. (६) आरंभिया—जीवने वा जीवना कलेवरने तथा पीठीमय जीवना आकारने अथवा वस्त्र आदिकने आरंभतां-मर्दतां 'आरंभिकी'. ७ परिगगहिया—जीवका अने अजीवका परिग्रह

करता 'पारिग्रहिकी'. ८ मायावत्तिया—माया तेह ज प्रत्यय-कारण है कर्मबंधनो ते 'मायाप्रत्ययिकी'. ९ मिच्छादंसणवत्तिया—हीन प्रमाणसे वा अधिक माने ते 'मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी'. १० अपच्चक्खाण—जीवना अथवा अजीव मद्य आदिनो प्रत्याख्यान नही ते. (११) दिट्ठिया—देखने जाना अथवा देखना तेहथी जे पाप ते 'दृष्टिजा'. (१२) पुट्ठिया—पूजने करी अथवा स्पर्शेवें करी जे कर्म ते 'स्पृष्टिजा'. (१३) पाडुच्चिया—बाह्य वस्तु आश्री उपजे ते 'प्रातीत्यकी'. (१४) सामंतोवणिया-समंतात्-चौ फेरे उपनिपात-लोकांका मिलना तिहां जे उपनी ते 'सामंतोपनिपातिकी'. सांठ आदि रथ आदि लोक देखीने प्रशंसे तिम तिम धणी हर्षे ते धणीने 'सामंतोपनिपातिकी' क्रिया लागे. (१५) सहत्थिया—आपणे हस्तसे उपनी ते 'स्वाहस्तिकी'. (१६) निसत्थिया—नाखणे से सेडलादिसे नीपनी ते 'नैसृष्टिकी'. (१७) आणवणिया—पापनो आदेश देवो ते 'आज्ञापनिकी' अथवा वस्तु मंगवावणी. (१८) वियारणिया—जीवने वेदारतां वा दलालने जीव आदि वेचवानां अथवा पुरुषने विप्रतारता 'वैदारिणी', 'वैचारणिकी', 'वैतारणिकी' ए ३ पर्याय. (१९) अणाभोगवत्तिया—अज्ञानना कारण थकी उपनी ते 'अनाभोगप्रत्ययिकी'. (२०) अणवकंखवत्तिया—अपणे शरीर आदिने ते निमित्त है जिसका ते 'अनवकांक्षाप्रत्ययिकी'. एतावता कुकर्म करता हुया परभवसे डरे नही. (२१) पेज्जवत्तिया—रागसे उपनी माया लोभरूप ('प्रेमप्रत्ययिकी'). (२२) दोसवत्तिया—द्वेषथी उपनी क्रोध, मानरूप ('द्वेषप्रत्ययिकी'). (२३) पओगकिरिया—काया आदिकना व्यापारथी नीपनी ते 'प्रयोग'क्रिया. (२४) समुद्दाणकिरिया—अष्ट कर्मनो ग्रहवो ते 'समुदान'क्रिया. (२५) ईरियावहिया—योग निमित्त है जेहनो ते ('ईर्यापथिकी'); कायाना योग थकी बंध पडे.

हेतु सत्तावन कर्मग्रन्थात्—मिथ्यात्व ५, अत्रत १२, कषाय २५, योग १५, एवं सर्व ५७ हेतु. इनका गुणस्थान उपर स्वरूप गुणस्थानद्वारसे जान लेना. और विशेष आश्रव त्रिभंगीसे जानना.

श्रीस्थानांग (१० मे) स्थाने दस भेदे असंवर—(१) श्रोत्रेन्द्रिय-असंवर, (२) चक्षुरिन्द्रिय-असंवर, (३) घ्राणेन्द्रिय-असंवर, (४) रसनेन्द्रिय-असंवर, (५) स्पर्शनेन्द्रिय-असंवर, (६) मन-असंवर, (७) वचन-असंवर, (८) काय-असंवर, (९) भंडोवगरण-असंवर, (१०) सूची कुसग्ग-असंवर; एवं ए दस आश्रवके भेद है. तथा आश्रवके ४२ भेद—इन्द्रिय ५, कषाय ४, अत्रत ५, योग ३, क्रिया २५; एवं ४२. इति आश्रवतत्त्वं पंचमं सम्पूर्णम्.

अथ 'संवर' तत्त्व स्वरूप लिख्यते—

पांच चरित्र, षट् निर्ग्रन्थ. प्रथम षट् निर्ग्रन्थस्वरूप—(१) पुलाक, (२) बकुश, (३) प्रतिसेवना(कुशील), (४) कषायकुशील, (५) निर्ग्रन्थ अने (६) स्नातक. पुलाकके ५ भेद—

ज्ञानपुलाक (अर्थात्) ज्ञानका विराधक १, एवं दर्शनपुलाक २, एवं चारित्रपुलाक ३, विना कारण अन्य लिंग करे ते लिंगपुलाक ४, मन करी अकल्पनिक सेवे ते यथा सूक्ष्मपुलाक ५. लब्धिपुलाकका स्वरूप वृत्तिसे जानना. बकुशके ५ भेद—साधुकं कारणे योग्य नहीं शरीर, उपकरणकी विभूषा ते करे जानके ते आभोगवकुश १, अनजाने दोष अनाभोगवकुश २, छाने दोष लगावे ते संवृतवकुश ३, प्रगट दोष लगावे ते असंवृतवकुश ४, आंख, मुख मांजे ते यथासूक्ष्मवकुश. ५. प्रतिसेवना कुशीलके ५ भेद—सेवना-सम्यक् आराधना, तिसका प्रतिपक्ष प्रतिसेवना; एतावता ज्ञान आदि आराधे नहीं. ज्ञान नहीं आराधे ते ज्ञानप्रतिसेवना १; एवं दर्शन २, चारित्र ३, लिंग ४; जो तपस्या करे वांछा सहित ते यथासूक्ष्मप्रतिसेवना ५. कषायकुशीलके ५ भेद—जो ज्ञान, दर्शन, लिंग, कषाय क्रोध आदि करी प्रजुं(युं)जे सो ज्ञान १, दर्शन २, लिंग ३ कुशील; कषायके परिणाम चारित्रमे प्रवर्तावे ते चारित्रकुशील ४, मन करी क्रोध आदि सेवे ते यथासूक्ष्मकषायकुशील ५. उपशांतमोह तथा क्षीणमोहके अंतर्गुहूर्त कालके प्रथम समय वर्तमान ते प्रथम समय निर्ग्रन्थ १, शेष समयमे अप्रथम समय निर्ग्रन्थ २; एवं निर्ग्रन्थ कालके चरम समयमे वर्तमान ते चरम समय निर्ग्रन्थ ३, शेष समयमे अचरम समय निर्ग्रन्थ ४, सामान्य प्रकारे सर्व काल यथासूक्ष्मनिर्ग्रन्थ ५. इति परिभाषाकी संज्ञा. स्नातकके ५ भेद—अच्छवी अत्थवी, अव्यथक इति. अन्ये आचार्या छवि-चांमडी योगनिरोधकाले नहीं इति अच्छवि; एक आचार्य ऐसे कहै है. क्षपी सखेद व्यापार ते जिनके नहीं ते अक्षपी; एक आचार्य ऐसे कहै है—घातिकर्म चार क्षपाय है फेर क्षपावणे नहीं इस वास्ते 'अक्षपी' कहीये १, अशवल अतिचारपंकाभावात्. शुद्ध चारित्र २, विगतघातिकर्म अकर्मांश ३, शुद्धज्ञानदर्शनधर केवलधारी ४, अर्हन् जिन केवली ए चौथा भेदमे है. इति वृत्तौ. कर्म न बांधे ते 'अपरिश्रावी' ५, योगनिरोधकाले. अथ अग्रे ३६ द्वार यंत्रसे जानने—

गाथा भगवती (श. २५, उ. ६)मे सर्वद्वारसंग्रह—

“पैणवण १ वेय २ रागे ३, कप्प ४ चरित्त ५ पडिसेवणा ६ णाणे ७ ॥

तित्थे ८ लिंग ९ सरीरे १०, खित्त (खेत्ते) ११ काल १२ गई १३ संजम १४
निकासे १५ ॥ १ ॥

जोगु १६ वओग १७ कसाए १८, लेसा १९ परिणाम २० बंध २१ वेए २२ य ।

कम्मोदीरण २३ उवसंप(जहण्ण) २४ सण्णा २५ य आहारे २६ ॥ २ ॥

भव २७ आगरिसे २८ कालंतरे २९-३० य समुग्घाय ३१ खेत्त ३२ फुसणा ३३ य ।

भावे ३४ परिमाणे ३५ खलु (चिय) अप्पावहुयं निर्यंठाणं ३६ ॥ ३ ॥”

१ अतिचाररूप कादवना अभावथी ।

२ प्रज्ञापनवेदरागाः कल्पचारित्रप्रतिषेवणाज्ञानानि । तीर्थलिङ्गशरीराणि क्षेत्रकालगतिसंयमनिकर्षाः ॥ १ ॥

योगोपयोगकषाया लेश्यापरिणामबन्धवेदाश्च । कर्मोदीरणोपसम्पद्ज्ञानसंज्ञाश्चाहारः ॥ २ ॥

भव आकर्षः कालान्तरे च समुद्रातक्षेत्रस्वीनाश्च । भावः परिणामः खलु अल्पबहुत्वं निर्ग्रन्थानाम् ॥ ३ ॥

(११२) अथ ३६ द्वार यंत्रमे वर्णन करीये है—

१ प्रज्ञापन	१ पुलाक	२ बकुश	३ प्रतिसेवना	४ कषाय-कुशील	निर्ग्रन्थ	स्वातक
२ वेद	पुरुष, नपुंसक, कृत्रिम पिण जन्मनपुंसक नहीं इति वृत्तौ	स्त्री, पुरुष, नपुंसक कृत्रिम	बकुशवत्	बकुशवत् अथवा क्षीणवेद उपशांतवेदे भवेत्	उपशांतवेद, क्षीणवेद	क्षीण-वेद
३ राग	सरागी	सरागी	सरागी	सरागी	उपशांत क्षीण	क्षीण राग
४ कल्प	स्थित, अस्थित, स्थविर	स्थित, अस्थित, जिनकल्प, स्थविर	बकुशवत् ४	स्थित, अस्थित, जिनकल्प, स्थविर, कल्पातीत	स्थित, अस्थित, कल्पातीत	निर्ग्रन्थ-वत्
५ चारित्र	सामायिक, छेदोपस्थापनीय	सामायिक, छेदोपस्थापनीय	सामायिक, छेदोपस्थापनीय	आद्य चार	यथाख्यात	यथाख्यात
६ प्रतिसेवना	मूल गुण, उत्तर गुण	उत्तर गुण	पुलाकवत्	अप्रतिसेवि	अप्रतिसेवी	अप्रतिसेवी
७ ज्ञान प्रवचन	२ वा ३ प्रवचन; ज० ८, उ० नवमे पूर्वकी ३ वस्तु	२ वा ३ प्रवचन; ज० ८, उ० १० पूर्व	बकुशवत्	२ वा ३ वा ४ प्रवचन; ज० ८, उ० १४ पूर्व	कषायकुशील-वत्	केवल सूत्र व्यतिरिक्त
८ तीर्थ	तीर्थमे	तीर्थमे	तीर्थमे	तीर्थमे अतीर्थमे वा	कषायकुशील-वत्	कषाय कुशील-वत्
९ लिंग	द्रव्ये ३ भावे स्वलिंग	→	ए	व	म्	→
१० शरीर	३ औ, तै, का	४ औ, वै, तै, का	४ औ, वै, तै, का	पांच	३ औ, तै, का.	३ औ, तै, का.
११ क्षेत्र	जन्म कर्मभूमि संहरण नहीं	जन्म कर्म० संहरण अकर्म.	→	ए	व	म्

१२ काल	अवसर्पिणीमे जन्म आश्री ३४ आरे छता भाव आश्री ३४५ आरे. उत्स- र्पिणीमें जन्म आश्री २३४ आरे; छता भाव आश्री ३४ आरे	जन्म अवस- र्पिणी ३४५ आरे, छता ३४ आरे, उत्सर्पिणी जन्म आश्री ३४२; छता ३४, संहरण सर्व	बकुशवत्	बकुशवत्	जन्म आश्री पुलाकवत् संहरण आश्री सर्वत्र	निर्ग्रन्थ- वत्
१३ गति, पदवी—ईद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंशत्, लोकपाल, अहमिन्द्र	ज० सौधर्म, उ० ८ मा देवलोक; पदवी ४ मेसुं एक; स्थिति ज० पृथक् पत्योपम, उ० १८ सागरोपम	ज० सौधर्म, उ० १२ मे देवलोक; पदवी ४ मेसुं एक; स्थिति ज० पृथक् पत्योपम, उ० २२ सागरोपम	बकुशवत्	ज० सौधर्म, उ० पांच अनुत्तर; पदवी पांच- मेसु एक; ज० पृथक्पत्योपम, उ० ३३ सागरोपम	पांच अनुत्त- रमे; पदवी एक अहमिन्द्र; स्थिति ज० उ० ३३ सागरोपम	मोक्ष- गति
१४ संयमस्थान अल्पबहुत्व	असंख्याते, ३ असंख्य गुणे	असंख्याते, ४ असंख्य गुणे	असंख्याते, ५ असंख्य गुणे	असंख्याते, ६ असंख्य गुणे	एक, स्तोक	एक, तुल्य
१५ चारित्र-	पु ६ स्थान	अनंत गुण हीन	अनंत गुण हीन	६ स्थान	अनंत गुण हीन	अनंत गुण हीन
पर्यायना	ब अनंत गुण अधिक	६ स्थान	६ स्थान	"	" " "	" " "
सन्निकर्ष	प्र अनंत गुण अधिक	" "	" "	" "	" " "	" " "
	क ६ स्थान	" "	" "	" "	" " "	" " "
	नि अनंत गुण अधिक	अनंत गुण अधिक	अनंत गुण अधिक	अनंत गुण अधिक	तुल्य	तुल्य
	क्षा अनंत गुण अधिक	अनंत गुण अधिक	अनंत गुण अधिक	अनंत गुण अधिक	"	"
जघन्य	१ स्तोक	३ अनंत गुण	३ तुल्य	१ तुल्य	०	०
उत्कृष्ट	२ अनंत गुण	४ "	५ अनंत गुण	६ अनंत गुण	७ अनंत	७ तुल्य

१६ उपयोग	मन आदि ३	→	ए	व	म्	मन आदि ३, अयोगी वा
१७ उपयोग	साकार १, अनाकार २	→	ए	व	म्	→
१८ कषाय	क्रोध आदि ४	४	४	४३२१	उपशांत, क्षीण	क्षीण
१९ लेश्या	३ प्रशस्त	६	६	६	१ शुक्ल	१, वा अलेश्या
२० परिणाम	वर्धमान, हीन, अवस्थित	वर्धमान, हीन, अवस्थित	वर्धमान, हीन, अवस्थित	वर्धमान, हीन, अवस्थित	वर्धमान, अवस्थित	निर्ग्रन्थ- वत्
	वर्धमान ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त; हीय- मान ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त; अव- स्थित ज० १ समय, उ० ७ समय,	ए	व	म्	वर्धमान ज० उ० अंत- र्मुहूर्त; अव- स्थित ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त	वर्धमान ज० उ० अंतर्मु- हूर्त; अव- स्थित ज० अंत- र्मुहूर्त, उ० देश ऊन पूर्व कोटि
२१ बंध	७ आयु नहीं	७ ८	७ ८	८ ७ ६	१ साता	१ बंधे वा अबंधक
२२ वेद	८ कर्म	८	८	८	७ मो वर्जा	४
२३ उदीरणा	६ आयु, १ वेद- नीय वर्जी	७ ८ ६	७ ८ ६	८ ७ ६ ५	५ वा २	उदीरे २, वा अनु- दीरक
२४ उचसंपज- हण	पुलाकपणा छोडी कषाय- कुशील १, अ- संयम २, ए २ प्रति आदरे	प्रतिसेवना १, कषायकुशील २, असंयम ३, देशविरति ४, एवं ४ आदरे, बकुशपणा छोडी	प्रतिसेवना- पणा छोडी बकुश १, कषाय- कुशील २, असंयम ३ देशविरति ४, ए ४ आदरे	कषायकुशील- पणा छोडी पुलाक १, बकुश २, प्रति- सेवना ३, निर्ग्रन्थ ४, असंयम ५, देशविरति ६, ए ६ आदरे	निर्ग्रन्थपणा छोडी कषाय- कुशील १, स्नातक २, असंयम ३, ए ३ पडिवजे	स्नातक- पणा छोडी सिद्ध- गति पडिवजे

२५ संज्ञा	नोसंज्ञोपयुक्त	संज्ञोपयुक्त १, नोसंज्ञोपयुक्त २	एवम्	एवम्	नोसंज्ञोपयुक्त	नोसंज्ञो- पयुक्त
२६ आहार	आहारक	आहारी	आहारी	आहारी	आहारी	आहारी अना- हारी
२७ भव	ज० १, उ० ३	ज० १, उ० ८	ज० १, उ० ८	ज० १, उ० ८	ज० १, उ० ३	१ तेही ज०
२८ आकर्ष- एक भव आश्री	ज० १, उ० ३	ज० १, उ० पृथक् शत	ज० १, उ० पृथक् शत	ज० १, उ० पृथक् शत	ज० १, उ० २	१
घणे भव आश्री	ज० २, उ० ७	ज० २, उ० ७२००	ज० २, उ० ७२००	ज० २, उ० ७२००	ज० २, उ० ५	०
२९ स्थिति- एक जीव आश्री	ज० उ० अंतर्मुहूर्त	ज० १ समय, उ० देश ऊन पूर्व कोटि	एवम्	एवम्	ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त	ज० अंत- र्मुहूर्त, उ० देश ऊन पूर्व कोटि
नाना जीव आश्री	ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त	सर्वाद्धा	सर्वाद्धा	सर्वाद्धा	ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त	सर्वाद्धा
३० अंतर- एक जीव आश्री	ज० अंतर्मुहूर्त उ० वनस्पति काल	→	एवम्	→	→	नास्ति अंतरम्
घणा जीव आश्री	ज० १ समय, उ० संख्यात वर्ष	नास्ति अन्तरम्	नास्ति अन्तरम्	नास्ति अन्तरम्	ज० १ समय, उ० ६ समय	" "

३१ समु- द्घात	वे १, क २, म ३	वे १, क २, म ३, वै ४, ते ५	वे १, क २, म ३, वै ४, ते ५	६ केवल नहीं	०	१ केवल
३२ क्षेत्र	लोकके असं- ख्यमे भाग	→	एवम्	→	→	असंख्यमे घणे, असंख्य सर्व लोक
३३ स्पर्शन	"	"	"	"	"	"
३४ भाव	क्षयोपशम	ए	व	म्	औपशमिक वा क्षायिक	क्षायिक

३५ परि- णाम	प्रतिपाद्यमान सिय अत्थि, सिय नत्थि; जैदि अत्थि ज० १, २, ३; उ० पृथक् शत; पूर्वप्रतिपन्न स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति यद्यस्ति ज० १, २, ३; उ० पृथक् सहस्र	प्रतिपद्यमान होवे, नही वी होवे; जोकर होवे तो ज० १, २, ३; उ० पृथक् शत; पूर्वप्रति- पन्न जघन्य, उत्कृष्ट पृथक् शतकोटि	ब कु श व त्	प्रतिपद्यमान होवे वी, नही वी होवे; जो होवे तो ज० १, २, ३; उ० पृथक् सहस्र; पूर्व- प्रतिपन्न जघन्य, उत्कृष्ट पृथक् सहस्र कोटि	प्रतिपद्यमान होवे वी, नही वी होवे; जो होवे तो ज० १, २, ३; उ० १६२ तिनमे १०८ क्षपक ५४ उपशम; पूर्व- प्रतिपन्न होवे वी, नही वी होवे; होवे तो ज० १, २, ३; उ० पृथक् शत	प्रतिपद्यमान स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति; यद्यस्ति तदा ज० १, २, ३; उ० पृथक् शत; पूर्वप्रतिपन्न ज० उ० पृथक् कोटि
३६ अल्प बहुत्व	२ संख्येय गुणा	४ संख्येय गुणा	५ संख्येय गुणा	६ संख्येय गुणा	१ स्तोक	३ संख्येय गुणा

(११३) अथ श्रीभगवती (श. २५, उ. ७) थी संयत ५ यंत्रम्

१	प्रज्ञापना	सामायिक १	छेदोपस्थाप- नीय २	परिहार- विशुद्धि ३	सूक्ष्म- सम्पराय ४	यथाख्यात ५
२	वेद	३ वेद, अवेदी वा	सामायिकवत्	पुरुषवेद १, कृत नपुंसक- वेद २	उपशांतवेद, क्षीणवेद	उपशांतवेद, क्षीणवेद
३	राग	सरागी —	→ ए	व	म्	उपशांतराग, क्षीणराग
४	कल्प	स्थितकल्प १, अस्थित २, जिनकल्प ३, स्थविर ४, कल्पातीत ५	स्थितकल्प १, जिनकल्प २, स्थविरकल्प ३	स्थितकल्प १, जिनकल्प २, स्थविरकल्प ३	स्थितकल्प १, अस्थितकल्प २, कल्पातीत ३	स्थितकल्प १, अस्थितकल्प २, कल्पातीत ३
५	पुलाकादि षट्	आद्य ४	आद्य ४	कषायकुशील १	कषायकुशील १	निर्ग्रन्थ १, स्नातक २
६	प्रतिसेवना	मूलगुण १, उत्तरगुण २, सेवे षं(खं)डे, अप्रतिसेवी ३	सामायिकवत्	अप्रतिसेवी	अप्रतिसेवी	अप्रतिसेवी

१ कथंचित् होय । २ कथंचित् न होय । ३ जो होय । ४, ५, ६ अनुक्रमे १, २, ३ प्रमाणे ।

७	ज्ञान	२।३।४ प्रवचन ज० ८ प्रवचन, उ० १४ पूर्व पठन करे	सामायिकवत्	१।२।३।४ ज्ञान; प्रवचन, ज० ९ पूर्व, उ० १० मठेरा	२।३।४ ज्ञान; प्रवचन ज० ८, उ० १४ पूर्व	२।३।४।१ ज्ञान; प्रवचन, ज० ८, उ० १४ पूर्व श्रुतातीत
८	तीर्थ	तीर्थे अतीर्थे वा	तीर्थे	तीर्थे	तीर्थे अतीर्थे	तीर्थे अतीर्थे
९	लिंग	द्रव्ये ३, भावे १ खलिंग	सामायिकवत्	द्रव्ये भावे १ खलिंग	द्रव्ये ३, भावे १ खलिंग	द्रव्ये ३, भावे १ खलिंग
१०	शरीर	५	५	३ औ, तै, का.	३ औ, तै, का.	३ औ, तै, का.
११	क्षेत्र	जन्म आश्री कर्मभूमि, संहरण आश्री सर्वत्र	जन्म० कर्म०, संह० सर्वत्र	कर्मभूमि	जन्म० कर्म०, संह० सर्वत्र	जन्म० कर्म०, संह० सर्वत्र
१२	काल	बकुशवत् अव- सर्पिणी उत्स- पिणी भावनीय	एवं बकुशवत्, नवरं जन्म महाविदेह नही	पुलाकवत्	निर्ग्रन्थवत्	निर्ग्रन्थवत् सर्वे जानना
१३	गति	विराधक चार जातके देव- तामे; आराधक ज० सौधर्म, उ० सर्वार्थ- सिद्ध	सामायिकवत्	ज० सौधर्म, उ० ८ मा देव लोक	ज० उ० पंच अनुत्तरेषु उत्पद्यते	अनुत्तर- विमाने वा सिद्धगतौ
१४	स्थिति, पदवी पामे	स्थिति ज० २ पल्योपम, उ० ३३ सागरोपम; पदवी पांचमेसू अन्यतर १	सामायिकवत्	ज० २ पल्यो- पम, उ० १८ सागरोपम; पदवी ४ मे अनंतर एकाय	ज०, उ० ३३ सागरोपम; पदवी एक— अहमिन्द्रकी पामे	ज०, उ० ३ सागरोपम; पदवी एक— अहमिन्द्र
१५	संयमस्थिति अल्पबहुत्व	असंख्याते ४ असंख्यगुणे	असंख्याते ४ तुल्य	असंख्याते ३ असंख्यगुणे	असंख्याते, अंतर्मुहूर्तके समय तुल्य २ असंख्यगुण	एक्यं १ स्तोक

१ पांच अनुत्तरोमां उत्पद्य शाय छे । २ 'अनंतर' विमानमां अथवा सिद्ध गतिमां ।

	चारित्रपर्यवना संनिकर्ष	०	सामा- यिक	हेदोपस्थाप- नीय	परिहार- विशुद्धि	सूक्ष्मसंपराय	यथाख्यात
		सा०	६	६	६	अनंतगुणहीन	अनंतगुणहीन
		हे०	"	"	"	" " "	" " "
		प०	"	"	"	" " "	" " "
		सू०	अनंत गुण अधिक	अनंत गुण अधिक	अनंत गुण अधिक	अनंत गुण हीन अनंत गुण अधिक	अनंत गुण हीन
		य०	अनंत गुण अधिक	→ ए	व	म्	तुल्य
	चारित्र पर्यवनूं जघन्य उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	१ स्तोक		१ तुल्य	२ अनंत गुण	५ अनंत गुण	०
		४ अनंत गुण		४ "	३ " "	६ " "	७ अनंत गुण
१६	योग	मन आदि ३		→ ए	व	म्	मन आदि ३, अयोगी वा
१७	उपयोग	साकार १, अनाकार २		→	ए	व	म्
१८	कषाय	४।३।२।१ संज्वलन		एवम्	४ संज्वलन	१ लोभ संज्वलन	उपशांतक्षीण वा
१९	लेख्या	६ द्रव्ये		६ द्रव्ये	३ प्रशस्त	१ शुक्ल	१ परम शुक्ल
२०	परिणाम	वर्धमान, हीय- मान, अवस्थित		वर्ध०, हीय०, अव०	वर्ध०, हीय०, अव०	वर्ध०, हीय०	वर्ध०, अव०
	परिणाम स्थिति	वर्ध० ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त; ही- य० ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त; अ० ज० १ समय, उ० ७ समय		सामायिकवत्	सामायिकवत्	वर्ध० ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त; हीय० ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त	वर्ध० ज० उ० अंतर्मुहूर्त; अव० ज० १ समय, उ० देश ऊन पूर्वकोटि
२१	बंध	७,८		७,८	७,८	६ मोह, आयु नहीं	१ साता, अबंधक वा

२२	वेदना(नीय) कर्म	८ वेदे	→ ए	व	म्	७ वा ४ वेदे
२३	उदीरणा	८,७,६; आयु, वेदनीय वर्जा	८,७,६	८,७,६,	६, ५; आयु, वेदनीय, मोह वर्जा	५ वा २, अनुदीरक वा
२४	उपसंपत्ति त्याग	सामायिक छोडी छोडो० १, सू० २, असंयम ३, संयमासं-यम ४ आदरे	छेदो० छोडी सा० १, प० २ सू० ३, असंयम ४, असंयमासं-यम ५ आदरे	परि० छोडी छे० १, असंयम २, ए २ आदरे	सूक्ष्म० छोडी सा० १, छे० २, यथा० ३, असंयम ४; ए ४ आदरे	यथा० छोडी सू० १, असं-यम २ आदरे
२५	संज्ञा	४ संज्ञा, नो-संज्ञोपयुक्त वा	सामायिकवत्	सामायिकवत्	नोसंज्ञोपयुक्त	नोसंज्ञोपयुक्त
२६	आहार	आहारी	→ आहारी	आहारी	आहारी	आहारी, अना-हारी वा
२७	भव केते करे ?	ज० १, उ० ८	ज० १, उ० ८	ज० १, उ० ३	ज० १, उ० ३	ज० १, उ० ३
२८	आकर्ष एक भव आश्री;	ज० १, उ० पृथक् शत	ज० १, उ० १२०	ज० १, उ० ३	ज० १, उ० ४	ज० १, उ० २
	आकर्ष नाना भव आश्री	ज० २, उ० ७२००	ज० २, उ० नवसेसे उप-रांत, हजारके हेठे	ज० २, उ० ७ वेला	ज० २ उ० ९,	ज० २, उ० ५
२९	स्थिति एक जीव आश्री	ज० १ समय, उ० नव वर्ष ऊन पूर्व कोड	सामायिकवत्	ज० १ समय, उ० २९ वर्ष ऊन पूर्व कोड	ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त	ज० १ समय, उ० देश ऊन पूर्व कोडि
	स्थिति घणा आश्री	सर्वाद्धा	ज० २५० वर्ष, उ० ५० लाख कोडि सागरोपम	ज० देश ऊन २०० वर्ष, उ० देश ऊन दो पूर्वकोटि	ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त	सर्वाद्धा
३०	अंतर एक जीव आश्री	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० अनंत काल, अर्ध-पुद्गल दे	→	ए	व	म्

	अंतर घणा जीव आश्री	नास्त्यन्तरम्	ज० ६३ सहस्र वर्ष, उ० १८ कोटाकोटि सागरोपम	ज० ८४ सहस्र वर्ष, उ. १८ कोटाकोटि सागरोपम	ज० १ समय, उ० ६ मास	नास्ति अन्तरम्
३१	समुद्घात	६ कैवल वर्जी	६	धुरली ३	०	कैवल १
३२	क्षेत्र	लोकने असंख्यमे भाग	→ ए	व	म्	असंख्यमे घणे, असं० सर्व लोक
३३	स्पर्शना	" " "	→ ए	व	म्	" "
३४	भाव	क्षयोपशम	→ ए	व	म्	उपशम, क्षय
३५	परिमाण	प्रतिपद्यमान होवे, नही बी होवे; जे, होवे (तो) ज० १।२।३, उ० पृथक् सहस्र; पूर्वप्रतिपन्न पृथक् सहस्र कोड	प्रतिपद्यमान होवे, नही बी होवे; जो होवे (तो) ज० १।२।३, उ० पृथक् शत; पूर्वप्रतिपन्न होवे, न बी होवे; (जो होवे तो) ज० उ० पृथक् शत-कोटि	पुलाकवत्	निर्ग्रन्थवत्	प्रतिपद्यमान होवे, नही बी होवे; जो होवे (तो) ज० १।२।३; उ० १६२; पूर्वप्रतिपन्न पृथक् कोटि
३६	अल्पबहुत्व	५ संख्येय गुणा	४ संख्येय	२ संख्येय गुणा	१ स्तोक	३ संख्येय गुणा

(११४) भगवती (श. ७, उ. २, सू. २७३) अल्पबहुत्व

१ यंत्र	मूल गुण पञ्चकखाणी	उत्तरगुण पञ्चकखाणी	अपञ्चकखाणी
जीव	१ स्तोक	२ असंख्येय	३ अनंत
तिर्यच पंचेन्द्रिय	" "	" "	३ असंख्य
मनुष्य	" "	" "	" "

२ यंत्र	सर्वमूल	देशमूल	अपञ्चकखाणी
जीव	१ श्लोक	२ असंख्य	३ अनंत गुण
तिर्यंच पंचेन्द्रिय	०	१ श्लोक	„ असंख्य
मनुष्य	१ श्लोक	२ संख्येय	„ „

३ यंत्र	सर्व उत्तरगुण पञ्चकखाणी	देश उत्तरगुण पञ्चकखाणी	अपञ्चकखाणी
जीव	१ श्लोक	२ असंख्य	३ अनंत
तिर्यंच पंचेन्द्रिय	„ „	„ „	„ „
मनुष्य	„ „	„ संख्य	„ असंख्य

(११५) स्थानांगस्थाने दशमे दशविध यतिधर्म

	नामपाठ	अर्थ		नामपाठ	अर्थ
१	खंती	क्रोधनिग्रह	६	सञ्चे	सत्यवादी
२	मुत्ती	निर्लोभता	७	संजमे	१७ संयमवान्
३	अज्ञवे	सरल स्वभाव	८	तवे	द्वादशभेदी तपवीन्
४	महवे	मार्दव, अहंकार-रहित कोमल (स्वभाव)	९	चियाण	प्रतीतकारी घरका वस्त्र पात्र अन्न आदिरूपै(से?) साधूकूं दान देवे
५	लाघवे	द्रव्ये भावे हलका	१०	बंभचेरवासे	ब्रह्मचर्यके साथ सोवे

दश बोलमे 'वास' शब्द इस वास्ते कहा है जैसे गृहस्थ अंगनाके संग शयन करे है ऐसे शीलकूं संग लेके रात्रौ वास करे इति वृत्तौ.

(११६) भगवती (श. ८, उ. ८) परीषह २२ यंत्रकम्

	अष्ट कर्मके बंधकमे परीषह २२	षड्विध बंधकमे एक बंध छत्रस्थमे	एकविध बंधक वीतराग केवलीमे ११	कौनसे कर्मके उद्ब कौनसा परीषह ?
१	क्षुधा	अस्ति १	अस्ति १	वेदनीयके उद्ब
२	तृट्	„ २	„ २	„ „
३	शीत	„ ३	„ ३	„ „
४	उष्ण	„ ४	„ ४	„ „
५	दशमशक	„ ५	„ ५	„ „
६	अचेल	०	०	चारित्रमोहके उद्ब

७	अरति	०	०	” ”
८	स्त्री	०	०	” ”
९	चर्या	अस्ति ६	अस्ति ६	वेदनीयके ”
१०	नैषेधिकी	०	०	चारित्रमोहके ”
११	शय्या	अस्ति ७	अस्ति ७	वेदनीयके ”
१२	आक्रोश	०	०	चारित्रमोहके ”
१३	वध	अस्ति ८	अस्ति ८	वेदनीयके ”
१४	याचना	०	०	चारित्रमोहके ”
१५	अलाभ	अस्ति ९	०	अंतरायके ”
१६	रोग	” १०	अस्ति ९	वेदनीयके ”
१७	तृणस्पर्श	” ११	” १०	” ”
१८	मल	” १२	” ११	” ”
१९	सत्कारपुरस्कार	०	०	चारित्रमोहके ”
२०	प्रज्ञा	अस्ति १३	०	ज्ञानावरणके ”
२१	अज्ञान	” १४	०	” ”
२२	दर्शन	०	०	दर्शनमोहके ”

सत्ता २२	१४	११
वेदे एक साथे २०;	बावीसमे चर्या, निसिहिया एकतर; शीत, उष्ण एकतर.	शीत होय तो उष्ण नहीं, उष्ण होय तो शीत नहीं; चर्या, शय्या एकतर; एवं १९
		शीत, उष्णमेसु एक; चर्या, शय्यामेसु एक- तर; एवं ९ वेदे. एवं अयोगी पिण

कोइ कहै जोकर कोइ पुरुष शीत कालमें अग्नि तापे है सो तिसके एक पासे तो उष्ण परीषह है अने एक पासे शीत लगे है, तो युगपद् दोनो परीषह कयुं न कहै ? तिसका उत्तर— एह दोनो परीषहकी विवक्षा शीत काल अने उष्ण कालकी अपेक्षा है; कुछ अग्निकी ताप अपेक्षा नहीं इति वृत्तौ; और परीषहकी चर्चा भगवतीजीकी टीकामे (पृ. ३८९) मे स्वरूप कथन किया है सोइ तिहांसे लिखते—

“जं समयं चरिया० नो तं समयं निसिहिया०” (भग० श. ८, उ. ८ सू. ३४३) इत्यादि. तिहां ‘चर्या’ परीषह तो ग्राम आदिकमे विहार अने ‘नैषेधिकी’ परीषह ग्राममे मासकल्प आदि रहणा अने ‘शय्या’ परीषह उपाश्रयमे जाकर बैसणा. इस अर्थ करकेइ इस कारण विहार अने अवस्थान अर्थात् तिष्ठने करके परस्पर विरोध है. इस वास्ते एक कालमे

१. अत्र समये चर्या० न तत्समये नैषेधिका० ।

नहीं संभवे हैं. अथ ग्रन्थ—नैषेधिकी अने शय्या एह दोनो चर्याके साथ विरोधी है तो दोनोका एककालमे संभव हुआ. यदि एककालमे संभव हुआ तदि एककालमे १९ परीषह वेदे इह सिद्ध हुआ. अथ उत्तर—इम नहीं है. किस वास्ते ? ग्राम आदि जानेकूं प्रवृत्ते है तिस कालमे जाता हुआ भोजनविश्रामके अर्थे औत्सुक्य परिणाम सहित थोडे काल वास्ते शय्यामे बर्ते है । तिस कालमे 'शय्या' परिषहका 'चर्या' अने 'नैषेधिकी' दोनीको साथ संबंध है. इस वास्ते २० ही परिषह एककालमे वेदे है. यो ऐसे कया तो पडविध बंधक आश्री कया है. जिस समये चर्या है तिस समय शय्या नहीं. इहां कैसे संभव हुआ ? उत्तर—पडविध बंधकके 'मोह' कर्म उदयमे बहुत नहीं है इस वास्ते शय्याकालमे औत्सुक्य परिणामका अभाव है इस वास्ते. शय्याकालमे शय्या ही है, परंतु बादर रागके उदय औत्सुक्य करके विहारके परिणाम नहीं. इस वास्ते परस्पर विरोधी होने करके दोनो युगपत् एककालमे नहीं. इति अलं चर्चण (चर्चया).

उत्तराध्ययनके २४ मे अध्ययनात् पांच समिति, तीन गुप्ति स्वरूप—

प्रथम ईर्यासमिति—आलंबने १, काल २, मार्ग ३, यत्ना ४ ए चार प्रकारे. शुद्ध ईर्या शोधे तिहां आलंबन—ज्ञान १, दर्शन २, चारित्र ३ इन तीनोकूं अवलंबीने ईर्या शोधे १. काल थकी दिवसमे ईर्या शोधे २. मार्ग थकी उत्पथ वर्जे ३. यत्नाके चार भेद है—द्रव्य १, क्षेत्र २, काल ३, भाव ४. द्रव्य थकी तो चक्षुसे देख कर चाले १. क्षेत्र थकी चार हाथ प्रमाण धरती देखीने चाले २. काल थकी जितना काल चलनेका तहां लग यत्न करी चाले ३. भाव थकी उपयोग सहित. उपयोग सहित किस तरे होवे ? पांच इंद्रियकी विषयथी रहित पांच प्रकारकी वाचना आदि स्वाध्याय रहित शरीरकूं ईर्यारूप करे. ईर्यामें उद्यम एह उपयोग थकी ईर्या शोधे इति ईर्यासमिति.

भाषासमिति. क्रोध १, मान २, माया ३, लोभ ४, हास्य ५, भय ६, मुखारि (मौखर्य) ७, विक्रथा ८ ए आठ स्थानक वर्जीने बोले. असावय मर्यादा सहित भाषा बोले. उचित काले बोले. तथा दश भेदे सत्य, बारां भेदे व्यवहार, एवं २२ भेदे भाषा बोले. ते बाबीस भेद लिख्यते—

(१) जणवए सचे—'जनपद'सत्य. जौनसे देशमे जो भाषा बोले सो तिहां सत्य. जैसे 'कोकन' देशमे पाणीकूं पिछ, कोइ देशमे बडे पुरुषकूं बेटा कहै वा बेटेकूं काका, पिताकूं भाइ, सासूकूं आइ. सो सत्यम्. (२) सम्मत(य)—'संमत'सत्य. जैसे पंकसे उपना मींडक, सेवाल अने कमल; तो हि पिण कमलने 'पंकज' कहीये पिण मींडक, सेवालने 'पंकज' शब्द नहीं. (३) ठवणा—'स्थापना'सत्य. जिसकी मूर्ति स्थापी है सो मूर्तिकूं देव कहना जूठ नहीं. (४) नाम—'नाम'सत्य. 'कुलवर्धन' नाम है, चाह कुलका क्षय करे तो पिण कुलवर्धन कहना जूठ नहीं. (५) रूवे—'शुणकरी अष्ट' है तो पिण साधुके वेषवालेकूं 'साधु' कहीये. (६) पडुच्च—'अपेक्षा'सत्य. जैसे मध्यमाकी अपेक्षा अनामिकी कनिष्ठा अंगुली है. (७) व्यवहार—'व्यवहार'सत्य. जैसे

पर्वत बलता है, रस्ता चलता है. (८) भाव—'भाव'सत्य. जैसे तोतेमे पांच वर्ण है तो पिण तोता हर्या है. (९) जोग—'योग'सत्य. जैसे दंडके संयोगसे दंडी कहीये; छत्रसे छत्री. (१०) उवमासच्चे—'उपमा'सत्य. चंद्रवत् वदन, समुद्रवत् तडाग. असत्य यंत्रम्—

कोहनिसिसिया—क्रोधके उदय बोले. माननिसिसिया—मानके उदय बोले. मायानिसिसिया—मायाके उदय बोले. लोहनिसिसिया—लोभनिश्रित बोले. पेज्जनिसिसिया—रागके उदय बोले. दोसनिसिसिया—द्वेषके उदय बोले. हासनिसिसिया—हास्यके उदय बोले. भयनिसिसिया—भयके उदय बोले. अक्खायनिसिसिया—विकथा करी. उवघायनिसिसिया—हिंसाकारी वचन. (११७)

मिश्र भाषा पा.	अर्थ	मिश्र भाषा पा.	अर्थ
१ उप्पन्नमिसिसि(स्सि?)या	इस गाममे दस बालक जन्मे है	६ जीवाजीवमिसिसिया	जीव, अजीव दोनोकी मिश्र भाषा बोले
२ विगयमिसिसिया	इस गाममे आज दस-जणे मरे है	७ अनंतमिसिसिया	मूली आदिक कंदोमे अनंते जीव है सो 'प्रत्येक' जीव कहै.
३ उप्पन्नविगयमिसिसिया	इस गाममे दस जन्मे है, दस(की) मृत्यु होइ है	८ परत(रित्त)मिसिसिया	प्रत्येककूं अनंतकाया कहै
४ जीवमिसिसिया	एकचा(त्र) सर्व जीव है	९ अद्धामिसिसिया	ऊठ रे दिन चढ्या पहरके तडकेसे कहै
५ अजीवमिसिसिया	अन्नकी रास देखके कहै ए तो अजीव है.	१० अद्धामिसिसिया	घणे कालका जूठ; घडी एक रात गये (रह्ये) दिन उगा कहै

व्यवहार भाषाके बारां भेद

(१) आमंताणि—हे भगवन्. (२) आणवणि—इह काम कर तथा यह वस्तु लाव. (३) जायणि—यह हमें देउगे. (४) पुच्छणि—ग्राम आदिनो मार्ग पूछणा. (५) पन्नवणि—धर्म ऐसे होता है. (६) पच्चक्खाणी—यह काम हम नहीं करेंगे. (७) इच्छाणुलोम—अहासुह देवानु-प्रिय. (८) अणभिग्गहिया—अगलेका कहा ठीकतरे समजे न. (९) अभिग्गहिया—मुझे ठीक है. (१०) संसयकारण—खबर नहीं क्यों कर है. (११) वोगडा—प्रगट अर्थ कहै. (१२) अवोगडा—अप्रगट अर्थ.

इह ४२ भेद भाषाकै हैं. सत्य १०, व्यवहार १२, एवं २२ भेद बोले. इति भाषासमिति संपूर्ण.

एषणासमितिका स्वरूप विस्तार सहित पिंडनिर्युक्ति तथा पिंडविशुद्धिसै जाणना इति.

अथ 'आदानभंडनिक्षेप'समिति लिख्यते—उपधि दो भेदे है—(१) औषिक, (२) औपग्राहिक. 'औषिक' ते साधु, साध्वी सदाइ राखे अने 'औपग्राहिक' ते जे कदाचित् कार्य उपने ग्रहै ते, प्रथम औषिक कहीये है—

“उवही उवग्गहे संगहे य तह पग्गहुग्गहे चेव ।

भंडग उवगरणे वि य करणे वि य हुंति एगट्ठा ॥ १ ॥ (ओ० ६६६)

पत्तं १ पत्ताबंधो २ पायट्टवणं ३ च पायकेसरिया ४ ।

पडलाइं ५ रयत्ताणं ६ (च) गुच्छओ ७ पायनिजो(ज्जो)गो ॥ २ ॥ (ओ० ६६८)

तिन्नेव य पच्छागा १० रयहरणं ११ चेव होइ मुहप(पो)त्ती १२ ।

एसो दुवालस्स(स)विहो उवही जिणकप्पियाणं तु ॥ ३ ॥ (ओ० ६६९)

एते(ए) चेव दुवालस्स(स) मत्तग १ अइरेग चोलपट्टो य ।

एसो चउदसविहो उवही पुण थेरकप्पमि ॥ ४ ॥ (ओ० ६७०)

पत्तं १ पत्ताबंधो २ पायट्टवणं ३ च पायकेसरिया ४ ।

पडलाइं ५ रयत्ताणं ६ (च) गुच्छओ ७ पायनिजो(ज्जो)गो ॥ ५ ॥ (ओ० ६७४)

तिन्नेव य पच्छागा १० रयहरणं ११ चेव होइ मुहपत्ती १२ ।

तत्तो (य) मत्तउ खलु १३ चउदसमो कमठओ(गो) चेव १४ ॥ ६ ॥ (ओ० ६७५)

उग्गहणंतग १५ पदो(ट्टो) १६ उट्ठोरू (अट्ठोरूअ) १७ चलणिया १८ य बोद्धवा ।

अब्भितर १९ बाहरि(हिर?) २० नियंसणी य तह कंचुए २१ चेव ॥ ७ ॥ (ओ० ६७६)

उग(क्क)च्छिय २२ वेगच्छिय २३ संघाडी २४ चेव खंधकरणी २५ य ।

ओहोवहिंमि एए अज्जाणं पन्नवीसं तु ॥ ८ ॥ (ओ० ६७७)

उक्कोसगो जिणाणं चउवि(व्विहा) मज्झिमो वि एमेव ।

जहन्नो चउविहो खलु एत्तो थेराण वुच्छामि ॥ ९ ॥

१ उपधिरूपग्रहः सङ्ग्रहश्च तथा प्रतिग्रहश्चैव । भाण्डकमुपकरणमपि च करणेऽपि च भवन्ति एकार्थाः ॥ १ ॥

पात्रं पात्रबन्धः पात्रस्थापनं च पात्रकेसरिका । पटलानि रजस्त्राणं (च) गुच्छकः पात्रनिर्योगः ॥ २ ॥

त्रय एव च प्रच्छादका रजोहरणं चैव भवति मुखपत्तिः (°वस्त्रिका) । एष द्वादशविध उपधिर्जिनकल्पिकानां तु ॥ ३ ॥

एते चैव द्वादश मात्रकमतिरिक्तं चोलपट्टश्च । एष चतुर्दशविध उपधिः पुनः स्थविरकल्पे ॥ ४ ॥

२ ततो मात्रकश्चतुर्दशमः कमठगं चैव ॥ ६ ॥

अवग्रहानन्तकं पट्टोऽधौरुक्तं चलनिका च बोद्धवा । आभ्यन्तरा बाहिरा निवसनी च तथा कञ्चुकश्चैव ॥ ७ ॥

औपकच्छिकं वैकक्षिकं सङ्घाटी चैव स्कन्धकरणी च । ओघोपघौ एते आर्याणां पञ्चविंशतिस्तु ॥ ८ ॥

उत्कृष्टो जिनानां चतुर्विधो मध्यमोऽपि एवमेव । जघन्यश्चतुर्विधः खलु इतः स्थविराणां वक्ष्ये ॥ ९ ॥

उक्कोसो थेराणं चउवि(वि)हो छवि(वि)हो उ मज्झिमओ ।
 जहन्नो चउवि(वि)हो खलु एत्तो अज्जाण साहेमि ॥ १० ॥
 उक्कोसो अट्टविहो मज्झिमओ होइ तेरसविहो उ ।
 जहन्नो चउवि(वि)हो खलु तेण परमुवग्गहं जाणे(ण) ॥ ११ ॥ (ओ० ६७८)
 एगं पायं जिणकप्पियाण थेराण मत्तओ बीओ ।
 एयं गणणपमाणं पमाणमाणं अओ वुच्छं ॥ १२ ॥ (ओ० ६७९)
 तिन्नि विहत्थी चउरंगुलं च भाणस्स मज्झिमपमाणं ।
 इत्तो हीण जहन्नं अइरेगयरं तु उक्कोसं ॥ १३ ॥ (ओ० ६८०)
 पत्ताबंधपमाणं भाणपमाणेण होइ नायव्वं ।
 जह गंठिमि कयंमि कोणा चउरंगुला हुंति ॥ १४ ॥ (ओ० ६९३)
 पत्तद्ववणं तह गुच्छओ य पायपडिलेहणी(णि)या य ।
 तिण्हं पि य प्पमाणं विहत्थि चउरंगुलं चेव ॥ १५ ॥ (ओ० ६९४)
 जेहिं सविया न दीसइ अंतरिओ तारिसा भवे पडला ।
 तिन्नि व पंच व सत्त व कदलीगब्भोवमा मसिणा ॥ १६ ॥ (ओ० ६९७)
 अइटाइज्जा हत्था दीहा छत्तीस अंगुले रुंदा ।
 वीयं च (वितियं) पडिग्गहाओ ससरीराओ य निप्फन्नं ॥ १७ ॥ (ओ० ७०१)
 माणं तु रयत्ताणे भाणपमाणेण होइ निप्फन्नं ।
 पायाहिणं करंतं मज्जे चउरंगुलं कमइ ॥ १८ ॥ (ओ० ७०३)
 कप्पा आयपमाणा अट्टाइज्जा य वित्थडा हत्था ।
 दो चेव सुत्तिया उ उन्निय तइओ मुणेयव्वो ॥ १९ ॥ (ओ० ७०५)
 बत्तीसंगुलदीहं चउवीसंगुलाइं दंडो से ।
 अट्टंगुला दसाओ एगतरं हीणमहियं वा ॥ २० ॥ (ओ० ७०८)

- १ उत्कृष्टः स्थविराणां चतुर्विधः षड्विधस्तु मध्यमकः । जघन्यश्चतुर्विधः खलु इत आर्याणां कथयामि (?) ॥ १० ॥
 उत्कृष्टोऽष्टविधो मध्यमको भवति त्रयोदशविधस्तु । जघन्यश्चतुर्विधः खलु तेन परमुपग्रहं जानीयात् ॥ ११ ॥
 एकं पात्रं जिणकल्पिकानां स्थविराणां मात्रकं द्वितीयम् । एतद् गणनाप्रमाणं प्रमाणमानमतो बध्ये ॥ १२ ॥
 त्रयो विहस्तयश्चतुरङ्गलं च भाजनस्य मध्यमप्रमाणम् । अतो हीनं जघन्यमतिरिक्ततरं तूत्कृष्टम् ॥ १३ ॥
 पात्रबन्धप्रमाणं भाजनप्रमाणेन भवति ज्ञातव्यम् । यथा ग्रन्थौ कृते कोणाश्चतुरङ्गला भवन्ति ॥ १४ ॥
 पात्रस्थापनं तथा गुच्छकश्च पादप्रतिलेखनिका च । त्रयाणामपि च प्रमाणं विहस्तिश्चतुरङ्गलं चैव ॥ १५ ॥
 यैः सविता न दृश्यतेऽन्तरितस्तादृशानि भवन्ति पटलानि । त्रीणि पञ्च वा सप्त वा कदलीगर्भोपमानि मसृणानि ॥ १६ ॥
 अर्धचतुर्थीहस्तवीर्याणि षट्त्रिंशदङ्गलानि रुद्राणि । द्वितीयं च पतदप्रहात् स्वशरीराच्च निष्पन्नम् ॥ १७ ॥
 मानं तु रज्ज्वाणे भाजनप्रमाणेन भवति निष्पन्नम् । प्रादक्षिण्यं कुर्वन् मध्ये चतुरङ्गलानि कामति ॥ १८ ॥
 कल्पा आत्मप्रमाणा अर्धचतुर्थांश्च विस्तृता हस्तात् । द्वौ चैव सौत्रिकौ तु और्णिकश्चतुर्थीयो ज्ञातव्यः ॥ १९ ॥
 द्वात्रिंशदङ्गलवीर्यं चतुर्विंशतिरङ्गलानि दण्डस्तस्य । अष्टाङ्गला दशा एकतरं हीनमधिकं वा ॥ २० ॥

उन्नियं उद्वियं वा वि कंबलं पायपुच्छणं ।
 तिपरीयल्लमणिस्सट्ठं रयहरणं धारए इकं ॥ २१ ॥ (ओ० ७०९)
 चउरंगुलं विहत्थी एवं मुहणंतमस्स उ पमाणं ।
 बीयं मुहप्पमाणं गणणपमाणेण इक्किक्कं ॥ २२ ॥ (ओ० ७११)
 जो मागहओ पत्थो सविसेसयरं तु मत्तगपमाणं ।
 दोसु वि दव्वग्गहणं वासावासासु अहिगारो ॥ २३ ॥ (ओ० ७१३)
 स्रओदणस्स भरियं दुगाउमद्धानमागओ साहू ।
 अंजइ एगट्ठाणे एयं किर मत्तयपमाणं ॥ २४ ॥ (ओ० ७१४)
 दुगुणो चउगुणो वा हत्थो चउरंस चोलपट्टो य ।
 थेरजुवाणाणट्ठा सण्हे थूलंमि य विभासा ॥ २५ ॥ (ओ० ७२१)
 संथारुत्तरपट्टो अट्ठाइजा य आयया हत्था ।
 दोहं पि य वित्थारो हत्थो चउरंगुलं चैव ॥ २६ ॥ (ओ० ७२३)
 रयहरणपट्टमित्ता अदसागा किंचि वा समइरेगा ।
 इकगुणा उ निसिजा हत्थपमाणा सपच्छागा ॥ २७ ॥ (ओ० ७२५)
 वासोवग्गहिओ पुण दुगुणो अवही उ वासकप्पाई ।
 आयासंजमहेउं इकगुणो सेसओ होइ ॥ २८ ॥ (ओ० ७२६)
 जं पुण सपमाणाओ ईसिं हीणाहियं व लंभिजा ।
 उभयं पि अहाकडयं न संघणा तस्स छेओ वा ॥ २९ ॥ (ओ० ७२७)

इति औधिकोपधिः संपूर्णः । अथ औपग्राहिकं उपगरणमाह—औपग्राहिक उपधिके
 तीन भेद—(१)जघन्य, (२) मध्यम, (३) उत्कृष्ट. तत्र प्रथमं जघन्यमाह—

पीठ १ निसिजा २ दंडग ३ पमज्जणं ४ घट्ट ५ डगल ६ पिप्पलग्ग ७ स्रइ ८ नह-

- १ और्णिकं औष्टिकं वाऽपि कम्बलं पादप्रोच्छनम् । त्रिः परिवर्तमनिसृष्टं रजोहरणं धारयेदेकम् ॥ २१ ॥
 चतुरङ्गलं वितस्तिरेवं मुखानन्तकस्य तु प्रमाणम् । द्वितीयं मुखप्रमाणं गणनप्रमाणेनैकैकम् ॥ २२ ॥
 यो मागधकः प्रस्थः सविशेषतरं तु मात्रकप्रमाणम् । द्वयोरपि द्रव्यग्रहणं वर्षावर्षयोरधिकारः ॥ २३ ॥
 सूपौदनैन मृतं द्विगव्युत्पाध्वन आगतः साधुः । भुङ्क्ते यदेकं स्थानमेतत् किल मात्रकस्य प्रमाणम् ॥ २४ ॥
 द्विगुणश्चतुर्गुणो वा हस्तश्चतुरस्रश्चोलपट्टश्च । स्थविरयूनामर्थाय श्रक्षणे स्थूले च विभाषा ॥ २५ ॥
 संस्तारकोत्तरपट्टो अद्धेतृतीयो च आयतौ हस्तौ । द्वयोरपि च विस्तारो हस्तश्चतुरङ्गलं चैव ॥ २६ ॥
 रजोहरणपट्टमात्रा अदशाका किञ्चित् समतिरेका वा । एकगुणा तु निषद्या हस्तप्रमाणा सपाश्वात्या ॥ २७ ॥
 वर्षौपग्रहिकः पुनर्द्विगुणोऽवधिस्तु वर्षाकल्पादिः । आत्मसंयमहेतुरेकगुणः शेषको भवति ॥ २८ ॥
 यत् पुनः स्वप्रमाणावीषद्धीनमधिकं वा लभ्येत । उभयमपि यथाकृतं न सन्धना तस्य छेदो वा ॥ २९ ॥
- २ पीठकं निषयः इष्टकः प्रभाजनी घटको डगलं पिप्पलकः सूची नखहरणी दन्तकर्णशोधनक्यौ ।

रणी ९ दंत १० कन्न ११ सोधणी इति जघन्यम् ॥

“वासता(त्त)णाइ उ मज्झिमगो वासता(त्त)ण पंच इमे ।
 वाले १ सुत्ते २ स्रई ३ कुडसीसग ४ छत्त ए ५ चेव ॥ २ (?) ॥
 तहियं दुन्निय ओहो वहं(हिं)मि वाले य सुत्तिए चेव ।
 सेस तिय वासताणायणंगं तह चिलमिलीण इमं ॥ ३ ॥
 वालमई सुत्तमई वागमई तह य दंडकडगमई ।
 संथार दुगमप्सु सिरिपियदंडगपो(प्प?)णंगं ॥ ४ ॥
 दंड विदंड लट्टी विलट्टी तह नालिया य पंच ।
 अवलेहणिमत्तटिगं पासवणुचारखेले य ॥ ५ ॥
 चिंचणिया बुर पेपी उरतलिगा अहवा विचंमतिविहिमिमं ।
 कत्ती तलिगा बहु झाझाध पट्टुदुगं चेव होइ मिमं ॥ ६ ॥
 संथारुपट्टो अहवा सन्नाहपट्टु प्हत्थी ।
 मज्झो अज्जाणं पुण अइरित्तो वारगो होइ ॥ ७ ॥
 लट्टी आयपमाणा विलट्टि चउरंगुलेण परिहीणा ।
 दंडो बाहुपमाणो विदंडओ कक्खमित्तो य ॥ ८ ॥ (ओ० ७३०)
 सिरसोवारिं चउरंगुलं दीहा उ नालिया होई ।
 अवलेहणि वटोंबुर तस्स अला[व]भंमि चिंचिणिया ॥ ९ ॥”

इति मज्झिम । उत्कृष्टमाह—

“अक्खा संथारो वा दुविहो एकंगिओ तदियरो वा ।
 वीय पयपुत्थपणंगं फलगं तह होई उकोसा ॥ १० ॥”

१ आ गाथाओ अत्यंत अशुद्ध छे. वळी तेजुं मूल स्थळ पण जाणवामां नथी. एवी परिस्थितिमां एनी छाया आपवी ते एक प्रकारजुं साहस गणाय एटले ए दिशामां प्रयास करातो नथी. तेने माटे जग्या कोरी रखाय छे.

... ..

२ यष्टिरात्मप्रमाणा वियष्टिश्वतुरङ्गुलेण परिहीणा । दण्डो बाहुप्रमाणो विदण्डकः कक्षामात्रश्च ॥ ८ ॥

शीर्षोपरि चत्वारि अङ्गुलानि दीर्घा तु नालिका भवति । तस्य ॥ ९ ॥

३ अक्षाः संस्तारको वा द्विविधे एकान्तरस्तदितरो वा । द्वितीयं... पुस्तकपञ्चकं फलकं तथा भवत्युत्कृष्टा ॥ १० ॥

तथा—“दंडेण लङ्घिता चैव चम्मए चम्मकोसए ।

चम्मच्छेयणए पट्टो चिलिमिली धारए गुरु ॥ १ ॥ (ओ० ७२८)

जं चन्न एवमाई तवसंजमसाहगं जइजणस्स ।

ओहाइरेगगहियं उवगहियं तं वियाणाहि ॥ २ ॥ (ओ० ७२९)

जं जस्स उ उवयारो उवगरणं (जुज्जइ उवगरणे) तंसि होई उवगरणं ।

अहरेगं अहिगरणं अजतो अजयं परिहरंतो ॥ ३ ॥ (ओ० ७४१)

न केवलमइरित्तं अहिगरणं पइमियं पि जो अजओ ।

परिजुंजइ उवगरणं अहिगरणं तस्स वि होई ॥ ४ ॥”

इति, अथ उपगरणधारणकारणानि—

“छेकायरक्खणट्टा पायग्गहणं जिणेहिं पन्नत्तं ।

जे य गुणा संभोए हवंति ते पायग्गहणे त्ति(वि) ॥ १ ॥ (ओ० ६९१)

अतरंतवालवुड्ढासेहाएसा गुरु असहुवग्गे ।

साहारणुग्गहालद्धिकारणा पायग्गहणं तु ॥ २ ॥ (ओ० ६९२)

रयमाइरक्खणट्टा पत्तगठवणं वि उ उवइस्संति ।

होइ पमज्जणहेउं गुच्छओ भाणवत्थाणं ॥ ३ ॥ (ओ० ६९५)

पायपमज्जणहेउं केसरिया पाए पाए इक्किक्का ।

गुच्छग पत्तड्डवणं इक्किक्कं गणणमाणेणं ॥ ४ ॥ (ओ० ६९६)

पुप्फफलोदयरयरेणुसउणपरिहारपायरक्खणट्टा ।

लिंगस्स य संवरणे वेओदयरक्खणे पडला ॥ ५ ॥ (ओ० ७०२)

मूसगरयउत्केरे वासे(सा) सिन्हा रए य रक्खणट्टा ।

हुंति गुणा रयताणे पाए पाए य इक्केकं ॥ ६ ॥ (ओ० ७०४)

तणगहणानलसेवानिवारणा धम्मसुकझाणट्टा ।

दट्टं कप्पग्गहणं गिलाणमरणट्टया चैव ॥ ७ ॥ (ओ० ७०६)

- १ दण्डको यष्टिका चैव चर्मकक्षर्मकोशकः । चर्मच्छेदनकः पट्टः चिलिमिली (ग्रवणिका) धारयेद् गुरुः ॥ १ ॥
यच्चाच्यदेवमादि तपःसंयमसाधकं यतिजनस्य । औघातिरेकं गृहीतमौपग्रहिकं विजानीहि ॥ २ ॥
यदुपयुज्यते उपकरणे तदेव भवति उपकरणम् । अतिरेकमधिकरणं अयतोऽयतं परिहरन् ॥ ३ ॥
न केवलमतिरिक्तमधिकरणं परिमितमपि योऽयतः । परियुनक्ति उपकरणं अधिकरणं तस्यापि भवति ॥ ४ ॥
- २ षट्कायरक्षणार्थं पात्रग्रहणं जिनैः प्रज्ञप्तम् । ये च गुणाः सम्भोगे भवन्ति ते पात्रग्रहणे इति ॥ १ ॥
अतो ग्लानबालवृद्धबिक्कादेशा गुरुः असहिष्णवग्रहः । साधारणावग्रहात् अलङ्घिकारणात् पात्रग्रहणं तु ॥ २ ॥
रजआदिरक्षणार्थं पात्रकस्थापनमपि तूपदिशन्ति । भवति प्रमार्जनहेतुच्छेको भाजनवस्त्राणाम् ॥ ३ ॥
पात्रप्रमार्जनहेतुः केसरिका पात्रे पात्रे एकैका । गुच्छकः पात्रस्थापनं एकैकं गणनाप्रमाणेन ॥ ४ ॥
पुष्पफलोदकरजोरेणुशकुनपरिहारपातरक्षणार्थम् । लिङ्गस्य च संवरणे वेदोदयरक्षणे पटलानि ॥ ५ ॥
मूषकरजउत्केरे वर्षावस्यायरजोरक्षणार्थं च । भवन्ति गुणा रजस्त्राणे पात्रे पात्रे चैकैकम् ॥ ६ ॥
तृणग्रहणानलसेवानिवारणार्थं धर्मशुक्लध्यानार्थम् । दृष्टं कल्पग्रहणं ग्लानमरणार्थं चैव ॥ ७ ॥

आयाणे निक्खेवे ठाण निसीयण तुयइ संकोए ।
 पुव्वं पमज्जणट्ठा लिंगट्ठा चेव रयहरणं ॥ ८ ॥ (ओ० ७१०)
 संपाइमरयरेणुपमज्जणट्ठा वयंति मुहपत्तिं ।
 नासं मुहं च बंधइ तीए वसहिं पमज्जंतो ॥ ९ ॥ (ओ० ७१२)
 संपाइमतसपाणा धूलिसरिक्खे अ परिगलंतंमि ।
 पुढविदगअगणिमारुयउद्धंसणखिसणाडहरे ॥ १० ॥ (ओ० ७१५)
 आयरिए य गिलाणे पाहुणए दुल्लहे सहसदाणे ।
 संसत्तए भत्तपाणे मत्तगपरिभोगणुत्ताउ ॥ ११ ॥ (ओ० ७१६)
 संसत्तभत्तपाणेषु वा वि देसेसु मत्तए गहणं ।
 पुव्वं तु भत्तपाणं सोहेउ छुहंति इयरेसु ॥ १२ ॥ (ओ० ७२०)
 वेउव्ववाउडे वाइए हीय खद्धपजणणे चेव ।
 तेसिं अणुग्गहट्ठा लिंसुदयट्ठा य पट्टो उ ॥ १३ ॥ (ओ० ७२२)
 पाणाईरेणुसंरक्खणट्ठया हुंति पट्टगा चउरो ।
 छप्पइयरक्खणट्ठा तत्थुवरिं खोमियं कुजा ॥ १४ ॥ (ओ० ७२४)
 दुट्टपसुसाणसावयविज्ज(चिक्ख)लविसमेसु उदगमज्जेसु ।
 लट्ठी सरीररक्खा तवसंजमसाहणी भणिया ॥ १५ ॥ (ओ० ७३९)
 मुखट्ठा नाणाई तणू तयट्ठा तयट्टिया लट्ठी ।
 दिट्ठो जहोवयारो कारणंमि कारणेषु जहा (कारणतकारणेरसु तहा?) ॥ १६ ॥
 (ओ० ७४०)

इति कारणम्. इनकूं जतनासे लेवे, जतनासे मेले ए चौथी समिति.

अथ पांचमी समिति अचित्त खंडले दस दोष ते रहितमे मल आदि व्युत्सर्जन करे. मन, वचन, काया पापसे गोपे ते 'गुप्त'.

- १ आदाने निक्षेपे स्थाने निषदने लग्नवर्तने सङ्कोचने । पूर्व प्रमार्जनार्थं लिङ्गार्थं चेव रजोहरणम् ॥ ८ ॥ सम्पातिमरजोरेणुप्रमार्जनार्थं वदन्ति मुखवल्लिकाम् । नासिकां मुखं च बध्नाति तथा वसतिं प्रमार्जयन् ॥ ९ ॥ सम्पातिमत्रसंप्राणा धूलिसरजस्के च परिगलमाने । पृथिव्युदकाग्निमारुतोद्धंसणपरिभवडहरे ॥ १० ॥ आचार्ये ग्लाने प्राघूर्णके दुर्लभे सहसादाने । संसक्तके भक्तपाने मात्रकपरिभोगमनुज्ञातः ॥ ११ ॥ संसक्तभक्तपानेषु वाऽपि देशेषु मात्रकग्रहणम् । पूर्वं तु भक्तपानं शोधयित्वा प्रक्षिपन्ति इतरेषु ॥ १२ ॥ वैक्रियोऽप्रावृतो वातिको ह्रीको वृद्धप्रजननश्चैव । तेषामनुग्रहार्थं लिङ्गोदयार्थं च पट्टस्तु ॥ १३ ॥ प्राण्यादिरेणुसंरक्षणार्थं च भवन्ति पट्टकाश्चलारः । षट्पदिकारक्षणार्थं तत्रोपरि क्षौमिकं कुर्यात् ॥ १४ ॥ दुष्टपशुश्वन्नापदचिक्खलविषमेपूदकमध्येषु । यष्टिः शरीररक्षार्थं तपःसंयमसाधिनी भणिता ॥ १५ ॥ मोक्षार्थं ज्ञानादीनि तद्गुः तदर्थं तदर्धिका यष्टिः । दृष्टो यथोपकारः कारणतत्कारणेषु तथा ॥ १६ ॥

अथ द्वादशभावनास्वरूप. दोहरा—

पावन भावन मन वसी, सब दुष भेटनहार; श्रवण सुनत सुष होत है, भवजलतारनहार ?

अथ 'अनित्य' भावना. सवईया इकतीसा—

संध्या रंग छिन भंग सजन सनेही संग उडत पतंग रंग चंद रवि संगमे
तन कन धन जन अवधि तरंग मन सुपनेकी संपतमे रांक रमे रंगमे
देषते ही तोरे भोरे रंक कोरे तोरे भये राजन भिपारी भये हीन दीन नंगमे
बादरकी छाया माया देषते विनस जात भोरे चिदानंद भूलो काहेकी तरंगमे ? १
इंद चंद सुरगिंद आनन आनंद चंद नरनको इंद सोहे नीके नीके वेसमे
उत्तम उत्तंग सोध जंगमे अभंग जोध घुमत मतंग रंग राजत हमेसमे
रंभा तरुषंभा जैसी माननी अनूप ऐसी रसक दसक दिन माने सुष ए समे
परले पवन तृण उडत गगन जेसे पवर न काहु वाहु गये काहु देसमे २

अथ 'असरण' भावना(स्व)रूप—

मात तात दारा भ्रात सजन सनेही जात कोउ नही त्रात भ्रात नीके देष जोयके
तन धन जोवन अनंग रंग संग रसे करम भरम बीज गये मूढ वोयके ।
नाम न निशान थान रान पानलेषि यत दरव गरव भरे जरे नंगे होयके
त्राता नही कोउ ऐसे बलवंत जंत संत अंतकाल हाथ मल गये सब रोयके ?
साजन सुहाये लाष प्रेमके सदन बीच हसे मोह फसे कसे नीके रंग लसे है
माननीके प्रेम लसे फसे धसे कीच बीच मीचके हिंडोले हीच मूढ रंग रसे है
चपलासी झमक अनित बाजी जगतकी रंषनमे वास रात पंषी चह चसे है
मोहकी मरोर भोर ठानत अधिक ओर छोर सब जोर सिर काल वली हसे है २ इति

अथ 'संसार' भावना—

राजा रंक सुर कंक सुंदर सरूप भंक रति पति रूप भूप कुष्ठ सरवंग है
अरी मरी मीत धरी तात मात नारी करी रामा मात परी करी धूयावरी रंग है
उलट पलट नट वट केसो षेल रच्यो मच्यो जगजालमे विहाल बहु रंग है
एते माहे तेरो जोरो कोउ नाही नम्र फेरो मेरो चिदानंद मेरो तूही सरवंग है ?
रंग चंग सुष मंग राग लाग मोहे सोहे छिनकमे दोहे जोहे मौत ही मरदके
नीके वाजे गाजे साजे राजे दरबार ही मे छिनकमे कूकहूक सुनीये दरदके
जगमे विहाल लाल फिरत अनादि काल सारमेय थाल जैसे चाटत छरदके
मद भरे मरे षरे जंगरमे परे जरे देष तन जरे धरे छरे है गरदके २

अथ 'एकत्न' भावना—

एक टेक पकर फकर मत मान मन जगत स्वरूप सब मिथ्या अंधकूप है
चारों गत भटक पटक सब रूप रंग यति मति सति रति छति एकरूप है

करमको घेरे गेरे नाना कछु नही तेरो मात तात भ्रात तेरो नाही कर चूप है
 चिदानंद सुषकंद राकाके पूरन चंद आत्मसरूप मेरे तूही निज भूप है ?
 आथ साथ नाही चरे काहेकू गेरत गरे संगी रंगी साथी तेरे जाथी दुख लहिये
 एक रोच केरो तेरो संगी साथी नही नेरो मेरो मेरो करत अनंत दुष सहिये
 ऊषरमे मेह तैसो सजन सनेह जेह पेहके बनाये गेह नेह काहा चहिये
 जान सब ज्ञान कर वासन विषम हर इहां नही तेरो घर जाते तो सो कहिये २ इति
 अथ 'अन्य' भावना—

तेल तिल संग जैसे अगनि वसत संग रंग है पतंग अंग एक नाही किन्न है
 करमके संग एक रंग टंग तंग हूया डोल तस छंद मंद गंद भरे दिन्न है
 दधि नेह अभ्र मेह फूलमे सुगंध जेह देह गेह चित एह एक नही भिन्न है
 आतमसरूप धाया पुग्गलकी छोर माया आपने सदन आया पाया सब विन्न है ?
 काया माया वाप ताया सुत सुता मीत भाया सजन सनेही गेही एही तासो अन्न है
 ताज वाज राज साज मान गान थान लाज चीत प्रीत रीत चीत काहुका ए धन्न है ।
 चेतन चंगेरो मेरो सबसे एकेरो होरे डेरो हुं वसेरो तेरो फेरे नेरो मन्न है
 आपने सरूप लग माया काया जान ठग उमग उमग पग मोषमे लगन्न है २
 अथ 'अशुच(चि)' भावना—

षट चार द्वार पुले गंदगीके संग झुले हिले मिले पिले चित कीट जुं पुरीसके
 हाड चाम खेल घाम काम आम आठो जाम लपट दपट पट कोथरी भरी सके
 गंदगीमे जंदगी है बंदगी करत नत तत्त वात आत जात रात दिन जीसके
 मैली थेली मेली वेली वैलीवद फैली जैली अंतकाल मूठ तेऊ मूए दांत पीसके ?
 जननीके खेत सृग रेतको करत हार उर धर चरन करी धरी देह दीन रे
 सातो धात पिंड धरी चमक दमक धरी मद भरी मरी षरी करी वाजी छीन रे
 प्रिये भीत जार कर छर न मे राख कर आन वेठे निज घर साथ दीया कीन रे
 छरद करत फिर चाटत रसक अत आतम अनूप तोहे उपजेना धीन रे २
 अथ 'आश्रव' भावना—

हिंसा झूठ चोरी गोरी कोरी केरे रंग रस्यो क्रोध मान माया लोभ षोभ घेरो देतु है
 राग द्वेष ठग भेस नारी राज भक्त देस कथन करन कर्म भ्रमका सहेतु है
 चंचल तरंग अंग भामनिके रंग चंग उद्रत विहंग मन अति गर भेतु है
 मोहमे मगन जग आतम धरम ठग चले जग मग जिय ऐसैं दुष लेतु है ?
 नाक कान रान काट वाटमे उचाट ताट सहे गहे बंदी रहे दुख भय मानने
 जोग रोग सोग भोग वेदना अनेक थोग परे विल लाये दुख लीये पीये जानने

आपने कमाये पाप भोगनमे आपे आप अंग जरै कुष्ट भरे इंदुवत आनने
आपने करम करी दुष रोग पीर परी मिथ्यामति कहे ए तो कीये भगवानने २
अथ 'संवर' भावना—

हिरदेमे ज्ञान धर पापपंथ परहर निहचे सरूप कर डर जर करसे
आवत महान अध रोध कर हो अनव आपने विकार तज भज कर भरसे
करम पटल दग तिन माही देह अगनि कसत गुन दग आप परठरसे
करम भरम जावे मोद मन बोध पावे ऐसा रसरसीया ते आ रसकूं परसे १
सत मत नव तत भेदाभेदवित हित मीत जीत तीन नित तीन तेरे बोधके
तीन चीन मीन लीन उदक प्रवीन पीन खीन दीन हीन तज रजक जुं सोधके
सत्ताको सरूप जान परणत भ्रम मान निज गुन तान जेही महानंद सोधके
भ्रमजाल परहरे काहुकी न भीत करे संजमके बारे मारे कर्म सारे रोधके २
अथ 'निर्जरा' भावना—

जैसे न्यारी सुध रीत छानत कनक पीत डारत असुध लीत मोद मन कर्यो है
तैसी ही सुधार यार करम पकार डार मार मार चार यार लार तेरे पर्यो है
जोलों चित रीत नाही तोलों मिटे भीत नाही कुगुर डगर वीच लूटवेको ष(१ प)र्यो है
आतम सियाने वीर करमकी मिते पीर परम अजीत जीत सिवगढ चर्यो है १
सत जत सील तप करम भरम कप वासना सनेह गेह चितमे न धरीये
नरक निगोद रोग भोगत अनंत काल माया भ्रम जाल लाल भवदधि तरिये
संकटमे पर्यो दुष भर्यो मर्यो वसुधामे चर्यो जगछोर भोर अब मन डरिये
चारत कंकन धर दोस दृष्ट दूर कर अरहत ध्यान कर मोष(क्ष)वधू वरिये २
अथ 'लोकस्वरूप' भावना—

जामाधार नराकार भामरी करत यार लोकाकार रूप धार कक्षा करतार रे
राज दस चार जान ऊंचताको परिमान अधो विसतार राज सात है पतारने
घटत घटत मृत मंडलमे एक राज पंचम सुरग मध्य पांच राज धारने
आदि अंत नही संत स्वयं सिद्धरूप ए तो षट द्रव्य वास एही आपत उचारने १
नरक भवन पिति तनुवात घन मिति वसत पतार वार करमके दोषमे
पिति आप तेज वात वन रन त्रस घन विगल तिगल पसु पंषी अहि रोषमे
नर नारी भेस धारी धरम विहारी सारी वीतराग ब्रह्मचारी नारी घन तोषमे
सुरगन सुषमन नाटक करत घन घन घन प्रभु सिद्ध पूरे सुष मोषमे २
अथ 'धर्म' भावना—

षिमा धर तोष कर कपट लपट हर मान अरि मार कर भार सब छोरके
सत परिमान कर पाप सब छार कर करम इंधन जर तप धूनी जोरके

तपोधन दान कर सील भीत चीत धर निज गुण वास कर दस धम्म दोरके
 आतम सियाने माने एह धम्मरूप जाने पाने जाने दोरे भोरे कल मल तोरके १
 असी चार लाष जोन पाली तिहां रही कोन वार ही अनंत जंत जिहा नही जाया है
 नवे नवे भेस धार रांक ढांक नर नार दूष भूष मूक घूक ऊंच नीच पाया है
 राजा राना दाना माना सरवीर धीर छाना अंतकाल रोया सब काल बाज पाया है
 तो है समजाया अब ओसर पुनीत पाया निज गुन धाया सोइ वीर प्रभु गाया है २
 अथ 'बोध(धि)दुर्लभ' भावना—

सुंदर रसीली नार नाककी वसनहार आप अवतार मार सुंदर दिदार रे
 इंद चंद धरणिंद माधव नरिंद चंद वसन भूषन पंद पाये बहु वार रे
 जगतके प्याल रंगवद रंग लाल माल मुगता उजाल डाल रे(ह)दे बीच हार रे
 ए तो सब पाये मन माये काम जगतके एक नही पाये विशु वीर वच तार रे १
 सुंदर सिंगार करे बार बार मोती भरे पति विन फीकी नीकी निंदा करे लोक रे
 वदन रदन सित दग विन फीके नित पगरि तेरि तकित भूषनके थोक रे
 जीव विन काया माया दान विन स्रम गाया सील विन वायां खाया तोष विन लोक रे
 तप जप ज्ञान ध्यान मान सनमान सब सम कद रस विन जाने सब फोक रे २

इति द्वादशभावनाविचार.

अथ प्रत्याख्यानस्वरूप ठाणांग, आवश्यक, आवश्यकभाष्यात्

(१) भावि—आचार्य आदिकनी वैयावृत्त्य निमित्ते जो तप आगे करणा था पर्युषण आदिमे
 अष्टम आदि सो पहिला करे ते 'भावि-अनागत तप.' (२) अईयं—आचार्य आदिकनी वैया-
 वृत्त्य निमित्ते पर्युषण आदिमे अष्टम आदि तप न करे, पर्युषण आदिकके पीछे करे ते 'अतीत
 तप' कहिये. (३) कोडिसहियं—प्रारंभता अने मूकतां छोडतां चतुर्थ आदिक सरीषो तप ते
 बेहु छेहडा मेल्या हुइ ते 'कोटिसहितम्.' (४) सागार—अणत्थणा भोग सहसागार इन दोना
 विना अपर महत्तरागार आदि आगार राषे ते 'सागारतप.' (५) अणागार—अणत्थणा-
 भोगेण सहसागारेण ए दो विना होर (और) कोइ आगार न राषे ते 'अणागार तप'. (६)
 परिमाण—एक दाता आदि १ कवल २ घर ३ द्रव्य संख्या करे ते 'प्रमाणकृत.' (७)
 निरविसेसे—सर्व अशन आदि वोसरावे ते 'निर्विशेष.' (८) नियंदि—अमुको तप अमुक
 दिने निश्रे करुंगा 'नियंत्रित तप.' ए जिनकल्पी विषे प्रथम संघयण होता है; सो वर्तमानमे
 व्यवच्छेद (च्छिन्न) है. (९) संकेय—अंगुट्टि १ मुट्टि २ गंडी ३ घर ४ से ५ ऊसास ६
 थिवुग ७ जोइरके ८; ए आठ 'संकेत'के भेद जानने. (१०) अद्धा—नमुकारसहियं १
 पोरसि २ साढपोरसि ३ पुरिम ४ अपार्द्ध ५ विगय ६ निवीता ७ आचाम्ल ८ एकासणा ९ वे-
 आसणा १० एकलठाणा ११ पाण १२ दिस १३ अमत्तट्ट १४ चरम १५ अभिग्रह १६.

(११८) १५ भेद पाण विना द्वार दूजा आगार संख्या

	नमो- कार सहि- यं १	पोर- सी २	साढ पोर- सी ३	पुरम ४	अपा- ङ्ग ५	विग- य ६	निवी- ता ७	आ- वा- म्ल ८	एका- सणा ९	वेआ- सणा १०	एक- लठा- णा ११	अभ- त्तु १२	दिव- स १३ चरम १४	अ भि प्र ह १५
अणत्थणाभोगे	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ
सहसागारेणं	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स
पच्छन्नकालेणं	०	प	प	प	प	०	०	०	०	०	०	०	०	०
दिसामोहेणं	०	दि	दि	दि	दि	०	०	०	०	०	०	०	०	०
साधुवयणेणं	०	सा	सा	सा	सा	०	०	०	०	०	०	०	०	०
अकुंचनपसा०	०	०	०	०	०	०	०	०	अ	अ	०	०	०	०
गुरुअम्भुट्टा	०	०	०	०	०	०	०	०	गु	गु	गु	०	०	०
सागारियागा०	०	०	०	०	०	०	०	०	सा	सा	सा	०	०	०
पारिट्ठावणिया	०	०	०	०	०	पा	पा	पा	पा	पा	पा	पा	०	०
लेवालेवेणं	०	०	०	०	०	ले	ले	ले	०	०	०	०	०	०
उक्खितविवेगे	०	०	०	०	०	उ	उ	उ	०	०	०	०	०	०
गिहत्थसंसट्ठे	०	०	०	०	०	गि	गि	गि	०	०	०	०	०	०
पडुच्चमक्खिये	०	०	०	०	०	प	प	०	०	०	०	०	०	०
महत्तरागारे	०	०	०	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म
सव्वसमाहिव०	०	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स	स
आगारसंख्या	२	६	६	७	७	९	९	८	८	८	७	५	४	४

अथ आगार-अर्थं लिख्यते—अणत्थ० अत्यंत भूल गया, पच्चखाण करके भोजन मुखमे दीया पीछे पच्चखाण संभार्यो तदा तत्काल थूक देवे तो भंग नहीं १. सहसा० गाय आदि दोहना मुखमें छींट पड़े, बलात्कारे मुखमे पड़े पूर्ववत् थूके २. पच्छन्नकाल० सूर्य वादलसे ढकयो पूरी पोरसीकी बुद्धिसे पारे पीछे सूर्य देख्या तो पोरसी नहीं हूइ तदा मुखके कवलकूं राषमे यत्तसे थूके; पूरी हूइ पोरसी तदा फेर जीमे तो भंग नहीं इम सर्व जगे जानना. ३. दिसामो० पूर्व दिस(श) पश्चिम जाणे तदा पारे पीछे खबर पड़े पूर्वोक्तवत् थूके ४. सा० साधुके वचनथी पोरसी जाणी जीमे पीछे जाण्या पोरसी नहीं आइ पूर्वोक्त० ५. महत्तरा० अति मोटा काम संघ गुरुकी आज्ञासे जीमे तो भंग नहीं; ग्लान आदिकनी वैयावृत्त्य करणी ते विना खाया होइ नहीं, इस वास्ते भोजन करे तो भंग नहीं ६. सव्वसमाहि० प्रत्याख्यान कर्था है अने तीव्र शूल आदि उपना अथवा सर्प आदि डस्यो तदा आर्त्तध्याने मरे तो अच्छा नहीं

इस वास्ते औषधी करे भंग नहीं ७. सागारी० जिसकी नजर लगे दोष हूइ तो अथ जीमे उठके ओर जगे जायके जीमे पिण तिसकी दृष्टि आगे न जीमे अथवा साधुकुं भोजन करतां गृहस्थ देखता होइ तो तिहाथी अन्यत्र जाइ जीमे तो भंग नहीं होइ ८. आउट्टण०—हाथ, पग आदि संकोचे पसारे तो भंग नहीं, वात आदि कारणात् ९. गुरुअभ्रु०—गुरुकुं आवता देखके जो खडा होवे तो भंग नहीं १०. पारिट्टा०—विधिसे लीया विधिसे जीम्या इम करतां जे विगय प्रमुख आहार ऊर्ग्या ते परिटावणिया गुरुनी आज्ञाये लेवे तो भंग नहीं. ११. लेवालेवे०—जे विगय त्याग्या है तिणे करी कडछी आदिक खरडी हूइ तिण कडछी करी आहर आदिक दीइ ते लेता व्रत भंग नहीं होइ १२. गिहत्थसं०—गृहस्थे आपणे काजे उ(ओ)दन दूधे(धसे) अथवा दही करी उल्या हूइ तिहा जे धान्य उपरि चार आंगुल चडिउ दूध दही हूइ ते निवीये कल्पे, जो पांच अंगुल तो विग(य) ही जाननी. ए आचाम्ल ताइ कल्पे १३. ए आगार साधुने. उखित्तवि०—गाढी विगय गुड पकवान आदिक पोली ऊपरि मूकी हुइ ते उपाडी दूर करी ते पोली आचाम्ल ताइ कल्पे १४. ए आगार साधुने. पडुच्चमक्खि०—सर्वथा रूषा मंडक आदिकने राख दूर करनेकू हाथ फेरे मंडा फेरे १५.

पच्चक्खाण तिविहार करे तदा पाणीके छ आगार—पाणस्स लेवेण वा अले-वेण वा अच्छेण वा वहलेण वा ससित्थेण वा असित्थेण वा वोसरामि. अस्व अर्थ—पाण० जिस करी भाजन आदि खरडाइ ते खर्जुर आदिकनउ पाणी लेपकृत १. अलेवे० अलेप पाणी कांजिका प्रमुख २. अच्छेण० अच्छा निर्मल तत्ता पाणी ३. वहलेण० वहल डोहलउ तंदुल धोवल प्रमुख ४. ससित्थे० सीथ सहित उसामण आदि ५. असित्थे० सीथ रहित पाणी ६; ए ६ पाणी लेवे तो भंग नहीं. पच्चक्खाण करणेवाला वोसरामि कहै; गुरु करावणेवाला वोसरइ कहै. श्रावककुं आचाम्ल नीवीमे पाणी भोजन अचित्त करे, सचित्त न करे, अने श्रावकने आचाम्ल नीवीमे तीन आहारका त्याग जानना. नमोकारसीमे अने रात्रिभोजनमे साधुके च्यार ही आहारका त्याग निश्चै करी होय है, शेष पच्चक्खाण तिविहार चौविहार होय है. रात्रिभोजन १ पोरसि २ दोपहीरी ३ एकासणेमे श्रावकने दो आहार, तीन आहार, चार आहारका त्याग होवे है. ए सर्व पच्चक्खाणका भेद जानना.

अथ च्यार आहारका स्वरूप लिख्यते—प्रथम अशनके भेद—शालि, ज्वारि, वरठी प्रमुख सर्व ओदन १, मूंग आदि सर्व दाल २, सचू आदि सर्व आटा ३, पेठ आदि सर्व तीमण ४, मोदक आदि सर्व पकवान ५, सूरण आदि सर्व कंद ६, मंडक आदि सर्व तली वस्तु ७, वेसण ८, विराहली ९, आमला १०, सैंधव ११, कउठपत्र १२, लींबुपत्र १३, लूण १४, हींग १५; ए सर्व अशनका भेद जानना. १.

पाण० पाणी कांजिक १, जव २, कयर ३, ककोडा आदिकनो धोवण ४, अवर सर्व शास्त्रोक्त धोवण ५, ए सर्व पाणी; साकरपाणी १ आंबिलपाणी इक्षु रसप्रमुख सर्व सरस पाणी. ए पाणीमे गिण्या पिण व्यवहारे अशन ही है. २.

खाइम० सुंखडी पतासा आदि १, सेक्या धान्य २, खोपरा ३, द्राख ४, वा(व)दाम ५, अक्षोट ६, खर्जूर ७, प्रमुख सर्व मेवा काकडी, आम्र, फणस आदि सर्व फल.

साइम० खंठ १, हरडे २, पीपल ३, मिरी ४, अजमो ५, जाइफल ६, कसेलउ ७, काथो ८, खयरडी ९, जेठी मधु १०, तज ११, तमालपत्र १२, एलची १३, लवंग १४, विडंग १५, काठा १६, विडलवण, १७, आजउ १८, अजमोद १९, कुलिंजण २०, पीपलामूल २१, चीणीकवाव २२, कचूरउ २३, मोथ २४, कंटासेलउ २५, कपूर २६, खंचल २७, छोटी हरडे २८, बहेडा २९, कुंभडउ ३०, पोनपूग ३१, हिंगुलाष्टक ३२, हींगु त्रेवीस ३३, पुष्करमूल ३४, जवासामूल ३५, वावची ३६, वउलछाल ३७, धवछालि ३८, खयरछाली ३९, खेजडेकी छाल ४०; ए सर्व 'खादिम' कहिये. गुड 'खादिम' कहीए पिण व्यवहारे 'अशन' ही ज है. फोकोक्यो(?) नीर साकर वासिउ १, पाडल वासिउ २, सुंठनउ पाणी ३, हरडइनउ पाणी, ए जो नितारीने छाण्या होइ तो 'खादिम' नहीं; तिविहारमे लेणा कल्पे. जीरा प्रवचनसारोद्धारमे 'खादिम' कख्या अने श्रीकल्पवृत्तिमे 'खादिम' कख्या है. ए चार आहारनो विचार संपूर्णम्.

नीव छाल १, मूल पनडा शिली २, गोमूत्र ३, गिलो ३ (?) कइ ४, चिरायता ५, अति-विस ६, चीडी ७, झकड ८, राख ९, हलइ १०, रोहिणी ११, उपलोठ १२, वेजत्रिफला १३, पांच कूलि भूनिव १४, धमासउ १५, नाहि १६, असंधिरोगणी १७, एलउ १८, गुगल १९, हरडा दालि २०, वउणिमूल २१, वोरमूल २२, कंवेरीमूल २३, कयरनो मूल २४, पूयाड २५, आछी २६, मंजीठ २७, वालवीउ २८, कुयारी २९, वोडाथरी ३०, इत्यादि जे अनिष्टपणे इच्छा विना लीजे ते चारो आहारमे नहीं, 'अनाहार' ही ज जाणना. इति अनाहारः.

अथ विगय स्वरूप—दूध १, घृत २, दही ३, तेल ४, गुड ५, पकवान ६, ए छ 'भक्ष्य विगय' है. अथ दूध-विगयके भेद ५—गायका १, महिसका २, अंटणीका ३, बकरीका ४, भेडका ५; और दूध-विगय नहीं १. घृत अने दही ४ भेदे—अंटणी विना. अथ तेल-विगय ४ भेदे—तिल १, सरसव २, अलसि ३, करड ४. अथ गुड २ भेदे—टीलालाला १, काठा २. पकवान-विगय जे घृत तेलथी तली.

अथ महाविगय ४ अभक्ष्य—कुत्तिना १, मखिना २, भमरिना ३, ए मधु सहित. काष्ठका १ पीठीका २ मध २ भेदे. थलचर १, जलचर २, खेचर ३ का मांस तीन भेदे. माखण चार भेदे घृतवत् जानना. ए ४ अभक्ष्य जाननी.

अथ विगयके अंतर्गत तीस भेद. तीस भेद. प्रथम दूधनी पांच द्राक्ष सहित रांधिउ दूध ते 'पय' १, घणे चावल थोडा दूध ते 'खीर' २, अल्प चावल घणा दूध ते 'पेया' ३, तंदुलना चूर्ण सहित दूध रांध्या ते 'अवलेहि' कहीये ४, आछण सहित वितरोडिउ ते दूध 'दुग्धाटी' ५; ए पांच दूधना विगयगत भेद जानना.

अथ घृतना ५—पकवान जिसमे तल्या ते 'दग्धघृतनिभंजन' कहीये १, दहीने तारी घी काढे ते वीस्पंदन २, औषधी पकाके काढ्या घी ३, घृत नीतार्या पीछे छाछ रही ते ४, औषधी करी रांध्या पचिउ घृत ५. ए पांच घृतना विगयगत भेद.

अथ दहीनी ५—करवो १, शिपरणी मीठा घाली दही मसल्या २, लूण सहित दही मथ्यो ३, कपडसे छाणी दही घोल ४, घोलवडा उकालिउ दही जे माहे वडा घोल्या ते ५. ए ५ दहीना विगयगत भेद जानना.

अथ तेलना ५—जिसमे पकवान तलिया ते 'तेलदग्धनिभंजन' १, तिलकुट्टि माहे जों गुड आदि घणा घाल्या होइ ते वासी राख्या पीछे विगयगत २, लाक्षा आदि द्रव्ये करी पच्यो तेल ३, औषध पची नितार्या तेल ४, तेलना मल ५; ए ५ तेलनी.

अथ गुडनी ५—साकरना गुलवाणी १, उकालिउ २, गुडनी पात ३, खांडकी राव ४, अधकटिउ इक्षुरस; ए पांच गुडनी.

अथ पकवाननी ५—तवी भरी घीकी पूडे करी सगली भरी तिहां जे पाछे पूडा तले ते १, नवा घी अणघाले तवीमें जे तीन पूर उतर्या पाछे जे पकवान उतरे ते २, गुडधाणी ३, पहिला कढाइहीमे सोहाली करी पाछे तिणे घी खरडी कडाहीमें जे लापसी आदिक करे ते ४, खरडी तवी मे जे पूडा कर्या ५. ए पांच पकवानना विगयगत भेद. एवं ३०. ए नीवीमे लेणे नही कल्पते, गाढा कारण हूइ तो वात न्यारी.

अथ २२ अभक्ष्य लिख्यन्ते-गाथा—

“पंचुवर(रि) ५ चउ विगई ९ हिम १० विस ११ करमे य १२ सव्वमट्टी १३ य ।

रयणीभोयण १४ वयंगण १५ बहुवीय १६ मणंत १७ संघाणा(णं) १८ ॥ १ ॥

विदलामगोरसाइं १९ अणुणियनामाइं पुप्फफलयाइं २० ।

तुच्छफलं २१ चलियरसं २२ वज्जह वज्जाणि बावीसं ॥ २ ॥”

इति गाथाद्वयं. अनयोरर्थः—बडवंटा १, पीपलवंटा २, गूलिर ३, पीलुखण ४, कटुंवर ५; ए ५ 'उंवर' कहीए. इन पांचो माहै मसाने आकारे घणा त्रस जीव भर्या होइ हे तिस वास्ते अभक्ष्य ५; मधु १, माखण २, मध ३, मांस ४ ए माहे तद्वर्णे निरंतर संमूर्च्छिम पंचेंद्री उपजे इस वास्ते अभक्ष्य; माखण इहां छाछेथी अलग हुया जानना ९; हेमनि केवल असंख्य अष्काय भणी अभक्ष्य १०; विसउदर माहिला गंडोला आदि सर्व जीवने मारे अने मरण समय असावधानपणाना कारण ११, करहा गडाओले असंख्याता अष्काय भणी अभक्ष्य १२; खडीमरुहंड प्रमुख सर्व जातिनी मट्टी, मींडक आदिक पंचेंद्री जीवनी उत्पत्ति भणी अने आम वात आदि रोग उपजे तिस वास्ते अभक्ष्य १३; रात्रिभोजन एह लोक परलोक विरुद्ध १४; बहु बीजा पंपोट, रींगणा आदि फल जेह माहे जितने बीज ते माहे तीतने जीव १५;

१ पञ्चोदुम्बरी चतस्रो विकृतयो हिमं विषं करकं च सर्वमृत्तिका च । रजनीभोजनं वृन्ताकं बहुबीजमनन्त(कायिकं) सन्धानम् ।

द्विदलामगोरसे अज्ञाननामानि पुष्पफलानि । तुच्छफलं चलितरसं वर्जत वर्ज्यानि द्वाविंशतिम् ॥

घोलवडा जे काचा गोरसे माहें घाल्या वडा हुइ ते अभक्ष्य, तत्काल जीवनी उत्पत्ति होइ है, एवं सर्व भूंग आदि दो दल जानना. जेहनी दो दाल होइ अने घाणी पीड्या तेल न निकले ते काचा गोरसमे मिल्या अभक्ष्य ए विदल आमगोरसका अर्थ १६; अनंतकाय ३२ अभक्ष्य ते बत्तीस आगे कहेंगे १७; संधाण कहीये अथाणा अर्थात् आचार विल्ल, अंब, पाडल, नींबू आदि ते जीवनी उत्पत्ति रस चलतके कारण अभक्ष्य १८; वडंगण काम दीपावे अने नींद घनी आवे अने आकार बुरा १९; अजाण फल फूल आदि कदे (?) विषफल होइ २०; तुच्छ फल जिसके घणे खाणेसे तृपित न होइ २१; चलित रस जे कुहिया अन्न आदिक उदन पहर उपरांत दही, १६ पहर, छाछ १२ पहर, करंबा ८ पहर, जाडी रावडी १२ पहर, पतली रावडी ८ पहर, लापसी ४ पहर, पूडा ४ पहर, रोटी ४ पहर, कांजीके वडे ४ पहर, कोरे वडे ४ पहर, खीचडी ४ पहर, पीछे ए सर्व रस चलित होइ है जोकर तप्त आदि कारणे जलदी रस चले तो विवेकीये पहिला ही वरजणा, ए व्यवहारकी अपेक्षा है. एवं २२ वर्जनीयं.

अथ बत्तीस अनंतकाया—सर्व कंद जाति सरणकंद १, वज्रकंद २, आली हलद ३, आदउ ४, आला कथूर ५, सतावरि ६, विराली ७, कुमारि ८, थोहर ९, गिलो १०, लहसण ११, वांसना करल १२, गाजर १३, लाणा जिसकूं वाली साजी करे १४, लोटो पोयणनउ कंद १५, गिरिकर्णिका वेलि १६, नवा ऊगता किसलय पत्र १७, खेरिं सुया १८, श्रेगकंद १९, आला मोथ २०, लवण वृक्षकी छाल २१, खैलूडा २२, अमृतवेलि २३, मूली २४, भूमिफोडा जे वर्षाकाले छत्रडा उपजे २५, विल्हा जे कटुल धान्य अंकूरिया हुइ २६, जे छेद्या पीछे ऊगे २७, सूरवाल जे मोटउ होइ २८, कोमल आंबली जेह माहे चीचकउ संचरिउ नही २९, पलंक ३०, आलू ३१, पिंडालू ३२, ए अनंतकाय प्रसिद्ध है और अनंतकायके लक्षण श्रीपन्नवणाजीके (प्रथम) पद (सू. २५) थी जानना “चक्रगं भज्ज” इत्यादि.

अथ भंग १४७ श्रावकके श्रीभगवतीजीसे जानने करण कारवण आदि. गुरुमुखे पचक्खाण करे; इहां गुरु अने श्रावक आश्री च्यार भांगा है. ते किम? गुरु पचक्खाणनउ जाण अने श्रावक पचक्खाणनउ जाण, ए भांगा शुद्ध १, अने गुरु जाणकार पिण श्रावक अजाण तउ तेहने पचक्खाण संखेपथी सुणा कर भेद करावे ए भांगा शुद्ध २, तथा गुरु अजाण पिण श्रावक जाणकार ए भांगामां भलउ ३, तथा श्रावक अजाण अने गुरु अजाण, ए भांगा सर्वथा अशुद्ध ४. एवं च्यार भांगा जानना.

अथ पचक्खाणकी ६ शुद्धि—(१) फासिय-विशुद्धिसे यथावत् उचित काल प्राप्त, (२) पालिय-वार वार सरण करणा, (३) सोहिय-गुरुदत्त शेष भोजन करणा, (४) तीरिय-आपणे काल तक पूरी करे, (५) किट्टिय-भोजनके अवसर फेर सरण करे, (६) आराहिय-उपरिले बोल पूरे करे ते आराध्या. अथवा छ शुद्धि प्रकारांतरे—सदहणा शुद्ध १, जानना शुद्ध २, विनयशुद्धि ३, अनुभासणशुद्धि ४, अनुपालनशुद्धि ५, भावशुद्धि ६. इस विध पचक्खाण पालीने अनंत जीव तरे, आगे तरसे इति समत्तं,

अथ आगे श्रावकके चारह व्रतांके सर्व भंगका स्वरूप लिख्यते—

प्रा १	मृ १	अ १	प्रा	६	एक संयोग १	६	अ				
२	१	१	प्रा मृ	६ ३६	प. सं. २ त्रि. " १	१२ ३६	२६				
४	१	१		प्रा मृ अ	६ ३६ २१६	प. " ३ त्रि. " ३ त्रि. " १		१८ १०८ २१६	२६५		
६	१	१	प्रा मृ अ मै		६ ३६ २१६ १२९६	प. " ४ त्रि. " ६ त्रि. " ४ वा. " १	२४ २१६ ८६४ १२९६	००६८			
८	२	१		प्रा मृ अ मै प	६ ३६ २१६ १२९६ ७७७६	१ " ५ २ " १० ३ " १० ४ " ५ ५ " १	३० ३६० २१६० ६४८० ७७७६		३०७३६		
१०	३	१			प्रा मृ अ मै प दि	६ ३६ २१६ १२२६ ७७७६ ४६६५६	१ " ६ २ " १५ ३ " २० ४ " १५ ५ " ६ ६ " १			३६ ५४० ४३२० १९४४० ४६६५६ ४६६५६	२६६७१६
१२	४	१	प्रा मृ अ मै प दि भो			६ ३६ २१६ १२२६ ७७७६ ४६६५६ २७९९३६	१ " ७ २ " २१ ३ " ३५ ४ " ३५ ५ " २१ ६ " ७ ७ " १	४२ ७५६ ७५६० ४५३६० १६३२९६ ३२६५९२ २७९९३६		२६५६२८	
१४	५	१				प्रा मृ अ मै प दि भो अ	६ ३६ २१६ १२२६ ७७७६ ४६६५६ २७९९३६ १६७९६१६	१ " ८ २ " २८ ३ " ५६ ४ " ७० ५ " ५६ ६ " २८ ७ " ८ ८ " १			

प्रा सृ अ मै प दि भो अ सा	६ ३६ २१६ १२९६ ७७७६ ४६६५६ २७९९३६ १६७९६१६ १००७७६९६	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९	" " " " " " " " "	९ ३६ ८४ १२६ १२६ ८४ ३६ ९ १	५४ १२९६ १८१४४ १६३२९६ ९७९७७६ ३९१९१०४ १००७७६९६ १५११६५४४ १००७७६९६	४०३५३६०६
प्रा सृ अ मै प दि भो अ सा के	६ ३६ २१६ १२९६ ७७७६ ४६६५६ २७९९३६ १६७९६१६ १००७७६९६ ६०४६६१७६	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०	" " " " " " " " " "	१० ४५ १२० २५२ २५२ २१० १२० ४५ १० १	६० १६२० २५९२० १७२१६० १९५९५५२ ९७९७७६० ३३५९२३२० ७५५८२७२० १००७७६९६० ६०४६६१७६	२५२५७६६२२२
प्रा सृ अ मै प दि भो अ सा के पी	६ ३६ २१६ १२९६ ७७७६ ४६६५६ २७९९३६ १६७९६१६ १००७७६९६ ६०४६६१७६ ३६२७९७०५६	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११	" " " " " " " " " " "	११ ५५ १६५ ३३० ४६२ ४६२ ३३० १६५ ५५ ११ १	६६ १९८० ३५६४० ४२७६८० ३५९२५१२ २१५५५०७२ ९२३७८८८० २७७१३६६४० ५५४२७३२८० ६६५१२७९३६ ३६२७९७०५६	१९७७३२६२७७७७६
प्रा सृ अ मै प दि भो अ सा के पी अ	६ ३६ २१६ १२९६ ७७७६ ४६६५६ २७९९३६ १६७९६१६ १००७७६९६ ६०४६६१७६ ३६२७९७०५६ २१७६७८२३३६	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२	" " " " " " " " " " " "	१२ ६६ २२० ४९५ ७९२ ९२४ ७९२ ४९५ २२० ६६ १२ १	७२ २३७६ ४७५२० ६४१५२० ६१५८५९२ ४३११०१४४ २२१७०२३१२ ८३१४०९९२० २२१७०९३१२० ३९९०७६७६१६ ४३५३५६४६७२ २१७६७८२३३६	१९८६२६८७२००

प्रथमव्रते षट् भंगा त एव सप्तगणाः; कथं? षट्गुणने ३६ द्वितीयव्रतस्य ६ षट् प्रथम-
व्रतस्य प्रक्षेपन्ते यथा ४८; एवं सर्वत्र ७ गुणाः षट्प्रक्षेपः

प्रा १,२,३,४,५,६ भंगा एकसंयोगे १.			प्रा मृ	१,२,३,४,५,६, ३६ ६,६,६,६,६,६ द्विकसंयोग २
प्रा १ १ १ १ १ १ मृ १ २ ३ ४ ५ ६ अ ६ ६ ६ ६ ६ ६ त्रिकसंयोग ३	प्रा २ २ २ २ २ २ मृ १ २ ३ ४ ५ ६ अ ६ ६ ६ ६ ६ ६	प्रा ३ ३ ३ ३ ३ ३ मृ १ २ ३ ४ ५ ६ अ ६ ६ ६ ६ ६ ६		
प्रा ४ ४ ४ ४ ४ ४ मृ १ २ ३ ४ ५ ६ अ ६ ६ ६ ६ ६ ६	प्रा ५ ५ ५ ५ ५ ५ मृ १ २ ३ ४ ५ ६ अ ६ ६ ६ ६ ६ ६	प्रा ६ ६ ६ ६ ६ ६ मृ १ २ ३ ४ ५ ६ अ ६ ६ ६ ६ ६ ६	एवं ३६, षट् षट्त्रिंशद्भिः भंग २१६, एवं अग्रेऽपि भावना कार्या.	
प्रा १ १ १ १ १ १ मृ १ २ ३ ४ ५ ६	प्रा ४ ४ ४ ४ ४ ४ मृ १ २ ३ ४ ५ ६	प्रा ९ ९ ९ ९ ९ ९ मृ १ २ ३ ४ ५ ६ अ ७ २ ९	प्रा ९ १ ९ ९ प्रा ९ २ १८ ९९ प्रा ९ ३ २७ ९९९ मृ ८१ ३ २४३ ९९९ अ ७२९ १ ७२९	एवं ३६, प्रथम व्रतस्य षट्, द्वितीयव्रतस्य षट्, एवं १२, एवं ३६ मध्ये प्रक्षेपे ४८

एवं अग्रेतन अष्ट यंत्र ज्ञेयं १२ मे

३ ३ ३	२ २ २	१ १ १	क का	नव भंग्युक्त २ भेद ४९ भंगयंत्र. म १ व २ का ३ मावा ४
२ २ १	३ २ १	३ २ १	अ नु	माका ५ वाका ६ मावाका ७ कर १ करा २ कराकरा ३ सप्त
१ ३ ३	३ ९ ९	३ ९ ९	लब्ध	त्रि २१; एह एकवीस भंगाका स्वरूपम्.

नव भङ्ग्या तु प्रथमव्रते भङ्गा नव ९, ततो द्विकादि व्रते संयोगे दशगुणित नवकप्रक्षेप-
क्रमेण तावद् गन्तव्यं यावदेकादशवेलायां द्वादशव्रतसंयोगभङ्गसङ्ख्या ९ ९ ९ ९ ९ ९ ९ ९
९ ९ ९ ९; ए सर्व नवभंगीनां भांगा

२ २ २	१ १ १	क का	षट्भंग्युत्तरभेद २१ भंगयंत्रम्	
३ २ १	३ २ १	म व का		
१ ३ ३	२ ६ ६			
प्रा	९		१२	१०८
मृ	८१		६६	५३४६
अ	७२९		२२०	१६०३८०
मं	६५६१		४९५	३२४७६९५
प	५९०४९		७९२	४६७६६८०८
द्वि	५३१४४१		९२४	४९१०५१४८४
भो	४७८२९६२		७९२	३७८८१११४४८
अ	४३०४६७२१		४९५	२१३०८१२६८९५
सा	३८७४२०४८९		२२०	८५२३२५०७५८०
दे	३४८६७८४४०१		६६	२३०१२७७७०४६६
पौ	३१३८१०५९६०९		१२	३७६५७२७१५३०८
अ	२८२४२९५३६४८१		१	२८२४२९५३६४८१

સત્ત્વત્વારિશત્શતમજ્ઞાઃ—પ્રથમત્રતે સત્ત્વત્વારિશત્શતં મજ્ઞાઃ દ્વિકાદિસંયોગે અષ્ટત્વારિશત્શતગુણિતં સત્ત્વત્વારિશત્શત-
પ્રક્ષેપક્રમેણ તાવદ્ ૦ ।

()

પ્રાં ૧	મૃં ૨	અં ૩	મૈથુન ૪	પરિં ૫	વિપ્ ૬	ભોગોં ૭	અનં ૮	સામાં ૯	વિશાં ૧૦	પૌષઠ ૧૧	અતિથિં ૧૨
મને કરી કરું નહી			→	૫	વ	મ્			→		→
મને કરી કરાવું નહી ૧	૬	૩૬	૨૧૬	૧૨૨૬	૭૭૭૬	૪૬૬૫૬	૨૭૯૨૩૬	૧૬૭૯૬૧૬	૧૦૦૭૭૬૯૬	૬૦૪૬૬૧૭૬	૩૬૨૭૯૭૦૫૬
વચને કરી કરું નહી ૨	૧૨	૭૨	૪૩૨	૨૫૯૨	૧૫૫૫૨	૯૩૩૧૨	૫૫૯૮૧૨	૩૩૫૯૨૩૨	૨૦૧૫૫૩૯૨	૧૨૦૯૩૨૩૫૨	૭૨૫૫૪૧૧૨
વચને કરી કરાવું નહી ૩	૧૮	૧૦૮	૬૪૮	૩૮૮૮	૨૩૩૨૮	૧૩૯૯૬૮	૮૩૯૮૦૮	૫૦૩૮૮૪૮	૩૦૨૩૩૦૮૮	૧૮૧૩૯૮૫૨૮	૧૦૮૮૩૯૧૧૬૮
કાયા કરી કરું નહી ૪	૨૪	૧૪૪	૮૬૪	૫૧૮૪	૩૧૧૦૪	૧૮૬૬૨૪	૧૧૧૯૭૪૪	૬૭૧૮૪૬૪	૪૦૩૧૦૭૮૪	૨૪૧૮૬૪૭૦૪	૧૪૫૧૧૮૮૨૨૪
કાયા કરી કરાવું નહી ૫	૩૦	૧૮૦	૧૦૮૦	૬૪૮૦	૩૮૮૮૦	૨૩૩૨૮૦	૧૩૯૯૬૮૦	૮૩૯૮૦૮૦	૫૦૩૮૮૪૮૦	૩૦૨૩૩૦૮૮૦	૧૮૧૩૯૮૫૨૮૦
૧ સંયોગી	૨ સં	૩ સં	૪ સં	૫ સં	૬ સં	૭ સં	૮ સં	૯ સં	૧૦ સં	૧૧ સં	૧૨ સં
૬	૩૬	૨૧૬	૧૨૨૬	૭૭૭૬	૪૬૬૫૬	૨૭૯૨૩૬	૧૬૭૯૬૧૬	૧૦૦૭૭૬૯૬	૬૦૪૬૬૧૭૬	૩૬૨૭૯૭૦૫૬	૨૧૭૬૭૮૨૩૩૬

૧ગ વૅ છ મંગા, નિદિઢા સાવયાળ જે સુતે । તે ચિય વયઢુઢીૅ, સત્ત્વગુણા છઢુયા કમસો ॥ ૧ ॥

इति सर्वव्रतानां भङ्गोत्पत्तिकारिका मंतव्या इति श्रावकव्रतानां भङ्गाः समर्थिताः ।
इति आत्मारामसङ्कलितायां संवरतत्त्वं संपूर्णम् ।

अथ 'निर्जरा' तत्त्व लिख्यते—अथ 'निर्जरा' शब्दार्थ—'निर्' अतिशय करके 'जू' कहता हानि करे कर्मपुद्गलनी ते 'निर्जरा' कहीये. अथ निर्जराके बारा भेद लिख्यते—
अनशन १, ऊनोदरी २, भिक्षाचरी ३, रसपरित्याग ४, कायक्लेश ५, प्रतिसंलीनता ६;
प्रायश्चित्त १, विनय २, वैयावृत्य ३, स्वाध्याय ४, ध्यान ५, व्युत्सर्ग ६; एवं १२. पहले
६ भेद बाह्य निर्जराके जानने; आगले ६ भेद अभ्यंतर निर्जराके जानने, तपवत्. इस तरे
निर्जराके भेदोंका विस्तार उचवाइ शास्त्रसे जानने. इहां तो किंचित् मात्र ध्यान च्यारका
स्वरूप लिख्यते श्रीजिनभद्रगणि क्षमाश्रमणविरचित ध्यानशतकथी ।

अथ ध्यानस्वरूप दोहरा—

शुक्र ध्यान पावक करी, कर्मधन दीये जार; वीर धीर प्रणमुं सदा, भवजल तारनहार १
अथ आर्त्तध्यानके चार भेद कथन. सर्वईया इकतीसा—

द्वेषहीके बस पर अमनोग विसे घर तिनका विजोग चिंते फेर मत मिलियो
शूल कुण्ठ तप रोग चाहे इनका विजोग आगेकूं न होय मन औषधिमें भिलियो
राग बस इष्ट विसे साता सुष माहि लिये नारी आदि इष्टके संजोग भोग किलियो
इंद्र चंद्र धरनिंद नरनको इंद्र थऊं इत्यादि निदान कर आरतमे झिलियो १

अथ स्वामी अने लेश्या कथन. सर्वईया ३१ सा—

राग द्वेष मोह भयों आरतमे जीव पर्यो बीज भयो जगतह मन भयो आंध रे
किसन कपोत नील लेसा भइ मध मही उतकृष्ट जगनमे एकही न सांध रे
आरतके बस पर्यो नर जन्म हार कर्यो चलत दिषाइ हाथ चढ चहूं कांध रे
आतम सयाना तोकूं एही दुषदाना जाना दाना मरदाना है तो अब पाल बांध रे २

अथ आर्त्तके लिंग—

रोद करे सोग करे गाढ खर नाद करे हिरदेकूं कूट मरे इष्टके विजोग ते
चित्त मांजि षेद करे हाय हाय साद करे वदन ते लाल गिरे कष्टके संजोग ते
निंदे कृत आप पर रिद्धि देष चित ताप चाहे राग फाहे मेरे ऐसा क्यु न जोग ते
विसेका पिया सामन आसा पासा भासा वन आलसी विसेमे गृद्ध मूढ मति जोग ते ३
इति आर्त्तध्यान संपूर्णम्. अथ रौद्र ध्यानके चार भेद—

निर्घृण चित्त करी जीव वध नीत धरी वेध बंध दाह अंक मारण प्रणाम रे
माया झूठ पिशुनता कठन वचन भने एक वृ (ब्र)ह्म जग मने नाना नही काम रे
पंचभूतरूप काया देवकूं कुदेव गाया आतम सरूप भूप नही इन ठाम रे
छाना पाप करे लरे दुष्ट परिणाम धरे ढगवासी रीत करे दूजा भेद आम रे ४

पर धन हरे क्रोध लोभ चित धरे दूर दिल दया करे जीव वध करी राजी है
पापसे न डरे कष्ट नरकके गरे परे तिनकी न भीत करे कहे हम हाजी है
मांस मद पान करे भामनि लगावे गरे रात दिन काम जरे मन हूये राजी है
नरककी आग जरे जमनकी मार परे रोय रोय मरे जिहां अल्ला है न काजी है ५

अथ चौथा भेद—

साद आद साधनके धनकूं समार रपे कारण विसेके सब मेलत महान है
वीणा आद साद पूर पूतरी गंध कपूर मोदक अनेक कूर ललना सुहान है
अमनोगसे उदास दुष्ट मनन विसास पर घात मन धरे मलिन अग्यान है
आत्मसरूप कोरे तप जप दान चोरे ग्यानरूप मारे कोरे टरे रुद्र ध्यान है ६

अथ स्वामी—

राग द्वेस मोह भरे चार गति लाभ करे नरकमे परे जरे दुखकी अगनसे
किसन कपोत नील संकलेस लेस तीन उतकिरू(कृ)ष्ट रूप भइ गइ है जगनसे
मोहकी मरोर पगे कामनीके काम लगे निज गुन छोर भगे होरकी लगनसे
एही रीत जिन टारी भय है धरम धारी मात तात सुत नारी जाने है ठगनसे ७

अथ लिंग ४ कथन—

दिव माहे बहु वार जीव वध आदि चार चितन कर करत लिंग प्रथम कहातु है
बहु दोस एक दोन तीन चार चिते सोय मोहमे मगन होय मूढ ललचातु है
नाना दोस अमुककूं अमुक प्रकार करी मार गारु पार डारु रिदेमे ठरातु है
आमरण दोस फाही अंतकाल छोडे नाही जगमे रुलाइ भव भ्रमण करातु है ८

अथ कृत(कर्त)व्य—

रुद्रध्यान पर्यो जीव पर दुष देष कर मनमे आनंद माने ठाने न दया लगी
पाप करी पछाताप मनसे न करे आप अपर करीने पाप चिते मेरि झालगी
किसकी न सार करे निरदयी नाम परे करथी न दान करे जरे कामदा लगी
कही समझाया फिर जात उर झाया समझे न समझाया मेरे कहे की कहा लगी ९

इति रौद्र ध्यान संपूर्णम् ॥ २ ॥ अथ धर्मध्यानका स्वरूप लिख्यते—द्वार १२—
भावना १, देश २, काल ३, आसन ४, आलंबन ५, क्रम ६, ध्यातव्य ७, ध्याता ८, अनुप्रेक्षा
९, लेख्या १०, लिंग ११, फल १२. तत्र प्रथम भावना ४—ज्ञान १, दर्शन २, चारित्र
३ वैराग्य ४. अथ प्रथम 'ज्ञान'-भावना, सर्वईया इकतीसा—

यथावत् जोग बही गुरुगम्य ग्यान लही आठ ही आचार ही ग्यान सुद्र धर्यो है
ग्यानके अभ्यास करी चंचलता दूर टरी आसवास दूर परी ग्यानवट भर्यो है

प्रकट तुरंग रंग कूदित विहंग खंग मन थिर भयो जुं निवात दीप जयो है
ग्यान सार मन धार विमल मति उजार आतम संभार थिर ध्यान जोग कयो है ?
इति 'ग्यान' भावना. अथ 'दर्शन'-भावना—

संखा कंखा दूर करी मूढता सकल हरी सम थिर गुन भरी टरी सब मोहनी
मिथ्या रंग भयो भंग कुगुर कुसंग फंग सतगुर संग चंग तत्त वात टोहनी
निर्वेद सम मान दयाने संवेग ठान आसति करत जान राग द्वेस दोहनी
ध्यान केरी तान धरे आतमसरूप भरे भावना समक करे मति सोहनी ?
इति. अथ 'चारित्र'-भावना—

उपादान नूतन करम कोन करे जीव पुव्व भव संचित दग्ध करे छारसी
सुभका गहन करे ध्यान तो धरम धरे विना ही जतन जैसे चाकर जुहारसी
चारतको रूप धार करम पषार डार मार धार मार बूंद गिरे जैसे ठारसी
करम कलंक नासे आतमसरूप पासे सत्ताको सरूप भासे जैसे देपे आरसी ?
इति. अथ 'वैराग'-भावना—

चक्रपति विभो अति हलधर गदाधर मंडलीक रान जाने फूले अतिमानमे
रतिपति विभो मति सुखनकू मान अति जगमे सुहाये जैसे वादर विहानमे
रंभा अनुहार नार तनमे करे सिंगार षिनक तमासा जैसे वीज आसमानमे
पवन झकोर दीप बुझत छिनकमा जिऐसे बुझ गये फिर आये न जिहानमे ?
खासा खाना खाते मनमाना सुख चाते ताते जानते न जात दिन रात तान मानमे
सुंदर सरूप वने भूषनमे वने वने पोर समेसने अने वच मद मानमे
गेह नेह देह संग आस लोभ नार रंग छोरके विहंग जैसे जात असमानमे
पवन झकोर दीप बुझत छिनकमां जिऐसे बुझ गये फिर आये न जिहानमे २
रोयां रीकी घरे परी रापत न एक घरी प्रिया मन सोग करी परीकूने जाइ रे
माता हुं विहाल कहै लाल मेरो गयो छोर आसमान माही मेरी पूरी हुं न काइ रे
मिल कर चार नर अरथीमे धर कर जगमे दिखाइ कर कूटे सिर माइ रे
पीछे ही तमासा तेरो देषेगा जगत सब आपना तमासा आप क्युं न देषे भाइ रे ? ३
हाथी आथी छोर करी धाम वाम परहरी ना तातां तोर करी घरी न ठराइ रे
पान पीन हार यार कोउ नही चले नार आपने कमाये पाप आप साथ जाइ रे
सुंदरसी वपु जरी छारनमे छार परी आतम ठगोरी भोरी मरी धोषो पाइ रे
पीछेहि तमासा तेरो देषेगा जगत सब आपना तमासा आप क्युं न देषे भाइ रे ? ४
इति 'भावना' द्वार संपूर्णम्. अथ 'दिशा' द्वारमाह—कुशीलसंगवर्जन सवईया इकतीसा—
भामनि पसु ने षंड रहित स्थान चंग विजन कुशील जनसंगत रहतु है
घूतकार १ हस्तिपार २ सवतिकार ३ नार ४ छातर पवनहार ५ कुट्टिनी सहतु है

नट विट भांड रांड पर घर नित हांड एही सब दूर छांडकु 'सील' कहतु है
 ध्यान दृढ मुनि मन सुन्य गृह ग्राम वन तथा जना कीरण विसेस न लहतु है ?
 मन वच काये साधि होत है जहां समाधि तेही देस थानक धियानजोग कहे है
 पृथी (थ्वी) आप तेज वन बीज फूल जीव घन कीट ने पतंग भृंग जीव वधन हे है
 ऐसा ही सथान ध्यान करनेके जोग जान संग एकलो विसेस नही लहे है
 एही देस द्वार मान ध्यान केरा वान तान भिष्ट कर अरि थान सदा जीत रहे है २
 इति 'देश' द्वार २. अथ 'काल' द्वारमाह-दोहरा—

जोग समाधिमे वसे, ध्यान काल है सोय; दिवस घरीके कालको, ताते नियम न कोय ?
 इति 'काल' द्वार ३. अथ 'आसन' द्वार-दोहरा—

सोवत बैठे तिष्ठते, ध्यान सवी विध होय; तीन जोग थिरता करो, आसन नियम कोय ?
 इति 'आसन' द्वार ४. अथ 'आलंबन' द्वार, सर्वईया इकतीसा—

वाचन पूछन कित बार बार फेरे नित अनुपेहा सुद्ध मेहा धरम सहतु है
 समक श्रुत समाय देस सब वृत्ति थाय चारो ही समाय धाय लाभ लहतु है
 विषम प्रसाद पर चरवेको मन कर रजुकूं पकर नर सुपसे चरतु है
 ऐसो 'धर्म' ध्यान सौध चरवेको भयो बौध वाचनादि 'आलंबन' नामजुं कहतु है ?
 इति 'आलंबन' द्वार ५. अथ 'क्रम' द्वार-योगनिरोधविधि, दोहरा—

प्रथम निरोधे मन सुद्धी, वच तन पीछे जान; तन वचन मन रोधे तथा, वचन तन मन इक ठान ?
 इति 'क्रम' द्वार ६. अथ 'ध्यातार' द्वार, सर्वैया ३१ सा—

धरमका ध्याता ग्याता मुनिजन जग त्राता जगतकूं देत साता गाता निज गुणने
 छोरे सब परमाद जारे सब मोह माद ग्यान ध्यान निरावाद वीर धीर थुणने
 खीण उपसंत मोह मान माया लोभ क्रोध चारों गेरे खोह जोह अरि निज गुणने
 आलम उजारी टारी करम कलंक भारी महावीर वैन ऐननीकी भांत सुणने ?
 इति 'ध्यातार' द्वार ७. अथ 'ध्यातव्य' द्वार. प्रथम आज्ञाविज(च)य—

निपुन अनादि हित मोल तोलके न कित कथन निगोद मित महत प्रभावना
 भासन सरूप धरे पापको न लेस करे जगत प्रदीप जिनकथन सुहावना
 जड मति बूझे नहि नय भंग छुझे नहि गमक परिमान गेय गहन भुलावना
 आरज आचारजके जोग विना मति तुच्छ संका सब छोर वाद वारके कहावना ?

अथ अपायविज(च)य—

कुटुंबके काज लाज छोरके निलज्ज भयो ठान तअका जतन सीत घाम सहे है
 चिंता करी चकचूर दुषनमे भरपूर उड गयो तननूर मेरो मेरो कहे है
 पाप केरी पोटरी उठाय कर एक रोटूं रीक झीक सोग भरे साथी इहां रहे है
 नरक निगोद फिरे पापनको हार गरे रोय रोय भरे फेर ऊन सुख चहे है २

अथ विपाकविज(च)य—

करम सभावथित रस परदेस मित मन वच काये धित सुभासुभ कर्यो है
मूल आठ भेद छेद एकसो अठावना है निज गुन सब दवे प्राणी भूल पर्यो है
राजन ते रंक होत ऊंच थकी नीच गोत कीट ने पतंग भृंग नाना रूप धर्यो है
छेदे जिन कर्म भ्रम ध्यानकी अगन गर्म मानत अनंग सर्म धर्मधारी ठर्यो है ३

अथ संठाणविज(च)य—

आदि अंत वेहूं नही वीतराग देव कही आसति दरब पंचमय स्वयं सिद्ध है
नाम आदि भेद अहुपुव्व धार कहे वहु अधो आदि तीन भेद लोक केरे किद्ध है
पिति वले दीप वार नरक विमानाकार भवन आकार चार कलस महिद्ध है
आतम अपंड भूप ग्यान मान तेरो रूप निज दग षोल लाल तोपे सब रिद्ध है ४
इस सबईयेका भावार्थ आगे यंत्रोमे लिखेंगे तहांसे जानना इति संस्थानविज(च)य इति
'ध्यातव्य' द्वार ८.

अथ 'अनुप्रेक्षा' द्वार—ध्यान कर्यो पीछे चितना ते 'अनुप्रेक्षा.' सबईया ३१ सा, समुद्रचिंतन—

आपने अग्यान करी जम्म जरा मीच नीर कषाय कलस नीर उमगे उतावरो
रोग ने विजोग सोग स्वापद अनेक थोग धन धान रामा मान मूढ मति वावरो
मनकी धमर तोह मोहकी भमर जोह वातही अग्यान जिन तान वीचि धावरो
संका ही लघु तरंग करम कठन द्रंग पार नही तर अब कहूं तो हे नावरो ?
अथ पोतवरनन—

संत जन वणिग विरतमय महापोत पत्तन अनूप तिहा मोषरूप जानीये
अवधि तारणहार समक बंधन डार ग्यान है करणधार छिदर मिटानीये
तप वात वेग कर चलन विराग पंथ संकाकी तरंग न ते षोभ नही मानीये
सील अंग रतन जतन करी सौदा भरी अवाबाध लाभ धरी मोष सौध ठानीये २
इति अनुप्रेक्षा द्वार ९. अथ अनुप्रेक्षा चार कथन, सबैया ३१ सा—

जगमे न तेरो कोउ संपत विपत दोउ ए करो अनादिसिद्ध भरम भुलानो है
जासो तूतो माने मेरो तामे कोन प्यारो तेरो जग अंध कूप झेरो परे दुख मानो है
मात तात सुत भ्रात भारजा बहिन आत कोइ नही त्रात थात भूल भ्रम ठानो है
थिर नही रहे जग जग छोर धम्म लग आतम आनंद चंद मोष तेरो थानो है ३
इति अनुप्रेक्षा द्वार ९. अथ 'लेख्या' द्वारकथन, दोहरा—

पीत पउम ने सुक है, लेखा तीन प्रधान; सुद्ध सुद्धतर सुद्ध है, उत्कट मंद कहान १
इति लेख्याद्वार १०. अथ 'लिंग' द्वार, सबैया इकतीसा—

धमा धम्म आदि गेय ग्यान केरे जे प्रमेय सत सरद्धान करे संका सब छारी है
आगम पठन करी गुरवैन रिदे धरी वीतराग आन करी स्वयंबोध भारी है

चार ही प्रकार करी मिथ्या भ्रम जार जरी सतका सरूप धरी भय ब्रह्मचारी है
आतम आराम ठाम सुमतिको करी वाम भयो मन सिद्ध काम फूलनकी वारी है ?
इति 'लिंग'द्वारम्. अथ 'फल'द्वार—

कीरति प्रशंसा दान विने श्रुत सील मान धरम रतन जिन तिनही को दीयो है
सुरगमे इंद भूप थान ही विमानरूप अमर समरसुष रंभा चंभा कीयो है
नर केरी जो न पाय सुष सहु मिले धाय अंत ही विहाय सब तोषरस पीयो है
आतम अनंत बल अघ अरि तोर दल मोषमे अचल फल सदा काल जीयो है ?
इति फलम्. इति धर्मध्यानं संपूर्णम् ३.

अथ शुक्ल ध्यान लिख्यते—अथ 'आलंबन' कथन, दोहरा—
खंति आर्जव मर्दव, मुक्ति आलंबन मान; सुकल सौधके चरनको, एही भये सोपान ?
इति आलंबन. अथ ध्यानक्रमस्वरूप, सवैया ३? सा—

त्रिभुवन फस्यो मन क्रम सो परमानु विषे रोक करी धर्यो मन भये पीछे केवली
जैसे गारुडिक तन विसकूं एकत्र करे डंक मुष आन धरे फेर भूम ठेवली
ध्यानरूप बल भरी आगम मंतर करी जिन वैद अनु थकी फारी मनने वली
ऐसे मन रोधनकी रीत वीतराग देव करे धरे आतम अनंत भूप जे वली ?
जैसे आगइं धनके घट ते घटत जात स्तोक एध दूर कीये छार होय परी है
जैसे घरी कुंड जर घर नार छेर कर सने सने छीज तजुं मन दोर हरी है
जैसे तत्तवे धर्यो उदग जर तपस्यो तैसें विभु केवलीकी मनगति जरी है
ऐसें वच तन दोय रोधके अजोगी भये नाम है 'सेलेस' तव ए जनही करी है २

अथ शुक्ल ध्यानके च्यार भेद कथन, सवैया—
एक हि दरव परमानु आदि चित धरी उतपात व्यय ध्रुवस्थिति भंग करे है
पुण्व ग्यान अनुसार पर जाय नानाकार नय विसतार सात सात सात सत धरे है
अरथ विजन जोग सविचार राग विन भंगके तरंग सब मन बीज भरे है
प्रथम सुकल नाम रमत आतमराम पृथग वितर्क आम सविचार परे है ? इति प्रथम.
एक हि दरवमांजि उतपात व्यय ध्रुव भंग नय परि जाय एकथिर भयो है
निरवात दीप जैसे जरत अकंप होत ऐसे चित धोत जोत एकरूप ठयो है
अरथ विजन जोग अविचार तत जोग नाना रूप गेय छोर एकरूप छयो है
'एकतवितर्क' नाम अविचार सुष धाम करम थिरत आग पाय जैसे तयो है २ इति दूजा.
विमल विग्यान कर मिथ्या तम दूर कर केवल सरूप धर जग ईस भयो है
मोषके गमनकाल तोर सब अघजाल ईषत निरोध काम जोग वस ठयो है
तनु काय क्रिया रहे तीजा भेद वीर कहे करम भरम सब छोरवेको थयो है
स्रपम तो होत क्रिया 'अनिवृत्त' नाम लीया तीजा भेद सुकर मुकर दरसयो है ३ इति तीजा.

ईस सब कर्म पीस मेरु नगरा जईस ऐसे भयो थिर धीस फेर नही कंपना
 कदे हीन परे ऐसो परम सुकल भेद छेद सब क्रिया ऐही नाम याको जंपना
 प्रथम सुकल एक योग तथा तीनहीमे एक जोग माहे दूजा भेद लेइ ठंपना
 काय जोग तीजो भेद चौथ भयो जोग छेद आतम उमेद मोष महिल धरंपना ४
 जैसे छदमस्थ केरो मनोयोग ध्यान कद्यो तैसे विभु केवलीके काय छोरे ध्यान ठेरे है
 विना मन ध्यान कद्यो पूरव प्रयोग करी जैसे कुंभकारचाक एक वेरे है
 पीछे ही फिरत आप ऐसे मन करे थाप मन रुक गयो तो ही ध्यानरूप लेरे है
 वीतराग वैन ऐन मिथ्या नही कहै जैन ऐसे विभु केवलिने कर्म दूर गरे है ५
 इति चौथा. अथ अनुप्रेक्षाकथन, सवैया ३१ सा—

पापके अपथ केरी नरकमे दुष परे सोगकी अगन जरे नाना कष्ट पायो है
 गर्भके वास वसे मृत ने पुरीष रसे जम्म पाय फेर हसे जरा काल खायो है
 फेर ही निगोद वसे अंत विन काल फसे जगमे अभव्य लसे अंत नही आयो है
 राजन ते रंक होत सुष मान देष रोत आतम अपंड जोत धोत चित ठायो है ?

अथ लेइयाकथन, दोहरा—


प्रथम भेद दो सुकलमे, तीजा परम वखान; लेइयातीत चतुर्थ है, ए ही जिनमतवान ?
 अथ लिंगकथन, सवईया एकतीसा—

परीसहा आन परे ध्यान थकी नाही चरे गज मुनि जैसे परे ममताकूं छोरेके
 देवमाया गीत नृत मूढता न होत चित सूषम प्रमान ग्यान धारे भ्रम तोरके
 दीपे जो ही नेत्रको ही सब ही विनास होही निज गुन टोही तोही कहूं कर जोरके
 घर नर नार थार धन धान धाम वार आतमसे न्यार धार डार पार दोरके ?
 इति लिंग. अथ फल—

देव इंद्र चंद्र पंद्र दोनोचर नारविंद पूजन आनंद छंद्र मंगल पठतु है
 नाकनाथ रंभापति नाटक विबुध रति भयो हे विमानपति सुष न घटतु है
 हलधर चक्रधर दाम धाम वाम घर रात दिन सुषभर कालयूं कटतु है
 जोग धार तप ठये अघ तोर मोष गये सिद्ध विभु तेरी जयनाम यूं रटतु है ? इति फल.
 दोनो सुमध्यान धरे पापको न लेस करे ताते दोनो नही भये कारण संसार के
 संवर निज्जर दौय भाव तप दोनो पोष तप सब अघ खोय धोय सब छार के
 याते दोनो तप भरे जीव निज चित धरे करम अंधारे टारे ग्यानदीप जार के
 करम कस्तर भूर आतमसे कीये दूर ध्यान केरे सरने तो मारे है पछार के ?
 अथ आतम कर्म ध्यान दृष्टांतकथन—

वस्त्र लोह मही वंक मलिन कलंक पंक जलानल सूर नूर सोधन करतु है
 अंबर ने लोह मही आतमसरूप कही करत कलंक पंक मलिन कहतु है

जलानल सूर ध्यान आतम अधिष्ठान जलानल ग्यान भान मानके रहतु है
 वसनकी मैल झरे लोह केरी कीटी जरे मही केरो पंक हरे उपमा लहतु है ?
 जैसे ध्यान धर करी मन वच काय लरी ताप सोस भेद परी ऐसे कर्म कहे है
 जैसे वैद लंघन विरेचन उपध कर ऐसे जिनवैद विधुरीत परठहे है
 तप ताप तप सोस तप ही उपध जोस ध्यान भयो तपको स रोग दूर थहे है
 ए ही उपमान ग्यान तपरूप भयो ध्यान मार किर पान भान केवलको लहे है ?
 जैसे चिर संचि एध अगन भसम करे तैसे ध्यान छाररूप करत कर्मको
 जैसे वात आभट्टंद छिनमे उडाय डारे तैसे ध्यान टाह डारे कर्मरूप हर्मको
 जब मन ध्यान करे मानसीन पीर करे तनको न दुष धरे धरे निज मर्मको
 मनमे जो मोप वसी जग केरी तो (?) रसी आतमसरूप लसी धार ध्यान मर्मको ?
 अथ पिछले सवैइयेका भावार्थमे लोकसरूप आदि विवरण लिख्यते—



अथ घनीकृत लोकस्वरूप लिख्यते—अथ पुनः किस प्रकार करके लोक संवर्त्य
 समचतुरस्र करीये तिसका स्वरूप कहीये है. स्वरूप थकी इह लोक चौदां रज्जु ऊंचा है, अने
 नीचे देश ऊन सात रज्जु चौडा है, तिर्यग्लोकने मध्य भागे एक रज्जु चौडा है, ब्रह्मदेव-
 लोकने मध्ये पांच रज्जु विस्तीर्ण है, ऊपर लोकांते एक रज्जु चौडा है, शेष स्थानकमे अनि-
 यत विस्तार है. रज्जुका प्रमाण—‘स्वयंभूरमण’ समुद्रकी पूर्वकी वेदिकासे पश्चिमकी वेदिका
 लगे; अथवा दक्षिणनी वेदिकाथी उत्तरकी वेदिका पर्यंत एक रज्जु जान लेना. ऐसे रखा इह
 लोकना बुद्धि करी कल्पना करके संवर्त्य घन करीये है. तथाहि—एक रज्जु विस्तीर्ण त्रसनाडीके
 दक्षिण दिशावर्ती अधोलोकको खंड नीचे देश ऊन रज्जु तीन विस्तीर्ण अनुक्रमे हाय मान
 विस्तारथी उपर एक रज्जुका संख्यातमे भाग चौडा अने सात रज्जु झझेरा ऊंचा एहवा पूर्वोक्त
 खंड लइने त्रसनाडीके उत्तर पासे विपरीतपणे स्थापीये, नीचला भाग उपर अने उपरला भाग
 नीचे करी जोडना इत्यर्थः. ऐसे कर्या अधोवर्ति लोकका अर्ध देश ऊन चार रज्जु विस्तीर्ण
 विस्तीर्ण झझेरा सात रज्जु ऊंचा अने चौडा नीचे तो किहा एक देश ऊन सात रज्जु मान अने
 अन्यत्र तो अनियत प्रमाणे जाडा अर्थात् बाह(हु)ल्यपणे है. अब उपरला लोकार्ध संवत्ती-

(की)ये है तिहां पिण रज्जु प्रमाण त्रसनाडीके दक्षिण दिशे रखा ब्रह्मलोकके मध्य भाग थकी नीचला अने उपरना दो दो खंड, ब्रह्मलोकके मध्यमे प्रत्येक प्रत्येक दो दो रज्जु विस्तीर्ण उपर लोकने समीपे अने नीचा रत्नप्रभाने छुलुक प्रतर समीपे अंगुल सहस्र भाग विस्तारे देश उन साठे तीन रज्जु प्रमाण दोनो खंडाने बुद्धि कर करे गृहीने तेहने उत्तरने पासे पूर्वोक्त रीत करके स्थापीये. ऐसा कर्या हुंते उपरले लोकानो अर्ध अंगुलना दो सहस्र भाग अधिक तीन रज्जु विस्तीर्ण हुइ. इहां चारो ही पंडाने छेहडे चार अंगुलना सहस्र भाग हुइ केवल एक दिशने विषे दोनो ही भागे करी एक ज अंगुल सहस्र भाग होइ एक दिग्वर्तीपणा थकी; इम अनेराइ जे दो भाग तिने करी एक सहस्र भाग हुइ; इस वास्ते दो भाग अधिकपणे कइयो. देश उन सात रज्जु ऊंचा बाहल्य थकी ब्रह्मलोकने मध्ये पांच रज्जु बाहल्य अने अन्यत्र ओर जगे अनियत विस्तार. ऐसा ऊर्ध्व लोक गृहीने हेठला संवर्तिक लोकना अर्द्धने उत्तरने पासे जोडीये तिवारे अधोलोकना पंड थकी जे प्रतर अधिक हुइ ते खंडने ऊपरिला जोड्या खंडना बाहल्यने विषे उर्द्धायत जोडीये. इम कर्या पांच रज्जु झञ्जेरा किंहाएक बाहल्यपणे हुइ तथा हेठिले खंडने हेठे यथासंभव देश उन सात रज्जु बाहल्य पूर्वे कइया है. ऊपरिला खंडना देश उन रज्जुद्वय बाहल्य थकी जे अधिक हुइ ते खंडीने ऊपरिला खंडना बाहल्यने विषे जोडीये. इम कर्या हुंते बाहल्य थकी सर्व ए चउरंस कृत आकाशनो खंड कितनेक प्रदेशाने विषे रज्जुना असंख्यातमो भाग अधिक छ रज्जु होइ ते व्यवहार थकी ए सर्व सात रज्जु बाहल्य बोलाये; जे भणी व्यवहार नय ते कलुक ऊणा सात हस्तप्रमाण पट आदि वस्तुने परिपूर्ण सात हस्त प्रमाण माने; एतले देश उन वस्तुने व्यवहार नय परिपूर्ण कहै. इस वास्ते एहने मते इहा सात रज्जु बाहल्यपणे सर्वत्र जानना अने आयाम विष्कंभपणे प्रत्येक प्रत्येक देश उन सात रज्जु प्रमाण हुया है ते पिण 'व्यवहार' नयमते सात सात रज्जु पूरा गिण्या. एवं 'व्यवहार' नयमते सब जगे सात रज्जु प्रमाण घन होइ तथा श्रीसिद्धांतमे जहां कही श्रेणीनाम न ग्राह्यो है तिहां सब जगे घनीकृत लोकनी सात रज्जुप्रमाण लंबी श्रेणी जाननी; एवं प्रतर पिण एह घनीकृत लोकनो स्वरूप अनुयोगद्वारनी वृत्तिथी लिख्या है.

१	१	१	१
१	१	१	१
१	१	१	१
१	१	१	१

प्रतररज्जुस्थापना

४	४	४	४
४	४	४	४
४	४	४	४
४	४	४	४

घनरज्जुस्थापना

१
१
१
१

सूचीरज्जुस्थापना

१

पंडुक

६४ पंडुकका एक 'घन-रज्जु' होता है. १६ पंडुकका एक 'प्रतर-रज्जु' होता है. ४ पंडुकका एक 'सूची-रज्जु' होता है. निश्चे लोकस्वरूप तो अनियत प्रमाण है. सो सर्वज्ञ गम्य है, परंतु स्थूल दृष्टिके वास्ते सर्व प्रदेशांकी घाटवाध एकठी करके एह स्वरूप लोकका जानना लोकनालिकावत्तीसीसे.

(१२०) अथ अर्धालोकमे नाम आदि नरकका स्वरूप चिंतवे तेहना यंत्रम्

नाम नरकका	नरक ७	घमा १	वंशा २	शैला ३	अंजना ४	अरिष्टा ५	मघा ६	माघ- वती ७
गोत्र सार्थक	” ”	रत्नप्रभा	शर्कराप्रभा	वालुका- प्रभा	पंकप्रभा	धूमप्रभा	तमप्रभा	तमत- मप्रभा
पृथ्वीपिंड	००० ०००	१,८०,०००	१,३२,०००	१,२८,०००	१,२०,०००	१,१८, ०००	१,१६, ०००	१,०८, ०००
घनोदधि	००० ०००	२०,०००	—	→	ए	व	म्	→
घनवात	००० ०००	असंख्य योजन	—	→	ए	व	म्	→
तनुवात	००० ०००	”	—	→	ए	व	म्	→
आकाश	००० ०००	”	—	→	ए	व	म्	→
वलय	००० ०००	१२ योजन	१२ १/२	१३ १/२	१४ योजन	१४ १/२	१५ १/२	१६ योजन
घनोदधि- वलय	००० ०००	६ ”	६ १/२	६ १/२	७ ”	७ १/२	७ १/२	८ योजन
घनवात- वलय	००० ०००	४॥ ”	४॥॥ योजन	५ यो०	५॥ ”	५॥ यो०	५॥॥ यो०	६ ”
तनुवात- वलय	००० ०००	१॥ ”	१ १/२	१ १/२	१॥॥ ”	१ १/२	१ १/२	२ ”
आकाश- वलय	००० ०००	अलोक	—	→	ए	व	म्	→
प्रतर	४२	१३	१२	९	७	५	३	१
शून्य पृथ्वी	००० ०००	१००० योजन	—	→	ए	व	म्	→
प्रतर अंतर	००० ०००	११५८३ १/२ भा गा	९,७००	१२,३७५	१६,१६६ १/२	२५,२५०	५२,५००	००० ०००
आवलि	००० ०००	८	८	८	८	८	८	४
नरकावास	८४,००,०००	३०० लाख	२५ लाख	१५ लाख	१० लाख	३ लाख	२९,९९५	५
दिशा विदिग्	०० ००	४९ ४८	३६ ३५	२५ २४	१६ १५	९ ८	४ ३	१ ०
प्रमाण	००० ०००	असंख्य संख्य	—	→	ए	व व	म् म्	→ →
उत्सेध	००० ०००	३,००० योजन	—	→	ए	व	म्	→

अथ (१२१) दशभवनपतियंत्रम्

भुवन-पतिनाम	असुर-कुमार	नाग	सुवर्ण	विद्युत्	अग्नि	द्वीप	उदधि	दिक्	पवन	स्तनित
विमान	३४ लाख	४४ लाख	३८ लाख	४० लाख	४० लाख	४० लाख	४० लाख	४० लाख	५० लाख	४० लाख
	३० "	४० "	३४ "	३६ "	३६ "	३६ "	३६ "	३६ "	४६ "	३६ "
विमान-परिमाण जघन्य	जम्बू-द्वीप			→	ए	व	म्			→
मध्यम	संख्य योजन			→	ए	व	म्			→
	असंख्य "			→	ए	व	म्			→
चिह्न	चूडा-मणि	फण	गरुड	वज्र	कलश	सिंह	अश्व	गज	मगर	वर्ध-मान
वर्ण	काला	पंडुर	कनक	अरुण	अरुण	अरुण	पंडुर	कनक	प्रियंगु	कनक
वस्त्र	राता	नीला	धवला	नीला	नीला	नीला	नीला	धवला	संध्या-वर्ण	धवला
इन्द्र	चमर	धरण	वेणुदेव	हरिकंत	अग्नि-सिंह	पूरण	जलकांत	अमित-गति	वेलंब	घोष
	वल	भूतानंद	वेनुदालि	हरिसिंह	अग्नि-मानव	विशिष्ट	जलप्रभ	अमित-वाहन	प्रभंजन	महा-घोष
सामानिक	६४,०००	६,०००			→	ए	व	म्		→
	६०,०००	६,०००			→	ए	व	म्		→
आत्म-रक्षक	२५६०००	२४,०००			→	ए	व	म्		→
	२४००००	२४,०००			→	ए	व	म्		→
त्राय-स्त्रिश	३३			→	ए	व	म्			→
अणिका	७			→	ए	व	म्			→
लोक-पाल	४			→	ए	व	म्			→
अन्न-महिषी	५	६			→	ए	व	म्		→
	५				→	ए	व	म्		→
परिषद्	३			→	ए	व	म्		→	

अथ (१२२) व्यंतर २८ का यंत्र तिर्यग् लोके चिंतवे

व्यंतरनाम	पिशाच	भूत	यक्ष	राक्षस	किन्नर	किंपुर- (रुप)	महोरग	गान्धर्व
नगरसंख्या	असंख्य	—	→	ए	व	म्	—	→
नगरपरि- माण	जंबूद्वीप	—	→	ए	व	म्	—	→
मध्यम	विदेह	—	→	ए	व	म्	—	→
जघन्य	भरतक्षेत्र	—	→	ए	व	म्	—	→
चिह्न	कलंब	सुलस	वड वृक्ष	पडग	अशोक	चंपग	नाग	तुंबह
वर्ण	श्याम	श्याम	श्याम	धवल	नील	धवल	श्याम	श्याम
इ न्द्र	काल	सरूप	पूर्णभद्र	भीम	किन्नर	सत्पुरुष	अति- काय	गीतरति
	महाकाल	प्रतिरूप	मणिभद्र	महाभीम	किंपुरुष	महापुर- (रुप)	महा- काय	गीतयश
सामानिक	४०००	—	→	ए	व	म्	—	→
आत्मरक्षक	१६,०००	—	→	ए	व	म्	—	→
अनीक	७	—	→	ए	व	म्	—	→
अग्रमहिषी	४	—	→	ए	व	म्	—	→
परिषद्	३	—	→	ए	व	म्	—	→
व्यंतर लघु	अणपत्नी	पणपत्नी	इसिवाइ	भूयवाइ	कंदिय	महा- कंदिय	कुहुंड	पयगदेव
इ न्द्र	संनिहिय १	धाइ ३	इसि ५	ईसरप ७	सुवत्स ९	हास्य ११	श्वेत १३	पयंग १५
	समाणि २	विधाइ ४	इसिपाल ६	महेष ८	सुविशाल १०	हास्य- रति १२	महा- श्वेत १४	पयगे १६

(१२३) ज्योतिषचक्रस्वरूप चिंतवे यंत्रम्

ज्योतिषचक्र आवाधा	मेरुथी ११२१ योजन	अलोकथी ११११ योजन
अवधा मेरु पर्वत थी	चंद्र चंद्रके ४४८२० योजन	सूर्य सूर्यके ४४८२० योजन
जंबूद्वीपप्रवेश	१८० योजन	१८० योजन
लवणप्रवेश	३३० योजन ५६६१ भाग	३३० योजन ४८ भा. ६१
मंडलक्षेत्र	५१० योजन ५६६१ भा.	५१० योजन ४८ भा. ६१
मंडलसंख्या	१५	१८४
पंक्ति	२	२
मंडलांतर	चंद्र ३५ योजन, ३० भा., चूर्णि ४ भाग	सूर्यके २ योजन
जंबूद्वीपे चन्द्रसूर्यसङ्ख्या	२	२

(१२४)

ज्योतिषी	ज्योतिषचक्र	चंद्र	सूर्य	ग्रह	नक्षत्र	तारक
समभूतलथी	७९० योजन	८८० योजन	८०० योजन	८८८ योजन	८८४ योजन	७९० योजन
विष्कंभ	१ रज्जु	५६६१	४८६१	११२	११४	११८
उच्चत्व	११०	२८६१	२४६१	११४	११८	११६
अं- त- र	जघन्य	९९६४०	९९६४०	३	२	२६६ यो. ५०० घ.
	उत्कृष्ट	१००६६०	१००६६०	"	"	१२२४२ यो ४०० घ.
गति	००	१ मंद	२ शीघ्र	३ शीघ्र	४ शीघ्र	५ शीघ्र
ऋद्धि	००	५ महा	४ महा	३ महा	२ महा	१ अल्प
विमानवाहक	००	१६,०००	१६,०००	८,०००	४,०००	२,०००
अल्पबहुत्व	००	१ स्तोक	१ स्तोक	३ संख्येय	२ संख्येय	४ संख्येय

(१२५)

	योजन	धनुष	अंगुल	यव	जूका	लीप
अंदरले मांडलेकी परिधि	३,१५,०८९	२,७६८	४५॥	०	०	०
अंदरले मांडलेकी चक्षुस्पर्श	४७,२६३	३,२१५	२६	०	४	०
अभ्यंतरलेकी चाल	५,२५१	३,९१२	७७	४	४	०
चक्षुस्पर्शका घटावना वधावना	८३	३,६०७	४१	७	२	१
मुहूर्तकी चाल घटावना वधावना	०	२,३५०	१०	२	७	३॥

	योजन	घनुष	अंगुल	यव	जूका	लीप
परिधिका घटावना वधावना	१७	५,००६	४६	०	०	०
बाहिरले मांडलेकी परिधि	३,१८,३१४	६,९५४	१५॥	०	०	०
बाहिरले मांडलेकी चाल मुहूर्तमे	५,३०५	१,९८२	५४	५	॥	०
बाहिरले मांडलेकी चक्षुस्पर्श	३१,८३१	३,८९५	३९	६	३	०

(१२६)

संख्या	जंबूद्वीप	लवण	धातकी	कालोदधि	पुष्कर	द्वीपो- दधि	श्रेणयः	चंद्र सूर्य
चंद्र, सूर्य	२	४	१२	४२	७२	जंबू	१	२
नक्षत्राणि	५६	११२	३३६	१,१७६	२,०१६	लवण	२	४
ग्रहा	१७६	३५२	१,०५५	३,६९६	६,३३६	धातकी	६	१२
तारका	१,३३,९५०	२,६७,९००	८,०३,७००	२,८२,९५०	४८,२२,२७०	कालो- दधि	२१	४२
कोडाकोडि संज्ञा(ख्या) सब जगे जाननी ताराकी						पुष्कर	३६	७२


कर्कसंक्रान्ति ने प्रथम दिन सर्व अभ्यंतर मंडल सूर्यना तापक्षेत्र स्थापना सर्वत्र यंत्र. ते दिन मान १८ मुहूर्त, रात्रिमान १२ मुहूर्त, मेरु थकी ४५,००० योजन जगती हे अने लवण समुद्र माहि ३३,३३३ योजन अने एक योजनका तीजा भाग अधिक एतले बेहु मिलीने ७८,३३३ योजन एक योजनका तीजा भाग अधिक इतना तापक्षेत्र है लांबा अने अंधकार-क्षेत्रनी अभ्यंतरकी बाह मेरु पास ६३,२४५ योजन, एक योजनका दसीया षड् भाग ६ जानने. बाहिरली बाह ६३,२४५ योजन, एक योजनना दसीया ६ भाग; तापक्षेत्रनी अंतर बाह ९४८६ योजन, एक योजनना दसीया ९ भाग; बाहिरली बाह ९४,०६८ योजन, एक योजनका दसीया ९ भाग है; इम अभ्यंतरले मांडले थकी बाहिर जाता हूया ताप क्षेत्र घटे, अंधकार वधे. शनि ९००, मंगल ८९७, बृहस्पति ८९४, शुक्र ८९१, बुध ८८८—ग्रह उच्चल.

(१२७)

०	महाकलश	लघुकलश	०
संख्या	४	७,८८४	कलश
वलयसंख्या	एक वलय	९ वलय	वलय
विष्कंभ	१०,०००	१००	मुख
"	१ लाख योजन	१,०००	मध्य
"	१०,०००	१००	तले
ठीकरी	१,०००	१०	जाडी
त्रिभाग	जल	जल	उपरि
"	जल १, वायु २	जल १, वायु २	मध्य
"	वायु	वायु	तले

१ आ यंत्रतुं स्थान १२८ मा यंत्रनी बराबर उपर ले; परंतु १८९ मा पृष्ठ गत चित्रने अहीं स्थलसंकोचने लीधे स्थान नहि आपी शकावाथी आनो अहीं निर्देश करायो छे.

भूतले मेरुपरिधि २१,६२३, भूतले मेरुविष्कंभ १०,०००, मेरु उपरि विष्कंभ १०००, मेरु उपरि परिधि ३१६२, मेरु मूलविष्कंभ १००९० $\frac{१}{११}$, मेरु मूलपरिधि ३१९१० $\frac{३}{११}$. एक सहस्र योजनप्रमाण मेरुका प्रथमकांड जानना, ६३ सहस्र योजनका द्वितीय कांड, ३६ सहस्र योजनप्रमाण तीजा कांड. भद्रशालथी ५०० योजन उंचा नंदन वन है. नन्दनवनस्य परिधि ३१, ४७९, नन्दनवनमध्ये परिधि (?), नन्दनवनस्य विष्कंभ ९९५४ $\frac{६}{११}$, नन्दनवनमध्ये विष्कंभ ८९५४ $\frac{६}{११}$, सौमनसवनस्य परिधि १३५११ $\frac{६}{११}$, सौमनसवनमध्ये परिधि १०३४९ $\frac{३}{११}$, सौमनसवनस्य विष्कंभ ४२७२ $\frac{६}{११}$, सौमनसवनमध्ये विष्कंभ ३२७२ $\frac{६}{११}$, चूलकके मूलथी ४९४ योजन वलयकारे विष्कंभ पंडग वन- (का) है. जिनप्रसाद अर्ध कोश पृथुत्व, कोश लांबा, १४४० धनुष उच्चत्व. पंडग वनमे चार शिला ५०० योजनकी लांबी, २०० योजन पिहुली ४ योजनकी उंची है. अर्धचन्द्राकारे श्वेत सुवर्णमयी शिलाना मानथी आठ सहस्रमे भागे सिंहासनका प्रमाण जानना. पूर्व पश्चिमकी शिला उपरि दो दो सिंहासन है अने दक्षिण, उत्तरकी शिला उपरि एकेक सिंहासन है. इन शिलां उपरि भगवानका जन्ममहोत्सव इन्द्र करते है.



(१२८) हैमवंत १ शिखरीकी दाढा चार, चार, तिस उपरि सात सात अंतरद्वीप.

०	१	२	३	४	५	६	७
जगती परस्पर अंतर	३००	४००	५००	६००	७००	८००	९००
विष्कंभ	"	"	"	"	"	"	"
परिधि	९४९ यो०	१२५८ यो०	१५८१ यो०	१८९७ यो०	२२१३ यो०	२५२९ यो०	२८४५ यो०
जल उपरि	२॥ २ ९५	२॥ ९० ९५	३ ६५ ९५	४ ४० ९५	५ १५ ९५	५ ८५ ९५	६ अभ्यं- ६० तर ९५
योजन २	२ योजन	→	ए	व	म्	→	बाहा

(१२९)

०	बेलंधर	अनुबेलंधर	०
संख्या	४	४	०
दिग्	दिग् ४	दिग् ४	०
समुद्रमे जाय	४२,०००	४२,०००	०
विष्कंभ	४२४	४२४	शिखर
०	१,०२२	१,०२२	०
०	१,७२१	१,७२१	०
दिसें	९६,९४,०९५	९६,९४,०९५	ज० दिसा
	९६,९७,७९५	९६,९७,७९५	" "

नन्दीश्वरद्वीपे यतः अञ्जनगिरिवृत्तस्यामः (?) वापीमध्ये दधिमुखाः वृत्ताः श्वेताः, वाप्यन्तरे द्वौ द्वौ रतिकरौ अस्तौ (स्तः ?) एवं अष्टौ रतिकराः, चत्वारो दधिमुखाः, एकोऽञ्जनगिरिः, एवं एकाभ्यां(कस्यां?) दिशि त्रयोदश पर्वताः स्युः, चतुर्दशौ(क्षु) च द्विपञ्चाशदिति विदिक्षु च इन्द्राणीनां राजधानी (?) सन्ति नन्दीश्वरे. अग्रे सर्वाणां स्थाना(नि) चित्रात् ज्ञेयं (ज्ञेयानि).

(१३०) नन्दीश्वरद्वीपयंत्रम् स्थानांगचतुर्थस्थानात्

१	नामानि	आयाम	विष्कंभ	परिधि	उंचा	अधः	संस्थान
२	अंजनगिरि	०	१०,००० मू १०,००० उपर	यथायोग्य	८४ सहस्र योजन	१००० यो.	गोपुच्छ
३	वापी	एक लाख योजन	५०,००० योजन	०	०	" "	आयाम
४	दधिमुख	०	१०,००० "	यथायोग्य	६४ सहस्र योजन		पल्लक
५	रतिकर	०	" "	"	१००० योजन	२५० योजन	
६	राजधानी	०	जंबूद्वीप	जंबूद्वीप	०	०	चंद्र

(१३१) अथ ऊर्ध्वलोके स्वरूपचिंतनयंत्र. प्रथम बारदेवलोके देवता

देवलोक- नामानि	सौधर्म १	ईशान २	सनत्कु- मार ३	माहेन्द्र ४	ब्रह्म ५	लान्तिक ६	शुक ७	सहस्रार ८	आनत ९ प्राणत १०	आरण ११ अच्युत १२
संस्थान	अर्ध चंद्र	अर्ध चंद्र	अर्ध चंद्र	अर्ध चंद्र	पूर्ण चंद्र	पूर्ण चंद्र	पूर्ण चंद्र	पूर्ण चंद्र	अर्ध चंद्र	अर्ध चंद्र
आधार	घनोदधि	घनोदधि	घनवात	घनवात	घनवात	२	२	२	आकाश	आका- श

विमान-सङ्ख्या	३२ लाख	२८ लाख	१२ लाख	८ लाख	४ लाख	५० सहस्र	४० सहस्र	६ सहस्र	४००	३००
पृथ्वी-पिंड	२७००	२७००	२६००	२६००	२५००	२५००	२४००	२४००	२३००	२३००
विमान-उच्चत्व	५०० यो.	५०० यो.	६०० यो.	६०० यो.	७०० यो.	७०० यो.	८०० यो.	८०० यो.	९०० यो.	९०० यो.
विष्कंभ	संख्येय			→	ए	व	म्			→
विमान	असंख्य			→	ए	व	म्			→
विमान-वर्ण	५	५	४	४	३	३	२	२	१	१
प्रतर	६२	१३		१२	६	५	४	४	४	४
आवलि	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४
चिह्न	मृग	महिष	वराह	सिंह	व्याघ्र	शालूर	हय	गज	भुजंग शशी	वृषभ विडाल
शरीर-वर्ण	कनक	कनक	पद्म	पद्म	पद्म	श्वेत	श्वेत	श्वेत	श्वेत	श्वेत
यान विमान	पालक	पुष्कर								
इन्द्र	सुधर्म	ईशान	सनत्कुमार	माहेन्द्र	ब्रह्म	शुक	लान्तिक	सहस्रार	प्राणत	अच्युत
सामानिक	८४,०००	८०,०००	७२,०००	७०,०००	६०,०००	५०,०००	४०,०००	३०,०००	२०,०००	१०,०००
आत्म-रक्षक	४ गुणा			→	ए	व	म्			→
प्राय-स्त्रिश	३३			→	ए	व	म्			→
लोक-पाल	४			→	ए	व	म्			→
अनीक	७			→	ए	व	म्			→
देवी अग्र-महिषी	८	८	०	०	०	०	०	०	०	०
परिषद्	३			→	ए	व	म्			→
कंदर्प किल्बिषिक आभियोगिक	३	२	२	२	२	२	१	१	१	१

सौधर्म देवलोक अपरिगृहीत देवीना विमान ६ लाख, ते किणि किणि देव-
लोकि भोग आवे ते (१३२) यंत्रम्

सनत्कुमार	पल्योपम १०	स्पर्शभोगी
ब्रह्म	” २०	रूप देखी भोगवे
महाशुक	” ३०	शब्द सांभळी भोगवे
आनत	” ४०	मन करी विकार करी
आरण	” ५०	मनई चितवी

(१३३) ईशान देवलोके अपरिगृहीत देवीना विमान ४, ते किस किसके ?


माहेन्द्र	पल्योपम १५	स्पर्शभोगी
लान्तक	” २५	रूप देखी
सहस्रार	” ३५	शब्दभोगी
प्राणत	” ४५	मनि विकार करी
अच्युत	” ५५	मन चितवी भोगवे

(१३४) अथ ९ ग्रैवेयक, ५ अनुत्तरविमानयंत्रम्

	हेठत्रिक	मध्यत्रिक	उपरत्रिक	४ अनुत्तर	सर्वार्थसिद्ध
संस्थान	पूर्ण चंद्र	पूर्ण चंद्र	पूर्ण चंद्र	अंस	वृत्त
विमान-संख्या	१११	१०७	१००	४	१
पृथ्वीपिंड	२,२००	२,२००	२,२००	२,१००	२,१००
विमान-उच्चत्व	१,०००	१,०००	१,०००	१,१००	१,१००
विष्कंभ	संख्य असंख्य	संख्य असंख्य	संख्य असंख्य	असंख्य	संख्य
प्रतर	३	३	३	१	०
पदवी	अहमिन्द्र	अहमिन्द्र	अहमिन्द्र	अहमिन्द्र	अहमिन्द्र

(१) उडु प्रतर, (२) चंद्र प्र०, (३) रजत प्र०, (४) वालू प्र०, (५) वीर्य प्र०, (६) वारुण प्र०, (७) आनंद प्र०, (८) ब्रह्म प्र०, (९) कांचन प्र०, (१०) रुचिर प्र०, (११) चंद्र प्र०, (१२) अरुण प्र०, (१३) दिशि प्र०, (१४) वैदूर्य प्र०, (१५) रुचक प्र०, (१६) रुचक (?) प्र०, (१७) अंक प्र०, (१८) मेघ प्र०, (१९) स्फटिक प्र०, (२०) तपनीय प्र०, (२१) अर्ध प्र०, (२२) हरि प्र०, (२३) नलिन प्र०, (२४) सोहिता प्र०, (२५) वज्र प्र०, (२६) अंजन प्र०, (२७) (?), (२८) ब्रह्माष्प प्र०, (२९) हव प्र०, (३०) सौम्य प्र०, (३१) लांगल प्र० प्र०, (३२) बलभद्र प्र०, (३३) वक्र प्र०, (३४) गदा प्र०, (३५) स्वस्तिक प्र०, (३६) व्यर्वत (?) प्र०, (३७) आरंभ प्र०, (३८) गृद्धि प्र०, (३९) केतु प्र०, (४०) गरुड प्र०, (४१) ब्रह्मि


जैसे चंद्रमाके १५ मांडले लिखे हे ऐसेही
 १८४ सूर्यके मांडले जानने ॥
 कर्क संक्रांति रात्रि स्थापना
 अभ्यंतर मांडले जब सूर्यहीने
 तदा भवति




कर्क संक्रांति दिन स्थापना संस्थान मेरु-
 थी लेइने लवण समुद्र ताइ योजन
 ७९३३३ एक योजना तिजा भाग
 अधिक इतना लंबान दिनना ॥

१८८ मा पृष्ठगत
 १२९ मा पंचमी नीचे आनु स्थान छे.

कर्क संक्रांतिने प्रथम दिन सर्व अभ्यंतर मंगल सूर्यना ताप क्षेत्र स्थापना सर्वत्र यंत्र.



अनुसंधान माटे जुओ
 १८८ मा पृष्ठगत
 १२७ मा पंचमी उपरनी भाग.



आना अनुसंधान माटे जुओ
१८८ मा पृष्ठगत १२० मु यंत्र



अनुसंधान माटे जुओ
पृष्ठ-१९०

प्र०, (४२) ब्रह्म प्र०, (४३) ब्रह्मोत्तर प्र०, (४४) लांतक प्र०, (४५) महाशुक्र प्र०, (४६) सहस्रार प्र०, (४७) आनत प्र०, (४८) प्राणत प्र०, (४९) पुष्प प्र०, (५०) अलका प्र०, (५१) आरण प्र०, (५२) अरुण प्र०, (५३) सुदर्शन प्र०, (५४) सुप्रबद्ध प्र०, (५५) मनोहर प्र०, (५६) सर्वतो प्र०, (५७) विशाल प्र०, (५८) सुमनस प्र०, (५९) सौमनस प्र०, (६०) ग्रीतिकर प्र०, (६१) आदित्य प्र०, (६२) सर्वतोभद्र प्र० इति ६२ प्रतरनामानि.

अथ ध्यानसामाप्ती (?) सर्वैश्या ३१ सा—

पूज जो खमाश्रमण जिनभद्र गणि विभु दूषण अंधारे बीच दीप जो कहायो है सत सात अधिक जो गाथाबद्धरूप करी ध्यानको सरूप भरी सतक सुहायो है टीका नीका सुषजीका भेदने प्रभेद धीका तुच्छ मति भये नीका पठन करायो है लेसरूप भाव धरी छंद बंध रूप करी आतम आनंद भरी वा लष्या लगायो है ॥ १ ॥

इति श्रीजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणविरचितध्यानशतकात्.

(१३५) असज्जाह स्थानांग, निसी[ह]थ, प्रवचनसारोद्धार (द्वा. २६८) थकी

१	उत्कापात तारा डूटे उजाला हुइ रेखा पडे आकाशमे	क्षेत्र जिस मंडलमे	निवर्त्या पीछे १ प्रहर सूत्र न पडे
२	कणगते कहीये जिहां रेखा हुइ उजाला नही	" " "	" " " " " " "
३	दिग्दाह दसो दिसा अग्निवत् राती होइ	" " "	" " " " " " "
४	आकाशे गंधर्वनगर देवताना कीधा दीसे	" " "	" " " " " " "
५	आकाशथी सूक्ष्म रज पडे	" " "	जा लग पडे ता लगे
६	मांसरुधिरवृष्टि	" " "	१ अहोरात्र निवर्त्या पीछे
७	केस १ पाषाणवृष्टि	" " "	निवर्त्या पछे सूझे
८	अकाल गर्जे	" " "	२ पहर
९	" बीजळी	" " "	१ "
१०	आसो सुदि ५ ना दो पहरथी लेकर कार्तिक वदि १	सब जगे	११ दिन असज्जाह
११	आषाढ चौमासी पडिकमणाथी श्रावण वदि	" "	२, २॥ दिन
१२	एवं कार्तिक चौमासी	" "	२, २॥ दिन असज्जाह
१३	एवं चैत्र सुदि ५ थी वैशाख वदि पडवा लगे	" "	११ " "
१४	राजाना युद्ध	जिस मंडले	निवर्त्या पछे सूझे
१५	म्लेच्छने भये	" "	" " "

१६	उपाश्रय ढूकडा स्त्री पुरुष शूझे मल्लयुद्धे	उपाश्रय ढूकडा	निवर्त्या पडे सूझे
१७	होली पर्वे रज उडे	जिस जगे	" " "
१८	निर्घात वादले अथवा अणवादले शब्द कडकड होवे	" मंडले	१ प्रहर
१९	जूव० शुक्ल पक्षनी पडिवासे ३ दिन	सब जगे	१ प्रहर रात्रि
२०	जकखालिए आकोशे अग्निपक्षप्रभावे	जिस मंडले	१ प्रहर
२१	कावी धौली धूयर गर्भमासे	" जगे	जा लग पडे तां लग सर्व क्रिया न करे
२२	पंचेन्द्रिय तिर्यचना हाड, मांस, लोही, चाम	६० हाथ दूर नही	३ प्रहर
२३	मांजारी मुसा आदि मारे उपाश्रये तथा ले जावे	उपाश्रय अभ्यंतर	१ अहोरात्रि
२४	मनुष्याना हाड, मांस, लोही, चाम	१०० हाथ उरे	" "
२५	स्त्रीधर्मनी	उपाश्रयमे	३ दिन
२६	स्त्रीजन्मनी		८ "
२७	पुरुषजन्मनी		७ "
२८	हाड पुरुषथी अलग कीया	१००० हाथ माहे	१२ वर्ष लगे
२९	मलमूत्र	जा लग दीपे गंध आवे	तब लगे
३०	मसाणना समीपे	१००० हाथ चौफेरे	सदा
३१	राजाके पडणे	जहां ताइ आज्ञा	नवा राजा न बैठे
३२	गाममे असमंजस प्रवर्ते न भांजे तो	जिस मंडले	८ प्रहर
३३	सात घरमे कोइ प्रसिद्ध पुरुष मरे	" गामे	१ अहोरात्रि
३४	तथा सामान्य पुरुष सात घरांतरे मरे	" "	कलेवर काढ्या पीठे सूझे
३५	इंडा पू(फू)टे गाय वियाइ जर पडे	" जगे	१ प्रहर
३६	भूमी कंपे	" "	८ "
३७	बुदबुदा रहित तथा सहित वर्षे	" "	अहोरात्रि उपरांत असज्झाइ
३८	नान्ही फुंवारि निरंतर वर्षे	" मंडले	७ दिन " "
३९	पक्षीनी रात्रि	सब जगे	४ प्रहर असज्झाइ
४०	प्रभात १, मध्याह्न २, अस्त ३, अर्ध रात्रि ४	" "	२ घटी
४१	आसो १ कार्तिक २, चैत्र ३, आषाढ ४ पूर्णमासी	" "	१ अहोरात्रि

४२	कार्तिक १ मागसर २ वैशाख ३, श्रावण ४ वदी पडिवा	" "	८ प्रहर
४३	चंद्रग्रहणे	" "	" " १२ "
४४	सूर्यग्रहणे	" "	१६ " १२ " ४ "

चंद्रग्रहणे ऊगतो ग्रसो ग्रसो ज आप्रम्यो तदा ४ प्र हर दिन रात्री १ अहोरात्र आगे, एवं १२; रात्रिने छेहडे ग्रसा तदा ८ पहर आगले, एवं ८ वीचमे मध्यम; तथा सूर्यो ऊगता ग्रसो ग्रसो ज आथम्यो तो ४ प्रहर दिनना, ४ रात्रिरा अने एक अहोरात्रि आगे, एवं १६; आथमतो ग्रहे १२ प्रहर, दिने ग्रहो दिने छूटा तो रात्रिना ४ प्रहर, एवं ४.

इति 'निर्जरा' तत्त्वसंपूर्णम् ॥



अथ अप्रै 'बन्ध' तत्त्व लिख्यते. प्रथम सर्वबंध देशबंधनो स्वरूप लिखीये हे ते यंत्रात् ज्ञेयम्,
(१३६) औदारिक शरीरना सर्वबंध, देशबंधनी स्थिति

१	सर्वबन्ध- स्थिति	देशबन्धस्थिति
समुच्चय औदारिक शरीरना प्रयोगबंधनी स्थिति	१ समय	जघन्य १ समय, उत्कृष्ट एक समय ऊणा तीन पल्योपम
एकेन्द्रिय औदारिक	" "	ज० १ समय, उ० एक समय ऊणा २२,००० वर्ष
पृथ्वीना "	" "	ज० ३ समय ऊणा क्षुल्लक भव, उ० १ समय ऊणा २२,००० वर्ष.
अपू, तेजस्काय, वनस्पति, बेइंद्री, तेइंद्री, चौरिंद्री औदारिक	" "	ज० ३ समय ऊणा क्षुल्लक भव, उ० जिसकी जितनी स्थिति है उत्कृष्टी सो १ समय ऊणी कहणी.
वायु औदारिक शरीर प्रयोग बंध	" "	ज० १ समय, उ० १ समय ऊणा ३,००० वर्ष ज्ञेयम्
तिर्यंच पंचेंद्री मनुष्य औदारिक शरीर	" "	ज० १ समय, उ० ३ समय ऊणे ३ पल्योपम

एह औदारिकना देशबंध, सर्वबंधनी स्थिति.

(१३७) औदारिक शरीरके सर्वबंध, देशबंधका अंतरा

२	सर्वबंधका अंतरा	देशबंधका अंतरा
समुच्चय औदारिक	ज० ३ समय ऊणा क्षुल्लक भव १, उ० ३३ सागर पूर्व कोड १समय अधिक	ज० १ समय, उ० ३ समय अधिक ३३ सागर
समुच्चय एकेन्द्रिय औदारिक	ज० ३ समय ऊणा क्षुल्लक भव १, उ० १ समय अधिक २२, ००० वर्ष	ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त १

पृथ्वीके औदारिकका	ज० ३ समय ऊणा क्षुल्लक भव १, उ० १ समय अधिक २२, ००० वर्ष	ज० १ समय, उ० ३ समय
अप्, तेउ, वणस्सइ, बेइंद्री, तेइंद्री, चौरिंद्री	ज० ३ समय ऊणा क्षुल्लक भव १, उ० १ समय अधिक जिसकी जितनी स्थिति	ज० १ समय, उ० ३ समय
वायु औदारिक	ज० २ समय ऊणा क्षुल्लक भव, उ० समय अधिक ३,००० वर्ष	ज० १ समय, उ० अंतर्मुहूर्त
पंचेन्द्रिय तिर्यच, मनुष्य	ज० ३ समय ऊणा क्षुल्लक भव, उ० पूर्व कोड १ समय अधिक	ज० १ समय, उ० १ अंतर्मुहूर्त

जीव एकेन्द्रियपणा छोडी नोएकेन्द्रिय हुया फेर एकेन्द्रिय होय तो सर्वबंध, देशबंधना कितना अंतर ए (१३८) यंत्रम्

३	सर्वबन्धान्तरम्	देशबन्धान्तरम्
एकेन्द्रिय नोएकेन्द्रिय फेर एकेन्द्रिय हुया	ज० ३ समय ऊणा २ क्षुल्लक भव, उ० २,००० सागर संख्याते वर्ष अधिक	ज० १ समय अधिक १ क्षुल्लक भव, उ० २,००० सागर संख्याते वर्ष अधिक
पृथ्वी, अप्, तेउ, वाउ, बेइंद्री, तेइंद्री, चौरिंद्री, तिर्यच पंचेद्री, मनुष्य	ज० ३ समय ऊणा २ क्षुल्लक भव, उ० वनस्पतिकाल असंख्य पुद्गलपरावर्त	ज० १ समय अधिक १ क्षुल्लक भव, उ० वनस्पतिकाल असंख्य पुद्गलपरावर्त
वनस्पति	ज० ३ समय ऊणा २ क्षुल्लक भव, उ० असंख्याती अवसर्पिणी उत्सर्पिणी	ज० १ समय अधिक १ क्षुल्लक भव १, उ० असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी

(१३९) औदारिक शरीरके सर्वबंध, देशबंध, अबंधककी अल्पबहुत्व

देशबंध	सर्वबंध	अबंधक
असंख्य गुणा ३	सर्वसे स्तोक १	विशेषाधिक २

ए औदारिकका यंत्र चौथा इति औदारिक.

(१४०) वैक्रिय शरीरके सर्वबंध, देशबंधनी स्थिति

१	सर्वबंधनी स्थिति	देशबंधनी स्थिति
समुच्चय वैक्रिय	ज० १ समय, उ० २ समय	ज० १ समय, उ० १ समय ऊणा ३३ सागर
वायु वैक्रिय	ज० १ समय	ज० १ समय, उ० १ अंतर्मुहूर्त
रत्नप्रभा वैक्रिय	" " "	ज० ३ समय ऊणा १०, ००० वर्ष, उ० १ समय ऊणा १ सागर
शेष ६ नरक, भवनपति १०, व्यंतर, जोतिपी, वैमानिक	" " "	ज० ३ समय ऊणी जेहनी जितनी जघन्य स्थिति कहनी, उ० उत्कृष्टी स्थितिमे १ समय ऊणी कहनी
तिर्यंच पंचेन्द्रिय, मनुष्य	" " "	ज० समय, उ० १ अंतर्मुहूर्त

(१४१) वैक्रियशरीरप्रयोगबन्धान्तरम्

२	सर्वबन्धान्तरम्	देशबन्धान्तरम्
ओघवैक्रिय	ज० १ समय, उ० वनस्पतिकाल	ज० १ समय, उ० वनस्पतिकाल
वायु वैक्रिय	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० पल्योपमनो असंख्यातमो भाग	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० पल्योपमनो असंख्यातमो भाग
पंचेन्द्रिय तिर्यंच, मनुष्य	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० पृथक् पूर्व कोड	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० पृथक् पूर्व कोड

(१४२) जीव हे भगव(न्) वायुकाय हुइने नोवायुकाय हुया फेर वायुकाय हुइ तो अंतरयत्रम्

३	सर्वबन्धान्तर	देशबन्धान्तर
वायु, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, मनुष्य	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० वनस्पतिकाल	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० वनस्पति- काल

वायु, मनुष्य, तिर्यंच पंचेन्द्रिय वैक्रिययत्रम् (१४३)

रत्नप्रभा पुनरपि रत्नप्रभा	ज० अंतर्मुहूर्त अधिक १०,००० वर्ष, उ० वनस्पतिकाल	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० वनस्पतिकाल
शेष ६ नरक, भवनपति आदि यावत् सहस्रार	ज० अंतर्मुहूर्त अधिक जिसकी जितनी जघन्य स्थिति, उ० वनस्पतिकाल	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० वनस्पतिकाल
आनतसे त्रैवेयक पर्यंत	ज० पृथक् वर्ष अधिक जेहनी जितनी जघन्य स्थिति, उ० वनस्पतिकाल	ज० पृथक् वर्ष, उ० वनस्पतिकाल
४ अनुत्तर वैमानिक	ज० पृथक् वर्ष अधिक ३१ सागर, उ० संख्याते सागर	ज० पृथक् वर्ष अधिक, उ० संख्याते सागर

(१४४) वैक्रियना सर्वबंधादि संबंधी अल्पबहुत्व

अल्पबहुत्व	देशबंध	सर्वबंध	अबंधक
०	असंख्यगुणा २	१ स्तोक	अनंतगुणा ३

इति वैक्रिययत्रचतुष्टयम्.

(१४५) आहारक शरीरना प्रयोगबंधनी स्थिति

१	सर्वबन्धस्थिति	देशबन्धस्थिति
आहारक मनुष्य	ज० १ समय	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० अंतर्मुहूर्त

(१४६) अंतर

२	सर्वबन्धान्तर	देशबन्धान्तर
आहारक अंतर	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० देश ऊन अर्ध पुद्गलपरावर्त	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० देश ऊन अर्ध पुद्गलपरावर्त

(१४७) अल्पबहुत्व सर्व० देश० अबन्ध

आहारककी अल्पबहुत्व	देशबन्ध	सर्वबन्ध	अबन्धक
	संख्यात गुणे २	सर्व स्तोक १	अनंत गुणे ३

इति आहारकयंत्र तीन.

(१४८) (तैजस शरीर)

१	देशबन्धस्थिति	
तैजस शरीर	अनादि अपर्यवसित, अनादिसपर्यवसित	
२	देशबन्धान्तर	
तैजस	दोनाका अंतर नहीं	
३	देशबन्ध	अबन्धक
तैजस शरीर	अनंत गुणा २	सर्व स्तोक १
अल्पबहुत्व	०	

(१४९) (कार्मण शरीर)

१	देशबन्धस्थिति	
कार्मणशरीरस्थिति	अनादि अपर्यवसित, अनादि सपर्यवसित	
२	देशबन्धान्तर	
कार्मण	दोनाका अंतर नहीं	
३	देशबन्ध	अबन्धक
कर्म ७	अनंत गुणा २	सर्व स्तोक १
अल्पबहुत्व		
आयु अल्पबहुत्व	१ स्तोक	संख्यात गुणा २

(१५०) आपसमे नियम भजनेका यत्र

१	औदारिका २	वैक्रिय २	आहारक २	तैजस १	कार्मण १
औदारिक सर्वे देश ३	०	नथी	नथी	भजना	भजना
वैक्रिय सर्वे १, देश २	नथी	०	”	”	”
आहारक सर्वे १, देश २	”	नथी	०	”	”
तैजस देशबन्ध १	नियमा	नियमा	नियमा	०	”
कार्मण देशबन्ध १	”	”	”	नियमा	०

(१५१) अल्पबहुत्वयन्त्रम्

अल्पबहुत्व	देशबन्ध	सर्वेबन्ध	अबन्धक
औदारिक	असंख्य ८	अनंत ६	विशे० ७
वैक्रिय	” ४	असंख्य ३	” १०
आहारक	संख्यात २	स्तोक १	” ११
तैजस	विशे० ९	०	अनंत ५
कार्मण	तुष्य ”	०	तुष्य ”

तेरह बोलकी अल्पबहुत्व संपूर्ण

(१५२) आपआपनी अल्पबहुत्व

औदारिक	१ स्तोक	३ असंख्य	२ विशे०
वैक्रिय	” ”	२ ”	३ अनंत
आहारक	” ”	२ संख्येय	” असंख्य
तैजस	०	” अनंत	१ स्तोक
कार्मण	०	” ”	” ”
आयुर्कर्म	०	१ स्तोक	२ संख्येय

इति श्रीभगवत्यां सर्वबन्ध देशबन्ध अधिकार शते ८, उ० ९ और विशेष स्वरूप टीकासे जानना. किस वास्ते ? थोडे घणे है टीकामे स्वरूप कथन कीया है.

“जीवा १ य लेस्स २ पकखी ३ दिट्टी ४ अन्नाण ५ नाण ६ सन्नाओ ७ ।

वेद ८ कसाय ९ उवओग १० जोग ११ एगारस जीवट्टाणा ॥ १ ॥”

माथा है भगवती श० २६ (उ० १).

१ छाया—जीवाश्च लेइयाः पक्षी दृष्टिरज्ञानज्ञानसञ्ज्ञाः ।

वेदः कषाय उपयोगो योग एकादश जीवस्थानानि ॥

बंधी बंधइ बंधिस्सइ १, बंधी बंधइ न बंधिस्सइ २, बंधी न बंधइ बंधिस्सइ ३, बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ ४, ए च्यार भांगा जान लेना.

(१५३) (पापकर्मादि आश्री भंग)

जीव मनुष्य १, २, ३, ४	पापकर्म १ ज्ञानावरणी २ दर्शनावरणी ३ मोहनीय ४ नाम ५ गोत्र ६ अंतराय आश्री
१ ३ २ ४ भंग	सलेसी १, शुक्लेशी २, शुक्लपक्षी ३, सम्यग्दृष्टि ४, सज्ञान आदि जाव मनःपर्यव- ज्ञानी ९, नोसंज्ञोपयुक्त १०, अवेदी ११, सजोगी १२, मन १३, वाक् १४, काया १५ योगी, साकारोपयुक्त १६, अनाकारोपयुक्त १७
१ २	कृष्णा आदि लेइया ५, कृष्णपक्षी ६, मिथ्यादृष्टि ७, मिश्रदृष्टि ८, चार संज्ञा १२, अज्ञान ४१६, सवेद आदि ४२०, क्रोध २१, मान २२, माया २३
४	अलेशी १, केवली २, अयोगी ३
३ ४	अकषायी १, एवं ४६ (?) बोल

(१५४) (वेदनीय आश्री भंग)

जीव मनुष्य	वेदनीय कर्म आश्री बंधभंग १२४
१ २ ४	सलेशी १, शुक्लेशी २, शुक्लपक्षी ३, सम्यग्दृष्टि ४, नाणी ५, केवलनाणी ६, नोसंज्ञोपयुक्त ७, अवेदी ८, अकषायी ९, साकारोपयुक्त १०, अनाकारोपयुक्त ११
४	अलेशी १, अयोगी २,
१ २	कृष्ण आदि लेइया ५, कृष्णपक्षी ६, मिथ्यादृष्टि ७, मिश्रदृष्टि ८, अज्ञान आदि ४१२, संज्ञा ४१६, ग्यान ४२०, सवेद आदि ४२४, सकषाय आदि ५२९ सयोग आदि ४३३ एवं बोल ४६

(१५५) (आयु आश्री भंग)

जीव मनुष्य	आयुर्कर्म आश्री बंधभंग १, २, ३, ४
१ ३ २ ४	सलेशी आदि ७, शुक्लपक्षी ८, मिथ्यादृष्टि ९, अज्ञान आदि ४१२, संज्ञा ४१७, सवेद आदि ४२१, सकषाय आदि ५२६, सयोग आदि ४३०, साकारोपयुक्त ३१, अनाकारोपयुक्त ३२.
१, २, ३	मनःपर्यव १, नोसंज्ञोपयुक्त २
४	अलेशी १, केवली २, अमोगी ३
१, ३	कृष्णपक्षी
३, ४	मिश्रदृष्टि १, अवेदी २, अकषायी ३; एवं ४६ (?) बोल

परंपरोवन्नगा १, परं० गाढा २, परंपरो आहारगा ३, परं० पञ्जत्तगा ४, चरम ए पांच उद्देशा जीव मनुष्यना प्रथम उद्देशावत् ज्ञेयं. नवरं इतना विशेष चरम मनुष्यने आयुना बंध आश्री एक चौथा भंग संभवे, और भंग नही. एह अर्थ श्रीमद्भयदेवसूरिये भगवती-जीकी टीकामे लिख्या है जो कर चौथा भंग आदि सर्व भंग पावे तो चरमपण कैसे होय ? इस वास्ते चौथा भंग संभवता है.

(१५६) पापकर्म १ मोह २ ज्ञाना० ३ दर्शना० ४ वेदनीय ५ नाम ६ गोत्र ७ अंतराय ८ आश्री

३४	३६	२६	२५	३०	३९	३६	३३	३५
नरक	भवनपति	पृथ्वी १, अपू २ वन- स्पति ३	तेज १, वायु २	विगलेंद्री	तिर्यंच	व्यंतर	जो- ति- षी	वैमा- निक
११२	११२	११२	११२	११२	११२	११२	११२	११२

(१५७) आयु आश्री यंत्र

कृष्णलेशी	१३ भंग	०	तेजो- लेश्यामे तीजा भंग ३, शेष २५	समदिष्टी	४ज्ञानीमे ३ भंग	सम० १ ज्ञानीमे ४ १३३४	०	०	०
कृष्णपक्षी	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३
मिश्रदृष्टि	३४	३४	०	०	०	३४	३४	३४	३४
शेष बोल	११२३४	११२३४	११२३४	११२३४	१३	११२३४	११२३४	११२३४	११२३४

मनुष्य अनंतरो० मे नही	अलेशी १, मनःपर्यव २, केवल ३, नो- संज्ञोपयुक्त ४, अवेदी ५, अकषायी ६, अयोगी ७. ए ७ नही	मिश्रदृष्टि नही	मन १, वचन २, योग नही	विभंग नही	अवधि है
नरक, देव	उपरले सात मूलसे नही	०	०	है	है
तिरिय	" " "	०	०	०	
विगलेंद्री	" " "	मूले नही	वचन नही	मूले नही	मूले नही

नारक आदि २४ दंडकमे आयु वर्जी शेष ज्ञानावरण १ पापकर्म आदि ८ बोल आश्री जिसमे जितने बोल है लेश्या आदि सर्व बोलमे ११२ भंग जानना. आयु आश्री २३ दंडकमे एक त्रीजा ३ भंग, मनुष्यमे आयु आश्री ३४ भंग अनंतरोवन्नगा १, अनंतरोगाढा २, अनं-

तरआहारगा ३, अनं०पञ्जत्तगा ४; ए चार उद्देशे एक सरीषे है, एवं सर्व उद्देशो १० हूये.

अथ अचरमना ११ मा उद्देशा लिख्यते-मनुष्य वर्जी २३ दंडके आयु वर्जी पापकर्म आदि ८ आश्री सर्व बोला मे १।२ भांगा. आयु आश्री नरक १, तिर्यच २, देव ३ मे मिश्र-दृष्टिमे भंग ३ तीजा. पृथ्वी १, अप २, वनस्पति ३, तेजोलेखीमे ३ तीजा भंग. विगलेंद्रीमे सम्यक्त्व १, ज्ञान आदि ३ ए ४ मे ३ तीजा भंग, मनुष्य अचरममे अलेखी १, अकेवली २, अयोगी ३; ए ३ नही, शेष बोल ४३ मे जहां चौथा भंग है सो नही कहना और सर्व प्रथम उद्देशवत् इति बंध अलम्.

(१५८) (अतीतादि आश्री भंग)

भंग	अतीत	वर्तमान	अनागत
१	बंध	बंध	बंध
२	"	"	न
३	"	न	बंध
४	"	"	न
५	न	बंध	बंध
६	"	"	न
७	"	न	बंध
८	"	"	न

(१५९) (भव आश्री भंग)

घणे भव अपेक्षा	एक भव अपेक्षा
श्रेणिश्री गिर फेर ११ मे	कति समये उपशांत
पूर्व भवे ११ मे, वर्तमाने क्षीणमोह	सयोगीने छेहले समये
पूर्व भवे ११ मा, वर्तमान नही, आगे होगा ११	११ मे से गिर फिर श्रेणि पावे नही
सिद्ध	१४ मे गुणस्थाने
उपशांत पहिले ही पाया है	उपशांत मोहके प्रथम समये
क्षपकश्रेणि चढ्या, उपशाम कदे नही	शून्य
भव्य मोक्षार्ह	१० मे गुणस्थानवाळा भव्य
अभव्य	सिध्यादृष्टि वा अभव्य

(१६०) संपरायके बंधके भंग

SSS	अभव्य वा भव्यक
SSI	भव्य

SIS	उपशांतमोह गुणस्थान
SIS	क्षीणमोह आदिक

एह दोनो यंत्र भगवतीजीके.

(१६१) कर्म समुच्चय जीव मनुष्य आश्री

कर्म	बांधे । बांधे १	बांधे । वेदे २	वेदे । बांधे ३	वेदे । वेदे ४
१	८।७।६	८	८।७।६	८।७
२	८।७।६	”	८।७।६	८।७
३	८।७।६।१	८।७।४	८।७।६।१	८।७।६
४	८।७	८	८।७।६	८
५	८	”	८।७।६।१	८।७।४
६	८।७।६	”	८।७।६।१	८।७।६
७	८।७।६	”	८।७।६।१	८।७।४
८	८।७।६	”	८।७।६।१	८।७

(१६२) शेष २३ दंडक आश्री ४ भंग

१	८।७	८	८।७	८
२	८।७	”	८।७	”
३	८।७	”	८।७	”
४	८।७	”	८।७	”
५	८	”	८।७	”
६	८।७	”	८।७	”
७	८।७	”	८।७	”
८	८।७	”	८।७	”

श्रीपन्नवणापद. (१६३) अथ आयुयन्त्रम्

द्वार	देव नरक युगल	नो(निरु ?)पक्रमी	सोपक्रमी	संख्या
अवन्ध काल	६ मास ऊणा स्वस्व भवस्थिति	दोतिहाइ (३) आपआपणे आयुकी	ज० दो तिहाइ, उ० अंतर्मुहूर्त ऊणा भव	१
वन्ध काल	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	२
आवाधा	६ मासा	एक तिहाइ आपआपणे आयुकी	ज० अंतर्मुहूर्त, उ० पूर्व कोडकी तीहाइ	३

उ(सो)पक्रम आयु चूटवाना कारण ७—(१) अध्यवसाय-भय आदिक, सोमल ब्राह्मणवत्, (२) निमित्त-शस्त्र आदिकसे मरण पामे, (३) आहार-अजीर्ण आदिसे मरण, (४) वेदना-शूल आदिक, (५) पराघात आदि-ठोकर खाइने पडना, (६) स्पर्श-सर्प आदि डंक्रणा, (७) आनप्राण-ध्वासोच्छ्वासना रोकणा. एह सात प्रकारे सोपक्रमीना आयु चुटे पिण नोपक्रमीनो नही. एह यंत्र श्रीस्थानांग. भगवतीथी जानना इति.

(१६४) भगवती बंधी ५० बोलकी अष्ट कर्म आश्री

		ज्ञाना०, दर्शना०, अंतराय	वेदनीय	मोहनीय	आयु	नाम, गोत्र
१-३	स्त्री, पुरुष, नपुंसक- वेद	नियमा	नियमा	नियमा	भजना	नियमा
४	अवेदी संयत	भ.	भ.	भ.	०	भ.
५	संयती	"	"	"	भ.	"
६	असंयती	नि.	नि.	नि	"	नि.
७	श्रावक संयतासंयत	"	"	"	"	"
८	नोसंयत, नोअसंयत, नोसंयतासंयत	०	०	०	०	०
९	सम्यग्दृष्टि	भ.	भ.	भ.	भ.	भ.
१०	मिथ्यादृष्टि	नि.	नि.	नि.	"	नि.
११	मिश्रदृष्टि	"	"	"	०	"
१२	संज्ञी	भ.	नि.	भ.	भ.	भ.
१३	असंज्ञी	नि.	"	नि	"	नि.
१४	न संज्ञी न असंज्ञी	०	०	०	०	०
१५	भव्य	भ.	भ.	भ.	भ.	भ.
१६	अभव्य	नि.	नि.	नि.	"	नि.
१७	न भव्य न अभव्य	०	०	०	०	०
१८-२०	चक्षु आदि ३ दर्शन	भ.	नि.	भ.	भ.	भ.
२१	केवलदर्शन	०	भ.	०	०	०
२२	पर्याप्ता	भ.	"	भ.	भ.	भ.
२३	अपर्याप्ता	नि.	नि.	नि.	"	नि.
२४	न पर्याप्त न अपर्याप्त	०	०	०	०	०
२५	भाषक	भ.	नि.	भ.	भ.	भ.
२६	अभाषक	"	भ.	"	"	"
२७	परत संसारी	"	"	"	"	"
२८	अपरत संसारी	नि.	नि.	नि.	"	नि.
२९	न परत न अपरत	०	०	०	०	०
३०-३३	मति आदि ४ ज्ञान	भ.	नि.	भ.	भ.	भ.
३४	केवलज्ञान	०	भ.	०	०	०

३५-३७	मति आदि ३ अज्ञान	नि.	नि.	नि.	भ.	नि.
३८-४०	मन, वचन, काया योग	भ.	”	भ.	”	भ.
४१	अयोगी	०	०	०	०	०
४२-४३	साकार अना- कार उपयोग	भ.	भ.	भ.	भ.	भ.
४४	आहारक	भ.	नि.	”	”	”
४५	अणाहारी	”	भ.	”	०	”
४६	सूक्ष्म	नि.	नि.	नि.	भ.	”
४७	वादर	भ.	भ.	भ.	”	”
४८	न सूक्ष्म न वादर	०	०	०	०	०
४९-५०	चरम, अचरम	भ.	भ.	भ.	भ.	भ.

अथ द्वार गाथा (?)—

वेय संजय दिट्ठी सन्नी भविण् दंसण पज्जत्त भासय परित्त नाण जोगो इ उवओग
आहारग सुहम्म चरम बद्धे य अप्पाबहु ?

अल्पबहुत्व सुगम.

अथ मार्गणा उपरि बंधद्वार. अथ घर्मा आदि नरकत्रय रचना गुणस्थान ४; बंध-
प्रकृति १०१ अस्ति. एकेन्द्रिय १, स्थावर १, आतप १, सूक्ष्म १, अपर्याप्ति(प्त) १, साधारण १,
विकलत्रय ३, नरकत्रिक ३, देवत्रिक ३, वैक्रियद्विक २, आहारकद्विक २; एवं १९ नास्ति.

१	मि	१००	तीर्थंकर उतारे. मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्टा १; एवं ४ विच्छित्ति
२	सा	९६	अनंतानुबंधी आदि २५ विच्छित्ति व्यौरा सास्वादनवत्
३	मि	७०	मनुष्यायु उतारी १
४	अ	७२	मनुष्यायु १, तीर्थंकर १; एवं २ मिले

अथ अंजना आदि नरकत्रय रचना गुणस्थान ४; बंधप्रकृति १०० अस्ति. १९
पूर्वोक्त अने तीर्थंकर १; एवं २० नास्ति.

१	मि	१००	मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्टा १; एवं ४ विच्छित्ति
२	सा	९६	अनंतानुबंधी आदि २५ विच्छित्ति सास्वादन गुणस्थानवत्
३	मि	७०	मनुष्यायु उतारी १
४	अ	७२	मनुष्यायु १ मिले

१ छाया—वेदः संयमो दृष्टिः सन्धी भविको दर्शनं पर्याप्तो भाषकः परीतो ज्ञानं योगश्चोपयोग आहारकः सूक्ष्मश्च-
रमबद्धे चाल्पबहुत्वम् ॥ २ विवरण ।

અથ માઘવી નરક રચના ગુણસ્થાન ૪; બંધપ્રકૃતિ ૧૯, પૂર્વોક્ત ૨૦, મનુષ્યાયુ ૧; एवं ૨૧ નાસ્તિ.

૧	મિ	૧૬	મનુષ્યદ્વિક ૨, ડંચ ગોત્ર ૧; एवं ૩ ઉતારે. મિથ્યાત્વ ૧, હુંડક ૧, નપુંસક ૧, છેવટ્ટા ૧, તિર્યંચાયુ ૧; एवं ૫ વિચ્છિન્તિ
૨	સા	૧૧	અનંતાનુબંધી આદિ ૨૪ વિચ્છિન્તિ ઝૌરા સાસ્વાદનવત્
૩	મિ	૭૦	મનુષ્યદ્વિક ૨, ડંચ ગોત્ર ૧ મિલે.
૪	અ	૭૦	૦ ૦ ૦

અથ તિર્યંચ ગતિ રચના ગુણસ્થાન ૫ આદિકે બંધપ્રકૃતિ ૧૧૭ અસ્તિ. તીર્થંકર ૧, આહારકદ્વિક નાસ્તિ.

૧	મિ	૧૧૭	મિથ્યાત્વ ૧, હુંડ ૧, નપુંસક ૧, છેવટ્ટા ૧, એકેન્દ્રિય ૧, થાવર ૧, આતપ ૧, સૂક્ષ્મ ૧, અપર્યાપ્ત ૧, સાધારણ ૧, વિકલત્રિક ૩, નરકત્રિક ૩; एवं ૧૬ વિચ્છિન્તિ.
૨	સા	૧૦૧	અનંતાનુબંધી આદિ ૨૫ તો સાસ્વાદન ગુણસ્થાનવત્ અને વજ્રક્રમ ૧, ઔદારિક-દ્વિક ૨, મનુષ્યત્રિક ૩; एवं ૩૧ વિચ્છિન્તિ.
૩	મિ	૬૯	દેવાયુ ૧ ઉતારે.
૪	અ	૭૦	દેવાયુ ૧ મિલે. અપ્રત્યાખ્યાન ૪ વિચ્છિન્તિ.
૫	દે	૬૬	૦ ૦ ૦

અથ તિર્યંચ અપર્યાપ્તિ રચના ગુણસ્થાન ત્રીન-૧૨।૪; બંધપ્રકૃતિ ૧૧૧ અસ્તિ. તીર્થંકર ૧, આહારકદ્વિક ૨, આયુ ૪, નરકદ્વિક ૨; एवं ૯ નાસ્તિ.

૧	મિ	૧૦૭	દેવદ્વિક ૨, વૈક્રિયદ્વિક ૨ ઉતારે. મિથ્યાત્વ ૧, હુંડ ૧, નપુંસક ૧, છેવટ્ટા ૧, એકેન્દ્રિય ૧, થાવર ૧, આતપ ૧, સૂક્ષ્મ ૧, અપર્યાપ્તિ ૧, સાધારણ ૧, વિકલત્રય ૩; एवं ૧૩ વિચ્છિન્તિ.
૨	સા	૯૪	અનંતાનુબંધી ૪, સ્થાનગૃહ્ણિક ૩, દુર્ભગ ૧, દુઃસ્વર ૧, અનાદેય ૧, સંસ્થાન ૪ મધ્યકે, સંહનન ૪ મધ્યકે, અપ્રશસ્ત ગતિ ૧, સ્ત્રીવેદ ૧, નીચ ગોત્ર ૧, તિર્યંચદ્વિક ૨, ઉદ્ધ્યોત ૧, વજ્રક્રમ ૧, ઔદારિકદ્વિક ૨, મનુષ્યદ્વિક ૨; एवं ૨૯ વિચ્છિન્તિ.
૪	અ	૬૯	દેવદ્વિક ૨, વૈક્રિયદ્વિક ૨; एवं ૪ મિલે

અથ તિર્યંચ અલબ્ધિપર્યાપ્તિ રચના ગુણસ્થાન ૧-પ્રથમ; બંધપ્રકૃતિ ૧૦૯ અસ્તિ. તીર્થંકર ૧, આહારકદ્વિક ૨, દેવત્રિક ૩, વૈક્રિયદ્વિક ૨, નરકદ્વિક ૩; एवं ૧૧ નાસ્તિ. ઉપરલા યંત્ર કરણ અપર્યાપ્તિકા જ્ઞાન લેના.

१	मि	१०९	०	०	०
---	----	-----	---	---	---

अथ मनुष्य रचना गुणस्थान सर्वे १४; बंधप्रकृति १२० सर्वे अस्ति. आदिके चार गुणस्थान यंत्र अन्य ५ मेसें लेकर सर्व गुणस्थान समुच्चयवत्.

१	मि	११७	आहारकद्विक २, तीर्थकर १ उतारे. मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतिकी विच्छित्ति चौरा मिथ्यात्व गुणस्थान रचनाथी ज्ञेयम्.
२	सा	१०१	अनंतानुबंधी आदि २५ साखादन गुणस्थान रचनावाली अने वज्ररूपम १, औदारिकद्विक २, मनुष्यत्रिक ३, एवं ३१ विच्छित्ति.
३	मि	६९	देवायु १ उतारी
४	अ	७१	देवायु १, तीर्थकर १ मिले

अथ मनुष्य अलब्धिपर्याप्ति रचना गुणस्थान १-मिथ्यात्व; बंधप्रकृति १०९. तीर्थकर १, आहारक २, देवत्रिक ३, नरकत्रिक ३, वैक्रियद्विक २; एवं ११ नास्ति. भवनपति, व्यंतर, जोतिषी तत्तुदेवी ३ तथा वैमानिकदेवी रचना गुणस्थान ४ आदिके बंधप्रकृति १०३ है. सूक्ष्मत्रिक ३, विकलत्रिक ३, नरकत्रिक ३, देवत्रिक ३, वैक्रियद्विक २, आहारकद्विक २, तीर्थकर १; एवं १७ नहीं.

१	मि	१०३	मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्टा १, एकेन्द्रिय १, थावर १, आतप १; एवं ७ वि०
२	सा	९६	अनंतानुबंधी आदि २५ साखादन गुणस्थानवाली विच्छित्ति
३	मि	७०	मनुष्यायु १ उतारे
४	अ	७५	मनुष्यायु १ मिले

तत् अपर्याप्ति रचनामें गुणस्थान यथा संभवे तिनमे मनुष्यायु १, तिर्यचायु १; एवं २ नास्ति. अथ सौधर्म, ईशान रचना गुणस्थान ४ आदिके बंधप्रकृति १०४ है. सूक्ष्मत्रिक ३, विकलत्रिक ३, नरकत्रिक ३, देवत्रिक ३, वैक्रियद्विक २, आहारकद्विक २; एवं १६ नहीं. बंध भवनपतिवत् जहां संभवे तिहां. तीर्थकर अधिक चौथेमे.

तत् अपर्याप्तमे गुणस्थान तीन-१।२।४; बंध १०२ का. १६ पूर्वोक्त अने मनुष्यायु १, तिर्यचायु १, एवं १८ नहीं. पहिले १०१, दूजे ९४, चौथे ७१ उपरवत्.

अथ सनत्कुमार आदि ६ कल्पपररचना गुणस्थान ४ आदिके बंधप्रकृति १०१ है. पूर्वोक्त (१६) सौधर्म, ईशानवाली अने एकेन्द्रिय १, थावर १, आतप १; एवं १९ नहीं.

१	मि	१००	तीर्थकर १ उतारे. मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्टा १; एवं ४ विच्छित्ति.
२	सा	९६	अनंतानुबंधी आदि २५ विच्छित्ति साखादन गुणस्थानवत्
३	मि	७०	मनुष्यायु १ उतारे
४	अ	७२	मनुष्यायु १, तीर्थकर १ मिले.

तत् अपर्याप्ति रचना गुणस्थान ३-१।२।४; बंधप्रकृति ९ है. पूर्वोक्त तिर्यचायु अने मनुष्यायु; एवं २ नास्ति. पहिले, दूजे, चौथे पर्याप्तवत्.

१	मि	९८	तीर्थंकर उतारे. मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्ट १; एवं ४ विच्छित्ति.
२	सा	९४	अनंतानुबंधी आदि २४ विच्छित्ति व्यौरा माधवीके सास्वादनवत्
४	अ	७१	तीर्थंकर १ मिले

अथ आनत आदि ग्रैवेयक पर्यंत रचना गुणस्थान ४ आदिके बंधप्रकृति ९७ अस्ति. पूर्वोक्त १९ सनत्कुमार आदिवाली अने तिर्यचत्रिक ३, उद्घोत १; एवं २३ नही. तीसरे गुणस्थानकी रचना बहुश्रुतसे समज लेनी.

१	मि	९६	तीर्थंकर उतारे. मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्टा १; एवं ४ विच्छित्ति
२	सा	९२	अनंतानुबंधी ४, स्त्यानगृद्धित्रिक ३, दुर्भग १, दुःस्वर १, अनादेय १, संस्थान ४ मध्यके, संहनन ४ मध्यके, अप्रशस्त गति १, स्त्रीवेद १, नीच गोत्र १; सर्व २१ विच्छित्ति
३	मि	७०	मनुष्यायु १ उतारे
४	अ	७२	मनुष्यायु १, तीर्थंकर १; एवं २ मिले

तत् अपर्याप्ति रचना गुणस्थान ३-१।२।४; बंधप्रकृति ९६ है. पूर्वोक्त २३ अने मनुष्यायु १; एवं २४ नास्ति. मनुष्यायु घटा देना. पहिले ९५, दूजे ९१, चौथे ७१ है.

अथ पांच अनुत्तर रचना गुणस्थान १-चौथा; बंधप्रकृति ७२. पूर्वोक्त २३ तो आनत आदि रचनावाली अने मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्टा १, अनंतानुबंधी ४, स्त्यानगृद्धित्रिक ३, दुर्भग १, दुःस्वर १, अनादेय १, संस्थान ४ मध्यके, संहनन ४ मध्यके, अप्रशस्त गति १, स्त्रीवेद १, नीच गोत्र १; एवं ४८ नही.

तत् अपर्याप्तरचना मनुष्यायु १ नही. और सर्व पूर्वोक्तवत्.

अथ एकेन्द्रिय १, विकलत्रय ३, अपर्याप्ति रचना गुणस्थान २ आदिके बंधप्रकृति १०७ है. आहारकद्रिक २, तीर्थंकर १, देवत्रिक ३, नरकत्रिक ३, वैक्रियद्रिक २, मनुष्यायु १, तिर्यचायु १; एवं २३ नास्ति. करण-अपर्याप्त.

१	मि	१०७	मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्टा १, एकेन्द्रिय १, थावर १, आतप १, सूक्ष्म १, अपर्याप्त १, साधारण १, विकलत्रय ३; एवं १३ विच्छित्ति
२	सा	९४	० ० ०

अथ एकेन्द्रिय १, विकलत्रय ३ पर्याप्त रचना गुणस्थान १-मिथ्यात्व १; बंधप्रकृति १०९ है. पूर्वोक्त १०७; मनुष्यायु १, तिर्यचायु १, ए दोइ अधिक वधी.

अथ एकेन्द्रिय, विकलत्रय अलब्धिपर्याप्त रचना गुणस्थान १-मि०; बंध १०९ पूर्वोक्त.

अथ पंचेन्द्रियरचनागुणस्थानवत्. अथ पृथ्वीकाय, अप, वनस्पति अपर्याप्तरचना, एकेन्द्रियविकलत्रयपर्याप्तवत्. अथ तेजवापुरचनागुणस्थान १-मिथ्यात्व १; बंधप्रकृति १०५ है. आहारकद्विक २, तीर्थकर १, देवत्रिक ३, नरकत्रिक ३, मनुष्यत्रिक ३, वैक्रियद्विक २, उंच गोत्र १; एवं १५ नास्ति. अथ त्रसकायरचना गुणस्थानवत्. अथ मनोयोग ४, वचनयोग ४, रचनागुणस्थान १३ वत्. अथ औदारिकयोग रना गुणस्थान सर्वे १४; बंधप्रकृति १२० सर्वे सन्ति, मनुष्यरचनागुणस्थानवत् सर्व. अथ औदारिकमिश्रयोगरचनागुणस्थान ४-पहिला, दूजा, चौथा, तेरमा; बंधप्रकृति ११४ है. देवायु १, नरकत्रिक ३, आहारकद्विक २; एवं ६ नहीं. इहां कार्मणसे मिल्या मिश्र ग्राह्य.

१	मि	१०९	वैक्रियद्विक २, देवद्विक २, तीर्थकर १ उतारे. मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्टा १, एकेन्द्रिय १, थावर १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३, विकलत्रिक ३, मनुष्यायु १, तिर्यचायु १; एवं १५ विच्छित्ति.
२	सा	९४	अनंतानुबंधी आदि २९ विच्छित्ति. व्यौरा तिर्यच अपर्याप्त रचना सास्वादन-गुणस्थानवत्
४	अ	७०	वैक्रियद्विक २, देवद्विक २, तीर्थकर १ मिले. अपत्याख्यान ४, प्रत्याख्यान ४, षष्ठ गुणस्थानकी ६, अष्टम गुणस्थानकी ३४, आहारकद्विक २ विना नवमे गुणस्थानकी ५, दशम गुणस्थानकी १६; एवं ६९ विच्छित्ति.
१३	स	१	० ० ० ०

अथ देवगति वैक्रियक मिश्रयोग रचना गुणस्थान ३-१।२।४; बंधप्रकृति १०२ है. सूक्ष्मत्रिक ३, विकलत्रिक ३, नरकत्रिक ३, देवद्विक ३, वैक्रियकद्विक २, आहारकद्विक २, तिर्यचायु १, मनुष्यायु १; एवं १८ नहीं.

१	मि	१०१	तीर्थकर १ उतारे. मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्टा १, एकेन्द्रिय १, थावर १, आतप १; एवं ७ विच्छित्ति.
२	सा	९४	अनंतानुबंधी आदि उद्घोत पर्यंत २४ की विच्छित्ति. सौधर्म, ईशान अपर्याप्ति-रचना सास्वादनगुणस्थानवत् माघवीवाली
४	१	७१	तीर्थकर १ मिले.

अथ देवगति वैक्रियक रचना गुणस्थान ४ आदिके बंधप्रकृति १०४ है. पूर्वोक्त सूक्ष्म आदि आहारकद्विक पर्यंत १६ नास्ति.

१	मि	१०३	तीर्थकर १ उतारे. मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्टा १, एकेन्द्रिय १, थावर १, आतप १; एवं ७ व्यवच्छेद
२	सा	९६	अनंतानुबंधी आदि २५ विच्छित्ति सास्वादन गुणस्थानवत्
३	मि	७०	मनुष्यायु १ उतारे
४	अ	७२	मनुष्यायु १, तीर्थकर १ मिले.

अथ नरकगति वैक्रियमिश्र रचना गुणस्थान २-पहिला, चौथा; बन्धप्रकृति ९९ है, एकेंद्री १, थावर १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३, विकलत्रिक ३, नरकत्रिक ३, देवत्रिक ३, वैक्रियद्विक २, आहारकद्विक २, मनुष्य-आयु १, तिर्यच-आयु १; एवं २१ नास्ति.

१	मि	९८	तीर्थकर १ उतारे. मिथ्यात्व १, हुंडक १, नपुंसक १, छेवट्ट १, अनंतानुबंधी आदि ४; एवं २८ व्यवच्छेद
४	अ	७१	तीर्थकर १ मिले

अथ नरकगति वैक्रिय रचना गुणस्थान ४ आदिके बन्धप्रकृति १०१. पूर्वोक्त एकेंद्री आदि आहारकद्विक पर्यंत १९ नहीं, समुच्चयनरकवत्.

१	मि	१००	तीर्थकर १ उतारे. मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्ट १; एवं ४ विच्छिन्ति
२	सा	९६	अनंतानुबंधी आदि २५ विच्छिन्ति सास्त्रादन गुणस्थानवत्
३	मि	७०	मनुष्य-आयु १ उतारे
४	अ	७२	मनुष्य-आयु १, तीर्थकर १ मिले

अथ आहारक काय योग तथा आहारक मिश्र रचना गुणस्थान १-प्रमत्त; बन्धप्रकृति ६३ है. मिथ्यात्व १, हुंड १, नपुंसक १, छेवट्टा १, एकेंद्री १, थावर १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३, विकलत्रिक ३, नरकत्रिक ३, अनंतानुबंधी ४, स्त्यानगृद्धित्रिक ३, दुर्भग १, दुःखर १, अनादेय १, संस्थान ४ मध्यके, संहनन ४ मध्यके, अप्रशस्त गति १, स्त्रीवेद १, नीच गोत्र १, तिर्यचद्विक २, उद्घोत १, तिर्यच-आयु १, अप्रत्याख्यान ४, वज्रऋषभ १, औदारिकद्विक २, मनुष्यद्विक २, मनुष्य-आयु १, प्रत्याख्यान ४, आहारकद्विक २; एवं ५७ नहीं.

अथ कार्मण योग रचना गुणस्थान ४-१।२।४।१३ मा बन्धप्रकृति ११२ है. देव-आयु १, नरक-आयु १, नरकद्विक २, आहारकद्विक २, मनुष्य-आयु १, तिर्यच-आयु १; एवं ८ नहीं.

१	मि	१०७	देवद्विक २, वैक्रियद्विक २, तीर्थकर १; एवं ५ उतारे. मिथ्यात्व आदि विकलत्रय पर्यंत १३ विच्छिन्ति
२	सा	९४	अनंतानुबंधी आदि उद्घोत पर्यंत २४ विच्छिन्ति
४	अ	७५	देवद्विक २, वैक्रियद्विक २, तीर्थकर १; एवं ५ मिले. अप्रत्याख्यान ४, वज्रऋषभ १, औदारिकद्विक २, मनुष्यद्विक २, प्रत्याख्यान ४, षष्ठ गुणस्थानकी ६, आहारकद्विक विना अष्टम गुणस्थानकी ३४, नवम गुणस्थानकी ५, दशम गुणस्थानकी १६; एवं ७४ व्यवच्छेद. एक सातावेदनीय रही तेरमे
१३	स	१	० ० ० ० ०

अथ वेदरचना गुणस्थानकरचनावत् नवमे गुणस्थान पर्यंत. अथ अनंतानुबंधिचतुष्करचना गुणस्थान २ आदिके बन्धप्रकृति ११७ है. आहारकद्विक २, तीर्थकर १; एवं ३ नास्ति.

१	मि	११७	मिथ्यात्व आदि नरक-आयु पर्यंत १६ विच्छिन्ति
२	सा	१०१	० ० ०

अप्रत्याख्यान ४ का बंध आदिके चार गुणस्थानवत्. प्रत्याख्यान आदिके पांच गुणस्थानवत्. संज्वलन क्रोध १, मान २, माया १ नवमे लग पूर्ववत् अने संज्वलन लोभ आदिके दश गुणस्थानवत्.

अथ अज्ञान रचना गुणस्थान २ आदिके बन्धप्रकृति ११७ पहिले, दूजे १०१ पूर्ववत्.

अथ मति, श्रुत, अवधिज्ञान रचना चौथेसे लेकर बारमे ताइ समुच्चयगुणस्थानवत्. अथ मनःपर्यवज्ञान छट्टेसे लेकर बारमे पर्यंत रचना समुच्चयवत्. केवलज्ञान १३ मे १४ मे वत्.

अथ सामायिक, छेदोपस्थापनीय छट्टे, सातमे, आठमे, नवमे गुणस्थानवत्. अथ परिहारविशुद्धि ६।७ मे वत्, सूक्ष्मसंपराय दशमेवत्. यथाख्यात ११।१२।१३।१४ वत्, देश संयम पांचमेवत्, असंयती आदिके चार गुणस्थानवत्.

अथ चक्षु, अचक्षु, अवधिदर्शन अवधिज्ञानवत् रचना १२ मे पर्यंत गुणस्थानवत्, केवलदर्शन केवलज्ञानवत्.

अथ कृष्ण १, नील २, कापोत ३ लेश्या रचना बन्धप्रकृति ११८ है. आहारकद्विक नहीं. गुणस्थानक ४ आदिके तीर्थकर रहित पहिले ११७ आगले तीन गुणस्थान समुच्चय-गुणस्थानवत्. अथ तेजोलेश्या रचना गुणस्थान ७ आदिके बन्धप्रकृति १११ है. सूक्ष्म-त्रिक ३, विकलत्रिक ३, नरकत्रिक ३; एवं ९ नास्ति. तीर्थकर १, आहारकद्विक २, ए तीन विना पहिले १०८ आगे ६ गुणस्थानोमे समुच्चयगुणस्थानावत्. पद्मलेश्या रचना गुणस्थान ७ आदिके बन्धप्रकृति १०८ है. एकेंद्रि १, थावर १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३, विकलत्रिक ३, नरकत्रिक ३; एवं १२ नास्ति. तीर्थकर १, आहारकद्विक २, ए त्रण विना पहिले १०५ आगे गुणस्थानवत्. अथ शुक्लेश्या रचना गुणस्थान १३ आदिके बन्धप्रकृति १०४ है. पूर्वोक्त एकेंद्रिय आदि १२ अने तिर्यचत्रिक ३, उद्द्योत् १; एवं १६ नास्ति. तीर्थकर १, आहार-द्विक २ विना पहिले १०१ आगे सर्वगुणस्थानवत्.

अथ भव्यरचना १४ गुणस्थानवत्; अभव्य प्रथम गुणस्थानवत् जानना.

अथ क्षायिक सम्यक्त्व रचना गुणस्थान ११-अविरति सम्यग्दृष्टि आदि; बन्धप्रकृति ७९ है. मिथ्यात्व आदि १६, अनंतानुबंधि आदि २५; एवं ४१ नहीं. आहारकद्विक विना चौथे ७७ आगे समुच्चयगुणस्थानद्वारवत्. अथ क्षयोपशम सम्यक्त्व रचना गुणस्थान ४-अविरति-सम्यग्दृष्टि आदि; बन्ध पूर्वोक्त ७९ क्षायिकवत्, चारो गुणस्थान परि जान लेना. अथ उपशम सम्यक्त्व रचना गुणस्थान ८-अविरति सम्यग्दृष्टि आदि; बन्धप्रकृति ७७ है. पूर्वोक्त ४१ तो क्षायिकवाली अने मत्तुष्य-आयु १, देव-आयु १, एवं ४३ नास्ति, क्षायिकवत्

बन्ध परंतु आयु दोनो सातमे ताइ घटावनी साखादन साखादन गुणस्थानवत्, मिश्र मिश्र गुणस्थानवत्.

अथ संज्ञी रचना गुणस्थानरचनावत्. अथ असंज्ञी रचना गुणस्थान २ आदिके बन्ध पहिले, दूजे पूर्ववत् ११७।१०१.

अथ आहारक रचना गुणस्थान १३ पर्यंत. अथ अनाहारक रचना गुणस्थान ४-१, २, ४ अने १३; बन्धप्रकृति ११२ अस्ति. आयु ४, आहारकद्विक २, एवं नरक-द्विक २; एवं ८ नास्ति.

१	मि	१०७	वेदद्विक २, वैक्रियद्विक २, तीर्थंकर १; एवं ५ उतारे. मिथ्यात्व आदि विकल-त्रिक ३ पर्यंत १३ की विच्छित्ति
२	सा	९४	अनंतानुबंधि आदि उद्द्योत पर्यंत २४ विच्छित्ति
४	अ	७५	देवद्विक २, वैक्रियकद्विक २, तीर्थंकर १; एवं ५ मिले. अपत्याख्यान आदि ९, प्रत्याख्यान ४, अशिर आदि ६, आहारकद्विक २ विना ३४ अपूर्वकरणकी, अनि-वृत्तिकरणकी ५, सूक्ष्मसंपरायकी १६; एवं ७४ की विच्छित्ति
१३	स	१	एक सातावेदनीय रही.

इति श्रीबन्धाधिकार संपूर्ण.

अथ उदयाधिकारः लिख्यते गुणस्थानेषु—

अथ नरकगति रचना गुणस्थान ४ आदिके उदयप्रकृति ७६ अस्ति. सत्यानगृद्वित्रिक ३, पुरुषवेद १, स्त्रीवेद १, आयु ३ नरक विना, उंच गोत्र १, गति ३ नरक विना, जाति ४ पंचेंद्री विना, औदारिकद्विक २, आहारकद्विक २, संहनन ६, संस्थान ५ हुंडक विना, प्रशस्त गति १, नरक विना आनुपूर्वी ३, थावर १, सूक्ष्म १, अपर्याप्त १, साधारण १, सुभग १, सुखर १, आदेय १, यश १, आतप १, उद्द्योत १, तीर्थंकर १; एवं ४६ नास्ति.

१	मि	७४	मिश्रमोहनीय १, सम्यक्त्वमोहनीय १ उतारे. मिथ्यात्व (१) विच्छित्ति
२	सा	७२	नरकगति-आनुपूर्वी १ उतारी. अनंतानुबंधि ४ विच्छित्ति
३	मि	६९	मिश्रमोहनीय १ मिले. मिश्रमोहनीय १ विच्छित्ति
४	अ	७०	सम्यक्त्वमोहनीय १, नरकगति-आनुपूर्वी १ मिले.

अथ सामान्य तीर्थंच रचना गुणस्थान ५ आदिके उदयप्रकृति १०७. आयु ३ तीर्थंच विना, मनुष्यद्विक २, उंच गोत्र १, आहारकद्विक २, वैक्रियच्छक ६, तीर्थंकर १; एवं १५ नास्ति.

१	मि	१०५	मिश्रमोहनीय १, सम्यक्त्वमोहनीय १ उतारे. मिथ्यात्व १, आतप १, सूक्ष्म १, अपर्याप्त १, साधारण १; एवं ५ विच्छित्ति
२	सा	१००	अनंतानुबंधि ४, एकेन्द्रिय १, थावर १, विकलत्रय ३; एवं ९ विच्छित्ति
३	मि	९१	तिर्यंचानुपूर्वी १ उतारे. मिश्रमोहनीय १ विच्छित्ति
४	अ	९२	सम्यक्त्वमोहनीय १, तिर्यंचानुपूर्वी १ मिले. अपत्याख्यान ४, तिर्यंचानुपूर्वी १, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १; एवं ८ विच्छित्ति
५	दे	८४	० ० ०

अथ पंचेद्री रचना गुणस्थान ५ आदिके उदयप्रकृति ९९ है. आयु ३ तिर्यंच विना, मनुष्यद्विक २, आहारकद्विक २, उंच गोत्र १, वैक्रियपद् ६, तीर्थकर १, एकेद्री १, थावर १, सूक्ष्म १, साधारण १, आतप १, विकलत्रय ३; एवं २३ नास्ति.

१	मि	९७	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १ उतारे. मिथ्यात्व १, अपर्याप्त १ विच्छित्ति
२	सा	९५	अनंतानुबंधि ४ विच्छित्ति
३	मि	९१	तिर्यंचानुपूर्वी १ उतारे. मिश्रमोह० १ मिले. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	९२	सम्यक्त्वमोह० १, तिर्यंचानुपूर्वी १ मिले. अपत्याख्यान ४, तिर्यंचानुपूर्वी १, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १; एवं ८ विच्छित्ति
५	दे	८४	० ० ० ०

अथ पर्याप्त तिर्यंचने रचना गुणस्थान ५ आदिके उदयप्रकृति ९७ अस्ति. पूर्वोक्त २३, स्त्रीवेद १, अपर्याप्त १; एवं २५ नास्ति.

१	मि	९५	मिश्रमोहनीय १, सम्यक्त्वमोहनीय १ उतारे. मिथ्यात्व १ विच्छित्ति
२	सा	९४	अनंतानुबंधि ४ विच्छित्ति
३	मि	९०	मिश्रमोहनीय १ मिले. तिर्यंचानुपूर्वी १ उतारी. मिश्रमोह १ विच्छित्ति
४	अ	९१	सम्यक्त्वमोहनीय १, तिर्यंचानुपूर्वी १ मिले. अपत्याख्यान ४, तिर्यंचानुपूर्वी १, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १; एवं ८ विच्छित्ति
५	दे	८३	० ० ० ०

अथ अलब्धिपर्याप्त तिर्यंच रचना गुणस्थान १-मिथ्यात्व; उदयप्रकृति ७१ अस्ति. आयु ३ तिर्यंच विना, उंच गोत्र १, मनुष्यद्विक २, आहारकद्विक २, वैक्रियपद् ६, तीर्थकर १, थावर १, सूक्ष्म १, साधारण १, आतप १, एकेद्री १, बेंद्री १, तेंद्री १, चौरिंद्री १, पराघात १, उच्छ्वास १, उद्द्योत १, प्रशस्त गति १, अप्रशस्त गति १, यश १, आदेय १, सुभंग १, संस्थान ५ हुंडक विना, संहनन ५ छेवड्ड विना, स्त्रीवेद १, पुरुषवेद १, स्त्यान-

गृद्धित्रिक ३, पर्याप्त १, सुखर १, दुःखर १, मिश्रमोहनीय १, सम्यक्त्वमोहनीय १; एवं ५१ नास्ति. एह संमूर्च्छिम अपेक्षा जानना, पहिले ७१ है.

अथ सामान्य मनुष्य रचना गुणस्थान सर्वे; उदयप्रकृति १०२ है. थावर १, सूक्ष्म १, तिर्यंचत्रिक ३, नरकत्रिक ३, देवत्रिक ३, आतप १, उद्घोत १, एकेंद्री १, विकलत्रय ३, साधारण १, वैक्रियद्विक २; एवं २० नास्ति.

१	मि	९७	मिश्रमोहनीय १, सम्यक्त्वमोहनीय १, आहारकद्विक २, तीर्थकर १ उतारे. मिथ्यात्व १, अपर्याप्त १ विच्छित्ति
२	सा	९५	अनंतानुबंधी ४ व्यवच्छेद
३	मि	९१	मनुष्यानुपूर्वी १ उतारे. मिश्रमोह० १ मिले. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	९२	सम्यक्त्वमोहनीय १, म(आ?)नुपूर्वी १ मिले. अप्रत्याख्यान ४, मनुष्यानुपूर्वी १, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १; एवं ८ विच्छित्ति
५	दे	८४	प्रत्याख्यान ४, नीच गोत्र १; एवं ५ विच्छित्ति
६	प्र	८१	आहारकद्विक २ मिले

सातमेसे लेकर आगे सर्व समुच्चयगुणस्थानवत् जान लेना.

अथ पर्याप्त मनुष्य रचना गुणस्थान सर्वे १४; उदयप्रकृति १०० है. पूर्वोक्त २०, स्त्रीवेद १, अपर्याप्त १; एवं २२ नास्ति.

१	मि	९५	मिश्रमोहनीय १, सम्यक्त्वमोहनीय १, आहारकद्विक २, तीर्थकर १; एवं ५ उतारे. मिथ्यात्व १ विच्छित्ति
२	सा	९४	अनंतानुबंधी ४ विच्छित्ति
३	मि	९०	मनुष्यानुपूर्वी १ उतारी. मिश्रमोह० १ मिले. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	९१	सम्यक्त्वमोह० १, मनुष्यानुपूर्वी १ मिले. अप्रत्याख्यान ४, मनुष्यानुपूर्वी १, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १; एवं ८ विच्छित्ति
५	दे	८३	प्रत्याख्यान ४, नीच गोत्र १; एवं ५ विच्छित्ति
६	प्र	८०	आहारकद्विक २ मिले. आहारकद्विक २, स्यानगृद्धित्रिक ३; एवं ५ विच्छित्ति
७	अ	७५	सम्यक्त्वमोह० १, संहनन ३ अंतके; एवं ४ विच्छित्ति
८	अ	७१	हास्य आदि षट् ६ विच्छित्ति
९	अ	६५	नपुंसक १, पुरुषवेद १, संज्वलन क्रोध १, मान १, माया १ विच्छित्ति

शेष गुणस्थानमे समुच्चयवत्.

अथ अलब्धिपर्याप्त मनुष्य रचना गुणस्थान १-मिथ्यात्व, उदयप्रकृति ७१ है. ज्ञाना-

वरण ५, दर्शनावरण ४, निद्रा १, प्रचला १, मिथ्यात्व १, कषाय १६, हास्य आदि ६, नपुंसकवेद १, मनुष्यत्रिक ३, नीच गोत्र १, औदारिकद्विक २, वेदनीय २, हुंडक १, छेवडा १, पंचेंद्री १, तैजस १, कार्मण १, वर्णचतुष्क ४, अपर्याप्त १, अथिर १, अशुभ १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १, त्रस १, वादर १, प्रत्येक १, थिर १, शुभ १, अगुरुलघु १, उपघात १, निर्माण १, अंतराय ५; एवं ७१ है.

अथ सामान्य देव रचना गुणस्थान ४ आदिके उदयप्रकृति ७७. ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण ४, निद्रा १, प्रचला १, मोहनीय २७, नपुंसक विना वेद २, देव-आयु १, देव-द्विक २, वैक्रियकद्विक २, पंचेंद्री १, तैजस १, कार्मण १, समचतुरस्र १, प्रशस्त गति १, वर्णचतुष्क ४, अगुरुलघु १, उपघात १, पराघात १, उच्छ्वास १, निर्माण १, अथिर १, अशुभ १, त्रसदशक १०, उंच गोत्र १, अंतराय ५; एवं ७७ अस्ति, शेष ४५ नास्ति.

१	मि	७५	मिश्रमोहनीय १, सम्यक्त्वमोहनीय १ उतारे. मिथ्यात्व १ विच्छित्ति
२	सा	७४	अनंतानुबंधि ४ विच्छित्ति
३	मि	७०	देवानुपूर्वी १ उतारी. मिश्रमोहनीय १ मिले. मिश्रमोहनीय १ विच्छित्ति
४	अ	७१	आनुपूर्वी देवस्य १, सम्यक्त्वमोहनीय १ मिले.

अथ सौधर्म आदि नव ग्रैवेयक पर्यंत रचना गुणस्थान ४ आदिके उदयप्रकृति ७६ अस्ति, स्त्रीवेद विना पूर्वोक्त; एवं भवनपति आदि ३.

१	मि	७४	मिश्रमोहनीय १, सम्यक्त्वमोहनीय १ उतारे. मिथ्यात्व १ विच्छित्ति
२	सा	७३	अनंतानुबंधि ४ विच्छित्ति
३	मि	६९	देवानुपूर्वी १ उतारी, मिश्रमोहनीय १ मिली, मिश्रमोहनीय १ विच्छित्ति
४	अ	७०	देवानुपूर्वी १, सम्यक्त्वमोहनीय १; एवं २ मिले

अनुत्तर ५ रचना गुणस्थान १-चौथा; उदयप्रकृति ७० है. पूर्वोक्त सामान्य देव रचना-वाली ७७, तिण मध्ये मिथ्यात्व १, मिश्रमोहनीय १, अनंतानुबंधी ४, स्त्रीवेद १; एवं ७ नास्ति.

४	अ	७०	० ० ० ०
---	---	----	---------

अथ एकेंद्री रचना गुणस्थान २ आदिके उदयप्रकृति ८०. ज्ञाना० ५, दर्शना० ४, वेदनीय २, मोहनीय २४, मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, पुंस (?) १ स्त्रीवेद विना, तिर्यच-आयु १, तिर्यचद्विक २, औदारिक शरीर १, हुंड १, तैजस १, कार्मण १, वर्ण-चतुष्क ४, अपर्याप्त १, अथिर १, अशुभ १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १, वादर १, प्रत्येक १, थिर १, शुभ १, अगुरुलघु १, उपघात १, निर्माण १, थावर १, एकेंद्री १, परा-

घात १, उच्छ्वास १, आतप १, उद्द्योत १, पर्याप्त १, साधारण १, सूक्ष्म १, यश १, नीच गोत्र १, अंतराय ५; एवं ८०(?) है, शेष ४२ नहीं.

१	मि	८०	मिथ्यात्व १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३, स्त्यानगृद्धि ३, पराघात १, उच्छ्वास १, उद्द्योत १; एवं ११ विच्छित्ति
२	सा	६९	० ० ०

अथ विकलत्रय रचना गुणस्थान २ आदिके उदयप्र० ८१. ज्ञाना० ५, दर्शना० ९, वेदनीय २, मिथ्यात्व १, कषाय १६, हास्य आदि ६, नपुंसकवेद १, तिर्यच-आयु १, तिर्यच-द्विक २, औदारिकद्विक २, हुंडक १, छेवड्ड १, विकलेंद्री स्वकीय १, तैजस १, कार्मण १, वर्ण(चतुष्क) ४, अपर्याप्त १, अथिर ६, त्रस ६, अगुरुलघु १, उपघात १, पराघात १, निर्माण १, उच्छ्वास १, उद्द्योत १, यश १, अप्रशस्त गति १, नीच गोत्र १, अंतराय ५; एवं ८१ है.

१	मि	८१	मिथ्यात्व १, अपर्याप्त १, स्त्यानगृद्धित्रिक ३, पराघात १, उच्छ्वास १, उद्द्योत १, दुःस्वर १, अप्रशस्त गति १; एवं १० विच्छित्ति
२	सा	७१	० ० ०

अथ पंचेंद्री रचना गुणस्थान १४ सर्वे; उदयप्रकृति ११४ अस्ति. एकेंद्री १, थावर १, सूक्ष्म १, साधारण १, विकलत्रय ३, आतप १; एवं ८ नास्ति.

१	मि	१०९	मिश्रमोहनीय १, सम्यक्त्वमोहनीय १, आहारकद्विक २, तीर्थकर १; एवं ५ उतारे. मिथ्यात्व १, अपर्याप्त १ विच्छित्ति
२	सा	१०६	नरकानुपूर्वी १ उतारी, अनंतानुबंधि ४ विच्छित्ति
३	मि	१००	शेष आनुपूर्वी ३ उतारी. मिश्रमोहनीय १ मिली. मिश्रमोहनीय १ विच्छित्ति
४	अ		आनुपूर्वी ४, सम्यक्त्वमोहनीय १; एवं ५ मिले

पांचमेसे लेकर सर्व गुणस्थानमे समुच्चयवत्.

अथ पृथ्वीकाय रचना गुणस्थान २ आदिके उदयप्रकृति ७९. ज्ञाना० ५, दर्शना० ९, वेदनीय २, मिथ्यात्व १, कषाय १६, हास्य आदि ६, नपुंसक १, तिर्यच-आयु १, तिर्यच-द्विक २, औदारिक १, हुंडक १, तैजस १, कार्मण १, वर्णचतुष्क ४, अपर्याप्त १, अथिर १, अशुभ १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १, बादर १, प्रत्येक १, थिर १, शुभ १, अगुरुलघु १, उपघात १, पराघात १, निर्माण १, उच्छ्वास १, आतप १, उद्द्योत १, पर्याप्त १, एकेंद्री १, यश १, थावर १, सूक्ष्म १, नीच गोत्र १, अंतराय ५; एवं ७९ है. ४३ नहीं.

१	मि	७९	मिथ्यात्व १, अपर्याप्त १, आतप १, सूक्ष्म १, शीणत्रिक ३, पराघात १, उच्छ्वास १, उद्द्योत १; एवं १० विच्छित्ति
२	सा	६९	० ० ०

अथ अष्कायरचना गुणस्थान २ आदिके उदयप्रकृति ७८ है. पूर्वोक्त ७९, आतप १ विना.

१	मि	७८	मिथ्यात्व १, अपर्याप्त १, सूक्ष्म १, शीणत्रिक ३, पराघात १, उच्छ्वास १, उद्घोत १ विच्छित्ति.
२	सा	६९	० ० ०

अथ तेजोवायुकाय रचना गुणस्थान १-मिथ्यात्व; उदयप्रकृति ७७ है. पूर्वोक्त ७९ आतप १, उद्घोत १ विना.

अथ वनस्पतिकाय रचना गुणस्थान २ आदिके उदयप्रकृति (७९). ज्ञाना० ५, दर्शना० ९, अंतराय ५, मिथ्यात्व १, कषाय १६, हास्य आदि ६, नपुंसक १, तिर्यचत्रिक ३, नीच गोत्र १, औदारिक १, हुंडक १, तैजस १, कार्मण १, वर्णचतुष्क ४, अपर्याप्त १, अथिर १, अशुभ १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १, वादर १, प्रत्येक १, थिर १, शुभ १, अगुरुलघु १, उपघात १, निर्माण १, पराघात १, उच्छ्वास १, उद्घोत १, पर्याप्त १, साधारण १, एकेंद्री १, यश १, थावर १, सूक्ष्म १, वेदनी २; सर्वे अस्ति ७९, शेष ४३ नास्ति.

१	मि	७९	मिथ्यात्व १, सूक्ष्मत्रिक १, शीणत्रिक ३, पराघात १, उच्छ्वास १, उद्घोत १ विच्छित्ति.
२	सा	६९	० ० ०

अथ त्रसकाय रचना गुणस्थान १४ सर्वे; उदयप्रकृति ११७ अस्ति. थावर १, सूक्ष्म १, साधारण १, एकेंद्री १, आतप १; एवं ५ नास्ति.

१	मि	११२	मिश्रमोहनीय १, सम्यक्त्वमोहनीय १, आहारकद्विक २, तीर्थकर १; एवं ५ उतारे. मिथ्यात्व १, अपर्याप्त १; एवं २ विच्छित्ति.
२	सा	१०९	नरकानुपूर्वी १ उतारी. अनंतानुबंधि ४, विकलत्रय ३ विच्छित्ति.
३	मि	१००	शेष आनुपूर्वी ३ उतारी. मिश्रमोह० १ मिले. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	१०४	आनुपूर्वी ४, सम्यक्त्वमोहनीय १ मिले.

पांचमेसे लेकर चौदमे ताईं समुच्चयवत् जानना.

अथ मनचतुष्क आदि वचनत्रिक, एवं ७ योगरचना गुणस्थान १२ आदिके उदय-प्रकृति १०९ अस्ति. एकेंद्री १, थावर १, सूक्ष्मत्रिक ३, आतप १, विकलत्रय ३, आनुपूर्वी ४; एवं १३ नास्ति.

१	मि	१०४	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, आहारकद्विक २, तीर्थकर १ उतारे. मिथ्यात्व १ वि०
२	सा	१०३	अनंतानुबंधि ४ विच्छित्ति.
३	मि	१००	मिश्रमोह० १ मिली. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति.
४	अ	१००	सम्यक्त्वमोह० १ मिले. अप्रत्याख्यान ४, वैक्रियद्विक २, देवगति १, नरक-गति १, देव-आयु १, नरक-आयु १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १ विच्छित्ति.
५	दे	८७	० ० ०

आगले गुणस्थानोमे समुच्चयवत् जानना.

अथ व्यवहार वचन योग रचना गुणस्थान १३ आदिके उदयप्रकृति १२२ है. एकेंद्री १, थावर १, सूक्ष्मत्रिक ३, आतप १, आनुपूर्वी ४; एवं १० नास्ति.

१	मि	१०७	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, आहारकद्विक २, तीर्थंकर १ उतारे. मिथ्यात्व १ वि०
२	सा	१०६	अनंतानुबंधि ४, विकलत्रय ३; एवं ७ विच्छित्ति.
३	मि	१००	मिश्रमोह० १ मिली. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति.
४	अ	१००	सम्यक्त्वमोह० १ मिली. अप्रत्याख्यान ४, वैक्रियद्विक २, देवगति १, देव-आयु १, नरकगति १, नरक-आयु १, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १ विच्छित्ति.
५	दे	८७	० ० ०

आगले गुणस्थानोमे समुच्चयवत् जानना.

अथ औदारिक काय योगरचना गुणस्थान १३ आदिके उदयप्रकृति १०९ अस्ति. आहारकद्विक २, वैक्रियकद्विक २, आनुपूर्वी ४, देवगति १, देव-आयु १, नरकगति १, नरक-आयु १, अपर्याप्त १; एवं १३ नास्ति.

१	मि	१०६	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, तीर्थंकर १ उतारे. मिथ्यात्व १, आतप १, सूक्ष्म १, साधारण १; एवं ४ विच्छित्ति.
२	सा	१०२	अनंतानुबंधि ४, एकेंद्री १, थावर १, विकलत्रय ३; एवं ९ विच्छित्ति.
३	मि	९४	मिश्रमोह० १ मिले. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	,,	सम्यक्त्व १ मिले. अप्रत्याख्यान ४, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १ विच्छित्ति.
५	दे	८७	प्रत्याख्यान ४, तिर्यंच गति १, तिर्यंच-आयु १, नीच गोत्र १, उद्द्योत १; एवं ८ वि०
६	प्र	७९	० ० ०

आगले गुणस्थानोमे समुच्चयवत्.

अथ औदारिकमिश्र योग रचना गुणस्थान ४-पहिलो, दूजौ, चौथौ, तेरमौ; उदयप्रकृति ९८ है. आहारकद्विक २, वैक्रियद्विक २, आनुपूर्वी ४, देवगति १, देव-आयु १, नरकगति १, नरक-आयु १, मिश्रमोह० १, थीणत्रिक ३, दुःस्वर १, प्रशस्त गति १, अप्रशस्त गति १, पराघात १, उच्छ्वास १, आतप १, उद्द्योत १; एवं २४ (?) नही.

१	मि	९६	सम्यक्त्वमोह० १, तीर्थंकर १ उतारे. मिथ्यात्व १, सूक्ष्मत्रिक ३ विच्छित्ति
२	सा	९२	अनंतानु० ४, एकेंद्रिय १, थावर १, विकलत्रय ३, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १, नपुंसकवेद १, स्त्री १; एवं १४ व्यवच्छेद.
४	अ	७९	सम्यक्त्वमोह० १ मिले. अप्रत्या० ४, प्रत्या० ४, तिर्यंच गति १, तिर्यंच-आयु १, नीच गोत्र १, सम्यक्त्वमोह० १, अंतके संहनन ३, हास्य आदि ६, पुंवेद १, संज्वलनके ४, ऋषभनाराच १, नाराच १, निद्रा १, प्रचला १, आवरण ९, अंतराय ५; एवं ४४ प्रकृतिकी विच्छित्ति हुइ.
१३	स	३६	तीर्थंकर १ मिले

अथ वैक्रिय योग रचना गुणस्थान ४ आदिके उदयप्रकृति ८६ है. ज्ञानावरण ५, दर्शना० ६ थीणत्रिक विना, वेदनीय २, मोहनीय २८, अंतराय ५, गोत्र २, देवगति १, देव-आयु १, वैक्रियद्विक २, पंचेंद्री १, तैजस १, कार्मण १, समचतुरस्र १, हुंडक १, प्रशस्त गति १, अप्रशस्त गति १, वर्णचतुष्क ४, अगुरुलघु १, उपघात १, उच्छ्वास १, निर्माण १, अथिर १, अशुभ १, त्रसदशक १०, दुःस्वर १, अनादेय १, अयश १, नरक-गति १, नरक-आयु १, दुर्भग १; एवं ८६ (?) अस्ति, शेष ३६ नास्ति.

१	मि	८४	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १ उतारे. मिथ्यात्व १ विच्छित्ति
२	सा	८३	अनंतानुबंधि ४ विच्छित्ति
३	मि	८०	मिश्रमोह० १ मिले. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	८०	सम्यक्त्वमोह० मिले

अथ वैक्रियमिश्र योग रचना गुणस्थान ३-प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ; उदयप्रकृति ७९ अस्ति. पूर्वोक्त ८६ तिण मध्ये मिश्रमोह० १, पराघात १, उच्छ्वास १, सुस्वर १, दुःस्वर १, प्रशस्त गति १, अप्रशस्त गति १; एवं ७ नास्ति.

१	मि	७८	सम्यक्त्वमोह० १ उतारी. मिथ्यात्व १ विच्छित्ति
२	सा	६९	नरकगति १, नरक-आयु १, नीच गोत्र १, हुंडक १, नपुंसक १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १; एवं ८ उतारे. अनंता० ४, स्त्रीवेद १; एवं ५ विच्छित्ति.
४	अ	७३	सम्यक्त्वमोह० १, नरकगति १, नरक-आयु १, नीच गोत्र १, हुंडक १, नपुंसक-वेद १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १; एवं ९ मिले

अथ आहारक योग रचना गुणस्थान १-प्रमत्त; उदयप्रकृति ६१ अस्ति. मिथ्यात्व १, मिश्रमोह० १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३, अनंता० ४, एकेंद्री १, थावर १, विकलत्रय ३, अप्रत्या० ४, वैक्रियकद्विक २, देवगति १, देव-आयु १, नरक-गति १, नरक-आयु १, आनु-पूर्वी ४, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १, प्रत्या० ४, तीर्थच-आयु १, नीच गोत्र १, तीर्थच गति १, उद्घोत १, तीर्थकर १; एवं ४१ नास्ति, शेष ६१ पष्ठ गुणस्थान अस्ति. तिण मध्ये थीणत्रिक ३, नपुंसकवेद १, स्त्रीवेद १, अप्रशस्त गति १, दुःस्वर १, संहनन ६, औदारिक-द्विक २, संस्थान ५ समचतुरस्र विना; एवं २० नास्ति, शेष ६१ अस्ति.

अथ आहारकमिश्र योग रचना गुणस्थान १-प्रमत्त; उदयप्रकृति ५७ अस्ति. पूर्वोक्त ६१ तिण मध्ये सुस्वर १, पराघात १, उच्छ्वास १, प्रशस्त गति १; एवं ४ नहीं.

अथ कार्मण योग रचना गुणस्थान ४-पहिला, दूजा, चौथा, तेरमा; उदयप्रकृति ८९ अस्ति. सुस्वर १, प्रशस्त गति १, अप्रशस्त गति १, प्रत्येक १, साधारण १, आहारकद्विक २, औदारिकद्विक २, मिश्रमोह० १, उपघात १, पराघात १, उच्छ्वास १, आतप १, उद्घोत १, वैक्रियद्विक २, थीणत्रिक ३, संस्थान ६, संहनन ६; एवं ३३ (?) नास्ति.

१	सि	८७	सम्यक्त्वमोह० १, तीर्थंकर १ उतारे. मिथ्यात्व १, सूक्ष्म १, अपर्याप्त १ विच्छित्ति
२	सा	८१	नरकत्रिक उतारे. अनंता० ४, एकेंद्रि १, थावर १, विकलत्रय ३, स्त्रीवेद १; एवं १० विच्छित्ति
४	अ	७५	सम्यक्त्वमोह० १, नरकत्रिक ३ मिले. अप्रत्या० ४, देवत्रिक ३, नरकत्रिक ३, तिर्यंचत्रिक ३, मनुष्यानुपूर्वी १, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १, प्रत्या० ४, नीच गोत्र १, सम्यक्त्वमोह० १, नपुंसकवेद १, पुरुषवेद १, हास्य आदि ६, संज्वलन ४, निद्रा १, प्रचला १, आवरण ९, अंतराय ५; एवं ५१ विच्छित्ति
१३	स	२५	तीर्थंकर १ मिले

अथ पुरुषवेद रचना गुणस्थान ९ आदिके उदयप्रकृति १०७ है. थावर १, सूक्ष्मत्रिक ३, नरकत्रिक ३, विकलत्रिक ३, एकेंद्री १, स्त्रीवेद १, नपुंसकवेद १, आतप १, तीर्थंकर १; एवं १० (?) नास्ति.

१	सि	१०३	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, आहारकद्विक २ उतारे. मिथ्यात्व १ विच्छित्ति
२	सा	१०२	अनंतानुबंधि ४ विच्छित्ति
३	सि	९६	आनुपूर्वी ३ नरक विना उतारी. मिश्रमोह० १ मिले. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	९९	सम्यक्त्वमोह० १, आनुपूर्वी ३ नरक विना; एवं ४ मिले. अप्रत्या० ४, वैक्रियद्विक २, देवत्रिक ३, मनुष्यानुपूर्वी १, तिर्यंचानुपूर्वी १, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १; एवं १४ विच्छित्ति
५	दे	८५	प्रत्या० ४, तिर्यंच-आयु १, नीच गोत्र १, उद्द्योत १, तिर्यंच गति १ विच्छित्ति
६	प्र	७९	आहारकद्विक २ मिले. शीणत्रिक ३, आहारकद्विक २ विच्छित्ति
७	अ	७४	सम्यक्त्वमोह० १, अंतके संहनन ३; एवं ४ विच्छित्ति
८	अ	७०	हास्य आदि ६ विच्छित्ति
९	अ	६४	० ० ० ०

अथ स्त्रीवेद रचना गुणस्थान ९ आदिके उदयप्रकृति १०५ अस्ति. पूर्वोक्त १०७, स्त्रीवेद १; एवं १०८, तिण मध्ये आहारकद्विक २, पुरुषवेद १; एवं ३ नहीं.

१	सि	१०३	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, उतारे. मिथ्यात्व १ विच्छित्ति
२	सा	१०२	अनंता० ४, आनुपूर्वी ३ नरक विना; एवं ७ विच्छित्ति
३	सि	९६	मिश्रमोह० १ मिली. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	"	सम्यक्त्वमोह० १ मिले. अप्रत्या० ४, देवगति १, देव-आयु १, वैक्रियद्विक २, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १; एवं ११ विच्छित्ति
५	दे	८५	प्रत्या० ४, तिर्यंच-आयु १, उद्द्योत १, नीच गोत्र १, तिर्यंच गति १ विच्छित्ति

६	प्र	७७	श्रीणत्रिक ३ विच्छित्ति
७	अ	७४	सम्यक्त्वमोह० १, अंतके संहनन ३; एवं ४ विच्छित्ति
८	अ	७०	हास्य आदि ६ विच्छित्ति
९	अ	६४	० ० ०

अथ नपुंसक वेद रचना गुणस्थान ९ आदिके उदयप्रकृति ११४ है. आहारकद्विक २, तीर्थंकर १, देवत्रिक ३, स्त्रीवेद १, पुरुषवेद १; एवं ८ नहीं.

१	मि	११२	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १ उतारे. मिथ्यात्व १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३ वि०
२	सा	१०६	नरकानुपूर्वी १ उतारी. अनंता० ४, एकेंद्री १, थावर १, विकलत्रय ३, मनुष्यानुपूर्वी १, तिर्यंचापूर्वी १; एवं ११ विच्छित्ति
३	मि	९६	मिश्रमोह० १ मिली. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	९७	सम्यक्त्वमोह० १, नरकानुपूर्वी १ मिले. अप्रत्या० ४, नरकत्रिक ३, वैक्रियद्विक २, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १; एवं १२ विच्छित्ति
५	दे	८५	प्रत्या० १, तिर्यंच-आयु १, उद्द्योत १, नीच गोत्र १, तिर्यंच गति १ विच्छित्ति
६	प्र	७७	श्रीणत्रिक ३ विच्छित्ति
७	अ	७४	सम्यक्त्वमोह० १, अंतके संहनन ३; एवं ४ विच्छित्ति
८	अ	७०	हास्य आदि ६ विच्छित्ति
९	अ	६४	० ० ०

अथ क्रोधचतुष्क रचना गुणस्थान ९ आदिके उदयप्रकृति १०९ अस्ति. तीर्थंकर १, मान ४, माया ४, लोभ ४; एवं १३ नास्ति.

१	मि	१०५	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, आहारकद्विक २ उतारे. मिथ्यात्व १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३; एवं ५ विच्छित्ति
२	सा	९९	नरकानुपूर्वी १ उतारी. अनंता० क्रोध १, एकेंद्री १, थावर १, विकलत्रय ३; एवं ६ विच्छित्ति
३	मि	९१	आनुपूर्वी ३ नरक विना उतारी. मिश्रमोह० १ मिले. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	९५	सम्यक्त्वमोह० १, आनुपूर्वी ४ मिले. अप्रत्या० क्रोध १, वैक्रियक-अष्टक ८, मनुष्यानुपूर्वी १, तिर्यंचानुपूर्वी १, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १; एवं १४ विच्छित्ति
५	दे	८१	प्रत्या० क्रोध १, तिर्यंच-आयु १, नीच गोत्र १, उद्द्योत १, तिर्यंच गति १ विच्छित्ति
६	प्र	७८	आहारकद्विक २ मिले. श्रीणत्रिक ३, आहारकद्विक २ विच्छित्ति
७	अ	७३	सम्यक्त्वमोह० १, अंतके संहनन ३; एवं ४ विच्छित्ति
८	अ	६९	हास्य आदि ६ विच्छित्ति
९	अ	६३	० ० ०

एवं मानचतुष्क; एवं माया ४, एवं लोभ ४. इतना विशेष-आपणे अपणे चतुष्क करी जानना. लोभ दशमे ताई है सोइ नवमे गुणस्थानकी ६३ माहिथी वेद तीनकी विच्छित्ति कर्या ६० रही. अपणी बुद्धिसैं विचार लेना.

अथ मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान रचना गुणस्थान २ आदिके उदयप्रकृति ११७ पहिले, १११ दूजे, समुच्चयवत्.

अथ विभंगज्ञान रचना गुणस्थान २ आदिके उदयप्रकृति १०६ अस्ति. एकेंद्री १, आतप १, विकलत्रय ३, थावरचतुष्क ४, आनुपूर्वी मनुष्यकी १, तिर्यचकी १, मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, आहारकद्विक २, तीर्थकर १; एवं १६ नास्ति.

१	मि	१०६	मिथ्यात्व १, नरकानुपूर्वी १ विच्छित्ति
२	सा	१०४	० ० ०

अथ ज्ञानत्रय रचना गुणस्थान ९ अविरतिसम्यग्दृष्टि आदि; उदयप्रकृति १०६ है. मिथ्यात्व १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३, अनंता० ४, एकेंद्री १, थावर १, विकलत्रय ३, मिश्रमोह० १, तीर्थकर १; एवं १६ नास्ति.

४	अ	१०४	आहारकद्विक २ उतारे. अप्रत्या० ४, वैक्रिय-अष्टक ८, मनुष्यानुपूर्वी १, तिर्यचानुपूर्वी १, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १ विच्छित्ति
५	इ	८७	० ० ०

आगे सर्वत्र समुच्चयगुणस्थानवत्. मनःपर्याय छट्टेसे लेकर पूर्वोक्तवत्. केवलज्ञान १३१४ मे वत्. सामायिक, छेदोपस्थापनीय छट्टेसे नवमे लग समुच्चयवत्.

अथ परिहारविशुद्धि रचना गुणस्थान २-प्रमत्त, अप्रमत्त; उदयप्रकृति ७८ है. पूर्वोक्त छट्टेकी ८१; तिण मध्ये स्त्रीवेद १, आहारकद्विक २; एवं ३ नही. सातमे थीणत्रिक नही ७५. सूक्ष्मसंपराय दशमे वत्. यथाख्यातमे १११२१३१४ मे गुणस्थानवत् जान लेनी. देशविरते ८७. अथ असंयम प्रथम चार गुणस्थानवत्.

अथ चक्षुर्दर्शन रचना गुणस्थान १२ आदिके उदयप्रकृति १०९ है. तीर्थकर १, साधारण १, आतप १, एकेंद्री १, थावर १, सूक्ष्म १, बेंद्री १, तेंद्री १ आनुपूर्वी ४, अपर्याप्त १; एवं १३ नही.

१	मि	१०५	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, आहारकद्विक २; एवं ४ उतारे. मिथ्यात्व १ विच्छित्ति
२	सा	१०४	अनंतानुबंधि ४, चौरिंद्री १; एवं ५ विच्छित्ति
३	मि	१००	मिश्रमोह० १ मिली. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	१	सम्यक्त्वमोह० १ मिली

आगे समुच्चयगुणस्थानवत्.

अचक्षुर्दर्शनमे गुणस्थान १२ आदिके उदयप्रकृति १२१. तीर्थकर १ नास्ति. गुणस्थानोमे समुच्चयवत् पहिले ११७, दूजे १११ इत्यादि. अवधिदर्शन अवधिज्ञानवत्. केवलदर्शन केवलज्ञानवत्.

अथ कृष्ण, नील, कापोत लेश्या रचना गुणस्थान ४ आदिके उदयप्रकृति ११९ है. आहारकद्विक २, तीर्थकर १; एवं ३ नास्ति.

१	मि	११७	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १ उतारे. मिथ्यात्व १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३, नरकानुपूर्वी १; एवं ६ विच्छित्ति
२	सा	१११	अनंता० ४, एकेंद्री १, थावर १, विकलत्रय ३, देवानुपूर्वी १, तिर्यंचानुपूर्वी १; एवं ११ विच्छित्ति
३	मि	१००	मनुष्यानुपूर्वी १ उतारी. मिश्रमोह० १ मिली. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	१०४	आनुपूर्वी ४, सम्यक्त्वमोह० १; एवं ५ मिली

अथ तेजोलेश्या रचना गुणस्थान ७ आदिके उदयप्रकृति १०१ है. आतप १, विकलत्रय ३, सूक्ष्मत्रिक ३, नरकत्रिक ३, तीर्थकर १; एवं ११ नास्ति

१	मि	१०७	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, आहारकद्विक २; एवं ४ उतारे. मिथ्यात्व १ वि०
२	सा	१०६	अनंतानुबंधि ४, एकेंद्री १, थावर १, एवं ६ विच्छित्ति
३	मि	९८	आनुपूर्वी ३ उतारे. मिश्रमोह० १ मिले. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	१०१	सम्यक्त्वमोह० १, आनुपूर्वी ३; एवं ४ मिले. वैक्रियद्विक २, अपत्या० ४, देवत्रिक-३, आनुपूर्वी ३, दुर्भंग १, अनादेय १, अयश १; एवं १४ (?) विच्छित्ति
५	दे	८७	प्रत्या० ४, तिर्यंच-आयु १, नीच गोत्र १, उद्द्योत १, तिर्यंच गति १ विच्छित्ति
६	प्र	८१	आहारकद्विक २ मिले. श्रीणत्रिक ३, आहारकद्विक २ विच्छित्ति
७	अ	७६	० ० ०

अथ पद्मलेश्या रचना गुणस्थान ७ आदिके उदयप्रकृति १०९ है. आतप १, एकेंद्री १, थावरचतुष्क ४, विकलत्रिक ३, नरकत्रिक ३, तीर्थकर १; एवं १३ नास्ति. १०५।१०४।९८, चौथे १०१।८७।८१।७६.

अथ शुक्लेश्या रचना गुणस्थान १३ आदिके उदयप्रकृति ११० अस्ति. आतप १, एकेंद्री १, विकलत्रय ३, थावरचतुष्क ४, नरकत्रिक ३; एवं १२ नास्ति.

१	मि	१०५	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, आहारकद्विक २, तीर्थकर १; एवं ५ उतारे. मिथ्यात्व १ विच्छित्ति
२	सा	१०४	अनंतानुबंधि ४ विच्छित्ति
३	मि	९८	आनुपूर्वी ३ उतारी. मिश्रमोह० १ मिली. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	१०१	सम्यक्त्वमोह० १, आनुपूर्वी ३ मिले

आगे गुणस्थान समुच्चयवत्. अथ भव्यरचना गुणस्थानवत् १४ सर्वे, अथ अभव्य प्रथम गुणस्थानवत्.

अथ उपशम रचना गुणस्थान ८ चौथा आदि उदयप्रकृति १०० है. मिथ्यात्व १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३, अनंतानुबंधि ४, एकेंद्री १, थावर १, विकलत्रय ३, मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, आनुपूर्वी ३ देव विना, आहारकद्विक २, तीर्थकर १; एवं २२ नास्ति.

४	अ	१००	अप्रत्याख्यान ४, वैक्रियद्विक २, देवत्रिक ३, नरकगति १, नरक-आयु १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १; एवं १४ व्यवच्छेद
५	दे	८६	प्रत्याख्यान ४, तिर्यंच-आयु १, नीच गोत्र १, उद्द्योत १, तिर्यंच गति १ विच्छित्ति
६	प्र	७८	श्रीणत्रिक ३ विच्छित्ति
७	अ	७५	०

आगले च्यार गुणस्थानोमे समुच्चय गुणस्थानवत्.

अथ क्षयोपशम सम्यक्त्व रचना गुणस्थान ४-४।५।६।७ समुच्चयगुणस्थानवत्.

अथ क्षायिक सम्यक्त्व रचना गुणस्थान ११-चौथा आदि; उदयप्रकृति १०६ है. मिथ्यात्व १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३, अनंतानुबंधि ४, एकेंद्री १, थावर १, विकलत्रय ३, मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १; एवं १६ नास्ति.

४	अ	१०३	आहारकद्विक २, तीर्थकर १ उतारे. अप्रत्या० ४, वैक्रिय-अष्टक ८, मनुष्य-आनुपूर्वी १, तिर्यंच-आनुपूर्वी १, तिर्यंच-आयु १, उद्द्योत १, तिर्यंच गति १, दुर्भग १, अनादेय १, अयश १; एवं २० विच्छित्ति
५	दे	८३	प्रत्याख्यान ४, नीच गोत्र १ विच्छित्ति
६	प्र	८०	आहारकद्विक २ मिले. श्रीणत्रिक ३, आहारकद्विक २ विच्छित्ति
७	अ	७५	०

आगे समुच्चयवत्. अथ मिश्र १, साखादनसम्यक्त्व १, मिथ्यात्व १, आपणे आपणे गुणस्थानवत्.

अथ संज्ञी रचना गुणस्थान १२ आदि के उदयप्रकृति ११३ अस्ति. एकेंद्री १, थावर १, सूक्ष्म १, साधारण १, आतप १, विकलत्रय ३, तीर्थकर १; एवं ९ नास्ति.

१	मि	१०९	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, आहारकद्विक २; एवं ४ उतारे. मिथ्यात्व १, अपर्याप्त १ विच्छित्ति
२	सा	१०६	नरक-आनुपूर्वी १ उतारी. अनंतानुबंधि ४ विच्छित्ति
३	मि	१००	आनुपूर्वी ३, नरक विना उतारी. मिश्रमोह० १ मिली

आगे समुच्चयवत्.

अथ असंज्ञी रचना गुणस्थान २ आदिके उदयप्रकृति ९४ अस्ति. उंच गोत्र १, वैक्रिय-
छक ६, संहनन ५ छेवट्ट विना, संस्थान ५ हुंडक विना, प्रशस्त गति १, सुभगत्रिक ३, आयु
२ देव, नरककी, आहारकद्विक २, तीर्थकर १, मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १; एवं २८ नही.

१	मि	९४	मिथ्यात्व १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३, शीणत्रिक ३, पराघात १, मनुष्यत्रिक ३, उच्छ्वास १, उद्घोत १, दुःस्वर १, अप्रशस्त गति १; एवं १६ विच्छित्ति.
२	स	७८	०

अथ आहारक रचना गुणस्थान १३ है; आदिके उदय प्रकृति ११८; आनुपूर्वी ४ नही.

१	मि	११३	मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, आहारकद्विक २, तीर्थकर १; एवं ५ उतारे. मिथ्यात्व १, आतप १, सूक्ष्मत्रिक ३; एवं ५ विच्छित्ति.
२	सा	१०८	अनंतानुबंधि ४, एकेंद्री १, थावर १, विकलत्रय ३; एवं ९ विच्छित्ति
३	मि	१००	मिश्रमोह० १ मिले. मिश्रमोह० १ विच्छित्ति
४	अ	॥	सम्यक्त्वमोह० १ मिली

आगे सर्व समुच्चयवत्.

अथ अनाहारक रचना गुणस्थान ४-पहिलो, दूजो, चौथो, तेरमो; उदयप्रकृति ८९
अस्ति. दुःस्वर १, सुस्वर १, प्रशस्त गति १, अप्रशस्त गति १, प्रत्येक १, साधारण १, आहा-
रकद्विक २, औदारिकद्विक २, मिश्रमोह० १, उपघात १, पराघात १, उच्छ्वास १, आतप
१, उद्घोत १, वैक्रियद्विक २, शीणत्रिक ३, संहनन ६, संस्थान ६; एवं ३३ नास्ति.

१	मि	८७	सम्यक्त्वमोह० १, तीर्थकर १ उतारे. मिथ्यात्व १, सूक्ष्म १, अपर्याप्त १ विच्छित्ति.
२	सा	८१	नरकत्रिक उतारे. अनंतानुबंधि ४, एकेंद्री १, थावर १, विकलत्रय ३, स्त्रीवेद १; एवं १० विच्छित्ति.
४	अ	७५	सम्यक्त्वमोह० १, नरकत्रिक ३ मिले. अप्रत्याख्यान आदि अंतराय पर्यंत ५१ विच्छित्ति व्यौरा कार्मणरचनावत्
१३	स	२५	तीर्थकर १ मिले

इति उदयाधिकार समाप्त.

अथ सत्ताधिकार कथ्यते. अथ घर्मा आदि नरकत्रय रचना गुणस्थान ४ आदि; सत्ता-
प्रकृति १४७. देव-आयु नही.

१	मि	१४७	०
२	सा	१४६	तीर्थकर १ उतारे
३	मि	॥	०
४	अ	१४७	तीर्थकर १ मिले

१	मि	१४६	०	अंजना आदि त्रयमे देव-आयु १, तीर्थकर १; एवं २ नास्ति. सातमीमे तीर्थकर १, देव-आयु १, मनुष्य- आयु १; एवं ३ नही. १४५ मि. १४५ सा. १४५ मि. १४५ अ.
२	सा	॥	॥	
३	मि	॥	॥	
४	अ	॥	॥	

अथ सामान्य तिर्यच रचना गुणस्थान ४ आदिके सत्ताप्रकृति १४७; तीर्थकर १ नहीं. पहिले १४७, दूजे १४७, तीजे १४७, चौथे १४७; मनुष्य रचना गुणस्थान १४ वत्.

अथ सौधर्म आदि सहस्रार पर्यंत देवलोक रचना गुणस्थान ४; सत्ताप्रकृति १४७; नरक-आयु नास्ति. अथ आनत आदि नव ग्रैवेयक पर्यंत सत्ता० १४६; नरक १, तिर्यच-आयु नहीं.

१	मि	१४६	तीर्थकर १ उतारे	१	मि	१४५	तीर्थकर १ उतारे	अथ ५ अनुत्तर रचना गुणस्थान १—चौथा; सत्ता० १४६; नरक-आयु १, तिर्यच-आयु १; एवं २ नहीं.
२	सा	॥	०	२	सा	॥	०	
३	मि	॥	०	३	मि	॥	०	
४	अ	१४७	तीर्थकर १ मिले	४	अ	१४६	तीर्थकर १ मिले	

अथ भवनपति, व्यंतर १, जोतिषि १, सर्व देवी १, रचना गुणस्थान ४ आदिके सत्ता-प्रकृति १४६ अस्ति. तीर्थकर १, नरक-आयु १; एवं २ नास्ति.

१	मि	१४६	०	अथ एकेंद्री विकलत्रय रचना गुणस्थान २ आदिके सत्ताप्रकृति १४५ अस्ति. तीर्थकर १, नरक-आयु १, देव-आयु १ नहीं. अथ पंचेद्री रचना गुणस्थानवत्
२	सा	॥	०	
३	मि	॥	०	
४	अ	॥	०	

१	मि	१४५
२	सा	॥

अथ पृथ्वीकाय १, अप्काय १, वनस्पतिकाय रचना एकेंद्री विकलत्रय रचनावत्. अथ तेजोवातकाय रचना गुणस्थान १—मिथ्यात्व १; सत्ताप्रकृति १४४ है. तीर्थकर १, देव-आयु १, मनुष्य-आयु १, नरक-आयु १; एवं ४ नास्ति. अथ त्रसकाय रचना गुणस्थानवत्. अथ मनोयोगचतुष्क ४, वचनयोगचतुष्क ४, औदारिककाययोग १; एवं योग ९ गुणस्थान रचनावत्. अथ वैक्रियकाययोग रचना गुणस्थान ४ आदिके सत्ताप्रकृति १४८; पहिले १४८, दूजे १४७, तीजे १४७, चौथे १४८.

अथ आहारक आहारक मिश्र रचना गुणस्थान १—प्रमत्त; सत्ताप्रकृति १४८ सर्वे.

अथ औदारिकमिश्रयोग रचना गुणस्थान ४—पहिला, दूजा, चौथा, तेरमा; सत्ता० १४६ अस्ति. देव-आयु १, नरक-आयु १ नहीं.

१	मि	१४५	तीर्थकर १ उतारे
२	सा	॥	०
४	अ	१४६	तीर्थकर १ मिले. सातमे गुणस्थानकी, नवमे गुण०की, दशमे गुण०की, बारमे गुण०की; एवं ६१ की विच्छित्ति. शेष ८५ रही तेरमे गुणस्थानमे.
१३	स	८५	०

अथ नरकगति मिश्रवैक्रियका गुणस्थान २—पहिला, चौथा; सत्ता० १४५. मनुष्य-आयु १, तिर्यच-आयु १, देव-आयु १; एवं ३ नहीं. पहिले १४५, चौथे १४५ है.

अथ देवगति संबंधि वैक्रियकमिश्रयोग रचना गुणस्थान ३—पहिला, दूजा, चौथा; सत्ता० १४५. मनुष्य-आयु १, तिर्यच-आयु १, नरक-आयु १; एवं ३ नहीं.

अथ कार्मणरचना गुणस्थान ४—पहिला, दूजा, चौथा, तेरमा; सत्ता० १४८ सर्वे सन्ति.

१	मि	१४४	तीर्थकर १ उतारे	१	मि	१४८	०
२	सा	०	०	२	सा	१४६	तीर्थकर १, नरक-आयु १ उतारे
४	अ	१४५	तीर्थकर १ मिले	४	अ	१४८	तीर्थकर १, नरक-आयु १ मिले
०	०	०	०	१३	स	८५	रही ८५का व्यौरा गुणस्थानवत्

अथ वेद तीनों नव गुणस्थान लग समुच्चयगुणस्थानवत् जानना. अथ अनंतानुबंधिचतुष्क रचना गुणस्थान २ आदिके सत्ता० पहिले १४८, दूजे १४७, अथ अप्रत्याख्यान ४ रचना गुणस्थान ४ आदि सत्ता० समुच्चयगुणस्थानवत्. अथ प्रत्याख्यानमे गुणस्थान ५ आदिके रचना समुच्चयगुणस्थानवत्. अथ संज्वलन क्रोध १, मान १, माया १ नवमे ताइ लोभ दशमे ताइ समुच्चयवत्. अथ अज्ञानत्रय रचना गुणस्थान २ आदिके सत्ता० समुच्चयवत् जानना. अथ ज्ञानत्रय रचना गुणस्थान ९ चौथा आदि बारमे लग सत्ता० १४८ समुच्चवत्. अथ मनःपर्यायज्ञानरचना गुणस्थान ७—प्रमत्त आदि; सत्ता० १४८ सर्वे, समुच्चयवत्. केवलज्ञानमे सत्ता० ८५ की; गुणस्थान १३।१४ मा समुच्चयवत्. अथ सामायिक, छेदोपस्थापनीय रचना गुणस्थान ४—प्रमत्त आदि; सत्ता० १४८ समुच्चयवत्. अथ परिहारविशुद्धि रचना गुणस्थान २—प्रमत्त, अप्रमत्त; सत्ताप्रकृति १४८ समुच्चयवत्. सूक्ष्मसंपराय चारित्र दशमेवत्. अथ यथाख्यात रचना ११।१२।१३।१४ मे वत्. अथ देशविरति पंचमे वत्. अथ असंयम रचना आदिके ४ गुणस्थानो वत्. अथ अचक्षु, चक्षुदर्शन रचना गुणस्थानरचनावत् गुणस्थान १२ पर्यंत. अथ अवधिदर्शन रचना अवधिज्ञानवत्. अथ केवलदर्शन केवलज्ञानवत्. अथ कृष्ण, नील लेश्या, कापोत लेश्या रचना गुणस्थान ४ प्रथमवत्. अथ तेजो पद्मलेश्या रचना गुणस्थान ७ आदिके समुच्चयवत्. अथ शुक्ल लेश्या रचना गुणस्थान १३ आदिके रचना १४८ सत्ता० समुच्चयवत्. अथ भव्य रचना गुणस्थानवत्. अथ अभव्य रचना गुणस्थान १—मिथ्यात्व; सत्ताप्रकृति १४१, मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १, तीर्थकर १, आहारकद्विक २, आहारकबंधन १, आहारकसंघातन १; एवं ७ नहीं. अथ उपशमसम्यक्त्वरचना गुणस्थान ८—अविरतिसम्यग्दृष्टि आदि; सत्ता० सर्व गुणस्थानोकी १४८ जाननी. अथ क्षयोपशमसम्यक्त्व रचना गुणस्थान ४—अविरतिसम्यग्दृष्टि आदि; सत्ता० १४८ समुच्चयगुणस्थानवत्. अथ क्षायिक सम्यक्त्वरचना गुणस्थान ११—अविरतिसम्यग्दृष्टि आदि, सत्ताप्रकृति १४१ अस्ति. अनंतानुबंधि ४, मिथ्यात्व १, मिश्रमोह० १, सम्यक्त्वमोह० १; एवं ७ नास्ति. यंत्र नाम मात्र लिख्या. विस्तार समुच्चयसत्ताथी जानना.

४	अ	१४१	
५	दे	"	
६	प्र	"	
७	अ	"	आयु ३ की विच्छित्ति
८	अ	१३८	०
९	अ	"	भाग ९करी ३६की विच्छित्ति व्यौरा गुणस्थानरचनावत्
१०	सू	१०२	संज्वलन लोभ विच्छित्ति
११	उ	१०१	०
१२	क्षी	"	निद्रा १, प्रचला १, ज्ञानावरण ५, दर्शना० १, वर्ण ४, अंतराय ५ विच्छित्ति
१३	स	८५	०
१४	अ	"	० ८५ व्यवच्छेदे मुक्तौ

मिथ्यात्व मिथ्यात्ववत्, साखादन साखादनवत्, मिश्र मिश्रगुणस्थानवत्, अथ संज्ञी रचना गुणस्थानरचनावत् गुणस्थान १२ पर्यंत, अथ असंज्ञी रचना गुणस्थान २ आदिके सत्ता० १४७ अस्ति; तीर्थकर १ नहीं, पहिले १४७, दूजे १४७, अथ आहारक रचना गुणस्थान-रचनावत् १३ लगे, अथ अनाहारक रचना कार्मणयोगरचनावत्, इति सत्ताधिकार संपूर्ण.

(१६५) उत्कृष्ट प्रकृतिबन्धयन्त्रम्
शतकात्

(१६६) जघन्यप्रकृतिबन्धस्वामियन्त्रम्

प्रकृति	स्वामि
तीर्थकर १	४ गुणस्थान
आहारकद्विक २, देव-आयु १	७ अप्रमत्त
विकलत्रिक ३, सूक्ष्म ३, नरक, तिर्यग्, मनुष्य-आयु ३, सुर-द्विक २, वैक्रियद्विक २, नरक-द्विक २; सर्व १५	तिर्यच, मनुष्य मिथ्यात्वी
एकेंद्री १, थावर १, आतप १	मिथ्यात्वी ईशानांत
तिर्यच गति १, तिर्यचानुपूर्वी १, औदारिकद्विक २, उद्द्योत १, छेवट्टा १	देवता, नारकी मिथ्यात्वी
शेष ९२ प्रकृति	चारो गतिका मिथ्यात्वी

प्रकृति	बन्ध-स्वामि
आहारक २, तीर्थकर १	८ गुणस्थान
संज्वलन ४, पुरुषवेद १	नवमा गुणस्थाने
साता १, यश १, उच्चगोत्र १, ज्ञानावरणीय ५, दर्श-नावरण ४, अंतराय ५; एवं सर्व १७,	सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानवाला
नरकद्विक २, वैक्रियद्विक २, देवद्विक २	असंज्ञी तिर्यच पर्याप्त
आयु ४	संज्ञी असंज्ञी
शेष प्रकृति ८५ रही	बादर एकेंद्री पर्याप्त

(१६७) अथ स्थितिबंध अल्पबहुत्व संख्या

यति सूक्ष्म संपराय जघन्य	स्तो १
बादर एकेंद्री पर्याप्त "	असं २
सूक्ष्म " " "	वि ३
बादर " अपर्याप्त "	" ४
सूक्ष्म " " "	" ५
" " " उत्कृष्ट	" ६
बादर " " "	" ७
सूक्ष्म " पर्याप्त "	" ८
बादर " " "	" ९
बेहंद्री पर्याप्त जघन्य	सं १०
" अपर्याप्त "	वि ११
" " उत्कृष्ट	" १२
" पर्याप्त "	" १३
तेहंद्री " जघन्य	" १४
" अपर्याप्त "	" १५
" " उत्कृष्ट	" १६
" पर्याप्त "	" १७
चउरिंद्री पर्याप्त जघन्य	" १८

चउरिंद्री अपर्याप्त जघन्य	वि १९
" " उत्कृष्ट	" २०
" पर्याप्त "	" २१
असंखी पंचेंद्री पर्याप्त जघन्य	सं २२
" " अपर्याप्त "	वि २३
" " " उत्कृष्ट	" २४
" " पर्याप्त "	" २५
यतिना उत्कृष्ट स्थितिबंध	सं २६
देशविरति जघन्य स्थिति	" २७
" उत्कृष्ट "	" २८
अविरतिसम्यग्दष्टि पर्याप्त जघन्य	" २९
" अपर्याप्त "	" ३०
" " उत्कृष्ट	" ३१
" पर्याप्त "	" ३२
संखी " जघन्य	" ३३
" अपर्याप्त "	" ३४
" " उत्कृष्ट	" ३५
" पर्याप्त "	" ३६

(१६८) अथ ४१ प्रकृतिका अबंध कालयंत्र

प्रकृति	अबंधकाल
नरकत्रिक ३, तिर्यचत्रिक ३, उद्द्योत १; एवं सर्व ७	१६३ सागरोपम, ४ पल्योपम मनुष्य-भव अधिक जुगलियाने
थावरचतुष्क ४, एकेंद्री १, विकलत्रिक ३, आतप १	१८५ सागरोपम, ४ पल्योपम मनुष्यभव अधिक नारकने
प्रथम संहनन वर्जी ५ संहनन, प्रथम संस्थान वर्जी ५ संस्थान, अशुभ गति १, अनंतानुबंधि ४, मिथ्यात्व १, दुर्भग १, दुःस्वर १, अनादेय १, शीणत्रिक ३, नीच गोत्र १, नपुंसकवेद १, स्त्रीवेद १	१३२ सागरोपम मनुष्य-भवे अधिक यति-भव आदि देह पंचेंद्रीने अबंधस्थिति

अथ १६३।१८५ कक्षा ते पूरवाना ठाम लिख्यते. विजय आदिकने विषय दो रे वार तीन वार अच्युतने विषय १३२ एक प्रैवेयकने विषे १६३, इम तमाने विषे १८५.

(१६९) अथ ७३ अधुवबंधनो उत्कृष्ट जघन्य निरंतर बन्धयत्र

प्रकृतिनामानि	निरंतर बन्ध
सुरद्विक २, वैक्रियद्विक २	तीन पत्योपम
तिर्यंच गति १, तिर्यंचानुपूर्वी १, नीच गोत्र १	समयथी लइ असंख्य काल
आयु ४	१ अंतर्मुहूर्त
औदारिक शरीर १	असंख्य पुद्गलपरावर्त
सातावेदनीय १	देश ऊन पूर्व कोड
पराघात १, उच्छ्वास १, पंचेंद्री १, त्रसचतुष्क ४	१३२ सागरोपम
शुभ विहायगति १, पुरुषवेद १, सुभगत्रिक ३, उंच गोत्र १, समचतुरस्र संस्थान १, अशुभ विहायगति १, जाति ४, अशुभ संहनन ५, अशुभ संस्थान ५, आहारकद्विक २, नरकगति १, नरकानुपूर्वी १, उद्द्योत १, आतप १, थिर १, शुभ १, यश १, स्थावरदशक १०, नपुंसकवेद १, स्त्रीवेद १, हास्य १, रति १, अरति १, शोक १, असातावेदनीय १	जघन्य उत्कृष्ट समयथी लेइ अंतर्मुहूर्त
मनुष्यद्विक २, जिननाम १, वज्रक्रषभनाराच १, औदारिक अंगोपांग १	३३ सागर, जघन्य अंतर्मुहूर्त

(१७०) अथ उत्कृष्ट रसबन्धस्वामियत्रं शतककर्मग्रन्थात्

प्रकृतिनामानि	रसबन्धस्वामि
एकेंद्री १, थावर १, आतप १	मिथ्यात्वी ईशानांत देवता बांधे
विकलत्रिक ३, सूक्ष्मत्रिक ३, तिर्यंच-आयु १, मनुष्य-आयु १, नरकत्रिक ३,	मिथ्यात्वी तिर्यंच, मनुष्य
तिर्यंच गति १, तिर्यंचानुपूर्वी १, छेवट्ट १,	देवता, नारकी
वैक्रियद्विक २, देवगति १, देवानुपूर्वी १, आहारकद्विक २, शुभ विहायोगति १, शुभ वर्णचतुष्क ४, तैजस १, कर्मण १, अगुरुलघु १, निर्माण १, जिननाम १, सातावेदनीय १, समचतुरस्र १, पराघात १, त्रसदशक १०, पंचेंद्री १, उच्छ्वास १, उच्चगोत्र १; एवं सर्व ३२	अपूर्वकरण गुणस्थानमे क्षपकश्रेणिमे बंध करे
उद्द्योत	सातमी नरकका नारकी सम्यक्त्वके सन्मुख
मनुष्यगति १, मनुष्यानुपूर्वी १, औदारिकद्विक २, वज्रक्रषभसंहनन १	सम्यग्दृष्टि देवता
देवायु १	७ अप्रमत्त
शेष प्रकृति	४ गतिना मिथ्यात्वी

(१७१) अथ जघन्यरसबन्धयन्त्रम्

प्रकृति	बन्धस्वामि
स्त्यानद्धि १, प्रचला १, निद्रानिद्रा १, अनंतानु- बंधि ४, मिथ्यात्व १.	संयम सन्मुख मिथ्यात्वी
अप्रत्याख्यान ४	अविरतिसम्यग्दृष्टि संयम सन्मुख
प्रत्याख्यान ४	देशविरति
अरति १, शोक १	प्रमत्त यति
आहारकद्विक २	अप्रमत्त ,,
निद्रा १, प्रचला १, शुभ वर्णचतुष्क ४, हास्य १, रति १, कुत्सा (?) १, भय १, उपघात १	अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती
पुरुषवेद १, संज्वलनचतुष्क ४	नवमे गुणस्थानवाला
अंतराय ५, ज्ञानावरणीय ५, दर्शनावरणीय ४	१० मे गुणस्थाने क्षपक
सूक्ष्मत्रिक ३, विकलत्रिक ३, आयु ४, वैक्रियकषट् ६	मनुष्य, तिर्यंच
उद्द्योत १, आतप १, औदारिकद्विक २	देवता, नारकी
तिर्यंच गति १, तिर्यंचानुपूर्वी १, नीच गोत्र १	सातमी नरके उपशमसम्यक्त्वके सन्मुख
जिननाम १	अविरतिसम्यग्दृष्टि
एकेंद्री १, थावर १	नरक विना तीन गतिना
आतप १	सौधर्म लगे देवता
साता १, असाता १, स्थिर १, अस्थिर १, शुभ १, अशुभ १, यश १, अयश १	समदृष्टि वा मिथ्यादृष्टि परावर्त्तमान मध्यम परिणाम
ब्रस १, बादर १, पर्याप्त १, प्रत्येक १, अशुभ वर्ण आदि चतुष्क ४, तैजस १, कार्मण १, अगुरु- लघु १, निर्माण १, मनुष्यगति १, मनुष्यानुपूर्वी १, शुभ विहायगति १, अशुभविहायगति १, पंचेंद्री १, उच्छ्वास १, पराघात १, उच्चगोत्र १, संहनन ६, संस्थान ६, नपुंसकवेद १, स्त्रीवेद १, सुभग १, सुस्वर १, आदेय १, दुर्भग १, दुःस्वर १, अनादेय १	चार गतिका मिथ्यात्वी बांधे

इति रसबन्ध समाप्त.

(१७२) अथ प्रदेशबन्धयन्त्रम्, मूल प्रकृतिना उत्कृष्ट प्रदेशबन्धस्वामि शतकात्

मोहनीय	१।४।५।६।७ गुणस्थानवर्ती
आयु, मोहनीय वर्जी ६ कर्म	१० गुणस्थानवर्ती

(१७३) अथ उत्तर प्रकृतिना उत्कृष्ट प्रदेशबंधयंत्र शतककर्मग्रन्थात्

ज्ञानावरणीय ५, दर्शना० ४, साता० १, यश १, उच्च गोत्र १, अंतराय ५	१० गुणस्थानवर्ती
अप्रत्याख्यान ४	४ गुणस्थाने
प्रत्याख्यान ४	देशविरति
पुरुषवेद १, संज्वलन ४	९ मे गुणस्थाने
शुभ विहायगति १, मनुष्य-आयु १, देव-आयु १, देवगति १, देवानुपूर्वी १, सुभग १, सुखर १, आदेय १, वैक्रियद्विक २, सम-चतुरस्र १, असाता० १, वज्रऋषभ १; एवं सर्व १३	सम्यग्दृष्टी, मिथ्यादृष्टि
निद्रा १, प्रचला १, हास्य आदि षट् ६, तीर्थकर १	अविरतिसम्यग्दृष्टि
आहारकद्विक २	अप्रमत्त ७ मे वाला
शेष ६६ प्रकृति	मिथ्यात्वी

(१७४) अथ जघन्यप्रदेशबन्धस्वामियन्त्रम्

आहारकद्विक २	अप्रमत्त यति
नरकत्रिक ३, देव-आयु १	असंज्ञी पर्याप्त जघन्य योगी
देवद्विक २, वैक्रियद्विक २, जिननाम १	मिथ्यात्वने सन्मुख सम्यग्दृष्टि
शेष १०९ प्रकृति	आपणे भवके प्रथम समय सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जघन्य योगी

(१७५) अथ सात बोलकी अल्पबहुत्व

योगस्थान	स्तोक १
प्रकृतिभेद	असंख्य २
स्थितिभेद	" ३
स्थिति बंधाध्यवसाय	" ४
अनुभागस्थानक	" ५
कर्मप्रदेश	अनंत ६
रसच्छेद	" ७

(१७६) जीव बंधवर्गणा ग्रहे तिसका कर्मपणे वांटा

कर्म	वांटा
आयु	स्तोक १
नाम	वि २
गोत्र	तुल्य २
अंतराय	वि ३
ज्ञाना० १, दर्शना० १,	" ४
मोहनीय	" ५
वेदनीय	" ६

(१७७)

बंधभेद ४	प्रकृतिबंध	स्थितिबंध	अनुभागबंध	प्रदेशबंध
अर्थ	स्वभाव	काल	रस	दल वाडे
दृष्टांत	वात आदि शमन	मास अर्ध मास आदि	पंड, शर्करा आदि	तोला, दो तोला
कारण	योग	कषाय	कषाय	योग
भेदसंख्या	असंख्य	असंख्य	अनंत	अनंत
प्रमाण	श्रेणिके असंख्य भाग	श्रेणिके असंख्य भाग	अनंते	अनंते

(१७८)

संख्या	बंधप्रकृति ८	मूल प्रकृति ८	ज्ञाना० १	दर्शना० २	वेदनीय ३	मोह० ४	आयु ५	नाम ६	गोत्र ७	अंतराय ८
१	बंधस्थान	८।७।६।१	५	९ ६ ४	१	२२।२१। १७।१३। ९।५।४।१	१	२३।२५। २६।२८। २९।३०। ३१	१	५
२	भुयस्कार	६।७।८	०	६ ९	०	२।३।४।५। ९।१३। १७।२१। २२	०	६	०	०
३	अल्पतर	७।६।१	०	६ ४	०	१७।१३। ९।५।४।३। २।१	०	७	०	०
४	अवस्थित	८।७।६।१	१	९ ४	१	१०	१	८	१	१
५	अवक्तव्य	०	१	४ ६	०	१ १७	१	३	१	१

अधिक बंध करे ते 'भुयस्कार' कहीये. अल्प अल्प बंध करे तेहने 'अल्पतर बंधक' कहीये. जितने हे तितने ही बंध करे ते 'अवस्थित बंध' कहीये. अवंधक होय कर फेर बांधे ते 'अवक्तव्य' कहीये. अंग्रे स्वधिया विचारणीया.

अथ अंग्रे बन्धकारणं लिख्यते कर्मग्रन्थात्—

ज्ञानावरणीय कर्म	मति आदि ५ ज्ञान, ज्ञानी-साधु प्रमुख, ज्ञानसाधक(न)-पुस्तक आदि तेहना बुरा चिंतणा १, निहवणा गुरुलोपणा २, सर्वथा विणास करणा ३, अंतरंग अप्रीत ४, अंतराय-भक्त, पान, वस्त्र आदिना विघ्न करणा ५, अति आशातना जाति प्रमुख करी हीलणा ६, ज्ञान-अवर्णवाद् ७, आचार्य, उपाध्यायनी अविनय ८, अकाले स्वाध्याय करणी ९, पट्ट-कायकी हिंसा १०
दर्शनावरणीय	दर्शन-चक्षु आदि ४, दर्शनी-साधु आदि, दर्शनसाधन-श्रोत्र, नयन आदि अथवा संमति, अनेकान्तजयपताका आदि प्रमाणशास्त्रनां पुस्तक आदिकने प्रत्यनीक आदि; पूर्वोक्त ज्ञानावरणीयवत् दश बोल जानने.
सातावेदनीय	गुरु जे माता, पिता, धर्माचार्य तेहनी भक्ति १, क्षमावान् २, दयावान् ३, ५ महाव्रतवान् ४, दशविधसामाचारीवान् ५, बाल, वृद्ध, ग्लान आदिकना वैयावृत्त्यनो करणहार ६, भगवान्की पूजासे तत्पर ७, सरागसंयम ८, देशसंयम ९, अकामनिर्जरा १०, बालतप ११
असाता	गुरुनी अवज्ञानो करणहार १, रीसालु २, दया रहित ३, उत्कट कषाय ४, कृपण ५, प्रमादी ६, हाथी, घोडा, बलदने निर्दयपणे दमन, वाहन, लांछन आदिकनो करवो ७, आप परने दुःख, शोक, वंध, ताप, क्रंदकारक ८
दर्शनमोहनीय	उन्मार्गना उपदेशक १, सन्मार्गना नाशक २, देवद्रव्यनो हरणहार ३, वीतराग, श्रुत, संघ, धर्म, देवताना अवर्णवाद् बोले ४, जगमे सर्वज्ञ है नही इम कहे ५, धर्ममें दूषण काढे ६, गुरु आदिकनो अपमानकारी ७

१ आगळ पोतानी बुद्धि प्रमाणे विचारी लेवुं.

कषाय	कषाये करी परवश चित्त थकउ सोला कषाय बांधे
हास्य	उत्प्रासन १, कंदर्प २, प्रहास ३, उपहास ४, शी(अश्ली?)ल घणा बोले ५, दीन वचन बोले ६
रति	देश आदि देखनेमे औत्सुक्य १, चित्राम, रमण, खेलन २, परचित्तावर्जन ३
अरति	पापशील १, परकीर्तिनाशन २, खोटी वस्तुमे उत्साह ३
शोक	परशोकप्रगटकरण १, आपको शोच उपजावनी २, रोणा ३
भय	आप भय करणा १, परकूं भय करणा २, त्रास देणी ३, निर्दय ४
जुगुप्सा	चतुर्विध संघनी जुगुप्सा करे १, सदाचारजुगुप्सा २, समुच्चयजुगुप्सा ३
स्त्रीवेद	ईर्ष्या १, विषाद २, गृद्धिपणा ३, मृषावाद ४, वक्रता ५, परस्त्रीगमनरक्त ६
पुरुषवेद	स्वदारसन्तोष १, अनीर्ष्या २, मंद कषाय ३, अवक्रचारी ४
नपुंसकवेद	अनंगसेवी १, तीव्र कषाय २, तीव्र काम ३, पापंडी ४, स्त्रीका व्रत षंडे ५
नरक-आयु	महारंभ १, महापरिग्रह २, पंचेन्द्रियवध ३, मांसाहार ४, रौद्र ध्यान ५, मिथ्यात्व ६, अनंतानुबंधि कषाय ७, कृष्ण, नील, कापोत लेश्या ८, अनृत भाषण ९, परद्रव्या-पहरण १०, वार वार मैथुनसेवन ११, इन्द्रियवशवर्ती १२, अनुग्रह रहित १३, स्थिर घणा काल लग रोस राखणहार १४
तिर्यंच-आयु	गूढ हृदय १, शठ बोले मधुर, अंदर दाखण २, शल्य सहित ३, उन्मार्गदेशक ४, सत्सार्गनाशक ५, आर्त्त ध्यानी ६, माया ७, आरंभ ८, लोभी ९, शीलव्रतमें अतिचार १०, अप्रत्याख्यान कषाय ११, तीन अधम लेश्या १२
मनुष्य-आयु	मध्यम गुण १, अल्प परिग्रह २, अल्प परिग्रह (?) ३, मार्दव ४, आर्जव स्वभाव ५, धर्म ध्याननो रागी ६, प्रत्याख्यान कषाय ७, संविभागनो करणहार ८, देव, गुरुना पूजक ९, प्रिय बोले १० सुखे (?) प्रज्ञापनीया ११, लोकव्यवहारमें मध्यम परिणाम स्वभावे पतली कषाय १२, क्षमावान् १३
देव-आयु	अविरतिसम्यग्दृष्टि १, देशविरति २, सरागसंयम ३, बालतपस्वी ४, अकामनिर्जेरा ५, भले साथ प्रीति ६, धर्मश्रवणशीलता ७, पात्रमें दान देणा ८, अवक्तव्य सामायिक अजाण पणे सामायिक करे ९
शुभ नाम	माया रहित १, गारव तीनसे रहित २, संसारभीरु ३, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि गुणे सहित ४
अशुभ नाम कर्म	मायावी १, गौरववान् २, उत्कट क्रोध आदि परिणाम ३, परकूं विप्रतारण ४, मिथ्यात्व ५, पैशुन्य ६, चल चित्त ७, सुवर्ण आदिकमें षोट मिलावे ८, कूडी साख ९, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श अन्यथाकरण १०, अंगोपांगनउ छेदन करणा ११, यंत्र पंजर वणावे १२, कूडा तोला, कूडा मापा १३, आपणी प्रशंसा १४, पांच आश्रवना सेवनहार १५, महारंभ परिग्रह १६, कठोर भाषी १७ जूठ बोले १८, मुखरी १९ आक्रोश करे २०, आगलेके सुभागका नाश करणा २१, कार्मण करे २२, कुतूहली २३, चैत्याश्रयविबका नाश करणहार २४, चैत्येषु अंगराग २५, परकी हांसी २६, परकूं विडंबना करणी २७, वेदया आदिकूं अलंकार देणा २८, वनमे आग लगावे २९, देवताना मिस करी गंध आदि चोरे ३०, तीव्र कषाय ३१

शुभ नाम	संसारभीरु १, अप्रमादी २, सूधा स्वभाव ३, क्षमावान् ४, सधर्मीना स्वागतकारक ५, परोपकारी ६, सारका ग्रहणहार ७
उच्च गोत्र	गुण बोले यथावत् १, दूषणमे उदासीन २, अष्ट मद् रहित ३, आप ज्ञान पठन करे ४, अवरकूं पढावे ५, बुद्धि थोडी होवे तो पढणेवालोकी बहुमानसे अनुमोदन करे ६, जिन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, चैत्य, साधु, गुणगरिष्ठ तेहने विषे भक्ति, बहुमान-कारक ७
नीच गोत्र	परनिन्दा १, अपहास २, सत्गुणलोपन ३, असत्दोषकथन ४, आपणी कीर्ति वांछे ५, आपणा दोष छिपावे ६, अष्ट मद्का कारक ७
अंतराय कर्म	तीर्थकरकी पूजाका विघ्न करे १, हिंसा आदि ५ आश्रव सेवे २, रात्रिभोजन आदिक करे ३, ज्ञान, दर्शन, चारित्रको विघ्न करे ४, साधु प्रत्ये देता भात, पाणी, उपाश्रय, उपगरण, भेषज आदि निवारें ५, अन्य प्राणीने दान, लाभ, भोग, परिभोगना विघ्न करे ६, मंत्र आदिक करी अनेराना वीर्य हरे ७, वध, बंधन करे ८, छेदन, भेदन करे जीवाने ९, इन्द्रिय हणे १०

इति अष्ट कर्मना बंधकारण संपूर्ण. अथ पंचसंग्रह थकी युगपत् बंधहेतु लिख्यते—

पृथक् पृथक् गुणस्थानोपरि पांच प्रकारे मिथ्यात्व, एकैक मिथ्यात्वमे छ छ काया, एवं ३० हुइ. एकैक इन्द्रिय व्यापार पूर्वोक्त ३० मे, एवं १५० हुइ. ऐसे ही एकैक युग्म साथ दोढसै दोढसै, एवं ३०० होइ. एवं एकैक वेदसे तीन सो तीन सो, एवं ९०० हुए. एवं एकैक क्रोध आदि च्यारि कषायसे नव(से) नवसे, एवं ३६०० हुइ. एवं दश योगसे ३६०० कू गुण्या ३६००० होइ. $५ \times ६ \times ५ \times २ \times ३ \times ४ \times १०$.

मिथ्यात्व १, काय १, इन्द्रिय १, एक युगल २, तीनों वेदमेसू एक वेद १, अपत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलनका क्रोध आदि त्रिक कोइ एक, एवं ९, दश योगमेसू एक व्यापार योगका, एवं दश बंधहेतुसे ३६००० भंग हुइ.

दस तो पूर्वोक्त अने भय युक्त कीये ११ हुइ. तिसकी विभाषा पूर्ववत् करणेसे ३६००० हुइ. एवं जुगुप्सा प्रक्षेपे पिण ३६०००. अथवा अनंतानुबंधी प्रक्षेपणे ते ११ हुइ अने योग १३ जानने तिहां भंग ४६८००. अथवा कायद्वयवधसंयोग क्षेपणे ते ग्यारे संयोग वियोग ते पूर्ववत् लब्ध भंगा ९००००. एवं सर्व २०८८००, दो लाख अठ्यासी सै. एकादश समुदाय करी इतने भंग हुइ.

दस तो पूर्वोक्त संयोग अने भय, जुगुप्सा प्रक्षेपे १२ संयोग हुइ, तिसके भंग ३६०००. अथवा भय अनंतानुबंधी युक्त करे योग तिहां १३ जानने तदा भंग ४६८००. जुगुप्सा, अनंतानुबंधी प्रक्षेपे पिण भंग ४६८००. अथवा त्रिकायवध प्रक्षेपणे ते १२ होय है ते पिण वीस होय है तदा पूर्ववत् लब्ध भंगा १२००००. भय द्विकायवध क्षेपते लब्ध भंग पूर्ववत् ९००००. एवं जुगुप्सा द्विकायवध क्षेपे पिण भंगा ९००००. अनंतानुबंधी द्विकायवध क्षेपे पूर्ववत् लब्ध भंगा ११७०००. एवं सर्व बारे समुदायके हेतु ५४६६०० हुइ.

दस तो तेही ज पूर्वोक्त भय, जुगुप्सा, अनंतानुबंधी युक्त १३ हुइ. इहां १३ संयोगना भंगा ४६८००. चार कायना वध प्रक्षेपणे ते १३ होय है तिहां १५ संयोगना भंगा पूर्ववत् लब्ध भंगा ९००००. त्रिकायवध भय क्षेपे १२०००० भंगा. एवं त्रिकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे पिण लब्ध भंगा १२००००. त्रिकायवध अनंतानुबंधी प्रक्षेपे १५६०००. द्विकायवध, भय, जुगुप्सा प्रक्षेपे पिण १३; तिहां पिण ९०००० भंगा. द्विकायवध भय अनंतानुबंधी प्रक्षेपे ११७०००. एवं द्विकायवध अनंतानुबंधी जुगुप्सा प्रक्षेपे पिण ११७०००. एवं तेरा समुदायना सर्व हेतुना भंगा ८५६८००.

दस तो तेही ज पूर्वोक्त अने पांच काय वध संयुक्त १४ होते है; तिहां षट् पांचना संयोग पूर्ववत् ३६००० भंगा. चार काय वध भय प्रक्षेपे १४; तिहां पिण ९०००० भंगा. एवं चार काय वध जुगुप्सा प्रक्षेपे पिण ९०००० भंगा. चार काय वध अनंतानुबंधी प्रक्षेपे ११७०००. त्रिकायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १२००००. त्रिकायवध भय अनंतानुबंधी प्रक्षेपे १५६०००. एवं त्रिकायवध जुगुप्सा अनंतानुबंधी षे(प्रक्षे)पे पिणि १५६०००. द्विकाय वध भय जुगुप्सा अनंतानुबंधी प्रक्षेपे ११७०००. सर्व भंग १४ समुदायके ८८२०००.

दस तो तेही पूर्वोक्त अने छकाय वध युक्त १५ होते है. तिहां षट्काययोग १; तिहां ६००० पूर्ववत्. पांच काय वध भय प्रक्षेपणे ते १५; तिहां ३६००० भंगा. एवं पांच काय वध जुगुप्सा प्रक्षेपे ३६००० भंगा. पांच काय वध अनंतानुबंधी प्रक्षेपे ४६८००. चार काय वध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे ९००००. चार काय वध भय अनंतानुबंधी प्रक्षेपे ११७०००. एवं चार काय वध जुगुप्सा अनंतानुबंधी प्रक्षेपे ११७०००. त्रिकायवध भय जुगुप्सा अनंतानुबंधी १५६०००. १५ समुदायना सर्व भंग ६०४८००.

दस पूर्वोक्त षट् काय वध भय युक्त १६ होते है; तिहां ६००० भंगा. षट्कायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे पिण ६०००. षट्कायवध अनंतानुबंधी प्रक्षेपे ७८००. पांच काय वध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे ३६०००. पांच काय वध भय अनंतानुबंधी प्रक्षेपे ४६८००. एवं पांच काय वध जुगुप्सा अनंतानुबंधी प्रक्षेपे पिण ४६८००. चार काय वध भय जुगुप्सा अनंतानुबंधी प्रक्षेपे ११७०००. ए सर्व सोला समुदायके भंगा २६६४००.

दस पूर्वोक्त षट्कायवध भय जुगुप्सा युक्त १७ होते है; तिहां भंगा ६०००. षट्कायवध भय अनंतानुबंधी प्रक्षेपे ७८००. एवं षट्कायवध जुगुप्सा अनंतानुबंधी प्रक्षेपे ७८००. पांच काय वध भय जुगुप्सा अनंतानुबंधी प्रक्षेपे ४६८००. एवं सर्व १७ ना भंगा ६८४००.

दस पूर्वोक्त षट्कायवध भय जुगुप्सा अनंतानुबंधी युक्त १८ होते है; तिहां ७८०० भंगा.

एवं मिथ्यादृष्टिके सर्व भंगा पूर्वोक्त मेलनसे ३४,७७,६००. मिथ्यादृष्टिना हेतु समाप्त. १

अनंतानुबंधी रहित योगका कारण कहीये है—अनंतानुबंधीके उदय १३ योग होते हैं, परंतु दस नहीं होते तिसका कारण कहीये है. उद्वेलना करता हुआ अनंतानुबंधीकी सम्यग्दृष्टि प्राप्त मिथ्यात्व उदयके नहीं संक्रामावलिका जां लगे अनंतानुबंधीका उदय तिसके उदय अभाव ते मरणका पिण अभाव है. भवां(त?)रके अभाव ते वैक्रियमिश्र १, औदारिक-मिश्र १, कार्मण १ इन तीनोंका अभाव है; इस वास्ते अनंतानुबंधी भय जुगुप्साके विकल्पोदयमे तथा उत्तर पदांमे हेतुयाका अभाव सूचन कर्या.

अथ साखादनका विशेष कहीये है—साखादनमे मिथ्यात्वके अभाव ते प्रथम पद गया शेष पूर्वोक्त नव अनंतानुबंधीके विकल्प अभाव ते दस. ६।५।२।३।४।१३. इस चक्र विषे प्रथम वेदां ३ करके योगानूं गुणाकार करके एक रूप ऊठा करणा यथा एकैक वेदमे तेरा योग है. एवं ३९ हूये. नपुंसक वेदे वैक्रियमिश्र नहीं. एवं एक काढ्या ३८ रहै. इन ३८ करी एकैक काय वधसूं गुण्या २२८ होय है. इन २२८ कूं एकैक इन्द्रियव्यापारसूं गुण्या ११४० हुइ. इन ११४० कूं एकैक युग्मसूं गुण्या २२८० हुइ. २२८० कूं एकैक कषाय चारसूं गुण्या ९१२०. इतने हेतुसमुदाय हूये. एवं शेष विषे भावना करवी.

दस पूर्वोक्त अने द्विकायवध युक्त ग्यारे हूये; तिहां पूर्ववत् २२८०० भंगा. भय प्रक्षेपणे ते ११ हूये; तिहां ९१२० भंगा. एवं जुगुप्सा प्रक्षेपे ९१२०. सर्व ग्यारे समुदायना भंगा ४१०४०.

पूर्वोक्त दस त्रिकायवध प्रक्षेपे बारा होते है; तिहां पिण पूर्ववत् ३०४००. अथवा द्विकायवध भय प्रक्षेपे पिण बारा होते है; तिहां पिण २२८००. एवं द्विकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे २२८००. अथवा भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १२; तिहां पिण ९१२०. एवं सर्व बारा समुदायके ८५१२० भंगा.

दस पूर्वोक्त चार काय वध युक्त तेरा होते है. पूर्ववत् तिहां २२८००. अथवा भय त्रिकायवध प्रक्षेपे तेरा; तिहां ३०४०० भंगा. एवं त्रिकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे ३०४००. अथवा द्विकायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १३; तिहां भांगा २२८००. एवं सर्व तेराके भंग संख्या १०६४००.

दस पूर्वोक्त पंचकायवध प्रक्षेपे चौदां हुइ; तिहां भंगा ९१२०. अथवा चार काय वध प्रक्षेपे चौदां; तिहां २२८०० भंगा. एवं चतुःकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे २२८००. अथवा त्रिकायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १४; तिहां ३०४००. सर्व एकत्र मेले ८५१२०.

पूर्वोक्त दस षट्कायवध युक्त पंदरा हुइ; तिहां १५२० भंगा. पंचकायवध प्रक्षेपे १५; तिहां ९१२०. एवं पांच काय वध जुगुप्सा प्रक्षेपे ९१२०. अथवा चार काय वध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १५; तिहां २२८०० भंगा. सर्व एकत्र करे ४२५६०.

दस पूर्वोक्त षट्कायवध भय युक्त १६ होते है; तिहां भांगा १५२०. षट्कायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे १५२०. अथवा पांच काय वध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १६; तिहां ९१२० भंगा. सर्व एकत्र करे १२१६०.

दस पूर्वोक्त षट्कायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १७ होते हैं; तिहां भंगा १५२०, एवं पूर्वोक्त सास्वादनके बंधहेतु सर्व एकत्र करे ३८३०४०, इति सास्वादनके बंधहेतु समाप्त २.

मिश्रदृष्टिके तेही दसमेखं अनंतानुबंधी वर्जित नव होय है, एकैक काया वधे पांच इन्द्रिय व्यापारा, एवं ३० भांगे एकैक युगले त्रिंशत्; एवं ६०, एकैक वेदे साठ साठ; एवं १८०, एकैक कषाये ७२०, एवं दश जोगसे गुण्या ७२००, ६×५×२×३×४×१०,

ए नव हेतु नव पूर्वोक्त द्विकायवध युक्त १० होइ पूर्ववत् १८०००, अथवा भय प्रक्षेपे १०; तिहां ७२०० भंगा, एवं जुगुप्सा प्रक्षेपे ७२००, एवं एकत्र दस समुदायना सर्व ३२४०० भंगा.

नव पूर्वोक्त त्रिकायवध युक्त ११ होते हैं; तिहां २४००० भंगा, तथा द्विकायवध भय प्रक्षेपे ११ हुइ, तिहां १८०००, एवं द्विकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे १८०००, अथवा भय जुगुप्सा प्रक्षेपे ११ हुइ; तिहां भंगा ७२००, एवं सर्व ६७२००,

नव पूर्वोक्त चार काय वध युक्त बारा हुइ; तिहां १८०००, अथवा त्रिकायवध भय प्रक्षेपे १२; तिहां २४००० भंगा, एवं त्रिकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे २४०००, अथवा द्विकायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १२; इहां पिण १८०००, एवं सर्व मिले ८४०००,

नव पूर्वोक्त पांच काय वध युक्त १३ हुइ; तिहां भंगा ७२००, अथवा चार काय वध भय प्रक्षेपे १३; तिहां १८००० भंगा, एवं चार काय वध जुगुप्सा प्रक्षेपे १८०००, अथवा त्रिकायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १३; तिहां भंगा २४०००, सर्व एकत्र ६७२००,

नव पूर्वोक्त षट्कायवध युक्त १४ होते हैं; इहां भंगा १२००, अथवा पांच काय वध भय प्रक्षेपे १४; तिहां भंगा ७२००, एवं पांच काय वध जुगुप्सा प्रक्षेपे ७२००, अथवा चार काय वध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १४; तिहां १८००० भंगा, सर्व एकत्र करे ३३६००, इति १४ समुदाय,

नव पूर्वोक्त षट्कायवध भय प्रक्षेपे १५ होते हैं; तिहां पूर्ववत् भंगा १२००, एवं षट्कायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे १२००, अथवा पांच काय वध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १५; तिहां भंगा पूर्ववत् ७२००, ए सर्व ९६००, ए १५ समुदाय,

नव पूर्वोक्त षट्कायवध भय जुगुप्सा युक्त सोला होते हैं; इहां भंगा १२००,

सर्व मिश्रदृष्टिके भंगा मिलाय करे ३०२४०००, इति मिश्रदृष्टिहेतवः समाप्ताः, ३

एक काय १, एक इन्द्रिय १, एक युग १, एक वेद १, तीन कषाय ३, एक योग १, एह नव हेतु होते हैं जघन्य, अथ चक्ररचना ६।५।२।३।४।३, इहां प्रथम योगा करी वेदांक

गुणना तिवारे पीछे पूर्वोक्त भांगे च्यार काठे शेष ३५ रहे, वली शेष अंक करी गुण्या हुइ ८४००. ए नवकी समुदायके भावना पीछे कही ही है.

ते नव पूर्वोक्त द्विकायवध प्रक्षेपे १० हुइ; इहां भांगा २१०००. अथवा भय प्रक्षेपे १० हुइ; तिहां भांगा ८४००; एवं जुगुप्साप्रक्षेपात् ८४००. सर्व एकत्र ३७८००. ए दस समुदायके.

नव पूर्वोक्त त्रिकायवध प्रक्षेपे ११ हुइ; तिहां २८००० भांगा. अथवा द्विकायवध भय प्रक्षेपे ११ हुइ; तिहां २१००० भांगा. एवं द्विकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे २१०००. अथवा भय जुगुप्सा प्रक्षेपे ११ हुइ; इहां ८४०० भांगा. सर्व एकत्र ७८४००. ए एकादश समुदाय.

ते नव पूर्वोक्त चार काय वध प्रक्षेपे १२ होते हैं; तिहां पूर्ववत् २१००० भांगा. अथवा त्रिकायवध भय प्रक्षेपे १२ हुइ; तिहां भांगे २८०००. एवं त्रिकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे २८०००. अथवा द्विकायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १२ हुइ; तिहां २१००० भांगा. सर्व एकत्र करे ९८०००. ए बारा समुदाय.

नव पूर्वोक्त पांच काय वध युक्त १३ हुइ; तिहां भांगा ८४००. अथवा चार काय वध भय प्रक्षेपे १३ हुइ; तिहां भांगा २१००० एवं चार कायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे पिण २१०००. अथवा त्रिकायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १३ हुइ; तिहां पिण २८००० भांगा. सर्व एकत्र करे ७८४००. ए तेरा समुदाय.

नव पूर्वोक्त षट्कायवध प्रक्षेपे १४ होते हैं; तिहां भांगा १४००. अथवा पांच काय वध भय प्रक्षेपे १४ हुइ; तिहां भांगा ८४००. एवं पांच काय वध जुगुप्सा प्रक्षेपे ८४००. अथवा चार काय वध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १४ हुइ; तिहां भांगा २१०००. सर्व एकत्र करे थके ३९२००. ए चौदा समुदाय.

नव पूर्वोक्त षट्कायवध भय प्रक्षेपे १५ हुइ; तिहां १४०० भांगा. एवं षट्कायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे १४०० भांगा. अथवा पांच काय वध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १५ हुइ; तिहां भांगा ८४००. सर्व एकत्र मेले ११२००. ए पांच समुदाय.

नव पूर्वोक्त षट्कायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे सोला होते हैं; तिहां भांगा १४००. एवं सर्व एकत्र करे ३५२८००. ए अविरतिके बंधहेतु समाप्त. ४

देशविरतिके त्रस कायकी विरति है; इस कारण ते पांच काय, तिसके द्विक, त्रिक, चार, पांच संयोग विचारने. तिसके आठ हेतु—एक काय १, एक इन्द्रिय १, एक युग्म १, एक वेद १, दो २ कषाय, एक योग १, ए आठ. चक्ररचना—५×५×२×३×४×११. एकैक काये पांच पांच इन्द्रिया; एवं २५. ते युग्म भेदते ५०. ते पिण तीन वेदसं १५०. ते पिण चार कषायसे ६००. ते पिण ११ योगसे गुण्या ६६००. ए आठ हेतुसमुदाय.

आठ पूर्वोक्त अने द्विकायवध प्रक्षेपे नव हुइ; तिहां १३२०० भांगा. अथवा भय प्रक्षेपे ९ हुइ; तिहां ६६०० भांगा. अथवा जुगुप्सा प्रक्षेपे ९; तिहां ६६०० भांगा है. सर्व एकत्र करे २६४००. ए नव हेतु समुदाय.

आठ पूर्वोक्त त्रिकायवध युक्त करे दस हुइ. तीन संयोग इहां दस होय; तिस कारण ते भांगा १३२००. अथवा द्विकायवध भय प्रक्षेपे १० हुइ; इहां दस द्विकसंयोग है. भांगा १३२००. द्विकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे पिण १३२००. अथवा भय, जुगुप्सा प्रक्षेपे १० हुइ; तिहां ६६०० भांगा. सर्व एकत्र ४६२००. ए दस समुदाय.

आठ पूर्वोक्त चार काय वध प्रक्षेपे ११ हुइ, तिहां ६६०० भांगा. अथवा त्रिकायवध भय प्रक्षेपे ११ हुइ; तिहां १३२००. एवं त्रिकायवध जुगुप्सा प्रक्षेपे १३२००. अथवा द्विकायवध भय जुगुप्सा घाले ११ हुइ; तिहां भंग १३२००. सर्व एकत्र ४६२००. ए ग्यारे समुदायना.

आठ पूर्वोक्त पांच काय वध प्रक्षेपे १२ हुइ; तिहां भंग १३२०. अथवा चार काय वध भय प्रक्षेपे १२ हुइ; तिहां ६६०० भंग. एवं चार काय वध जुगुप्सा घाले ६६००. अथवा त्रिकायवध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १२ हुइ; तिहां १३२०० भांगा. सर्व एकत्र करे २७७२०. भंग. ए बारा समुदाय.

आठ पूर्वोक्त पांच काय वध भय प्रक्षेपे १३ हुइ; तिहां १३२० भंग. एवं पांच काय वध जुगुप्सा घाले १३२०. अथवा चार काय वध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १३ हुइ; तिहां भंगा ६६००. सर्व एकत्र करे ९२४० भंग. ए तेरा समुदाय.

आठ पूर्वोक्त पांच काय वध भय जुगुप्सा प्रक्षेपे १४ हुइ; तिहां १३२० भांगा. ए चौदा हेतु समुदाय.

सर्व एकत्र मेले १६३६८०. ए देशविरतिना भांगा. ५

अथ प्रमत्त अप्रमत्त विचार—प्रमत्तमे स्त्रीवेदमे आहारक १, आहारकमिश्र नहीं. अप्रमत्तमे आहारकद्विक ही नहीं है. प्रमत्त यंत्रक २।१।१।१; २।३।४।१३. प्रमत्त आदिकोंके पांच हेतु है—युग्म २, वेद ३, कषाय ४, योग. १३ योगा करी तीन वेद गुण्या ३९ हुइ. दो काढे ३७ रहै. युग्म भेदते द्विगुणा ७४. कषाय भेदते च्यार गुणा २९६. ए पांच हेतुसमुदाय. पांच तो तेही ज अने भय प्रक्षेपे ते तेही ज भांगा २९६. एवं जुगुप्सा घाले २९६. एवं भय, जुगुप्सा घाले ७ हेतु हुइ; भांगे तेही ज २९६. सर्व एकत्र करे ११८४. ए प्रमत्त भांगा. ६

अप्रमत्त यंत्रक—२।१।१।१; २।३।४।११. वेदांसे योग गुण्या ३३. एक रूप काढे ३२ रहै. युग्म भेदते दुगुणे ६४. कषाय भेदते च्यार गुणा २५६. ए पांच हेतुसमुदाय. एवं भय साथ पद २५६. एवं जुगुप्सा साथ भांगा २५६. सर्व मेले १०२४. ए अप्रमत्तना भांगा. ७

अपूर्वकरण यंत्र—२।१।१।१; २।३।४।९. युग्मसे वेद गुण्या ६. ते पिण कषाय भेदते २४. ए पिण चउवीस नव योगसे गुण्या २१६ (२×३×४×९). ए पांच हेतुसमुदाय. भय

प्रक्षेपे ६; भांगा २१६. जुगुप्सा प्रक्षेपे षट्. भांगा २१६. उभय प्रक्षेपे सात हुइ भंग २१६. सर्व एकत्र करे ८६४. ए अपूर्वकरणना हेतु. ८

बादरका यंत्रक—११; ४।९. कषाय ४, योग ९. द्विकसंयोगे ३६. ए द्विकसमुदाय. बादर पांच बंधकके वेदका पिण उदय है; इस कारण ते वेद प्रक्षेपे. तीन हेतु भांगे त्रिगुणे करे १०८. ए तीन हेतुसमुदाय. सर्व एकत्र करे १४४ भंग. ए बादर कषायना हेतु.

सूक्ष्मके एक कषाय एकैक योगसे नव योग साथ ९ द्विकयोग. उपशांतके नव हेतु. एवं क्षीणके नव हेतु. सयोगीके सात हेतु.

सर्व गुणस्थानना विशेषबंधहेतुसंख्या ४६८२७७०. इति गुणस्थानकमे बंध हेतु समाप्त. इति श्रीआत्मारामसंकलता(ना)यां बन्धतत्त्वमष्टमं सम्पूर्णम्.

अथ अग्रे 'मोक्ष' तत्त्व लिख्यते. प्रथम तीन श्रेणी रचना. (१७९) अथ गुणश्रेणि-रचनायन्त्रं शतकात्—

	सम्यक्त्वप्राप्ति आदि लेइ	निर्जरा	काल अल्प-बहुत्व
१	सम्यक्त्वप्राप्ति	स्तोक १	असंख्य ११
२	देशविरति	असंख्य गुणा	" १०
३	सर्वविरति	" "	" ९
४	अनंतानुबंधिविसंयोजन	" "	" ८
५	दर्शनमोहनीयक्षय	" "	" ७
६	उप(शम)श्रेणि चढता	" "	" ६
७	उपशांतमोह ११ मे	" "	" ५
८	क्षपकश्रेणि चढता	" "	" ४
९	क्षीणमोह	" "	" ३
१०	सयोगी केवली	" "	" २
११	अयोगी केवली	" "	स्तोक १

(१८०) उप(शम)श्रेणियन्त्रम्
आवश्यकनिर्युक्तेः

संज्वलन लोभ	
अप्रत्याख्यान लोभ	प्रत्याख्यान लोभ
संज्वलन माया	
अप्रत्याख्यान माया	प्रत्याख्यान माया
संज्वलन मान	
अप्रत्याख्यान मान	प्रत्याख्यान मान
संज्वलन क्रोध	
अप्रत्याख्यान क्रोध	प्रत्याख्यान क्रोध
पुरुषवेद	
हास्य	रति शोक अरति भय जुगुप्सा

स्त्री			
नपुंसक			
मिथ्यात्वमोह	मिश्रमोह	सम्यक्त्वमोह	
अनंतानुबंधि क्रोध	अनंता मान	अनंता माया	अनंतानुबंधि लोभ

क्षपकश्रेणिस्वरूपयन्त्र आवश्यकनिर्युक्ति थकी लिखतोऽस्ति (लिखितमस्ति). चरम समये पांच ज्ञानावरणीय ५, चार दर्शनावरणीय ४, पांच अंतराय ५; एवं सर्व १४ षेपे. बार गुणस्थानके जद दो २ समये बाकी रहे तदा पहिले समय निद्रा १, प्रचला १, देवगति १, देवानु-पूर्वी १, वैक्रिय शरीर १, वैक्रिय अंगोपांग १, प्रथम संहनन वर्जी ५ संहनन, एक संस्थान वर्जी पांच संस्थान ५, तीर्थ(कर)नाम १, आहारकद्विक २; एवं सर्व १९ प्रकृति पहिले समय षेपवे. जो तीर्थकर होय तो १९ प्रकृति न होय तो तीर्थकर(नामकर्म) टाली १८ प्रकृति षेपइ ए प्रथम.

(१८१)

संज्वलन लोभ							
,, माया							
,, मान							
,, क्रोध							
पुरुषवेद षेपे							
हास्य	रति	शोक	अरति	भय	जुगुप्सा		
स्त्रीवेद षपावे							
नपुंसकवेद							
अप्र० क्रोध	अप्र० मान	अप्र० माया	अप्र० लोभ	प्र० लोभ	प्र० मान	प्र० माया	प्र० लोभ
सम्यक्त्वमोहनीय							
मिश्रमोहनीय							
मिथ्यात्वमोहनीय							
अनंता० क्रोध	अनंता० मान	अनंता० माया	अनंता० लोभ				

आठ कषाय क्षपाया पीछे कुलक शेष रहे आठ कषाय षेपता बीचमे १७ प्रकृति षेपे तेहनां नाम—नरकगति १, नरकानुपूर्वी १, तिर्यच गति १, तिर्यचानुपूर्वी १, एकेन्द्रिय आदि जाति ४, आतप १, उद्घोत १, थावर १, सूक्ष्म, साधारण १, अपर्याप्त १, निद्रानिद्रा १, प्रचला १, थीणद्धि १. ए सत्तरे प्रकृति आठ कषाय क्षेपता बीचमे क्षपावे. तदनंतर अवशेष आठ कषाय षेपे; पीछे नपुंसकवेद, स्त्रीवेद.

(१८२) अथ सीझणद्वार लिख्यते श्रीपूज्यमलयगिरिकृत नंदीजीकी वृत्तिथी

	बोल संख्यानामानि	द्रव्य-परिमाण	निरंतर सीझे	१२	कालद्वारे सुषम	१०	४
१	ऊर्ध्वलोके उत्कृष्ट	४	२	१३	,, सुषमदुःषम	१०८	८
२	समुद्रे उत्कृष्ट सर्वत्र	२	,,	१४	,, दुःषमसुषम	,,	,,
३	सामान्य जले	४	,,	१५	,, दुःषम	२०	४
४	तिर्यगलोके	१०८	८	१६	,, दुःषमदुःषम	१०	,,
५	अधोलोके	२० पृथक्	४	१७	गतिद्वारे देवगति आया	१०८	८
६	नंदनचने	४	२	१८	,, शेष ३ गतिका ,,	दस दस	४
७	पंडगचने	,,	,,	१९	,, रत्नप्रभाना ,,	१०	,,
८	एकैक विजयमे	वीस वीस	४	२०	,, शर्कराप्रभाना ,,	,,	,,
९	३० सर्व अकर्मभूमौ	दस दस	,,	२१	,, वालुकाप्रभाना ,,	,,	,,
१०	१५ कर्मभूमिमे	१०८	८	२२	,, पंकप्रभाना ,,	४	२
११	कालद्वारे सुषमसुषम	१०	४				

२३	गति० पृथ्वी, अप्कायना आया	४४	२२	४७	लिंगद्वारे खलिंगी	१०८	८
२४	„ वनस्पतिकायना „	६	२	४८	चारित्रद्वारे सा, सू, य	„	„
२५	„ तिर्यंच पंचेन्द्रिय, पुरुषना „	१०	४	४९	„ सा, छे, सू, य	„	„
२६	„ तिर्यंच स्त्रीना „	„	„	५०	सा, प, सू, य	१०	४
२७	„ सामान्ये मनुष्य- गतिना „	२०	„	५१	„ सा, छे, प, सू, य	„	„
२८	„ मनुष्यपुरुषना „	१०	„	५२	बुद्धद्वारे प्रत्येकबुद्ध	„	„
२९	„ मनुष्यस्त्रीना „	२०	„	५३	„ बुद्धबोधित पुरुष	१०८	८
३०	„ भवनपतिना „	१०	„	५४	„ „ स्त्री	२०	४
३१	„ भवनपतिनीना „	५	२	५५	„ „ नपुंसक	१०	„
३२	„ व्यंतरना „	१०	४	५६	„ बुद्धिबोधित स्त्री	२०	„
३३	„ व्यंतरीना „	५	२	५७	„ „ पुरुष- सामान्ये	२० पृथक्	„
३४	„ जोतिषीना „	१०	४	५८	ज्ञानद्वारे, मति, श्रुत	४	२
३५	„ जोतिषीनी देवीना „	२०	„	५९	„ मति, श्रुत, मनः- पर्याय	१०	४
३६	„ वैमानिक देवना „	१०८	८	६०	„ मति, श्रुत, अवधि	१०८	८
३७	„ वैमानिक देवीना „	२०	४	६१	„ मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय	„	„
३८	पुरुष मरी पुरुष	१०८	८	६२	अवगाहनाद्वारे जघन्य	४	२
३९	शेष भागे ८	दस दस	४	६३	„ मध्यम	१०८	८
४०	तीर्थद्वारे तीर्थंकर	४	२	६४	„ उत्कृष्ट	२	२
४१	„ स्वयंबुद्ध	„	„	६५	उत्कृष्टद्वारे अच्युत सम्यक्त्वधी	४	„
४२	„ बुद्धबोधित	१०८	८	६६	संख्या, असंख्यकाल च्युत	१०११०	४४
४३	„ स्त्री	२०	४	६७	„ अनंत कालका पतित	१०८	८
४४	„ तीर्थंकारी	२	२				
४५	लिंगद्वारे गृहस्थलिंगी	४	„				
४६	„ अन्यालिंगी	१०	४				

अथ सांतरद्वारे एक सो तीन १०३ से लेकर एक सो आठ ताइ सीझे तो एक समय पीछे अवश्य अंतर पडे; ९७ से लेकर १०२ पर्यंत दो समय निरंतर सीझे; ८५ से लेकर ९६

लगे तीन समय निरंतर सीझे; ७३ से लेकर ८४ लगे चार समय निरंतर सीझे; ६१ से लेकर ७२ लगे ५ समय०; ४९ से लेकर ६० ताइ ६ समय०; ३३ से लेकर ४८ लगे ७ समय०; एक से लेकर ३२ लगे ८ समय०.

गणनद्वार पूर्ववत् जघन्य १।२ यावत् ३२. एवं सर्व जगे जान लेना.

(१८३) क्षेत्रद्वार, अंतरद्वार लिख्यते. सांतर

१	जंबूद्वीप धातकी पंडे	पृथक् वर्ष
२	जंबूद्वीपके तथा धातकी पंड विदेहे	" "
३	पुष्करद्वीपे १ तथा तिसके विदेहे	१ वर्ष झझेरा
४	कालद्वारे भरत, ऐरावतमे जन्म आश्री	युगलकाल १८ सा नून (?)
५	साहारण आश्री भरत, ऐरावते	संख्यते हजार वर्ष
६	नरकगतिना आया उपदेशथी सीझे तिसका	१००० वर्ष
७	" " हेतुये सीझे	संख्येय सहस्र वर्ष
८	तिर्यच गतिना आया उपदेशे	पृथक् १०० वर्ष
९	अनंतरोक्त तिर्यचना हेतुये सीझे तिसका	संख्येय सहस्र वर्ष
१०	तिर्यच स्त्रीना १, मनुष्यना २, मनुष्यस्त्रीना ३, सौधर्म, ईशान वर्जके सर्व देवता देवीना आया उपदेशे	१ वर्ष झझेरा
११	अनंतरोक्त बोल हेतुये	संख्येय सहस्र वर्ष
१२	पृथ्वी १, अप् २, वनस्पति, गर्भज, पहिली, दूजी नरक, सौधर्म, ईशान दवका आया हेतुये सीझे	संख्येय सहस्र वर्ष
१३	वेदद्वारे पुरुषवेदे	१ वर्ष झझेरा
१४	स्त्री, नपुंसक वेदे	संख्येय सहस्र वर्ष
१५	पुरुष मरी पुरुष हुइ	१ वर्ष झझेरा
१६	शेष ८ भांगे	संख्येय सहस्र वर्ष
१७	तीर्थद्वारे तीर्थकर	पृथक् " "
१८	तीर्थकरी	अनंत काल
१९	अतीर्थकर	१ वर्ष झझेरा
२०	नोतीर्थसिद्धाका प्रत्येकबुद्धी	संख्येय सहस्र वर्ष
२१	लिगद्वारे अन्यालिगे गृहलिगे	" " "
२२	स्वलिगे	१ वर्ष झझेरा

२३	चारित्रद्वारे सामायिक १, सूक्ष्मसंपराय २, यथाख्यात ३	१ वर्ष झझेरा
२४	सामायिक १, छेदोपस्थापनीय २, सूक्ष्मसंपराय ३, यथाख्यात ४	१८ कोडाकोडी सागर किंचित् ऊणा
२५	सा० १, परिहारविशुद्धि २, सूक्ष्म० ३, यथा० ४	" " " "
२६	सा० १, छेदो० २, परिहार० ३, सूक्ष्म० ४, यथा० ५	" " " "
२७	बुद्धद्वारे बुद्धबोधित	१ वर्ष झझेरा
२८	बुद्धबोधित स्त्रियाका १, प्रत्येक बुद्धियाका २	संख्येयसहस्र वर्ष
२९	स्वयंबुद्ध	पृथक् " "
३०	ज्ञानद्वारे मति १, श्रुत २	पत्यका असंख्य भाग
३१	" मति १, श्रुत २, अवधि ३	१ वर्ष झझेरा
३२	" " मनःपर्याय ३	संख्येय सहस्र वर्ष
३३	" " अवधि ३, मनःपर्याय ४	" " "
३४	अवगाहनाद्वारे जघन्य १, उत्कृष्ट २, यवमध्यम ३	श्रेणिके असंख्य भाग
३५	अजघन्योत्कृष्ट अवगाहना	१ वर्ष झझेरा
३६	उत्कृष्टद्वारे अप्रतिपतित सम्यक्त्व	१ सागरके असंख्य भाग
३७	संख्य, असंख्य कालका पतित	संख्येय सहस्र वर्ष
३८	अनंत कालका पतित	१ वर्ष झझेरा
३९	निरंतरद्वारे	
४०	सांतरद्वारे	संख्येय सहस्र वर्ष

अल्पबहुत्वद्वारे च्यार च्यार सिद्धा अने दस दस सिद्धा परस्पर सर्व तुल्य, तिण थकी वीस सिद्धा अने पृथक् वीस सिद्धा थोडा, तिण थकी एक सो आठ सिद्धा संख्येय गुणा. इति अनंतरसिद्धा प्ररूपणा समाप्ता.

अथ परम्परासिद्धस्वरूपं लिख्यते—द्रव्यपरिमाणमे सर्व जगे अढाई द्वीपमे, अनंते अनंते कहणे अंतर नहना (?), अंतरका असंभव हे इस वास्ते.

(१८४)

नामानि		अल्पबहुत्व	नामानि		अल्पबहुत्व
१	समुद्रसिद्धा	१ स्तोक	१	ऊर्ध्वलोकसिद्धा	१ स्तोक
२	द्वीपसिद्धा	२ संख्येय	२	अधोलोकसिद्धा	२ संख्येय
३	जलसिद्धा	१ स्तोक	३	तिर्यग्लोकसिद्धा	३ "
४	स्थलसिद्धा	२ संख्येय			

(१८५)

लवणसमुद्रे सिद्धा	१ स्तोक	धातकीपंड सिद्धा	४ सं.
कालोदधि ”	२ सं.	पुष्करार्धद्वीप ”	५ सं.
जंबूद्वीप ”	३ सं.		

(१८६) अथ तीनो द्वीपकी मिलायके अल्पबहुत्वयंत्रम्. ए तीनो यंत्र परंपरासिद्ध.

द्वीपनाम	भरत पेरा- वत	हैमवंत शिखरी	हैमवंत ऐरण्यवत	महाहैमवंत रूपी	हरिवास रम्यक	निषध नीलवंत	देवकुरु उत्तरकुरु	महा- विदेह
जंबू	७ सं.	१ स्तो.	२ सं.	३ सं.	५ सं.	६ सं.	४ सं.	८ सं.
धातकी	” ”	” ”	४ वि.	२ ”	६ वि.	३ ”	५ ”	” ”
पुष्करार्ध	” ”	” ”	” सं.	” ”	” ”	” ”	” ”	” ”

(१८७)

द्वीपनाम	भरत पेरा- वत	हैमवंत शिखरी	हैमवंत ऐरण्यवत	महाहैमवंत रूपी	हरिवास रम्यक	निषध नीलवंत	देवकुरु उत्तरकुरु	महा- विदेह
जंबू	१९ सं.	१ स्तो.	२ सं.	३ सं.	५ सं.	६ सं.	४ सं.	२२ संख्येय
धातकी	२० ”	७ वि.	१२ ”	८ वि.	१५ ”	१० ”	१४ ”	२३ ”
पुष्करार्ध	२१ ”	९ सं.	१६ ”	११ सं.	१८ ”	१३ ”	१७ ”	२४ ”

(१८८) अथ आगे कालद्वारे परंपरासिद्धांकी अल्पबहुत्व लिख्यते—

आरे ६	सुषमसुषम	सुषम	सुषमदुःषम	दुःषमसुषम	दुःषम	दुःषमदुःषम
अवसर्पिणी	५ वि	४ वि	३ असंख्येय	६ संख्येय	२ संख्येय	१ स्तोक
उत्सर्पिणी	” ”	” ”	” ”	” ”	” ”	” ”

(१८९) अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी दोनाकी एकठी अल्पबहुत्वयंत्रम्

आरे ६	सुषमसुषम	सुषम	सुषमदुःषम	दुःषमसुषम	दुःषम	दुःषमदुःषम	
अवसर्पिणी	५ वि	४ वि	४ असंख्येय	६ संख्येय	३ संख्येय	१ स्तोक	अवसर्पिणी ७ संख्येय
उत्सर्पिणी	४ ”	” ”	” ”	” ”	२ ”	” ”	उत्सर्पिणी ८ वि

(१९०) गतिद्वारे

गतिका आया अनंतर	नरक	तिर्यंच	तिर्यंचिणी	मनुष्य	मनुष्यणी	देव	देवी
अल्पबहुत्व	३ सं.	५ सं.	४ सं.	२ सं.	१ स्तोक	७ सं.	८ सं.

(१९१)

एकेन्द्रियना आया अनंतर	१ स्तो.
पंचेन्द्रियना ,, ,, सर्वे जगो	२ सं.
वनस्पतिना ,, अनंतर	३ ,,
पृथ्वीना ,, ,,	४ ,,
त्रसकायना ,, ,,	५ ,,
चौथी नरकना ,, ,,	१ स्तो.
तीजी ,, ,, ,,	२ सं.
द्वितीय ,, ,, ,,	३ ,,
बादर वनस्पति पर्याप्तना आया	४ ,,
,, पृथ्वी ,, ,,	५ ,,
,, अप्काय ,, ,,	६ ,,
भवनपति देवीना आया अनंतर	७ ,,
,, देवताना ,, ,,	८ ,,
व्यंतरीना ,, ,,	९ ,,
व्यंतर देवताना	१० ,,
जोतिषीनी देवीना ,, ,,	११ ,,
जोतिषी देवताना	१२ ,,
मनुष्य स्त्रीना ,, ,,	१३ ,,
मनुष्यना ,, ,,	१४ सं.
प्रथम नरकना ,, ,,	१५ ,,
तिर्यंच स्त्रीना ,, ,,	१६ ,,
तिर्यचना ,, ,,	१७ ,,
अनुत्तर विमानना ,, ,,	१८ ,,
त्रैवेयकना ,, ,,	१९ ,,
अच्युतना ,, ,,	२० ,,
आरणना ,, ,,	२१ ,,
एवं अधोमुख सनत्कुमार लगे	२८ ,,
ईशान देवीना आया	२९ ,,
सौधर्म ,, ,,	३० ,,
ईशान देवताना ,,	३१ ,,
सौधर्म देवताना ,,	३२ ,,

वेदद्वारे	अल्पबहुत्व
नपुंसकसिद्धा	१ स्तो.
स्त्रीसिद्धा	२ सं.
पुरुषसिद्धा	३ ,,
तीर्थद्वारे	अल्पबहुत्व
तीर्थकरी	१ स्तो.
तीर्थकरीतीर्थे प्रत्येकबुद्धी	२ सं.
,, अतीर्थकरी	३ ,,
,, अतीर्थकर	४ ,,
तीर्थकरसिद्धा	५ ,,
तीर्थकरतीर्थे प्रत्येकबुद्धा	६ ,,
,, साध्वी	७ ,,
,, अतीर्थकर	८ ,,
लिंगद्वारे	अल्पबहुत्व
,, गृहलिंगी	१ स्तो.
,, अन्यलिंगी	२ असं.
,, स्वलिंगी	३ ,,
चारित्रद्वारे	अल्पबहुत्व
छेद०, परि०, सू०, यथा०	१ स्तो.
सामा०, छेद०, परि०, सू०, यथा०	२ असं.
छेद०, सूक्ष्म०, यथा०	३ ,,
सामा०, छेद०, सू०, यथा०	४ सं.
सामा०, सूक्ष्म०, यथा०	५ सं.
बुद्धद्वारे	अल्पबहुत्व
स्वयंबुद्धा	१ स्तो.
प्रत्येकबुद्धा	२ सं.
बुद्धिवोधितसिद्धा	३ ,,
बुद्धवोधितसिद्धा	४ ,,
ज्ञानद्वारे	अल्पबहुत्व
मति, श्रुत, मनःपर्याय	१ स्तो.
मति, श्रुत	२ सं.

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय	३ सं.	झञ्जेरी ७ हस्त	४ वि.
मति, श्रुत, अवधि	४ ,,	उत्कृष्टद्वारे	अल्पबहुत्व
अवगाहनाद्वारे	अल्पबहुत्व	अप्रतिपतितसिद्धा	१ स्तो.
द्विहस्त अवगाहना	१ स्तो.	संख्येयकालपतित	२ असं.
पृथक् धनुष अधिक ५०० धनुषवाला	२ असं.	असंख्येयकालपतित	३ सं.
मध्यम अवगाहना	३ ,,	अनंतकालपतित	४ असं.
अवगाहनाविशेष	अल्पबहुत्व	अंतरद्वारे	अल्पबहुत्व
७ हस्त अवगाहना	१ स्तो.	६ मास अंतरे सिद्धा	१ स्तो.
५०० धनुष ,,	२ सं.	द्वि समय ,, ,,	२ सं.
,, सें ऊणी ऊणी	३ ,,	त्रि ,, ,, ,,	३ ,,

एवं तां लगे कहना जां लगे मध्य तिवारे पीछे संख्येय गुण हीना कहना, जां लगे १ समय हीन ६ मास सिद्धा संख्येय गुण हीना.

(१९२)

अनुसमयद्वारे	अल्पबहुत्व
१०८ सिद्धा	१ स्तो.
१०७ ,,	२ सं.
१०६ ,,	३ सं.
एवं समय समय हानि तां लगइ कहनी जां लगे द्वि समय सिद्धा संख्येय गुणा	
गणनद्वारे	अल्पबहुत्व
१०८ सिद्धा	१ स्तो.
१०७ ,,	२ अनंत
१०६ ,,	३ ,,
१०५ सीद्धे	४ ,,
एवं एकैक हानि तां लगे जां लग ५० सिद्धा अनंत गुणा ५	
४९ सिद्धा	६ असं.
४८ ,,	७ असं.
एवं २५ लग कहना	
२४ सीद्धे	८ सं.
२३ ,,	९ सं.

एवं एकैक हानि तां लगे कहनी जां लगे द्वि समय

विशेष सिद्धप्राभृतटीकातः लिख्यते

अधोमुख सिद्धा	१ स्तो.
ऊर्ध्वमुख सिद्धा कायोत्सर्गे	२ सं.
ऊकडू आसन सिद्धा	३ ,,
वीरासन	४ ,,
न्युञ्जासन ,,	५ ,,
पासेस्थित ,,	६ ,,
उत्तानस्थित ,,	७ ,,
संनिकर्षद्वारे	अल्पबहुत्व
सर्वसे बहोत एकैक सिद्धा	१
दो दो सिद्धा संख्येय गुण हीन	२

एवं तां लगे कहना जां लगे २५ सिद्धा संख्येय गुण हीना ३

पच्चीस पच्चीस थकी छन्वीस छन्वीस सिद्धा असंख्येय गुण हीना ४

एवं एकैक वृद्धि असंख्येय गुण हीन तां लगे कहना जां लगे ५० सिद्धा. पंचास पंचास सिद्धाथी ५१ सिद्धा अनंत गुण हीन, बावन बावन सिद्धा अनंत गुण हीन, एवं एकैक हानि तां लगे कहनी जां लगे १०८ आठ आठ सिद्धा अनंत गुण हीना.

तथा जिहां जिहां बीस बीस सिद्धा तिहां एकैक सिद्ध सर्वसे घणे १, द्रौ द्रौ सिद्धा संख्येय गुण हीन २; एवं तां लगे कहना जां लगे पांच पांच सिद्धा.

अथ छ छ सिद्धा असंख्येय गुण हीना. एवं दश लगे कहना. ग्यारेसे लइ अग्रे अनंत गुण हीना.

तथा अधोलोक आदिमे पृथक्त्व बीस सिद्धा. तिहां पहिले चौथे भागमे संख्येय गुण हीना, दूजे चौथे भागमे असंख्येय गुण हीना, तीजे चौथे भागमें लेकर आगे सर्वत्र अनंत गुण हीना. तथा जिहां हरिवर्ष आदिमे दश दश सिद्धा तिहां तीन लगे तो संख्येय गुण हीन, चौथे पांचमे असंख्येय गुण हीन, ६ से लेकर सर्वत्र अनंत गुण हीना.

जिहां पुनः अवगाहना यवमध्य ते अनुत्कृष्टी आठ तिहां चार लगे संख्येय गुण हानि तिस ते परे अनंत गुण हानि.

जिहां वली ऊर्ध्वलोक आदिमे चार सीझे एकैक सिद्धा सबसे बहुत, दो दो सिद्धा असंख्येय गुण हीना, तीन तीन सिद्धा अनंत गुण हीना, चार चार सिद्धा अनंत गुण हीना.

जिहां लवण आदिकमे दो दो सिद्धा तिहां एकैक सिद्धा बहुत, दो दो सिद्धा अनंत गुण हीना. इति सन्निकर्ष द्वार संपूर्ण. शेष द्वार सिद्धप्राभृत टीकासे जानने. श्री ६ परमपूज्य महाराज आचार्य श्रीमलयगिरिकृत श्रीनंदीजीकी वृत्तिथी ए स्वरूप लिख्या.

इति नवतत्त्वसंकलनायां मोक्षतत्त्वं नवमं सम्पूर्णम्.

अथ ग्रंथसमाप्ति सवईया इकतीसा—

आदि अरिहंत वीर पंचम गणेश धीर भद्रबाहु गुर फी(फि) सुद्ध ग्यान दायके
जिनभद्र हरिभद्र हेमचंद्र देव इंद अभय आनंद चंद्र चंद्रिसी गायके
मलयगिरि श्रीसाम विमल विग्यान धाम ओर ही अनेक साम रिदे वीच धायके
जीवन आनंद करो सुष(ख)के भंडार भरो आत्म आनंद लिखी चित्त हुलसायके १
वीर विष्णु वैन ऐन सत परगास दैन पठत दिवस रैन सम रस पीजीयो
मै तो मूढ रिदे गूढ ग्यान विन महाफूड कथन करत रूढ मोपे मत पीजीयो
जैसे जिनराज गुरु कथन करत धुरु तैसे ग्रंथ सुद्ध कुरु मोपे मत पीजीयो
मै तो बालखयालवत् चित्तकी उमंग करी हंसके सुभाव ग्या(ज्ञा)ता गुण ग्रह लीजीयो २
ग्राम तो 'वि(वि)नोली' नाम लाला चिरंजी व श्याम भगत सुभाव चित्त धरम सुहायो है


१ जीवनराम ए ग्रन्थकर्ताना स्थानकवासी गुरुवं नाम छे ।

२-३ लाला चिरंजीलाल अने लाला श्यामलाल ए बने श्रावको भक्त अने समजदार वृत्ता.

सुषसे चोमास करी ग्यानकी लगन षरी तिनकी कहन करी ग्यानरूप ठायो है
भव्य जन पठन करत मन हरषत ग्यानकी तरंग देत चित्तमे सुहायो है
संवत तो मुँनि करे 'अंक' 'इंदु' 'संघ' धर कातिक सुमास वर तीज बुध आयो है ३

दोहा—ग्यान कला घटमे वसि, रसेसु निज गुण माहि
परचे आत्मरामसे, अचल अमरपुरि जाहि १
संघ चतुर्विध वांचिउ, ग्यानकला घट चंग
गुरुजन केरे मुख थकी, लहिसो तत्त्वतरंग २

इति श्रीआत्मरामकृत नवतत्त्वसंग्रह संपूर्ण. लिपीचक्रे 'वि(बि)नोली' मध्ये,
शुभं भवतु. वाच्यमानं चिरं नन्धात्. श्रीरस्तु.



श्रीविजयानन्दसूरीश्वरकृत

॥ उपदेशवावनी ॥

(सवैया एकतीसा)

श्रीपार्श्वनाथाय नमो नमः ॥

ॐ नीत पंच मीत समर समर चीत अजर अमर हीत नीत चीत धरीए
सूरि उज्जा मुनि पुज्जा जानत अरथ गुज्जा मनमथ मथन कथनयुं न ठरीए
बार आठ षटतीस पणवीस सातवीस सत आठ गुण ईस माल बीच करीए
एसो विभु ॐकार बावन वरण सार आतम आधार पार तार मोक्ष वरीए १

अथ देवस्तुतिः—

नथन करन पन हनन करमघन धरत अनघ मन मथन मदनको
अजर अमर अज अलख अमल जस अचल परम पद धरत सदनको
समर अमर वर गनधर नगवर थकत कथन कर भरम कदनको
सरन परत तभ(स) नमत अनघ जस अतम परम पद रमन ददनको २
नमो नीत देव देव आतम अमर सेव इंद्र चंद्र तार वृंद्र सेवे कर जोरके
पांच अंतराय भीत रति ने अरति जीत हास शोक काम वीत(घीन ?) मिथ्यागिरि तोरके
निंद ने अत्याग राग द्वेष ने अज्ञान याग अष्टादश दोष हन निज गुण फोरके
रूप ज्ञान मोक्ष जश वध ने वैराग सिरी इच्छा धर्म वीरज जतन ईश घोरके ३

अथ गुरुस्तुतिः—

मगन भजन मग धरम सदन जग ठरत मदन अग भग तज सरके
कटत करम वन हरत भरम जन भववन सघन हटत सब जरके
नमत अमरवर परत सरन तस करत सरन भर अघ मग टरके
धरत अमल मन भरत अचर धन करत अतम जन पग लग परके ४
महामुनि पूर गुनी निज गुन लेत चुनी मार धार मार धुनि वुनी सुख सेजको
ज्ञान ते निहार छार दाम धाम नार पार सातवीस गुण धार तारक से हजको
पुगल भरम छोर नाता ताता जोर तोर आतम धरम जोर भयो महातेजको
जग भ्रमजाल मान ज्ञान ध्यान तार दान सत्ताके सरूप आन मोक्षमे रहेन(ज)को ५

अथ धर्मस्वरूपमाह—

सिद्धमत स्यादवाद कथन करत आद भंगके तरंग साद सात रूप भये है
अनेकत माने संत कथंचित रूप ठंत मिथ्यामत सब हंत तत्त्व चीन लये है

नित्यानित्य एकानेक सासतीन वीतीरेक भेद ने अभेद टेक भव्याभव्य ठये है
 शुद्धाशुद्ध चेतन अचेतन मूरती रूप रूपातीत उपचार परमकुं लये है ६
 सिद्ध मान ज्ञान शेष एकानेक परदेश द्रव्य खेत काल भाव तत्त्व नीरनीत है
 नय सात सत सात भंगके तरंग थात व्यय ध्रुव उतपात नाना रूप कीत है
 रसकुंभ केरे रस लोहको कनक जैसे तैसे स्यादवाद करी तत्त्वनकी रीत है
 मिथ्यामत नाश करे आतम अनघ धरे सिद्ध वधु वेग वरे परम पुनीत है ७
 धरती भगत हीत जानत अमीत जीत मानत आनंद चित भेदको दरसती
 आगम अनुप भूप ठानत अनंत रूप मिथ्या भ्रम मेटनकुं परम फरसती
 जिन मुख वैन ऐन तत्त्वज्ञान कामधेन कवि मति सुधि देन मेघ ज्युं वरसती
 गणनाथ चित(त्त) भाइ आतम उमंग धाइ संतकी सहाइ माइ सेवीए सरसती ८
 अधिक रसीले झीले सुखमे उमंग कीले आतमसरूप ढीले राजत जीहानमे
 कमलवदन दीत सुंदर रदल(न) सीत कनक वरन नीत मोहे मदपानमे
 रंग वदरंग लाल मुगता कनकजाल पाग धरी भाल लाल राचे ताल तानमें
 छीनक तमासा करी सुपनेसी रीत धरी ऐसे वीर लाय जैसे वादर विहानमें ९
 आलम अजान मान जान सुख दुःख खान खान सुलतान रान अंतकाल रोये
 रतन जरत ठान राजत दमक भान करत अधिक मान अंत स्वाख होये है
 केसुकी कलीसी देह छीनक भंगुर जेह तीनहीको नेह एह दुःखबीज बोये है
 रंभा धन धान जोर आतम अहित भोर करम कठन जोर छारनमे सोये है १०
 इत उत डोले नीत छोरत विवेक रीत समर समर चित नीत ही धरतु(त) है
 रंग राग लाग मोहे करत कूफर धोहे रामा धन मन टोहे चितमे अचेतु(त) है
 आतम उधार ठाम समरे न नेमि नाम काम दगे(हे) आठ जाम भयो महाप्रेतु(त) है
 तजके धरम ठाम परके नरक धाम जरे नाना दुःख भरे नाम कौन लेतु(त) है ११
 ईस जिन भजी नाथ हिरदे कमलपाथ नाम वार सुधारस पीके महमहेगो
 दयावान जगहीत सतगुरु सुर नीत चरणकमल मीत सेव सुख लहेगो
 आतमसरूप धार मायाभ्रम जार छार करम वी(वि)डार डार सदा जीत रहेगो
 दी(दे)ह खेह अंत भइ नरक निगोद लइ प्यारे मांत पुन कर फेर कौन कहेगो? १२
 उदे भयो पुन पूर नरदेह भुरी नूर वाजत आनंदतूर मंगल कहाये है
 भववन सधन दगध कर अगन ज्युं सिद्धवधु लगन सुनत मन भाये है
 सरध्या(धा)न मूल मान आतम सुज्ञान जान जनम मरण दुःख दूर भग जाये है
 संजम खडग धार करम भरम फार नहि तार विषे पिछे हाथ पसताये है १३
 ऊंच नीच रंक कंक कीट ने पतंग दंक ढोर मोर नानाविध रूपको धरतु है
 श्रंगधार गजाकार वाज वाजी नराकार पृथ्वी तेज वात वार रचना रचत है

आतम अनंत रूप सत्ता भूप रोग धूप वडे (परे ?) जग अंध कूप भरम भरतु हे
 सत्ताको सरूप भुल करनहींडोरे जुल कुमताके वश जीआ नाटक करतु है १४
 रिधी सिद्धि ऐसे जरी खोदके पतार धरी करथी न दान करी हरि हर लहेगो
 रसना रसक छोर वसन ज(अं)सन दोर अंतकाल छोर कोर ताप दिल दहेगो
 हिंसा कर मृश धर छोर घोर काम पर छोर जोर कर पाप तेह साथ रहेगो
 जौलो मित आत(दे) पान तौलो कर कर दान वसेहुं मसान फेर कोन देद(दे) करेगो १५
 रीत विपरीत करी जरता सरूप धरी करतो बुराइ लाइ ठाने मद मानकुं
 धुत धुत (झूठ) मंस खात सुरापान जीवघात चोरी गोरी परजोरी वेश्यागीत गानकुं
 सत कर तुत उत जाने न धरमसूत माने न सरम भूत छोर अभेदानकुं
 सुत ने पुरीस खात गरभ परत जात नरक निगोद वसे तजके जहानकुं १६
 लिखन पठन दीन शीखत अनेक गिन क(को)उ नहि तात(तत्त)चिन छीनकमें छिजे है
 उत्तम उतंग संग छोरके विविध रंग रंभा दंभा भोग लाग निश दिस भीजे है
 काल तो अनंत बली सुर वीर धीर दली ऐसे भी चलत जुं सींचान चिट लीजे है
 छोरके धरम द्वार आतम विचार डार छारनमे भइ छार फेर कहा किजे है १७
 लीलाधारी नरनारी खेमंग जोगकुं वारि ज्ञानकी लगन हारि करे राग ठमको
 योवन पतंग रंग छीनकमे होत मंग सजन सनेहि संग विजकेसा जमको
 पापको उपाय पाय अध पुर सुर थाय परपरा तेहे घाय चरो भये जमको
 अरे मूढ चेतन अचेतन तुं कहा भयो आतम सुधार तुं भरोसो कहा दमको ? १८
 एक नेक रीत कर तोष धर दोष हर कुफर गुमर हर कर संग ज्ञानीको
 खंति निरलोभ भज सरल कोमल रज सत धार भा(मा)र तज तज संग मानीको
 तप त्याग दान जाग शील मित पीत लाग आतम सोहाग भाग माग सुख दानीको
 देह खेह रूप एत(ते) सदा मीत थिर नही अंत हि विलाय जैसे बुदबुद पानीको १९
 ऐरावत नाथ इंद वदन अनुप चंद रंभा आद नारवुंद तु(धु?)जे द्रग जोयके
 खट षंड राजमान तेज भरे वर भान भामनिके रूप रंग दीसे सेज सोयके
 हलधर गदाधर धराधर नरवर खानपान गानतान लाग पाप जोयके
 आतम उधार तज बीनक इशक भज अंत वेर हाय 'टेर गये सब रोयके २०
 'ओडक वरस शत आयु मान मान सत सोवत विहात आध लेतहे विभावरी
 तत वाल खेल रूयाल अरध हरत प्रौढ आध व्याध रोग सोग सेव कांता भावरी
 उदग तरंग रंग योवन अनंग संग सुखकी लगन लगे भई मित(मति) बावरी
 मोह कोह दोह लोह जटक पटक खोह आतम अजान मान फेर कहां दावरी? २१

औषध अनेक जरि मंत्र तंत्र लाख करी होत न बचाव घरि एक कहु प्रानको
 सार मार करी छार रूप रस धरे परे यम निशदिन खरे हरे मानी मानको
 वाल लाल माल नाल थाल पाल भाल साल ढाल जाल डाल चले छोर थानको
 आतम अजर कार सिंचत अमृत धार अमर अमर नाम लेत भगवानको २२
 अंध ज्ञान द्रगरित मानत अहित चित ग(गि)नत अधम रीत रूप निज हार रे
 अरव अनंत अंश ज्ञान चिन तेरो हंस केवत अखंड वंस बाके कर्म भार रे
 चुरा नुरा लुरा सुरा श्यामा श्वेत रूप भूरा अमर नरक कुरा जर हे न नार रे
 सत चित निराबाध रूप रंग विना लाध पूरण अखंड भाग आतम संभार रे २३
 अधिक अज्ञान करी पामर स्वरूप धरी मांगे भीख घरि घरि नाना दुःख लहीये
 गरे घरि रिध खरि करमत विज जरी भुल विन ज्ञान दिन हीन रहीये
 गुरु विभु वेन ऐन सुनत परत चेन करत जतन जैन फेन सब दहिये
 करमकलंक नासे आतम विमल भासे खोल द्रग देख लाल तोपे सर्व(ब) कहिये २४
 काची काया मायाके भरोसो भमीयो तुं बहु नाना दुःख पाया काया जात तोह छोरके
 सास खास सुल हुल नीर भरे पेट फुल कोढ मोढ राज खाज जुरा तुर छोरके
 मुरछा भरम रोग सदल डहल सोग मुत ने पुरीस रोक होक सहे जोरके
 इत्यादि अनेक खरी काया संग पीड परी सुंदर मसान जरी परी प्यार तोरके २५
 खेती करे चिदानंद अध बीज बोत वृंद रसहे शींगार आद लाठी रूप लइ हे
 राग द्वेष तुव घोर कसाय बलद जोर शिरथी मिथ्यात भोर गर्दभी लगइ हे
 तो होय प्रमाद आयु चक्रकार कार घटी लायु शिर प्रति प्रष्ट हारा कर खइ हे
 नाना अवतार कलार चिदानंद वार धार इत उत प्रेरकार आतमकुं दइ हे २६
 गेरके विभाव दूर असि चार लाख नूर एहि द्रव्य वंजन प्रजाय नाम लयो हे
 मति आदि ज्ञान चार व्यंजन विभाव गुन परजाय नाम सुन शुद्ध ज्ञान टयो हे
 चरम शरीर पुन आतम किंचित न्यून व्यंजन सुभाव द्रव्य परजाय धर्यो हे
 चार हि अनंत फुन व्यंजन सुभाव गुन शुद्ध परजाय थाय धाय मोक्ष वर्यो हे २७
 घरि घरि आउ घटे घरि काल मान घटे रूप रंग तान हटे मूढ कैसें सोइये ?
 जीया तुं तो जाने भेरो मात तात सुत चेरो तामे कौन प्यारो तेरो पान कि गोइये
 चाहत करण सुख पावत अनंत दुःख धरम विमुख रूख फेर चित रोइये
 आतम विचार कर करतो धरम वर जनम पदारथ अकारथ न खोइये २८
 नरको जनम वार वार न विचार कर रिदे शुद्ध ज्ञान धर परहर कामको
 पदम वदन घन पद मन अठ भन कनक वरन तन मनमथ वामको
 हरि हर भ्रम(ब्रह्म)वर अमर सरव भर मन मद पर छर धरे चित भामको
 शील फिल चरे जंबु जारके मदनतंबु निरारंग अंगकंबु आतम आरामको २९

छरद करत पीर चाटत अनंत रीत जानत ना हित कित श्रानदशा धरके
सुरी कुरी कुख परे नाना रूप पीर परे जात ही अगन जरे मरे दुःख करके
कुगुरु कुदेव सेव जानत न तत्त भेव मान अहमेव मूढ कहे हम डरके
मिथ्यामति आतमसरूप न पिछाने ताते डोलत जंजालमें अनंत काल भ(म)रके ३०
जोर नार गरभसं मद (मोह) लोभ ग्रसे राग रंग जंग लसैं रसक जीहान रे
मनकी तरंग फसे मान सनमान हसे खान पान धरमसैं आतम अज्ञान रे
सिद्धि रिद्धि चित लावे पुतने विभुत भावे पुगलकुं भोर धावे परो दुःखखान रे
करमको चरो हुवो आस बांध झुर मुवो फेर मूढ कहेवे हम हुवो भ्रम(ब्रह्म) ज्ञान रे ३१
जननी रोआई जेति जनमा(म) जनम धार आंसुनसे पारावार भरीए महान रे
आतम अज्ञान भरी चाटत छरद करी मनमे न थी(घी?)न परि भरे गंद खान रे
तिशना तिहोरी यारी छोरत न एक घरी भमे जग जाल लाल मुले निज थान रे
अंध मति मंद भयो तप तार छोर दयो फेर मूढ कहे हम हुवो ब्रह्मज्ञान रे ३२
जलके विमल गुण दलके करम फुन हलके अटल धुन अघ जोर कसीए
टलके सुधार धार गलके मलिन भार छलके न पुरतान मोक्ष नार रसीए
चलके सुज्ञान मग छलके समर ठग मलके भरम जगजालमें न फसीए
थलके बसन हार खलके लगन टार टलके कनक नार आतम दरसीए ३३
दहके सुमन जेम महके सुवास तेम जहके रतन हेम ममताकुं मारी हे
दहके मदनवन करके नगन तन गहके केवलधन आस वा(ना?)स डारी हे
कहके सुज्ञानभान लहके अमर थान गहके अखर तान आतम उजारी हे
चहके उवार दीन राजमति पारकीन ऐसे संत ईश प्रभु (बाल)ब्रह्मचारी हे ३४
ठोर ठोर ठानत विवाद पखपात मूढ जानत न मूर चूर सत मत बातकी
कनक तरंग करी श्वेत पीत भान परि स्यादवाद हान करी निज गुण घातकी
पर्यो ब्रह्मजाल गरे मिथ्यामत रीझ धरे रहत मगन मूढ जुरी भरे स्वातकी
आतमसरूपघाती मिथ्यामतरूपकाति ऐसो ब्रह्मघाति है मिथ्याति महापातकी ३५
डर नर पाप करी देत गुरु शिख खरी मान लो ए हित धरी जनम विहातु है
जोवन न नित रहे वाग गुल जाल महे आतम आनंद चहे रामा गीत गातु है
बके परनिंदा जेति तके पर रामा तेती थके पुन्य सेती फेर मूढ मुसकातु है
अरे नर बोरे तोकुं कहुं रे सचेत होरे पिंजरेकुं तोरे देख पंखी उड जातु है ३६
ढोरवत रीत धरी खान पान तान करी पुरन उदर च(भ)री भार नित बखो है
पीत अनगल नीर करत न पर पीर रहत अधीर कहा शोध नही लखो है
वाल विन पल तोल भक्षाभक्ष खात घोल हरत करत होल पाप राच रखो है
शींग पुछ दाढी मुछ वात न विशेष कछु(कुछ) आतम निहार अछु(उछ) मोटा रूप कखो है ३७

नीके मधु पीके टीके शीखंड सुगंड लीके करत कलोल जीके नागवेर चाख रे
 अतर कपूर पूर अव(ग)र तगर भूर मृगमद घनसार भरे धरे खात(ख) रे
 सेव आरू आंब दारु पीसता बदाम चारु आतम चंगेरा पेरा चखत सुदाख रे
 मृदु तन नार फास सजक(के) जंजीर पास पकरी नरकवास अंत भई खाख रे ३८
 तरु खग वास वसे रात भए कसमसे सूर उगे जात दसे दूर करी चीलना
 प्यारे तारे सारे चारे ऐसी रीत जात न्यारे कोउ न संभारे फेर मोह कहा कीलना
 जैसे हटवाले मोल मीलके वीछर जात तैसे जग आतम संजोग मान दीलना
 कौन वीर मीत तेरो जाको तु करत हेरो रयेन वस(से)रो तेरो फेर नहि मीलना ३९
 थोरे सुख काज मूढ हारत अमर राज करत अकाज जाने लैयुं जग कुंठके
 कुंठके काज करे आतम अकाज खरे लछी जोरी चोर हरे मरे शीर फुटके
 करम सनेह जोर ममता मगन भोर प्यारे चले छोर जोर रोवे शीर कुटके
 नरको जनम पाय वीरथा गमाय ताह भूले सुख राह छले रीते हाथ उठके ४०
 देवता प्रयास करे नर भव कुल खरे सम्यक श्रद्धान धरे तन सुखकार रे
 कारण अखंड पाय दीरघ सुहात आय सुगुरु संजोग थाय वाणी सुधा धार रे
 तत्त्व परतीत लाय संजम रतन पाय आतमसरूप धाय धीरज अपार रे
 करत सुप्यार लाल छोर जग भ्रमजाल मान मीत जित काल वृथा मत हार रे ४१
 धरत सरूप खरे अधर प्रवाल जरे सुंदर कपुर खरे रदन सोहान रे
 इंदुवत वदन ज्युं रतिपति मदन ज्युं भये सुख मगन ज्युं प्रगट अज्ञान रे
 पीक धुन साद करे धाम दाम भुर भरे कामनीके काम जरे परे खान पान रे
 करता तु मान काहा(ह) आतम सुधार राह नहि भारे मान छोरे सोवना मसान रे ४२
 नरवर हरि हर चक्रपति हलधर काम हनुमान वर भानतेज लसे है
 जगत उद्धार कार संघनाथ गणधार फुरन पुमान सार तेउ काल ग्रसे है
 हरिचंद्र मुंज राम पांडुमुत शीतधाम नल ठाम छर वाम नाना दुःख फसे है
 देढ दिन तेरी बाजी करतो निदान राजी आतम सुधार शिर काल खरो हसे है ४३
 परके भरम भोर करके करम घोर गरके नरक जोर भरके मरदमे
 धरके कुंठ पूर जरके आतम नूर लरके लगन भूर परके दरदमें
 सरके कुंठ दूर जरके परे हजूर मरके वसन मूर खरके ललदमे
 भरके महान मद धरके निव न हद धरके पुरान रद मीलके गरदमें ४४
 फटके सुज्ञान संग मटके मदन अंग भटके जगत कंग कटके करदमें
 रटके तो नार नाम खटके कनक दाम गटके अभक्षचाम भटके विहदमें
 हटके धरम नाल डटके भरमजाल छटके कंगाल लाल रटके दरदमें
 झटके करत प्रान लटके नरक थान खटके व्यसन मिर(ल) आतम गरदमे ४५
 द्वा(बा)रामती नाथ निके सकल जगत टीके हलधर भ्रात जीके सेवे बहु रान है
 ह्याटक प्रकार करी रतन कोशीश जरी शोभत अमरपुरी स(सा)जन महान रे

पुन ही(वी?)ते हाथ रीते संपत विपत लीते हाय साद रोद कीते जयों निज नाथ(थान?) रे
सोग भरे छोर चरे वनमे विलाप करे आतम सीयानो काको करता गुमान रे ४६
भूल परी मीत तोय निज गुन सब खोय कीट ने पतंग होय अप्पा वीसरतु है
हीन दीन डीन चास दास वास खीन त्रास काश पास दुःख भीन ज्ञानते गीरतु है
दुःख भरे झूर भरे आपदाकी तान गरे नाना सुत मित करे फिर विसरतु है
आतम अखंड भूप करतो अनंत रूप तीन लोक नाथ होके दीन वयुं फीरतुं है ? ४७
महाजोधा कर्म सोधा सत्ताको सरूप बोधा ठारत अगन क्रोधा जडमति धोया हुं
अजर अमर सिद्ध पुरन अखंड रिद्ध तेरे विन कौन दीध सब जग जोया हुं
मुससैं तु न्यारो भयो चार गति वास थयो दुःख कहुं(?) अनंत लयो आतम वीगोया हुं
करता भरमजाल फस्यो हुं बीहाल हाल तेरे विन मित मैं अनंत काल रोया हुं ४८
यम आठ कुमतासैं प्रीत करी नाथ भेरे हरे सब गुन तेरे सत बात बोळुं हुं
महासुखकारी प्यारी नारी न्यारी छारी धारी मोह नृप दारी कारी दोष भरे तोरुं हुं
हित करुं चित्त धरुं सुखके भंडार भरुं सम्यक सरूप धरुं कर्म छार छोरुं हुं
आतम पीयार कर कतां(कुमत?) भरम हट तेरे विन नाथ हुं अनाथ भइ डोळुं हुं ४९
रुल्यो हुं अनादि काल जगमें बीहाल हाल काट गत चार जाल दार मोहकीरको
नर भव नीठ पायो दुषम अंधेर छायो जग छोर धर्म धायो गायो नाम वीरको
कुगुरु कुसंग नो(तो)र सत मत जोर दोर मिथ्यामति करे सोर कौन देवे धीरको ?
आतम गरीब खरो अब न विसारो धरो तेरे विन नाथ कौन जाने मेरी पीरको ५० ?
रोग सोग दुःख परे मानसी वीथाकुं धरे मान सनमान करे हुं करे जंजीरको
मंदमति भूप(त) रूप कुगुरु नरक हूत संग करे होत भंग काची (कांजी?) संग छिरको
चंचल विहंग मन दोरत अनंत(ग?) वन धरी शीर हाथ कौन पुछे वृग नीरको
आतम गरीब खरो स(अ)ब न विसारो धरो तेरे वीन नाथ कौन मेटे मेरी पीरको ? ५१
लोक बोक जाने कीत आतम अनंत मीत पुरन अखंड नीत अव्याबाध भूपको
चेतन सुमाव धरे जडतासो दूर परे अजर अमर खरे छांडत विरूपको
नरनारी ब्रह्मचारी श्वेत श्याम रूपधारी करता करम कारी छाया नहि धूपको
अमर अकंप धाम अविकार बुध नाम कृपा भइ तोरी नाथ जान्यो निज रूपको ५२
वार वार कहुं तोय सावधान कौन होय मित नहि तेरो कोय उंधी मति छइ है
नारी प्यारी जान धारी फिरत जगत भारी शुद्ध बुद्ध लेत सारी लुंटेवेको ठइ है
संग करो दुःख भरो मानसी अगन जरो पापको भंडार भरो सुधीमति गइ है
आतम अज्ञान धारी नाचे नाना संग धारी चेतनाके नाथकुं अचेतना क्या भइ है ? ५३
शीत सहे ताप दहे नगन शरीर रहे घर छोर वन रहे तज्यो धन थोक है
वेद ने पुराण परे तत्त्वमसि तान धरे तर्क ने मीमांस भरे करे कंठ शोक है
क्षणमति ब्रह्मपति संख ने कृणाद् गति चारवाक न्यायपति ज्ञान विनु बोक है
रंगबी(ब)हीरंग अछु मोक्षके न अंग कछु आतम सम्यक विन जाण्यो सब फोक है ५४

षट पीर सात डार आठ छार पांच जार चार मार तीन फार लार तेरी फरे है
 तीन दह तीन गह पांच कह पांच लह पांच गह पांच बह पांच दूर करे है
 नव पार नव धार तेरकुं विडार डार दशकुं निहार पार आठ सात लरे है
 आतम सुज्ञान जान करतो अमर थान हरके तिमिर मान ज्ञानभान चरे है ५५
 शीतल सरूप धरे राग द्वेष वास जरे मनकी तरंग हरे दोषनकी हान रे
 सुंदर कपाल उंच कनक वरण कुच अघर अनंग रुच पीक धुन गान रे
 षोडश सिंगार करे जोवनके मद भरे देखके नमन चरे जरे कामरान रे
 ऐसी जिन रीत मित आतम अनंग जित काको मूढ वेद धीत ऐही ब्रह्मज्ञान रे ५६
 हिरदेमे सुन भयो सुधता विसर गयो तिमिरअज्ञान छयो भयो महादुःखीयो
 निज गुण सुज नाहि सत मत बुज नाहि भरम अरुझे ताहि परगुण रुशीयो
 ताप करवेको सुर धरम न जाने मूर समर कसाय वहि अरणमे धुखीयो
 आतम अज्ञान बल करतो अनेक छल धार अघमल भयो मूढनमे मुखीयो ५७
 लंबन महान अंग सुंदर कनक रंग सदन वदन चंग चांदसा उजासा है
 रसक रसील द्र(ट)ग देख माने हार मृग शोभत मांदार शृंग आतम बरासा है
सनतकुमार तन नाकनाथ गुण भन देव आय दरशन कर मन आसा है
 छिनमे बिगर गयो क्या है मूढ मान गयो पानीमें पतासा तेसा तनका तमासा है ५८
 क्षीण भयो अंग तोउ मूढ काम धन जोउ की(क)ई करे गुरु कोउ पापमति साजी है
 खे(खै)लने शीघान चाट माने सुख केरो थाट आनन उचाट मूढ ऐसी मति चाजी है
 मूत ने पुरिश परि महादुरगंध भरी ऐसी जोनी वास करी फेर चहे पाजी है
 करतो अनित रीत आतम कहत मित गंदकीको कीरो भयो गंदकीमें राजी है ५९
 त्राता घाता मोक्षदाता करता अनंत साता चीर धीर गुण गाता तारो अब चेरेको
 तुं ज (तुम) है महान मुनि नाथनके नाथ गुणी सेवुं निसदिन पुनी जानो नाथ देरेको
 जैसो रूप आप धरो तैसो मुज दान करो अंतर न कुछ करो फेर मोह चेरेको
 आतम सरण पर्यो करतो अरज खरो तेरे विन नाथ कोन मेटे भव फेरेको ? ६०
 ज्ञान भान का(क)हा मोरे खान पान ता(दा)रा जोरे मन हु विहंग दोरे करे नाहि थीरता
 मुजसो कठोर घोर निज गुण चोर भोर डारे ब्रह्म डोर जोर फीरुं जग फीरता
 अब तो छी(ठि)काने चर्यो चरण सरण पर्यो नाथ शिर हाथ धर्यो अघ जाय खीरता
 आतम गरीब साथ जैसी कृपा करी नाथ पीछे जो पकरो हाथ काको जग फीरता ६१
 शी(खि ?)लीवार ब्रह्मचारी धरमरतन धारी जीवन आनंदकारी गुरु शोभा पावनी
 तिनकी कृपा ज करी तस्व मत जान परि कुगुरु कुसंग टरी सुद्ध मति धावनी
 पढतो आनंद करे सुनतो विराग धरे करतो मुगत वरे आतम सोहावनी
 संवत तो मुनि कर निधि इंदु संख धर तत चीन नाम कीन उपदेशबावनी ६२
 करता हरता आतमा, धरता निरमल ज्ञान; वरता भरता मोक्षको, करता अमृत पान. १

ग्राहकोनी शुभ नामावली

- २५१ श्रीविजयदेवसूर संघनी पेढी.
 १०० श्रीसंघ पुना (उपधाननी उपजमांथी) ह. संघवी
 केशवलाल मणिलाल.
 ५१ रा. मोतीलाल मूलजी.
 ५१ ,, रायचंद मोतीचंद झवेरी.
 २५ अ. सौ. स्व. मंगलाना स्मरणार्थे ह. वाडीलाल
 चत्रभूज
 २५ रा. नरोत्तम खेतसी
 २५ ,, हीरालाल बकोरदास ह. कांतिलाल
 २५ ,, सकराभाई लल्लुभाई
 २० ,, कोठारी सुरजमल पुनमचंद
 १५ श्री जैन आत्मानंद सभा (भावनगर).
 १५ रा. लालचंद खुशालचंद.
 १३ ,, पोपटलाल उत्तमचंद.
 ११ ,, उत्तमचंद मानचंद.
 ११ ,, जीवणचंद केसरीचंद (राधनपुर).
 ११ ,, } बाबु जीवणलाल पनालाल जे. पी.
 } भगवानलाल ,,
 } मोहनलाल ,,
 ११ ,, भोगीलाल लहेरचंद.
 १० ,, नगीनचंद कपुरचंद.
 ५ ,, ककलभाई भूधरभाई वकील.
 ५ ,, कान्तिलाल ईश्वरलाल मोरखीआ.
 ५ ,, गोदडजी डोसाजी.
 ५ ,, गोविंदजी भारमल.
 ५ ,, चिमनलाल शीरचंद.
 ५ ,, चुनीलाल उत्तमचंद.
 ५ ,, चुनीलाल गुलाबचंद.
 ५ ,, चुनीलाल वीरचंद.
 ५ ,, चंदुलाल वछराज.
 ५ ,, जेठाभाई कशलचंद.
 ५ ,, त्रिकमलाल न्यालचंद.
 ५ ,, त्रिकमलाल मगनलाल वीरवाडीया.
 ५ ,, दोसी कालीदास सांकलचंद.
 ५ ,, नगीनदास लल्लुभाई झवेरी.
 ५ ,, नेमचंद अमरचंद.
 ५ ,, प्रागजी धरमसी.
 ५ रा. बापुलाल चुनीलाल.
 ५ ,, बाबु दोलतचंदजी अभीचंदजी.
 ५ ,, मोहनलाल हेमचंद झवेरी.
 ५ ,, वाडीलाल पुनमचंद.
 ५ ,, वाघमल खीमराज सादडीवाला.
 ५ श्री जैन धर्म प्रसारक सभा.
 ५ रा. हरगोविंददास हरजीवनदास.
 ५ ,, हंसीलाल पानाचंद.
 ४ ,, रवचंद ऊजमचंद.
 ३ ,, नवाब साराभाई मणिलाल.
 ३ ,, पानाचंद प्रेमचंद जामनगरवाला.
 ३ ,, मूलचंद हीराचंद जामनगरवाला.
 २ ,, अमृतलाल रायचंद झवेरी.
 २ ,, केरीगजी मोटाजी.
 २ ,, केशवलाल नरपतलाल.
 २ ,, खीमचंद तलकचंद.
 २ ,, गोविंदजी खुशाल.
 २ ,, चांपसीभाई वसनजी पालाणी.
 २ ,, चीमनलाल मणिलालनी कंपनी.
 २ ,, चुनीलाल ऊजमचंद.
 २ ,, जीवतलाल चंद्रभाण कोठारी.
 २ ,, जीवनचंद धरमचंद.
 २ ,, बीसा कम्प श्रीसंघ.
 २ दक्षिणविहारी मुनिराज श्रीअमरविजयजी
 २ देवेन्द्रविजय (यति).
 २ रा. दोसी हीरालाल पुरुषोत्तम.
 २ ,, नागरदास हकमचंद.
 २ ,, पेरराज मनाजी.
 २ ,, प्रेमजी नागरदास.
 २ ,, प्रेमराज महेता.
 २ ,, भगुभाई हीराभाई.
 २ भातबजारना श्रीआदीश्वरजीना दहेरासरनी पेढी
 २ रा. भोगीलाल प्रेमचंद.
 २ ,, मगनभाई नगीनभाई.
 २ ,, मणिलाल त्रिकम नरपत.
 २ ,, माणेकलाल न्यालचंद.
 २ ,, मोतीलाल नानचंद.
 २ ,, मंगलदास मोतीचंद महुधावाला.
 २ राजपुर (बीसा) श्रीसंघ.

- २ रा. रीखवचंद ऊजमचंद पालनपुरवाला.
 २ ,, लल्लुभाई करमचंद.
 २ ,, लाला संतराम मंगतराम.
 २ ,, बनमालीदास रामजी.
 २ ,, वाडीलाल मगनलाल.
 २ श्रीकुसुमविजयजी जैन श्वेतांबर पुस्तकालय.
 २ रा. साकरचंद हेमचंद.
 २ श्री प्रवचन पूजक सभा (मुंबई).
 १ रा. अमीचंद खेमचंद.
 १ ,, अमीचंद भभुतमल.
 १ ,, अमृतलाल पुनमचंद.
 १ ,, उमरीबाई धर्मपत्नी लाला सुंदरमल.
 १ ,, कीर्तिलाल हीरालाल भणशाली.
 १ ,, कीसनचंद पुंजाशा.
 १ ,, कंकुचंद जेचंद.
 १ ,, केशरीचंद चोकमल.
 १ ,, केशरीचंद पुनमचंद.
 १ ,, केशरबेन मोहनलाल पाटणवाला.
 १ ,, केशवजी नारण.
 १ ,, केशवलाल बालाराम.
 १ ,, केशवलाल दलमुखभाई.
 १ ,, केशुराम तेजमाल.
 १ ,, कोठारी सरदारमल जेठाजी.
 १ ,, खेमचंद छोटालाल पाटणवाला.
 १ ,, गडकाबाईओ तरफथी.
 १ ,, गिरधरलाल हरजीवन.
 १ ,, गुलाबचंद मंगाराम.
 १ ,, गुलाबचंद तीलोकचंद.
 १ ,, चिमनलाल न्यालचंद.
 १ ,, चिमनलाल नगीनदास.
 १ ,, चंदुलाल सरूपचंद.
 १ ,, चंदुलाल साराभाई मोदी बी. ए.
 १ ,, चंदनबेई धर्मपत्नी लाला गोकुलचंद.
 १ ,, चंपालाल पोपटलाल.
 १ ,, चुनीलाल खेतसी धानेरावाला.
 १ ,, छगनलाल मगनलाल.
 १ ,, छोटालाल छगनलाल काजी.
 १ ,, छोटालाल लहेरचंद.
 १ ,, छोटुभाई ईच्छाचंद.
 १ ,, जवानमल देवाजी.

- १ रा. जवानमल प्रेमचंदजी.
 १ ,, जीवाभाई वाडीलाल.
 १ ,, जुवारमल मानमल.
 १ ,, जुमखराम गोदडचंद.
 १ ,, जेठमलजी मगनीरामजी.
 १ ,, जेसिंगलाल खीमचंद पाटणवाला.
 १ ,, जेसिंगलाल मोतीलाल.
 १ ,, जेसिंगलाल लल्लुभाइ.
 १ जैनानंद पुस्तकालय बनकोडा.
 १ रा. झवेरचंद ठाकरशी.
 १ ,, डाह्याभाई घेलाभाई मेसाणावाला.
 १ ,, डी शान्तिलाल कान्तिलाल.
 १ ,, तलकचंद प्रेमचंद.
 १ ,, ताराचंद जसरामजी.
 १ ,, ताराचंद वर्धिचंद.
 १ ,, ताराचंद हीराचंद.
 १ ,, तिलोकचंद राजमल.
 १ ,, दलपतलाल मनमुखलाल.
 १ ,, दिगंबरदास देवलाल.
 १ ,, दीपचंद केवलचंद चोटीलावाला.
 १ ,, दीपचंद सुरजमलजी.
 १ ,, दुर्लभ देवाजी.
 १ ,, देवसी हरपाल.
 १ ,, देवीदास कानजी.
 १ ,, दोसी हीराचंद मयाचंद.
 १ ,, धीरजलाल सरूपचंद.
 १ ,, नगीनदास रतनचंद.
 १ ,, नथमल मुलचंद.
 १ ,, नरोत्तमदास भगवानदास.
 १ ,, नवलजी फुवाजी.
 १ ,, नानाभाई दीपचंद.
 १ ,, नेणासी आशु कच्छी.
 १ ,, न्यालचंद सरूपचंद पाटणवाला.
 १ ,, पारोबाई धर्मपत्नी लाला हरदयाल जोषावाला.
 १ ,, पारेख नेमचंद सोजी.
 १ पालनपुर जैनशाला.
 १ रा. पारी दलपतलाल चंदुलाल.
 १ ,, पुनमचंद मोतीचंद.
 १ ,, पोखराज धनराज मुता.
 १ ,, पोपटलाल पुंजाशा.
 १ ,, प्रागजी चनाजी.

- १ रा. प्राणलाल वेलजी.
 १ ,, फत्तेहचंद नवलचंद.
 १ ,, फुलचंद कैशरीचंद उटहीवाला.
 १ ,, फुलचंद वेलजी.
 १ बसन्तीबाई धर्मपत्नी लाला अमरनाथ बंब.
 १ बाई नरभेकुंवर.
 १ बाई नाथीबाई.
 १ रा. बागलाल तीलोकचंद गांधी.
 १ ,, बागलाल शंकरलाल मुंबईगरा.
 १ ,, बागलाल मोहनचंद कापळीया.
 १ ,, बाबू गोपीचंद बी. ए; एडवोकेट.
 १ ,, बाबू वेलचंद देवलाल.
 १ ,, बालाभाई जेसिंगलाल.
 १ ,, बालुभाई कस्तुरचंद.
 १ ,, बावचंद जादवजी.
 १ ,, भभुतमल जोराजी.
 १ ,, भीमाजी हुकमाजी.
 १ ,, भोगीलाल खूबचंद खंभातवाला.
 १ ,, भोगीलाल ताराचंद.
 १ ,, भोगीलाल दोलतचंद.
 १ ,, भोगीलाल दोलतचंद शाह.
 १ ,, भगनभाई कल्याणचंद.
 १ ,, भगनलाल गिरधरदास.
 १ ,, भगनलाल शीवलाल.
 १ ,, भणियार मोतीलाल नरपतलाल.
 १ ,, भणियार शिवलाल नरपतलाल.
 १ ,, भणिलाल मोहकमचंद.
 १ ,, भणिलाल एम् धुपेलीया.
 १ ,, भणिलाल वेलचंद.
 १ ,, भणिलाल लल्लुभाई.
 १ ,, भणिलाल वाडीलाल मुकादम.
 १ ,, भणिलाल सूरजमलनी पेठी.
 १ ,, मीठुलाल पुंजाशा.
 १ ,, मीठुलाल दुलीचंद.
 १ ,, मुलजी जगजीवन मांगरोलवाला.
 १ ,, मेता जीवराज मंगलजी पालनपुरवाला.
 १ मोरवी जैन लायब्रेरी.
 १ रा. मोहनलाल छोटालाल.
 १ ,, मोतीलाल लक्ष्मीचंद पालनपुरवाला.
 १ ,, मोहनलाल क्षवेरचंद.
 १ रा. मोहनलाल दीपचंद.
 १ ,, मोहनलाल धर्मसिंह.
 १ ,, मोहनलाल खोडीदास.
 १ ,, मंछुभाई अमरचंद.
 १ ,, मंजुशा टीकमलाल.
 १ ,, रतनचंद हीराचंद पाटणवाला.
 १ ,, रतनाजी जोराजी.
 १ ,, रतिलाल फुलचंद.
 १ ,, रतिलाल भीखाभाई.
 १ ,, रतिलाल साराभाई.
 १ ,, रामलाल केशवलाल मास्तर राधनपुरवाला.
 १ ,, रामदास कीलाचंद.
 १ ,, रीखवचंद वालचंद.
 १ ,, लक्ष्मीचंद लल्लुभाई.
 १ ,, लक्ष्मीचंद हेमराज कोठारी.
 १ ,, लाला अगारमल जगन्नाथ.
 १ ,, लाल अमरनाथ तीर्थराम खंडेरवाल.
 १ ,, लाला कपूरचंद मेहरचंद.
 १ ,, लाला कालमल चांदनमल.
 १ ,, लाला कुन्दनलाल बनारसीदास.
 १ ,, लाला गुलजारीमल मुनशीराम.
 १ ,, लाला गोपीचंद किशोरीलाल.
 १ ,, लाला गोपीचंद रिषभदास.
 १ ,, लाला गौरामल अमरनाथ.
 १ ,, लाला गंगाराम बनारसीदास.
 १ ,, लाला चांदनमल रतनचंद.
 १ ,, लाला जयकिशनदास पारसदास.
 १ ,, लाला ताराचंद निहालचंद.
 १ ,, लाला तुलसीदास भोलानाथ (गेलन).
 १ ,, लाला दीपचंद किशोरीलाल.
 १ ,, लाला दोलतराम रतनचंद सराफ
 १ ,, लाला दौलतराम ताराचंद.
 १ ,, लाला नेमदास रत्नचंद.
 १ ,, लाला परसराम जैन.
 १ ,, लाला पारसदास तीर्थदास.
 १ ,, लाला फगूमल प्यारेलाल.
 १ ,, लाला मलखीराम सराफ.
 १ ,, लाला महेरचंद दीनानाथ मनसोवाई.
 १ ,, लाला मुन्शीराम देवराज.
 १ ,, लाला मेघराज दुर्गादास गौरावाई.

- १ रा. लाला राधामल जौतिप्रसाद.
 १ ,, लाला राधामल नथुमल (जीरा).
 १ ,, लाला रामप्रसाद किशोरीलाल जैन.
 १ ,, लाला रामशरणदास विलायतीराम.
 १ ,, लाला वसंतामल महरचंद.
 १ ,, लाला सदासुखराय मुनीलाल.
 १ ,, लाला हरिचंद इंद्रशेन.
 १ ,, लाला हंसराज (पपनाखा).
 १ ,, लेहभाई न्यालचंद.
 १ ,, वमलसी जीतमल.
 १ ,, वाडीलाल कशलचंद.
 १ ,, वाडीलाल मगनलाल.
 १ ,, वाडीलाल मगनलाल बडोदरावाला.
 १ ,, वाडीलाल हरजीवनदास (अमलनेर).
 १ ,, विठलदास हरखचंद.
 १ ,, विठलदास गोविंदराम.
 १ ,, वीरचंद पानाचंद बी. ए.
 १ ,, वीजपाल भोजराज कच्छपत्री.
 १ ,, वृजलाल वी. पटेल.
 १ ,, वृजलाल भीखाभाई.
 १ ,, शेठ ब्रधर्ष.
 १ श्री आत्मानंद जैनपुस्तकभंडार (मालेरकोटला)
 १ श्री आत्मानंद पुस्तकालय (आशपुर).

- १ श्रीकूर्परविजय जैन पाठशाळा.
 १ श्री जैन लोंका गच्छ ज्ञानवर्धक लायब्रेरी
 (बालापुर)
 १ श्री वर्धमानज्ञानमंदिर.
 १ श्री वीरतत्त्वप्रकाशकमंडल (शिवपुरी).
 १ श्री सनातन जैन विद्यार्थी.
 १ श्री सीनोर संघ.
 १ श्री सुमति विजय जैन लायब्रेरी, कसूर (लाहोर).
 १ श्री संघ खानगाह डोगरां.
 १ श्रीहंसविजय जैन लाइब्रेरी (अमदावाद)
 (बडोदरा)
 १ रा. सरदारमल फुलचंदजी.
 १ रा. सुरचंद नगीनचंद, (मुंबई).
 १ ,, सुरचंद नगीनचंद (पाटण).
 १ ,, सोनराज हेमराज मुत्ता.
 १ ,, हरलाल सुंदरलाल.
 १ ,, हरजीवन गोपालजी.
 १ ,, हरिचंद मीठाभाई.
 १ ,, हरिलाल मनसुखलाल.
 १ ,, हरिलाल सोभागचंद.
 १ ,, हीमतलाल माधवलाल.
 १ ,, हीराचंद फकीरचंद.
 १ ,, हीराभाई अभीचंद
 १ ,, हीराभाई रामचंद मलबारी.
 १ ,, हीरालाल रायचंद.



